

प्रो०

कविरत्नश्रीमदखिलानन्दशर्माप्रणीतम्

दयानन्ददिग्विजयम्

महाकाव्यम्

संस्कृतहिन्दी-भाषानुवादसमेतम्

सत्ययुगम्

प्रथमसंस्करणम्

१९६७

वैशाखमासम्

प्रयागस्थे "इण्डियन" यन्त्रालये

मुद्रितम्

सर्वाधिकार प्रकाशकायस्य

मूल्यं रुपयफचतुष्टयम्

**Printed and Published by Panch Kory Mitra at the
Indian Press, Allahabad.**

श्रीः
भूमिका

अपि सहृदयहृदयाः ॥

अनावश्यकमेतद्व्यतीयते यदनेकवारं साहित्यसुधासमुद्रे कृतावगाहेषु सरस्वतीहृदयमूतसारस्यसमुत्थितानेककाव्यालङ्कारालङ्कृतमानसेषु भवाद्दृशेषु काव्यप्रयोजनकथनम् ।

यतः किल—

काव्यं यशसेऽर्घकृते व्यवहारविदे शिवेतरस्रतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासन्मिततयोपदेशयुजे ॥ १ ॥

इति मम्मटाचार्यप्रणीतकाव्यप्रकाशारम्भविन्यस्तकारिकयैव साङ्गोपाङ्ग-
नया नद्वयोजनकथने चारितार्थ्यमासादिनम् ।

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥ २ ॥

इति यदता साहित्यदर्पणकारेणापि न केवलं काव्यस्य कीर्तिप्रीतिजनकत्व-
मेव प्रतिपादितं प्रत्युतानेककलाकौशलसमुद्गावकस्यास्य धर्मार्थकाममोक्षादिषु
विचक्षणतामूलकत्वमप्युररीकृतमेव । अतएव—

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पविद्यामपि ।

काव्यादेवेति सुतरां दर्पणे प्रतिपादितम् ॥ ३ ॥

परमधुनैतद्विचारणीयमस्ति पूर्वेरविचारितपूर्वं काव्यस्य साधुत्वं यतः
“साधुकाव्यनिषेवणस्यैव” चतुर्वर्गफलदत्तं पुराननैकरीर्यते न कदापि “दुष्ट-
काव्यनिषेवणस्य” ।

साम्प्रतं यानि काव्यानि दृष्टिपथमवातरन्ति तानि साधुन्यसाधूनि वेति तु
पद्माद्विचारयिष्यामः । पूर्वं तु किं साधुत्वं किं वासाधुत्वमिति विचारणीय-
मस्ति ।

ममते तु—

वैदिकधर्माजुवर्तकत्वे सति वेदेतरधर्माविघातकत्वं साधुत्वम् । वेदेतर-
धर्माजुवर्तकत्वे सति वैदिकधर्माविघातकत्वमसाधुत्वम् ।

लक्ष्मिगल्लक्षणेऽमुना प्रकारेण काव्यविषयके साधुत्वे वर्तमानकालिककाव्य-
महाकाव्यखण्डकाव्यानां वैदिकधर्मानुवर्तकत्वमस्ति नास्ति चेति र्मात्माननीयो
विषयः ।

नतः प्राक्किं नाम “वैदिकधर्मानुवर्तकत्व-” मित्यपि विचारणीयमेव ।
मन्मते तु—“ चतुर्भिर्वेदैः प्रतिपादितं प्रोक्तं वा वैदिकम् ” धर्मश्च ।

“यतोऽस्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः”

इति दार्शनिकसूत्रलक्षित एवात्र समुपादेयः तत्रान्युदयस्तु—

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते ।

गुणाधिके युंति जनोऽमुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ ४ ॥

इति मम्मटाचार्यप्रणीतकाव्यप्रकाशोदरगतासतमप्रणीतपद्याशयपर्यालोचनेन
जितेन्द्रियतामूलकपत्र सर्वेकर्रीक्रियते । जितेन्द्रियता च ब्रह्मचर्यपूर्वकं
शुक्लकुलनिवासेनैव समासाद्यितुं शक्यते नान्यथा पुरुषायुषशतेनापि । निःश्रे-
यससिद्धिरपि ब्रह्मचर्यधारणपूर्वकभृतिक्षमास्तेयशौचसत्याक्रोधादिसेवनादेव
पूर्वोपाजितपुण्यपुञ्जपरिपाकप्राप्तधीमद्योगिकुलसमुद्भवैरेव समासाद्यते न
सामान्यैः । तदेवं येषां येषां काव्यमहाकाव्यखण्डकाव्यानां वैदिकधर्मानुवर्तकत्वं
तान्येव साधूनि तदतिरिक्तान्यसाधूनीति सिद्धमेव ।

वर्तमानकालिक-काव्यमहाकाव्यखण्डकाव्यानां वैदिकधर्मानुवर्तकत्व-
मस्ति न चेति साम्प्रतं विचारणीयम् । मन्मते तु—भृङ्गारवैचक्षण्यप्रवेशु नैषु
वैदिकधर्मानुवर्तकत्वं कुत इति चेद्ब्रह्मचर्यविरोधिकाभेदात्प्रादुर्भावात् ।

काव्यं तदेव साध्विति वक्तुं शक्यते यद्वैदिकधर्मानुगं स्यात् । येषु काव्येषु
धर्मवैचक्षण्यं मोक्षवैचक्षण्यं वा लेशमात्रमपि न प्राप्येत तेषां साधुत्वमसाधुरेव
कविभ्रददतु नाम वैदिकधर्मानुवर्तकत्वस्य तत्परास्तु सचेतसो न चेनसापि
तत्साध्विति मन्यते का कथा तत्र विषये पुनर्वागनुमतेः ।

कविशिरोमणिकालिदास-पण्डितराजजगन्नाथयोर्जीवनपर्यालोचनया स्फु-
टमुपलभ्यते यच्च तत्समये कवीनां वैदिकधर्मानुवर्तकत्वमासीदिति ।

यस्य समयस्यावसानं वेदु ममिच्छावः स्यात्तत्कालसमुत्पन्नकविप्रणीत-
ग्रन्थावलोकनं तत्पूर्तये स्यात् । कवेर्भावावबोधाय तु तन्निमित्तकाव्यपर्यालोचनं
निरस्तापरप्रमाणं प्रमाणमनुमन्यतपत्र ।

महाराज्ञो भोजवेषस्य समयावर्षात्तत्समयस्मिन्कालिदासादिकविभिर्मि-
नग्रन्थाभ्यासेन दशलक्षकस्य धर्मस्य प्रतिदिनमवपानपत्र समभूविति सर्वसं-
मतम् ।

मन्मते तु—विहायादिकाव्यं महाकाव्यं वाल्मीकीयरामायणं नाद्याद्यधि किमपि काव्यं केनापि कविप्रकाण्डेन केवलधर्मप्रवर्तनधिया सम्पादितम् ।

हंसमुखेन कामखिन्नलक्ष्मणमयन्त्यात्मकनायिकानायकसंयोगवर्चनपरं श्रीहर्ष-
काव्यं मेघमुखेन लीधियोगान्तधेनसो गन्धर्वस्य काव्यनिकं नत्तदुद्दिश्य संदेश-
प्रेषणार्थं काळिदासकाव्यं, केवलनायिकामेववर्चनपरं मानुजीवीशिककाव्यं,
गन्धर्वकुमारीवर्चनपरं वायमहकाव्यं, मामिनीविलासवर्चनपरं जगन्नाथकाव्यम् ।
किं बहुना सर्वमप्याधुनिकं काव्यजातं शृङ्गारचोष्ट्रावर्चनपरमेव ।

नदीर्घविधशृङ्गारप्रवर्तककाव्यपरिशीलनेन कथमभ्युदयनिःश्रेयससमु-
दयः ? कथं च वैदिकधर्मानुवर्तकत्वं जनानामिति सर्वथा विचारणीयमेव ।

छन्दःशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वाच्छन्दोमूलकत्वाच्च काव्यानां कथं वैदिकधर्मविद्या-
नपरत्वमिति नाद्याद्यधि केनापि विचारितम् । मन्मते त्वार्थपदमनुपगताः कवयो
न वैदिकाः किन्तु लौकिका एव । लोकसौन्दर्याकृष्टधेनसां तेषां केवललोकव्यव-
हारमात्रवर्चनपरत्वात् ।

यदीमे वैदिकविषयाभ्यां कृतावगाहा मधुसूतहिं कथं न जगदी-
श्वरशुभानुवादपूर्वकं तत्कृतिषु यद्वसन्ध्यादिवैदिककर्मणा पूर्वतया वर्चन-
मुपलभ्येत ।

दृश्यते तद्विच्छेदं कामोत्पादकं सन्ध्यावर्चनमेषु विषयबोधसूचकं प्रभात-
वर्चनं च ।

प्रमाणान्तरमण्डेषां वैदिकविषयानभिज्ञानायां समुपलभ्यते, यदेतत्कृतग्रन्थेषु
केवलं पौराणिकविषयस्यैव समुद्रासनं न वैदिकविषयस्येति ।

किमतःपरमेतेषां पौराणिकत्वे प्रमाणान्तरगवंचरणं यदेतत्कृतपुस्तकेषु मङ्गला-
चरणमपि पौराणिककथोपयुक्तमेवोपलभ्यते । कुत्रचिद्ग्रन्थेषु विषयकं कुत्रचिद्-
क्षमाविष्णुविषयकं कचिद्गौरीशङ्करविषयकं कापि शक्तिविषयकम् ।

अहो कास्ताः क निपतिताः ! किं कर्तव्यमासीत्किं चरीक्रियते विविध-
पुष्पाद्यन्तनिवृत्तये लब्धमानुषवेदानामस्माकं पौराणिकमनानुगैः कविभिः
कृतेषु ग्रन्थेषु प्रयाति समयः ।

मध्वकव्यविच्छेदस्ये न ध्यानमाश्वरपदं सकलकष्टनाशनपदुयंघेष्टमिहवे
धर्मो नासादिनः नाथिगतं सर्वं धाम्मुदयनिःश्रेयसकरं ब्रह्मचर्यं, नाधी-
तामि वेदादिसत्यशास्त्राणि, नाम्यस्ताः समस्तनापपुञ्जमर्जनपरा उपनिषदाः, न
शुक्लं पठितं, केवलमसाधुकाव्यावलोकनेनैव जीवनमतिवाहितम् । साध्विद-
मुच्यते—

जन्मेद् व्यर्थतां नीतं भ्रष्टकाव्यावलोकनैः ।

काचमूल्येन विक्रीतं विन्तामणिमिदं वपुः ॥ ५ ॥

तदधुना कलिकालमहर्षेः परोपकारजनस्य वेदवेदाङ्गविद्यातुर्जितेन्द्रियस्य कस्यचिज्जीवनमनुगम्यतां यथा पुनरपि मोक्षावाप्तिः स्यात् । न महात्मनामनुगमनमन्तरा कदापि श्रेयः समाप्तादयितुं शक्यते केनचित् ।

मन्मते तु—

न तथोपकृतं जगति केनापि यथा महर्षिप्रवरेण श्रीदयानन्दसरस्वती-स्वामिना कलियुगेऽप्युपकृतं वास्तवेऽप्ययं कोपि नवोधर्मावतारः यस्योदयेन समस्तोपि भारतवर्षे पुनरुदियाय नष्टोपि वैदिकसमयः ।

वेदवेदाङ्गपारगेण सङ्गोपाङ्गतया समाप्तब्रह्मचर्येण दर्शितसकललोक-कौतुकेन वैश्वदेवेनासुना नथा जगति कृतं यथा नापरेण केनाप्यधिकृतम् ।

वेदधिरोधिनां मर्दनं, वेदानुगामिनां रक्षणं, गुरुकुलमहाविद्यालयकल्पनं, दीनानाथजनकृते निर्वहणोपयोगिकल्पनं, ब्रह्मचर्याश्रमपरिपालनकथनं, बालवि-वाहविनाशनं, वैधव्यविध्वंसनं, सर्वमप्यस्यैव महर्षेः कृपया पुनरपि भारते नय-नयोऽगात्पदम् ।

तदेवंविधवैदिकधर्मप्रवर्तकस्यास्य ये ये पूर्णतया जीवनमनुगमिष्यन्ति ते ते पुनरपि सौख्यमनुभविष्यन्त्यतो नात्र विधेयं विलम्बनम् ।

नैवंविधः कोऽप्यत्र भूषण्ये महात्मा भविष्यतीति मत्वा मद्गतासरस्वत्यप्य-स्यैव जीवनवर्णनपरं महाकाव्यमरचयत्, यत्कनिष्यपत्रपरिवर्तनावेव पदमे-ष्यति दृशोः ।

साम्प्रतं महाकाव्यविषये किञ्चिदुदाहृतम्—महाकाव्यमेतद्विद्वन्नाककवि-राजप्रणीतमहाकाव्यलक्षणानुगमस्ति तद्यथा—

“सर्गबन्धो महाकाव्यमिति”

तत्कृतं प्रथमं लक्षणं एतावताऽऽज्यायसम्बद्धग्रन्थानां न काव्यत्वमिह्या-यातम् ।

“तत्रैको नायकः सुरइति”

द्वितीयं लक्षणं सुरशब्दोऽत्र देवापरपर्यायः देवास्त “विद्वांसो हि देवाः” इति शातपथब्रह्मसंहितास्य तदेतत्प्रत्यक्षमेव स च नायको “धीरोदात्तशुक्ल-चित्त” इत्यपि स्फुटमेव । धीरोदात्तलक्षणं यथा वर्णये —

अविकत्यनः क्षमावानतिन्गामीरो महासत्वः !
 स्येयान्निगूढभावो धीरोदान्तो हृद्यव्रतः कथितः ॥

इति सर्वमपीदं धीरोदासलक्षणं महाभागे काव्यनायके महर्षौ सर्वांशे
 संकृञ्छतपव नात्र विस्मयलवः ।

“सद्वंशः क्षत्रियो वापीति”

पाक्षिकं लक्षणं न मुख्यं [तत्रैकोनायकः सुरउति] पूर्वं मुख्यलक्षणस्य
 कृतत्वाद् ।

परं सज्जनसिंहधर्मादिवर्णनेन नदपि लक्षणं न व्याहन्तु शान्यतेऽस्तद-
 व्यास्ताम् ।

“शुङ्गारवीरशान्तानामेकोङ्गीरस इष्यते”

इति तृतीयं लक्षणं तत्र शास्त्रार्थप्रसंगे महासत्वस्यास्य धीरतया वर्णनं
 नदिनरखले तु क्षमावतोस्य शान्ततयावस्थानं युगपदेव धीरशान्तयोरङ्गित्व-
 मनुमन्यते ।

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा ।
 रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषुना वेषु शमप्रधानः ॥

इति शान्तरसलक्षणं लक्षण्येव शान्तरसाद्गामिनां न कापि चिन्तेति कथनं
 लौकिकचिन्ताविषयकम् पारमार्थिकी चिन्ता तु न केनापि भूषण्ये हातुं शक्या
 न कापीच्छेत्सपि कथनं लौकिकेच्छा विघातकं न परोपकारेच्छा विनिवर्तकं
 तत्परत्वान्महर्षिणाम् ।

धीरतात्वत्र नायके ब्रह्मचर्यसमुत्था या न कुत्रापि समासादयितुं शक्यते
 नायकान्तरे ।

“इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्”

इति चतुर्थं लक्षणम् । तत्र इतिहासपेतिषां यदत्र भूषण्ये प्राप्येत न ततो
 विरुद्धं न च सृष्टिक्रमविरुद्धं स्यात् । यदीतिहासशब्देन रामाय-
 णमहाभारतादि गृह्यते तर्हि ततः प्रागितिहासपदेन किमुपादेयं स्यात् । अथ च
 सृष्टिनियमविरुद्धानामसम्भवादिदोषप्रस्तानां च कथमेवामितिहासपरत्वं कथान-
 कानाम् । अतः सृष्टिक्रमानुसूचमसम्भवादिदोषरहितं यदीतिषां स एवेतिहासः
 स चात्र स्फुटपव । अन्यद्वा सज्जनाश्रयमिति लक्षणात्तरमपि महर्षिवर्णनपरमे-
 तत्र शक्यते खलम् ।

“आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देशएव वा”

इति षष्ठमं लक्षणम् । तदत्र परमात्मनो नमनमादौ वरीवर्ति । अथ च “ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलमाचरणीयमितिशिष्टाचाराजुरोधात्” मध्येपि मङ्गलार्थकस्याथशब्दस्योत्तरार्द्धारम्भे विन्यसनं दृश्यताम् । ग्रन्थान्तिमपद्ये च प्रोमिति परमात्मनो नामधेयं विन्यस्तं यदस्य फलभूतमपि मन्यते माङ्गलिकं च ।

“कचिन्निन्दाखलादीनां सतां च गुणावर्णनम्”

इति षष्ठं लक्षणम् । तदत्र खलुदुष्टनिन्दनं सन्नगुणानुवादवर्णनं च स्वामाधिकमेव । “आदि”-शब्देन वेदेतरमतानुयायिनां ग्रहणम् ।

“एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेन्यवृत्तकैः”

इति सप्तमं लक्षणम् । पादेन संयोगात्पद्यम् । लक्षणमिदं सर्वांशे चारितार्थ्यमुपगतं तत्र तत्र दृरीदृश्यनपच । अवसानशब्दोत्र सर्गावसानबोधनपरो न ग्रन्थावसानपरकः ।

“नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह”

इत्यष्टमं लक्षणम् । अतिस्वल्पता दशपद्यात्मिका । अतिदीर्घता सहस्रपद्यात्मिका । तदुभयविरुद्धमेतत्काव्यम् । सर्गा अप्यत्रैकाविंशतिः । पद्यानि च वसुवारिधिर्वाहिनयनमितानि ।

“नानावृत्तमयः कापि सर्गाः कश्चन दृश्यते”

इति नवमं लक्षणम् । एतदपि लक्षणं षष्ठमषष्ठसर्गाभ्यां पूर्णतयानुगम्यते । विद्यन्ते नयोर्मध्ये स्वागता-शाङ्खलिक्रीडित-मन्दाक्रान्ता-पञ्चचामर-पृथिवी-नर्दटक-शिखरिणी-मालिनी-मधु-माधवी-स्रग्धरा-प्रभृतीन्यनेकवृत्तानि ।

“सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथयाः सूचनं भवेत्”

इति दशमं लक्षणम् । तदेतत्सर्वत्रापि पूर्णतया समनुसृतमेव ।

“सन्ध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः”

इत्यादि ।

“वर्णनीया यथायोग्यमित्यन्त-”

मेकादशं लक्षणम् । सकलमध्येनत्यसङ्ख्यशास्त्रं तत्र सर्वांशेनाप्यनुगतम् ।

“नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्गनाम च”

इति द्वादशं लक्षणम् । तदिदमपि प्रतिसर्गं नायकनामनिर्देशपूर्वकं सर्गोपादेयकथानुसूक्तसर्गमिधं च सङ्गच्छते लक्षणम् ।

काव्यानुशासने तु—

“ आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशोपक्रमयुतं, अर्साक्षिप्तग्रन्थम्, अविषमबन्धं, अनतिविस्तीर्णपरस्परसम्बद्धसर्गम्, वक्तव्यवस्तुप्रतिबानुगतम्, तत्प्रयोजनोपन्यासगर्भं, सञ्जनतुर्जनयोः स्तुतिनिन्दाभ्यामुपेतं, दुष्करचित्राद्येकसर्गाङ्कितं, स्वामिप्रेतवस्त्वङ्कितसर्गान्तं, चतुर्वर्गफलोपेतं, चतुरोदात्तनायकं, प्रसिद्धनायकचरितवर्णनपरं महाकाव्यम् ”

इति लक्षणं विहितम् ।

तत्रार्साक्षिप्तता तु [२३४८] वस्तुवेदवहिनयनमितैः पर्यैरस्य स्वयमेव दृश्यते । अविषमबन्धनापि पूर्णतयानेनालङ्कियते । चित्रकाव्यमप्यत्र चतुर्वर्गो सर्गो विद्यते । शेषं प्रागुक्तलक्षणानुरूपमेव नाधिकम् ।

एवं महाकाव्यलक्षणे निर्दिष्टे किञ्चिद्विदानीं काव्यविषयकमुदाहृत्यते । तत्र किं नाम काव्यमिति प्रस्तुते प्रश्ने “ वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति ” दर्पणकारमतम् । लघुटस्तु—

“शब्दार्थौ काव्यमित्येवाह”

वाग्मतस्तु—

“शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायःसालङ्कारौ काव्यमित्याह”

मम्मटस्तु—

“अदोषौ सगुणौ कचिदनलङ्कृती शब्दार्थौ काव्यमित्याह”

मोक्षस्तु—

“रसान्वितमलङ्कारैरलङ्कृतं निर्दोषं गुणावत्कवेः

कर्मकाव्यमित्याह”

नदोषेषु सर्वेष्वपि काव्यलक्षणेषु सर्वगुणयुक्तं कण्ठाभरणकारस्त्वैव लक्षणम् । तद्विनयेषु आशिकन्यूनता दर्शनात् रसशब्दोत्र “रसो वै सा रसं ह्येषायं लब्ध्वा आनन्दी भवतीति ” छान्दोग्यदर्शनात् परमानन्दबोधकः । परमानन्दश्च मोक्षप्राप्तिमूलकः । मोक्षोपि निष्कामधैदिकधर्मपालनमूल्यम् । तदेष्वपरमानन्दबोधकरसवत्काव्यमेव सञ्जननिरीक्षणयोग्यं न विषयानन्ददायकम् ।

“द्विविधं खलु काव्यं भवति”

गद्यात्मकं पद्यात्मकं च तत्र गद्यात्मकं त्रिविधम् पद्यात्मकमनेकमेवम् । उभयमपि स्तुषवक्रोक्तिसम्भाषनासंकरसन्धेरूपकोपमापन्नुतियमकानुप्रासचित्रोच्छेदप्रभृतिभिरलङ्कारैरुपयोक्तुं शक्यते ।

संस्कृतप्राकृतपैशाचीमागधीशौरसेनीप्रवृत्तयो जातिभेदाः । द्रुताविलंबिता-
मध्या-द्रुतविलंबिता-द्रुतमध्या-मध्यविलंबिताद्या गतिभेदाः । वैदर्भीपाञ्चाली-
गौडीयावर्तिकाछाटीयामागधीतिरीतयः । श्रुतिश्रुतिवर्णपदद्विवचनछाटाया
अनुप्रासाः । कवर्गानुप्रासवती कार्णोटी, खवर्गानुप्रासवती कौन्तली, टवर्गा-
नुप्रासवती कौक्री, तवर्गानुप्रासवती कौक्रीणी, पवर्गानुप्रासवती वानवा-
सिका, द्वित्रिवर्गानुप्रासवती मात्सीति सर्वा अनुप्रासजातयः ।

अन्यत्र यथास्थानं सर्वेपीमे जातिगतिरीतिभेदा अनुप्रासजातिभेदाश्च
यथायथं विन्यस्ताः । शब्दस्तोममहानिधि-बृहदभिधान-हृदयुध-विश्वमेदिनी-
विकाण्डशेष-शारवली-प्रवृत्तिकोषप्रयुक्ता विलक्षणाश्च शब्दा अप्यत्र यथास्थानं
स्थापिताः ।

एवं समस्तलक्षणलक्षितेऽत्र महाकाव्ये यदि स्वामाधिकजीवस्मृतिभ्रंशवशेन
कचिदनुपयुक्तता स्यात्सापि—

“धावतः पतनं न दोषाय भवतीति”

भाष्यनियमेन “न हि सर्वः सर्वं जानातीति” लोकोक्तिवशेन च सदयहृदयेन
चेतसि स्थापनीयेति निवेदयते ।

कार्तिकशुक्ला पूर्णिमा
वि० १९६७

विदुषामण्डरगरेण,
अखिलानन्दशर्मा



भूमिका का भाषानुवाद

माननीय महोदयगण !

यह अनावश्यक प्रतीत होता है जो कि अनेक धार साहित्य-समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए आप लोगों के समस्त काव्य के प्रयोजनों का कथन करना । क्योंकि :—

“काव्यं यशसेर्थकृते ०”

इस मम्मटाचार्य प्रणीत काव्यप्रकाश की कारिका ने ही पूर्णतया उसके प्रयोजनों के कथन करने में चरितार्थता प्राप्त की है ।

“धर्मार्थकाममोक्षेषु ०”

इस कारिका का कथन करते हुए साहित्यदर्पणकार ने भी न केवल काव्य को कीर्ति एवं प्रीतिजनक ही माना किन्तु अनेक कलाओं के भीतर चतुरता देनेवाला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का देनेवाला भी अच्छे काव्यों का देखना ही बतलाया है जो कि उनकी—

“चतुर्वर्गफलप्राप्तिः ०”

इस कारिका से पूर्णतया प्रतीत होता है ।

अब हमको यह विचार करना चाहिये कि काव्यों के अन्दर अच्छापन क्या है और बुरापन क्या है ? क्योंकि अच्छे काव्यों का देखना ही चतुर्वर्ग-फल माना गया है न कि बुरे काव्यों का ।

आज कल जो मेघदूत, अश्वमेधगाथा आदि काव्य हृदिगोचर होते हैं वे अच्छे काव्यों में मानने योग्य हैं या बुरे काव्यों में, इसका निर्णय तो हम पीछे करेंगे, पहले अच्छापन और बुरापन का विचार करना अत्यावश्यक है, इसलिये इसी विषय पर विचार करते हैं ।

हमारे सिद्धांत में तो "वैदिक धर्म के अनुगामी होने पर वेद-विरुद्ध धर्म का विध्वंसक होना उनका अच्छापन है" और "वेद-विरुद्ध धर्म के अनुगामी होने पर वैदिक धर्म का विघातक होना उनका बुरापन है" ।

वर्तमान समय के काव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य वैदिक धर्म के अनुगामी है या नहीं है, यह विषय अब विचारने योग्य है । इससे पूर्व 'उनका वैदिक धर्म का अनुगामी होना' क्या है यह भी विचारने योग्य ही है ।

मेरे सिद्धांत में तो "चारों वेदों द्वारा प्रतिभादित या कहा हुआ वैदिक और उससे विपरीत अवैदिक माना जाता है"। धर्म भी "यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" इस सूत्र के द्वारा जैसा बनलाया गया है वैसाही मानने योग्य है ।

आलङ्कारिकशिरोमणि मम्मटाचार्य "जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं" इस पद्य का उल्लेख करते हुए बतलाते हैं कि जितेन्द्रियताही अम्युदय का एक मुख्य कारण है । वह बिना शुक्कुल जाने के बन नहीं सकती । निःश्रेयस भी दश लक्षणयुक्त धर्म के सेवन से ही प्राप्त हो सकता है, उसके बिना कदापि नहीं । इसलिये जो जो काव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य वैदिक धर्म के अनुगामी हों वही अच्छे और उनसे अतिरिक्त सब बुरे हैं ।

वर्तमान समय के काव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य वैदिक धर्म के अनुगामी या उसके प्रतिपादक सर्वांश में नहीं हैं क्योंकि उनमें उसके विरुद्ध शृङ्गार-चेष्टाप्रवर्तक, कामोत्पादक छियों का सर्वांग वर्णन, उनका विरहवर्णन, जलक्रीड़ा, वनविहार, मद्यपान, पुरनरहस्य आदि धृष्टित बातों का ही अधिकतर उल्लेख है । इसीलिये आदित्यप्रसाचारी महर्षि दयानन्द इन काव्यों का देखना भी बुरा बतलाते हैं, पढ़ने की तो बात ही क्या है ।

काव्य वही अच्छा कहा जा सकता है जो वैदिक धर्म का अनुगामी हो । जिन काव्यों में धर्म सिखाने वाली या मोक्षमार्ग की बतलानेवाली बातों का लेश मात्र भी उल्लेख न किया गया हो उनको कोई मन्दमतिही अच्छा बतलाता हो, बुद्धिमान् कोई भी नहीं बतला सकेगा ।

कविशिरोमणि कालिदास और पण्डितराज जगन्नाथ आदि महाशयों के जीवन पर विचार करने से यह बात स्पष्ट रीति से प्रतीत होती है कि उस समय में कवि वैदिक धर्म के माननेवाले न थे किन्तु पौराणिकधर्म के माननेवाले थे ।

जिस समय का व्यवहार देखना हो, उस समय के कवियों की कल्पना देखनी चाहिए और कवि का भाव देखना हो तो उसका बनाया हुआ काव्य देखना चाहिए ।

महाराजा भोज के समय से इधर कालिदास आदि कवियों के बनाये हुए ग्रन्थों के अभ्यास से बड़ा लक्षण-लक्षितधर्म गिरना ही चला गया। मेरी अनुमति में तो सिधा आदिकवि महात्मा वाल्मीकि की कल्पना के किसी कवि ने भी आज तक कोई काव्य मनुष्यों को धर्ममार्ग में चलाने के लिए नहीं बनाया।

हंस के द्वारा कामवेदना से शिक्षा नष्ट और दमयन्ती का संयोग बतलाने-वाला, दमयन्ती के प्रत्येक अङ्ग का वर्णनपरक “श्रीहर्षचरित”, पद पद में ब्रह्मचर्य का नाश करनेवाला “मेघदूत”, केवल नायिका मेघों की बतलानेवाली “रसमञ्जरी”, एक गणिका के साथ व्यभिचार बतलानेवाला, “राक्षसकाव्य”, असमय में धीर्यपात करानेवाला “भुतबोध”, कहां तक कहे आधुनिक समस्त काव्य इसी प्रकार की गन्दी बातों से भरे हुए हैं। विशेष विस्तार मन्त्रणीत “महाकविचरित” में देखिए जोकि इसी लिए बनाया गया है।

इस प्रकार के काव्यों के देखने से कहां तक अभ्युद्य और मिश्रयेस की प्राप्ति हो सकती है और कहां तक मनुष्य वैदिक धर्म के अनुगामी बन सकते हैं, यह जान पद पद में विचारने योग्य है।

मङ्गलाचार्य प्रणीत छन्दःशास्त्र वेद का प्रथम अङ्ग माना गया है और उसी के आधार पर, काव्यों की भी रचना की जाती है, फिर वेदान्त-मूलक-काव्य वेद के विरोधी बनते हुए क्यों सन्निपात परिभाषा को सफल करते हैं। यह विचार आज तक किसी भी विद्वान् ने नहीं किया। मेरी अनुमति में तो जितने ये कवि हुए सबके सब पौराणिक मार्ग पर चलनेवाले हुए। वैदिक मार्ग पर चलनेवाला कोई नहीं हुआ। यदि ये कवि वैदिक धर्म के अनुगामी होते तो कुछ तो वैदिक सिद्धान्तों का अपने ग्रन्थों में वर्णन करते। और भी छोड़िए, जिनके विषय इनके काव्यों में मिलते हैं वह सब पुराणों के ही मिलते हैं, वेदों का या शास्त्रों का कोई भी नहीं। कहां तक कहें इनके ग्रन्थों के जो मङ्गलाचरण हैं वह भी गन्दी बातों से नहीं बचे हैं। किसी ग्रन्थ का मङ्गलाचरण विष्णुमगवान और छर्मा का संयोग बतला रहा है जैसे—“उच्छिष्टस्फारतान्ते” किसी का राधा और कृष्ण का जैसे—“मेघैर्मेघुरमम्बरं” किसी का शिव एवं पार्वती का जैसे—“आत्मीयम्चरणं दधाति पुरतः”। कालिदास के ग्रन्थों का तो कहना ही क्या है। देखिए, आपके बनाये हुए एक ग्रन्थ का मङ्गलाचरण है “छम्बोदरस्य मदनञ्चलमेकमादे”।

हा ! कहां बैठे हुए थे, कहां आ कर गिरे, क्या करना था, क्या करने लगे ! तीन प्रकार के दुःख दूर करने के लिए यह दुर्लभ समय मिला है। जोकि इस प्रकार के गन्धे ग्रन्थों के देखने में जा रहा है (हा कष्टम् !) । न

ईश्वर के गुणों का स्मरण किया, न धर्म कमाया, न ब्रह्मचर्य साधा, न वेदादि सत्य शास्त्र देखे, न उपनिषद् पढ़े, इन दुष्ट काव्यों में ही समय खराब हुआ। इसलिये अब बलिये, किसी धार्मिक पुरुष के जीवन का भवलय्य लें, जो वैदिक धर्म के प्रचारक, परोपकारी, ब्रह्मचारी, निर्लोभ, धर्म के समस्त लक्षणों पर चलनेवाले हों। मेरी अनुमति में तो इस कराल कलिकाल में वेदों की रक्षा करनेवाले, आनन्दकन्द जगदानन्द अथि दयानन्द से मित्र प्राप्त ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता, जो अनुकरणीय हों।

इस समय में आपही ऐसे उत्पन्न हुए जोकि गये हुए वैदिक समय को फिर दुबारा स्थापित कर गये। संसार के उपकारार्थ, अपना मोक्षानन्द छोड़ विष तक खा लिया। अपने शरीररूपी बन्धन में पड़कर संसार को मुक्तबन्धन कर दिया। गुरुकुल, अनाथालय, स्त्री-शिक्षा, विधवांश्रित आदि अनेक सत्कार्य प्रस्तुत किये, इसलिये आपके जीवन का ही अनुकरण कीजिए। जिससे फिर भी आनन्द प्राप्त हो, कष्ट न होवे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हस्तगत हो।

अब कुछ महाकाव्य के विषय में विचार करना चाहिए। महाकाव्य उसे कहते हैं जो साहित्यदर्पण में लिखे हुए महाकाव्य के लक्षणों से सम्बन्ध रखता हो। उनमें पहला लक्षण (सर्गबन्ध है)। इसीलिये अध्यायों से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ महाकाव्य नहीं कहला सकते।

दूसरा लक्षण यह है कि (उसके भीतर वर्णनीय नायक देव हो) वैदिक सिद्धान्त में देव शब्द का अर्थ विद्वान् माना जाता है, जैसा शतपथ में लिखा है कि—“विद्वान् सो हि देवा” वह यहाँ पर स्वता सिद्ध है।

तीसरा लक्षण इस प्रकार है कि (शृङ्गार, वीर और शान्त) इन तीन रसों में कोई रस प्रकृति होना चाहिए। इस महाकाव्य में जहाँ जहाँ पर शास्त्रार्थ का समय उपस्थित हुआ है वहाँ वहाँ पर वीर और शान्त रसों में शान्त दोनों ही रस प्रकृति बने हुए हैं।

चौथा लक्षण कहता है कि महाकाव्य में “या तो कोई ऐतिहासिक वृत्त हो या किसी राजा का वर्णन हो,” यहाँ पर महावि का वर्णन है साथ ही सचिक्रमानुकुल और भी वर्णन सब सब में किया गया है।

पाँचवाँ लक्षण इस बात को जतला रहा है कि महाकाव्य के “आरम्भ में या तो नमस्कार या आशीर्वाद या किसी वस्तु का निर्वेश” होना चाहिए। यहाँ पर ग्रन्थ के आरम्भ में परमात्मा के लिए नमस्कार किया गया है। मध्य में मङ्गलार्थक अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्त में ईश्वर का मुख्य नाम “ओम्” रखा है जोकि इसके पठन का फलस्वरूप है।

छठा लक्षण कहना है कि महाकाव्य में “ कहीं कहीं दुष्टों की निन्दा और कहीं कहीं पर सज्जनों का गुण-कीर्तन भी ” होना चाहिए, जोकि यहाँ पर स्वतः सिद्ध है ।

सातवाँ लक्षण इस बात को सूचिन करता है कि “ महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द होना चाहिए और सर्ग के अन्त में छन्द बदलना चाहिए ” जैसा कि यहाँ पर सर्ग सर्ग में किया गया है ।

आठवाँ लक्षण बतलाना है कि महाकाव्य में “ न बहुत छोटे न बहुत बड़े ८ से अधिक सर्ग होने चाहिए ” यहाँ पर इसीस है ।

नवाँ लक्षण कहना है कि महाकाव्य में “ कोई सर्ग ऐसा भी होना चाहिए जिस में अनेक छन्द हों ” जैसा कि यहाँ पर पाँचवाँ और छठा सर्ग है ।

दशम लक्षण का यह अभिप्राय है कि “ महाकाव्य के सर्गों के अंत में अगले सर्ग की कथा की शुद्ध रूप से सूचना होनी चाहिए ” जैसा कि यहाँ पर किया गया है ।

ग्यारहवाँ लक्षण कहता है कि महाकाव्य में “ संज्ञा-समय, सूर्यास्त, अन्धोदय आदि का ” वर्णन भी होना चाहिए जो कि प्रसङ्गवशा तत्र तत्र किया गया है ।

बारहवाँ लक्षण इस बात को निर्दिष्ट करता है कि महाकाव्य में प्रति सर्ग “ काव्य-नायक का निर्देश और सर्ग में वर्णन किये हुए विषय के नाम से सर्ग का नाम होना चाहिए ” जो कि इस के प्रति सर्ग में किया गया है । इस प्रकार साहित्यदर्पण में जो महाकाव्य का लक्षण किया गया है वह इस में पूर्ण रूप से पाया जाता है ।

काव्यानुशासन में जो महाकाव्य का लक्षण किया गया है उस में इतना अधिक है कि महाकाव्य संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, चित्र काव्य से मलंकृत और सरल होना चाहिए । यह भी बात इस महाकाव्य से पृथक् नहीं रही । [२३४८] पद्यों से तो इसकी संक्षिप्तता दूर हो गई । ८ चित्र जो कि ग्रन्थ के अंत में लगा दिये गये हैं उनसे सचित्र भी यह हो ही गया । रही सरलता वह इसका स्वाभाविक गुण है ।

जिस प्रकार ईश्वरीय पदार्थ सबके कल्याणार्थ प्रस्तुत होते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश बिना पक्षपात के सबके लिये होता है, जिस प्रकार मेघों की वृष्टि, नदियों का जल, वृक्षों की छाया, उदारों का धन, सबके लिये इच्छा करता है, जिस प्रकार ऋषि वयानन्द का जगत् में आना सबके

उपकारार्थ हुआ। इसी प्रकार यह महाकाव्य भी सबका उपकारी बने, यह विचार कर इस में सरलता का अधिक ध्यान दिया गया है।

महाकाव्य का लक्षण तो इस प्रकार समाप्त हुआ अब कुछ काव्य के विषय में कहते हैं। विश्वनाथ, विश्वेश्वर, मम्मट, रुद्रट, वाग्मट, जगन्नाथ, भोज आदि अनेक विद्वानों ने अपने अपने ग्रन्थों में भिन्न भिन्न काव्य का लक्षण किया है उन में “सरस्वतीकण्ठामरण” में कहा हुआ लक्षण सर्वोत्तम है जो इस प्रकार है :—

“रस से युक्त, अलङ्कारों से अलङ्कृत, दोषरहित, गुणयुक्त, कवि का जो कर्म हो वह काव्य कहलाता है”। रस शब्द से यहाँ पर ब्रह्मानन्द का ग्रहण किया गया है न कि विषयानन्द का। आज कल के मन्दमनियों ने विषयानन्द को रस मान कर भारत का जो सत्यानाश किया है वह किसी से छिपा नहीं है।

छान्दोग्य उपनिषद् में (रसो वै सः रसं ह्येषायं लब्ध्वा आनन्दी भवति) इस प्रकार रस का वर्णन आया है, इसी छिप (ब्रह्मास्वादसहोदरः) दर्पण में लिखा है। सहोदर शब्द का अर्थ यहाँ पर समान है।

अलङ्कार शब्द से यहाँ पर उपमा, रूपक, साम्य आदि का ग्रहण किया गया है। दोष शब्द से असम्भव आदि का ग्रहण किया गया है। गुण-प्रसाद, भोज, कान्ति, माधुर्य, सौन्दर्य, सौकुमार्य आदि होते हैं। इन सबका जिस में समावेश हो वह काव्य कहाता है। काव्य का बनाने वाला “कवि” और महाकाव्य का बनाने वाला “महाकवि” कहा जाता है।

इस महाकाव्य में समस्त जातिभेद, समस्त गतिभेद, समस्त रीतियाँ समस्त अनुप्रास, सब शब्द में बतलाये गये हैं, और साथ ही “शब्दस्तौम-
महानिधि, बृहस्पतिघान” आदि अनेक कोषों के विलक्षण विलक्षण शब्द भी दिये गये हैं। इस प्रकार इस सर्वोन्नत महाकाव्य में यदि जीव के स्वाभाविक “अल्पज्ञाना” दोष से कहीं पर कुछ क्षति हुई तो तो सहृदय पाठक क्षमा करें।

विद्वानों का चरणसेवक,
अश्विखानन्दशर्मा

घोषम्

ग्रन्थकारपरिचयः

अस्ति अलङ्कारशानापरिवेष्टितायामनेकपुरनरमुनिमहविप्रशस्तार्या सप्त-
कुलाचलकुलधारिण्या सप्तश्रीपार्या जगत्या सर्वलोकमान्यं भरतप्रतिष्ठितपरा-
क्रमं किमपि खलम् ।

यत्र रामचन्द्रनलयुधिष्ठिरप्रभृतयो भूपाः, पद्मल्लिव्यासकणादगोतमवसिष्ठ-
भरद्वाजप्रभृतयो महर्षयः, सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमारप्रभृतयो ब्रह्मवे-
त्तारः, श्रीहर्षभारविमयूरबाणमधुभूतिकाळिदासप्रभूनयः कवीन्द्राः, समये
समये समुद्भूतिमगमन् ।

तत्रोभयतो विन्ध्यहिमालयाभ्यां नियमितं गङ्गायमुनासरस्वतीप्रभृतिस्त्रो-
तावहाभिरलङ्कृतं, नानामुनिजनपथिभिनवनभूसागं, यद्ब्रह्मसमुत्थिनधूमधूपितसर्व-
लोकजनं, महाभारतरामायणवर्णितानेकविधवस्तुसारं, सारमिष भुवोवलयस्य
हृदयमिष धरिण्याः पावनं जनानां वरीवर्ति ब्रह्मावर्तगर्भमार्यावर्तावस्थानम् ।

यस्य नातिदूरे कुरुक्षेत्रमत्स्यपञ्चालशूरसेनप्रभृतिराजवर्याधिष्ठानपरि-
मण्डितं सर्वदा सर्वसम्पत्तिमवृद्ध्यर्षिदेशावस्थानम् । तत्र मत्स्यदेशान्तर्गतभूम-
ण्डलमण्डनायमानभवेन गोपगोपिनगोकुलं सर्वतो वेदवेदाङ्गपारगैर्द्विजगौरुपेतं
विद्यते वदार्थं प्रान्तम् ।

तस्यैकदेशे भुवो भूषणमिष भगीरथपथानुगामिन्या भागीरथ्या नितरामा-
दरातिशयावद्वे विन्ध्यस्तं मुनिजनोपयोगि कुशापलाशशोभितवनैकदेशम्, निसर्ग-
सरलमानवगोपितरथादियानन्तरं द्विजराजविजयपताकासूचिनसनाख्यवंशं न-
चन्द्रनगरम् ।

यत्र साङ्गोपाङ्गवेदवेत्तारः प्रतिदिनमनुष्ठितयज्ञाः परित्यक्तसकललोक-
शुभाः प्रत्याहमाहिंसाप्रभृतिधर्मलक्षणप्रवर्तनपराः पदे पदे कथयान्मानसप-
रिवर्धित-नानाविधजीवननिचयाः पितामहसमाहृत-प्रतिष्ठितसनाख्यवशाः
प्राञ्जुरासन्महर्षयः ।

सत्र लोकं पृथ्वाधिकगुण, स्वसुजोपाजितसकलसौख्यनिचयः पालयिता यमाना, पोषयिता नियमाना, रचयिता सवृत्तानाममूलावाहरनामा पण्डित-शिरोमणिः । स च ब्रह्मचर्यादनन्तरं वेदविधिना कृतदारकृत्यः समये स्वाजु-क्यं भगीरथं पुत्रमापत् ।

समये समये लब्धवेददीक्षो भगीरथोपि द्वितीयाश्रममधिगत्य चतुरो धर्मा-र्थकाममोक्षानि च चतुरानात्मज्ञानजनयत् । तेषामग्रे निखिलजनप्रार्थनीयश्र-रमो मोक्षार्थ तिरस्कृतान्यसमस्तसृष्टः पालितवेदनियमः कलिकाळेपि दर्शित-कृतयुगसमस्तवृत्तः समभूत्सनाल्यवंशरत्नं मुनिवरण्डीकारामशर्मा ।

स च वैदिकेन विधिना समये कृतदारकृत्यः कालेन तनयं प्रपेदे । आनन्द-पूर्वचेतसा तेन समयानुकूलमकारि तन्नामकरणमखिलानन्दशर्मति ।

कृतनामकरणोऽखिलानन्दशर्मा ऋष्युपलक्षितमासावधि सुदुर्द्धर्मातुरपि-षत्ययोधरप्रस्तुतं पयः । अहमे मासि संस्कारपरिमाज्जनधिया कुसंस्कारेभ्यो दूरमासापयितुमेतं पिता गौक्षीरेण परिषर्षयन्निर्जने गङ्गायास्तटे कालमत्यवाह-यत् ।

एकान्दमतीत्य द्वितीयेष्वे दत्तपादोऽखिलानन्दशर्मा, पित्रा सत्वरं धारा-णसी प्रापितः शिवकुमारशास्त्रिगृहमलम्बकार । ततश्च तृतीयेष्वे दत्तपादो महर्षेर्दयानन्दस्य चरखरजापरगौः स्वात्मानं पवित्रयाञ्चक्रे ।

उपहारमनीषया महर्षये दयानन्दाय दत्तोयं “जयजीवेनिवचोमिरमि-नन्दितः” कतिचित्प्रणानि महर्षिर्दयानन्दक्रोडमुत्तमन्वमवत् । एवं क्रमेण तृतीयाध्यान्ते मुम्बापुरिमधिगत्य गद्दूलाळशर्मणां गृहमलम्बक्रे ।

तत्र च पञ्चविंशतिदिनात्मकं समयमतिवाह्य “त्रिषार्षिकः पण्डित” इति गद्दूलाळशर्मणा कृतसम्बोधनः प्रत्यावृत्तिदत्तचेतसा जनकेन पुनरपि स्वदे-शमासाद्य मात्रे समर्पितोमूत् । मात्रापि देववाणीप्रतया मात्रमापैषास्य देव-वाणी भवत्विति विश्वार्थ्यं देवीं वाचमनुगच्छन्त्या परिषर्षितोमूत् ।

एवमतीयाथ शैशवं निवृत्तिमुपायथै तेनैव सह बालचापलं, शिथिलता-माप बुद्धिदौर्बल्यं विकारमियायमतिकलिका पित्राप्ययं चतुर्थे कृतपदा-सिकतिले भूमागे वर्धमानादिपरिषरैरनाधि पठनोन्मुञ्चताम् । अनन्तरं—

“ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे”

इति मञ्जुस्मरणावस्योपनयनममूत् । वैदिकेन विधिना वेदारम्भं विषाय गङ्गोपकण्ठगते महर्षिर्दयानन्दखरणस्थर्षापविश्रितमूमितले कर्णवासप्रतिष्ठित-रामणीयके निजे जीवाराशर्मणां शुक्कुले विद्याप्ययनाय निवेशितोमूत् ।

एवं धृतावाहः, परिधृतमेखलः, श्रीमानयं प्रत्याहं मिक्षार्थं सर्मापक्षितजना-
वासाङ्गुगाम । तेनैवान्नेन स्वात्मानमपोषयत् । एवमुभयतः कृतसान्ध्यविधि-
रयं समिद्धेष्टौ हवनमप्यहरहृद्वक्त्रे ।

“पुरा कल्प एतदासीत्संस्कारोत्तरकालम्”

“ब्राह्मणा व्याकरणां स्माधीयत इति”

पातञ्जलं नियममनुसृत्य यज्ञोपवीतादनन्तरं धातुसूत्रगणोद्याविवाक्य-
लिङ्गानुशासनमपाठ्यनेन । एवं पदधाक्यसयोगविद्वलेपतदर्थपरिज्ञानेनानेन
यज्ञुर्वेदो ऋग्वेदश्च सहस्रस्वरमपाठि ।

एवमतीयाय कश्चित्समयः । गर्भैकादशेष्टे ब्रह्मदः पितास्य स्वर्जंगाम । परं
जन्मदः पिता सहैवालाञ्छके । क्रमेण तदनन्तरं विद्याध्ययनाय कश्चित्तं
मथुरां प्रपेदे । तत्र च श्री १०८ युगलकिशोरशास्त्रिन्यः साङ्गोपाङ्गं पातञ्जलं
व्याकरणमहाभाष्यमभ्यगीष्ट ।

गते बहुनिये काले पितृनेन साहित्यसिन्धोरवगाहने क्षमं श्रीस्य तत्पठनाय
नियोजयाञ्चकार । पूर्वपुण्यपरिपाकपरभागमुपेयुषामुना, साहित्याब्धौ कृता-
वगाहाः, काव्यमहाकाव्यनाटकाख्यायिकाप्रबोतारः कृतपरिचयाः समस्तलोक-
शास्त्रविचारेषु निर्ममा निरहङ्काराः प्रसादावरीकृतसमस्तोमुषीपुष्पाः किं
नासाविताः सुगृहीतनामधेयाः श्री १०८ विष्णुदत्तपादाः ।

मन्ये सकलमपीदं, अघटनघटनापटीयसा परमेश्वरेण पठनोपकरणमे-
कत्राकारि । सत्यमिदमुच्यते—

दीपान्तराज्जलनिधेरुदराद्दिगन्तादाकाशतस्तदुदरस्थितलोकमश्च ।

आनीय दर्शयति सत्वरमिष्टजातं भाग्योदयार्दानमुत्सो जगतामधीशः ॥

इति । कान्यथा तादृशौ पितरौ, तदनूपनगरम्, स समयः, सावसा, स
आध्यापयिता, ते सखायाः, सा मनोवृत्तिः, तत्पुस्तकसौख्यम्, तथाविधं च
पाठवम् ।

आसाद्य सर्वमपीदं कश्चित्तं साहित्ये पद्मधात् । सर्वतः प्राग्नेन पिङ्गला-
चार्यप्रणीतं छन्दःसूत्रमपाठि श्रीविष्णुदत्तशर्मभ्यः । तदुत्तरं छन्दःपीयूष-छन्दो-
मथिमाळा-छन्दोमुक्तावली-छन्दोमञ्जरी-प्रवृत्तीनि द्वाविंशतिः २२ पुस्तकानि
केवलमस्मिन्नेव विषये पठितान्यासन् ।

समयेऽस्मिन्नेव रचनानैपुण्यमप्यनेनाधिगतम् । पूर्वजन्मागतशक्तिप्रागल्भ्यम्,
लोकशास्त्रयोर्नैपुण्यं, काव्यदक्षिणयाभ्यासश्चेति तत्कारणानामुपलम्भात् ।

अनन्तरं यास्काचार्यप्रणीतं काव्यालङ्कारसूत्रं काव्यप्रकाश-काव्यप्रदीप-साहित्यदर्पण-साहित्यकौमुदी-रघुटालङ्कार-काव्यानुशासन-रसगङ्गाधरालङ्कार-कौस्तुभालङ्कार-कुलप्रदीप-प्रभृतयोऽन्येऽलङ्कारग्रन्थाश्च श्रीविष्णुदत्तपादेभ्य एव पठिताः ।

वैवधीयचरित-किरातार्जुनीय-शिशुपालवध-हरविजय-राघवपाण्डुर्वीर्य-प्रभृतयो महाकाव्यनिबन्धा अप्यनेनाधीताः ।

कादम्बरी-वासवदत्ता-दशकुमारचरित-प्रभृतीनि गद्यकाव्यानि, मालती-माधव-सुप्राराक्षस-मृच्छकटिक-शाकुन्तल-त्रेणीसंहारा-नर्घराघवोत्तरराम-चरितप्रभृतीनि नाटकानि, भारतचम्पू-नलचम्पू-रामायणचम्पू-प्रभृतयश्चम्पू-ग्रन्थाः, कालिदासप्रहसनलटकमेलकप्रहसन-हास्यार्थवप्रहसनादीनि प्रहसनानि, कर्पूरमञ्जरीप्रभृतयः सहकग्रन्थाः, मुकुन्दानन्दप्रभृतयो भाणग्रन्थाश्च सर्वेऽप्यनेन गुरुमुखादेवाधीताः ।

किं बहुना सर्वमपि साहित्यज्ञातमनेनाविरतं जगदीश्वरकृपया तथा-गुरुभ्योऽधिगतं यथा नान्येन ।

एवं साहित्यजुघासमुद्रे सर्वोशे कृतमज्जनः कविरयं परीक्षाद्यु पदमघात् । सर्वतः प्राक् पञ्चनदविश्वविद्यालयनियमितां विशारदपरीक्षां प्रदाय वैशारद्यमनेनाधिगतम् ।

सकलशास्त्रसिद्धान्तावद्वचेतसा पुनरनेन पञ्चनदविश्वविद्यालयनियमितां शास्त्रीतिनाम्नी सर्वोच्चपरीक्षां प्रदाय शास्त्रित्वमधिगतम् ।

अनन्तरं वङ्गविश्वविद्यालयनियमितां सर्वोत्तमां कविरत्नपरीक्षां प्रदाय सामान्यजनैर्दुर्ध्वार्यं कविरत्नपदमनेनालम्बि । प्रकारेणामुना सकलेश्वरपदमधिगतमेवं कविरत्नं वाक्ष्य, जातीयपरिषद्ः प्रधानेनारुम् साहित्यरत्नाकरपदमदायि ।

एवमनेकपदजा .ालङ्कृतमेनं कविरत्नमवलोक्य नितान्ततुष्टः पिता पुत्र-मारात्कृतकृत्यो बभूव । किमत्र कर्तव्यमः परमिति मत्वा द्वाविंशतिवार्षिक-मेनं सामं सात्तुजं च भूषण्ये विहाय लोकान्तरमगमनीयया दिवमास्तोह ।

दिवङ्गते पित्रि नानात्वेन्ताभिरमितो वृत्तः कविरयं स्वीयं मनः कथं कथमपि सान्त्वयन्निव कथमधुना निर्वाहे भविष्यतीते मुहुर्मुहुर्विचारयन्नेकशङ्कासमाधानपरं पद्यमेकमरक्षयत् । तद्यथा—

याते बानजनोचिते सुसमये जाते गुणस्योदये ।

ज्ञाते दिक्षु यशोविशेषपटले ताते गते चाव्ययम् ॥

शास्त्रपरिग्रहेषु नितरां मातेव मन्येधुना ।

सा ते रक्षयाभाचरिष्यति परं का ते त्वरा भारती ॥

इति सम्पाद्य चैवं पद्यं पितृभियोगदूर्नमनः कथमपि शान्तिसाहाय्येन निश्चलं विधाय प्रसङ्गागतेषु कार्यान्तरेषु प्रसक्तो बभूव । सम्पाद्य सर्वमावश्यकं मातुराज्ञया पुनरप्यवशिष्टं ब्रह्मचर्यं समापयितुं भार्गीरथास्तटे निवासम-
कल्पयत् ।

निवसतोस्य हृदि समुदपद्यन्त विविधतरङ्गाः साहित्यशास्त्रपरिशीलनफल-
मपि प्रादुरासीत् । धर्तमानसमये विद्यमानेन काव्यनाटकजातेन न भाषिणी
कल्याणकला समुदेप्यतीति विचारोपि धेनस्युदपद्यत । किंबहुना महर्षेर्द्वया-
नन्दस्य यशोविठसितं कथमत्र विस्तारमेप्यतीति चिन्ता सर्वदास्य हृदये
निवासमकरोत् ।

एवमतीयाय कश्चित्समयः पाठनमियेण समम्यस्ता विद्यापि शितशस्त्रोपमा
समभवत् । जगाम चावसितिं पञ्चविंशतिवार्षिकं ब्रह्मचर्यम् ।

समाप्तब्रह्मचर्योयं मात्रा विवाहाय प्रेरितोभूत् । मातुराज्ञां शिरसि धारय-
तानेन पञ्चविंशतितमे वर्षे गार्हस्थ्ये पदमवापि । गङ्गोपकण्ठगतानूपनगरस्थेन
श्रीपण्डितगङ्गाप्रसादधर्मणा पूर्वतः पाठितया स्वह्रुतया समं करपीठनम-
स्थानुमनम् ।

एवमुभयतः समुत्पद्यमाने विवाहचिन्तने “मालती” वैद्या समं सममवधि-
षाहः । विवाहानन्तरं सहस्राञ्जनपुरे पाठनायासौ सामाजिकैः प्रार्थितोभूत् ।
वर्षद्वयमितमेवं समयं पाठनेनायमनयत् ।

गतवत्येवं कश्चिन्मित्समये हरदोईप्रान्तप्रतिष्ठितयमरुर्षापत्तनाधिपतिना
श्री१०८ केदारनाथधर्मणा स्वतनयपाठनायायं बहुशः प्रार्थितोभूत् । स्वीकृत-
प्रार्थनेनायं तत्र गत्वा व्याकरणमपाठयत् ।

एवमष्टाविंशतिवर्षदेशीयंययः पूर्वस्तामियाय । सामाजिकेषु कार्येषु पद-
मवाप्त कविरत्नम् । प्रकारेणामुना विक्रमवत्सरे १९३७ माघशुक्लतृतीयायाम-
वाप्य जनिं यत्र यत्र समये यथा यथा कार्यमकारि तत्तत्सर्वं १९६७ विक्रमव-
त्सुरान्तं यथायथमवधिं ।

ग्रन्थरचनासमयः

यद्यपि सामान्यपद्यरचनानैपुण्यं त्रयोदशवर्षात्मके समयेज्जेन समासादित-
मासीत्, परं विशेषग्रन्थरचना पञ्चदशात्मकं ययः समासाद्य प्रारब्धाभूत् ।
सर्वतः प्रागयं परापश्यन्तीमव्यमावैखरीतिमेवैभ्रतुर्धावसितां जनि-वर्ष-पद-
वाक्यविग्रहां भगवतीं वाग्देवीमेवास्तीषीत् ।

पदाधानेन्द्रयामव्यस्यतामुना वर्षमेकं प्रत्यहं कृतंः पद्यैरेव समस्तमकारि
कृत्यम् । पितुराहया वैदिकं सारस्वतं मन्त्रं चाजपत् । अष्टावर्षदेशीयं वयः
समुपागते कविरक्षे माघकृष्णचतुर्दश्यां कर्णवासे पित्रार्धपात्रसमये सारस्व-
तमाज्यमाकण्ठगते जले दत्तमासीत् ।

“मणिमन्त्रमहौषधितपःसमाधिजाःसिद्धयः”

इति योगसूत्रमनुसरतास्य पित्रा महौषधिजा सिद्धिरस्मै निश्चुतं दत्ता
यस्याः कृपया प्रतेमाऽवर्षेण । स्मृतिशक्तिरभूत्समुन्नता श्रुतमप्येकवारं
हृदयस्मभूक्तिं पुनर्हृष्टम् ।

गतवत्येषं षड्भुतिये काले सर्वथा वशवर्तिनीं वाक्सिद्धिं विधाय सामा-
जिकविद्वज्जनमनोयिनोदायाद्यावधि ये ये ग्रन्थाः प्रणीतास्ते ते मया नाम-
निर्देशपुरःसरं साम्प्रतं प्रदर्श्यन्ते । यथाः—

- १—दयानन्ददिग्विजयं महाकाव्यम्
- २—वैदिकसेखान्तवर्षेणं महाकाव्यम्
- ३—धिरजानन्दचरितं काव्यम्
- ४—भामिनीभूषणं काव्यम्
- ५—छिजराजविजयं काव्यम्
- ६—भार्यशिरोभूषणकाव्यम्
- ७—दयानन्दलहरीकाव्यम्
- ८—भार्यनियमोदयकाव्यम्
- ९—ऋषरस्तुतिकाव्यम्
- १०—धर्मलक्षणावर्षेणकाव्यम्
- ११—गुरुकुलोदयकाव्यम्
- १२—विद्याविनोदकाव्यम्
- १३—उपनयनवर्षेणकाव्यम्
- १४—विवाहोत्सववर्षेणकाव्यम्
- १५—भार्यदृष्टेन्दुचन्द्रिकाकाव्यम्
- १६—परोपकारकल्पद्रुमकाव्यम्
- १७—रामाहर्षिसंवादकाव्यम्
- १८—दशावतारखण्डनकाव्यम्
- १९—वार्षिकोत्सवचम्पूकाव्यम्

- २०—वैजयविश्वंसनचम्पूकाव्यम्
- २१—द्वैवोपालम्भकाव्यम्
- २२—वेदवर्णनशतकं (काव्यम्)
- २३—शोकसम्मूर्च्छनकाव्यम्
- २४—आर्यसंस्कृतगीतिकाकाव्यम्
- २५—ठिजराजविजयचरपूकाव्यम्
- २६—ठिजराजविजयपताकाकाव्यम्
- २७—विद्वानोदयचम्पूकाव्यम्
- २८—भारतमहिमावर्णनकाव्यम्
- २९—आर्यविनोदकाव्यम्
- ३०—वैदिकधर्मविजयं (नाटकम्)
- ३१—संस्कृतविद्यामन्दिरम्
- ३२—आर्यसुभाशिक्षासागरः
- ३३—पिङ्गलञ्ज्वस्त्रभाष्यम्
- ३४—काव्यलङ्कारसूत्रभाष्यम्
- ३५—महर्षिचरितादर्शः
- ३६—पाणिनीयसूत्रार्थप्रकाशः
- ३७—निरुक्तवैदिकभाष्यम्
- ३८—सत्यार्थप्रकाशानुवादः (संस्कृते)

वर्तमानसमये यानि पुस्तकानि सत्याद्यन्ते तेषां नामोल्लेखः पुस्तकान्तरे
द्रष्टव्यः । उपरि कथितग्रन्थानामनुष्टुप्संख्यया पद्यसङ्कलना ९५०००
पत्राणिना ।

संक्षेपेणैवं महाकवेरस्य चरितं सर्वलोकावलोनायात्र विन्यस्तं मया
विस्तरेण ग्रन्थान्तरे विन्यस्तं तत्तत्पत्रालोचनीयम् ।

सुबोधचन्द्रशर्मा

ग्रन्थकार का परिचय

यह तो आप लोगों को विदित ही होगा कि—अनेक लोकलोकान्तरों से अलङ्कृत इस धरातल में सर्वोत्तम समुद्र-वेदित, अनेक सुर-नर-मुनि-जन-सेवित भारतवर्ष ही है। जिसमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जैसे धार्मिक महाराजा, पतञ्जलि जैसे महर्षि, सनक जैसे ब्रह्मवेत्ता, श्रीहर्ष जैसे कवि, कर्ण जैसे दानी, अर्जुन जैसे योद्धा, भीम जैसे बली, महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे परोपकारी उत्पन्न हुए।

आर्यावर्त और महर्षिदेश

उसी भारतवर्ष में दोनों तरफ से विन्ध्य और हिमालय इन दोनों पर्वतों से नियमित, गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों से सुन्दर, भरद्वाज, वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि महर्षियों से पवित्रित एक आर्यावर्त है जिसके अन्तर्गत कुल्क्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेन इन चार भागों में विभक्त एक ब्रह्मर्षि देश भी विद्यमान है।

जन्मभूमि

उसी ब्रह्मर्षि देश में मत्स्य देश का तिळक, वेद-वेदाङ्गपारंग, अनेक ब्राह्मण विद्वानों से अलङ्कृत एक बदायूँ प्रान्त है जिसके एक देश में भूतल का भूषण जैसा भागीरथी के अङ्क में बसा हुआ यज्ञोपयोगि कुश पलाशयुक्त, द्विजराजविजयपताका के द्वारा सूचित सनाढ्य वंश एक चन्द्रनगर है। जिसमें साङ्गोपाङ्ग वेद के जाननेवाले, प्रतिदिन यज्ञ करनेवाले, षण्णव्युत्कृष्ट धर्म को पालनेवाले, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित सनाढ्य वंश में अनेक मुनि-जन समय समय पर उत्पन्न होते थे।

वंश-परम्परा

उसी चन्द्रनगर में अनेक शुरुओं से युक्त यम और नियमों के पालन करने वाले, अनेक ग्रन्थों के सम्यादक हमारे प्रपितामह पण्डित अथाहरलाळजी हुए। ब्रह्मचर्य के अनन्तर गृहस्थाश्रम में पदार्पण करते हुए उन्होंने अपने समान पण्डित भगीरथीलाळजी को प्राप्त किया। जो हमारे पितामह थे।

वे भी ब्रह्मचर्य के समाप्त होने पर दूसरे आश्रम में प्रविष्ट हुए और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे चार पुत्र उन्होंने प्राप्त किये। इन चार पुत्रों में से सबके लिए चाहने योग्य मोक्ष जैसे वैदिक धर्म के परिपालक मुनि-समाना-

धरण, निर्लोकता के अद्वितीय धरण, परोपकारव्रत, शम एवं दम के अद्वितीय अवलम्ब, त्याग के एक मात्र पात्र, सत्य के अनन्य आधार, सनातन वंश के भूषण, मुनिवर पण्डित श्री टीकारामजी शास्त्री थे, जो हमारे पिता थे ।

पिताजी का वृत्तान्त

पण्डित टीकारामजी ग्यारह वर्ष की अवस्था से श्रीस्वामी वयानन्द सरस्वती के शिष्य थे । स्वामीजी ने ही कर्णव्रत में आपका यज्ञोपवीत कराया था । तीन मास तक बराबर तप्यं पढाया । फिर श्रीविरजानन्द सरस्वतीजी के पास मथुरा में भेज दिया । वहाँ पर अष्टाध्यायी, महामाध्य पद करकाशी नव श्लोक आदि कई श्लोकों में छठीस वर्ष विद्योपासना करते रहे । अन्त में अनेक विद्वानों के कहने पर भीमती " सुबुद्धि-वैद्या " से आपका विवाह हुआ जो कि भ्रान्तः स्मरणीया, पतिव्रताओं में अग्रगण्य, संस्कृतविद्या में अद्वितीय विदुषी आज कल चन्द्रनगर में विद्यमान है और सर्वदा संस्कृत में सम्भाषण करती हैं । पिताजी का विशेष वृत्तान्त अन्यत्र छपा है वही देखिये ।

ग्रन्थकार का जन्म

संवत् १९३७ माघ शुक्ल तृतीया को हुआ । आपके पिताजी के लिए आज के दिन कोई आनन्द बाकी न था इसलिए " दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् " इस महामाध्य वचन के अनुरोध से ग्यारहवें दिन आपका " अखिलानन्दधर्मा " नाम रक्खा गया ।

एकान्तवास

छान महीने तक आपने माताजी का स्नान किया, आठवें महीने से पिताजी ने आपको माता से अलग किया और गौ का दूध पिछा कर गङ्गा के तट पर एकान्त में रक्खा । कारण इसका यह था कि—अग्नी से संस्कार उत्तम हो । मछिन न हो, संसार की कुराब कुराब बातें देखने में न आवें, मूर्खों की आवाज कान में न पड़ने पावे आदि आदि ।

मातृभाषा संस्कृत

आपके माता-पिता ने आपके जन्म से कई वर्ष पहले ही संस्कृत में भाषण करने का निश्चय कर लिया था, ताकि भावी सन्तान की मातृभाषा संस्कृत बने । उसका परिणाम ऐसा ही हुआ । आपकी माताजी ने २८ वर्ष विद्याभ्ययन और ब्रह्मचर्य-व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया, यज्ञोपवीत और मेखला का धारण किया, सायं-भानः ईश्वराराधन और हवनदि का नियम रक्खा ।

आप के पिताजी पण्डित शिवकुमारजी शास्त्री के परम मित्र थे, इसलिए जब आप एक साल के हो गये तब पिताजी इनको काशी ले गये थे। आप की तौतली आवाज़ से निकला हुआ संस्कृत सुन कर पण्डित शिवकुमारजी आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि यह विचक्षण बात आजही देखने में आई।

स्वामीजी का मिलना

यहाँ से चल कर फिर पिताजी ने आप को एक साल तक एकान्त में रख कर संस्कृत बोलना सिखाया, इतने ही में तीसरा वर्ष आरम्भ हुआ। पिताजी इनको श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के पास ले गये। ले जाकर श्रीस्वामीजी से कहा कि “महर्षे ! गृहस्थाश्रम का यह पहला फल आप के अर्पण है” इतना कह कर श्रीस्वामीजी के चरणों में छिटा दिया। इन दिनों स्वामीजी पूने में थे। महात्माओं के लिए भी दुर्लभ श्रीस्वामीजी के चरणारविन्दपराग आज आप के शरीर को पवित्र कर रहे थे। कठणा के एक मात्र आचार श्रीस्वामीजी ने भी कुछ देर तक पैरों में पड़े हुए आप को उठा कर गोद में लिया और इन के पिताजी से कहा कि जाओ एकान्त में रह कर इसको संस्कारी बनाओ। आधा पाते ही पिताजी इनको लेकर चले गये।

द्वैघटना

पूने से चले कर पिताजी इनको लेकर नर्मदा के तट पर चले गये। अकस्मात् कन्बे से फिसल कर आप एक पत्थर की चटान पर गिर गये। गिरने के साथ ही शिर के दो भाग (कुछ आपस में जुड़े हुए से) हो गये। पिताजी इनके जीवन से हाथ धो बैठे परन्तु महर्षि का आशीर्वाद क्योंकि विफल होता। पिताजी इनको लेकर मुम्बई पहुँचे। जाते ही गोकुलदास भाटिया के यहाँ जो कि मुम्बई के प्रसिद्ध एरिस थे, इलाज होना आरम्भ हुआ। १५ दिन के अन्दर अन्दर आपका शिरोत्रय पूर्ण हुआ परन्तु एक चिह्न रह गया जो अब तक बाकी है।

सामाचार-पत्रों में यश

आराम होने पर पिताजी इनको लेकर पण्डित गट्टूलाळजी के यहाँ चले गये। यहाँ पर १५ दिन तक रहे। पण्डित गट्टूलाळजी ने आपका स्पष्ट संस्कृत भाषण सुन कर मुम्बई के समाचारपत्रों में “त्रिवार्षिक पण्डितः” शीर्षक देकर आपका समस्त वृत्तान्त मुद्रित कराया। अन्त में वहाँ से पिताजी इनको लेकर अपने देश में आगये। जिस दिन आप मुम्बई से चले थे उस दिन चतुर्थ वर्ष का तृतीय दिवस था।

वैश में आकर पिताजी ने आपकी माता को भी अपने साथ लिया और गङ्गा के तट पर एकान्तवास करते हुए आपको संस्कारी बनाया। कुछ दिनों के बाद गङ्गा की रेती में लिखते लिखते आपको वर्षपरिचय हो गया। इस समय आपकी अवस्था ४॥ वर्ष की थी।

विचित्र घटना

आपकी जन्मभूमि “चन्द्रनगर” से चार कोस के प्रासिद्ध पर एक अमलिका नाम की भाड़ी है। वहाँ पर तीन संन्यासी माधवानन्द, ब्रह्मानन्द और रामानन्दजी रहा करते थे। आपके पिताजी उनके परममित्र थे। एक-स्मात् एक दिन माधवानन्दजी ने कुमारिलमह प्रणीत तन्त्र-वार्तिक के ९ श्लोक एक बार पढ़े। बुबारा आपने उनको क्रमशः वही श्लोक पढ़ कर सुना दिये। इस विचित्र घटना को देख कर माधवानन्दजी विस्मित हुए और आपके पिताजी से बहुत कुछ आग्रह के साथ कहने लगे कि इस बालक को हमें दे दो। हम इसको शिष्य बना कर वेदान्त का पण्डित करेंगे। परन्तु पिताजी ने इनको न दिया।

अनन्न वज्रपात

कुछही दिन के बाद आपके समस्त शरीर पर “क्षुद्रपिटिका” केचक निकलनी आरम्भ हुई। इसमें आपका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया। जीभ पर छाले पड़ने से दूध भी न पी सके। एक मास तक यही हालत रही। देखने वाले जीवन से निराश हो गये। पिताजी का भी धैर्य टिगने लगा। परन्तु माताजी की आशा अभी तक खिर थी। ईश्वर की दया से विश्वराम शरीर में फिर प्राण-संचार होने लगा। दूध का पीना आरम्भ हुआ। शरीर शरीर स्वस्थता बढ़ने लगी।

उपनयन

पञ्चमवर्ष के अन्त में आपका कर्कवास में उपनयन हुआ और ज्येष्ठ-पितृव्य पण्डित जीवारामजी से वेदारम्भ किया। फिर वही अपने गुरुकुल में, जो कि ३५ वर्ष से पण्डित जीवारामजी के अधिकार में था, पढ़ने लगे। कटिवेश में मौंजी, मेवाला तथा हाथ में पकाशदण्ड और बसोपबन्धधारण, भूमिश्चयन, आदि आदि आपका उस समय का वैश था। अनभ्यासों में पास लगे हुए राजवाट, बेलौन, अदूपशहर आदि नगरों में पिताजी के साथ जाकर शिक्षा लाते थे और उसा शिक्षा का आहार करते हुए आपने सामयिक व्यवहार का अनुष्ठान किया।

पठनक्रम

सबसे पहले आपने अध्यायी का पाठ कळस किया। उसके बाद धातु-गण, उणादि और परिभाषा-पाठ कळस किया। उसके अनन्तर यजुर्वेद हस्तस्वर सहित कळस किया और आदिकाव्य "महाकाव्य" वाल्मीकि-प्रणीत रामायण, भगवद्गीता, अष्टावक्रगीता, मानवधर्मशास्त्र आदि सर्वग्रन्थों का अध्यायी में अवलोकन करते रहे।

ब्राह्मीप्रयोग

समय समय पर आपके पिता आपकी स्मरणशक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते थे। जब कि आपका दशवाँ वर्ष समाप्त हुआ और ग्यारहवें वर्ष के कुछ दिन व्यतीत हुए, तब पिताजी ने ब्राह्मी के योग से बनाया हुआ एक प्रकार का घृत, माघकृष्ण चतुर्विंशती के अर्धरात्रि के समय, गङ्गा में खड़ा करके पिलाया। पीने के साथही एक प्रकार का आश्चर्य मालूम होने लगा, मानो अन्धकार में प्रकाश का आधिर्भाव हुआ हो। इसके अलावा ब्राह्मी का सेवन पिताजी इनको अधिक कराया करते थे।

समय-परिवर्तन

इस प्रकार कुछ समय कर्णवाल में व्यतीत हुआ। बचपन के साथ साथ उस समय के व्यवहार भी बदल गये। नई नई विलक्षण बातें सुनने लगीं। वैद्ययोग से एक दिन पूज्यपाद विरजानन्दजी के प्रधान शिष्य, व्याकरण के अगाध समुद्र श्री १०८ पण्डित युगलकिशोरजी शास्त्री कर्णवाल पधारे थे। उन्होंने आपको संस्कारी जान कर अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए पिताजी से अनुरोध किया। पिताजी ने आपका मथुरा जाना स्वीकार किया।

पिताजी का कर्तव्य

आपके पिताजी आपको कदापि अपन से पृथक् नहीं करते थे यहाँ तक कि जब आप पाठ पढ़ने को जाया करते थे तब भी साथ साथ जाकर पाठ सुना करते थे। पाठ समाप्त होते ही फिर अलग लेजाते थे। वहाँ पर सामने बैठ कर सब पाठ कळस कराया करते थे। पाठ पढ़ाने के अलावा अध्यापक भी आपसे अन्य बातें नहीं कर सकते थे, औरों की तो बातही क्या। वास्तव में माता पिता का यही कर्तव्य होना चाहिए, जैसा कि आपके माता-पिता ने आपके साथ किया।

मथुरा में जाना

मथुरा में जाते ही आपने श्री० पं० युगलकिशोरजी से अध्ययन करना आरम्भ किया। अध्यायी का पाठ तो पहले हा कंठ था अब सुनो का अर्थ

घोर उदाहरण साथ साथ पढ़ने लगे। प्रातः काल में अष्टाध्यायी का पाठ पढ़ते रहे और सायंकाल में अण्डनमण्डनपूर्वक सिद्धान्तकौमुदी का आशय देखा करते थे। इस प्रकार दोनों ग्रन्थों को पढ़ते पढ़ते अब तेरह वर्ष की आयु समाप्त हुई। चौदहवें वर्ष में अष्टाध्यायी समाप्त कर महामाध्य पढ़ना आरम्भ किया। सोलहवें वर्ष में महामाध्य समाप्त कर व्याकरण समाप्त किया।

अपूर्व ग्रन्थों का लाभ

श्रीपण्डित युगलकिशोरजी के यहाँ श्रीधिरजानन्दजी की बनवाई हुई कुछ पुस्तकें थीं। उन्होंने आपको उन पुस्तकों का पात्र जान माने व्याकरण का ज्ञान आपसे सुपुर्ण कर दिया। पुस्तकें ये थीं १—शब्दबोध व्याकरण। २—वाक्यम.मांसा। ३—पाणिनीय विवरण इनके अनिर्दिष्ट और भी कई पुस्तकें थीं जो आपको ही गईं। कुछ दिनों के बाद श्रीपण्डित युगलकिशोरजी का देहान्त हो गया।

दैव की विचित्र महिमा

उधर श्रीपण्डित युगलकिशोरजी का स्वर्गवास हुआ, उधर अनूपशहर में साहित्य के अपार समुद्र अनेक काव्य, नाटकों के रचयिता लोक एवं शास्त्र विषयों के अभिन्न, निरभिमान, शानचित्त श्री १०८ पण्डित विष्णुदत्तजी आगये। आप कूर्माचलीय अल्मोडा प्रान्त के रहने वाले हैं। आपने आपसे पढ़ना आरम्भ किया।

साहित्य-पठन

सबसे प्रथम आपने पिङ्गलछन्दःसूत्र, छन्दःपीयूष, छन्दोमणिमाला, छन्दो-मुक्तावली आदि बार्हस्पत्य ग्रन्थ इस विषय के पढ़े। साथही रचना का प्रकार भी सीखते रहे फिर काव्यालङ्कारसूत्र, काव्यप्रकाश, काव्यप्रदीप, दर्पण, साहित्य-कौमुदी, अलङ्कारकौस्तुभ, कठामरण, रुद्रटालंकार आदि १८ ग्रन्थ अलङ्कार के पढ़े। नदनन्तर पंचमहाकाव्य, पंचाख्यायिका, तेरह नाटक, चार चम्पू, तीन प्रहसन, दो सट्टक आदि ग्रन्थ पढ़े। इस प्रकार साहित्य के समस्त ग्रन्थ ४ वर्ष तक निरन्तर आपने श्रीविष्णुदत्तजी से पढ़े।

पिताजी का देहान्त

साहित्य पढ़ते पढ़ते आपकी अवस्था २२ वर्ष की हुई। इसके बाद आपने कई उच्च परीक्षाएँ दीं, कई उच्च पद प्राप्त किये। अन्त में आपके पिताजी ने अपने कर्तव्य से मुक्त होकर लोकांतर का मार्ग लिया। पिताजी के स्वर्ग जाने पर आपको बड़ी चिन्ता हुई। परन्तु माताजी के अबलम्ब से शोक अधिक

असर न कर सका । इसके बाद आपने कुछ दिन गङ्गा के तट पर पढ़ाना आरम्भ किया । पढ़ाते पढ़ाते विद्या भी कंठस्थ होती गई, दर्शन-ग्रन्थों का अधिक विचार करने से समय भी निकलता मालूम न हुआ ।

विवाह

इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ । २५ वर्ष का ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ । अन्त में माताजी की आज्ञा मानकर आपने विवाह किया । आपका विवाह भी अनूपशहर के पण्डित गङ्गाप्रसादजी की सुपुत्री मालती देवी से हुआ । विवाह के अनन्तर दो वर्ष तक आपने सहस्रार्जुनपुर में पढ़ाना स्वीकार किया था । यहाँ पर आपके सम्बन्धी पण्डित नन्दकिशोरजी रहते हैं । उन्होंने ही आपको यहाँ रक्खा था । यहाँ से आप एक वर्ष धर्मर्चा रियासत में पढ़ाने गये थे । यहाँ पर आपने श्रीयुत राय केदारनाथजी के सुपुत्र मुनीश्वरनाथ को पढ़ाया । इस प्रकार २८ वर्ष की अवस्था पूर्ण हुई । अब आपने सामाजिक कार्यों का आरम्भ किया ।

ग्रन्थसम्पादन

यद्यपि सामान्य रचना तो आप तेरह वर्ष की अवस्था से ही करते रहें परन्तु विशेष रचना आपने १५ वर्ष की अवस्था से आरम्भ की । सबसे प्रथम आपने सरस्वती का वर्णन किया जिसमें कि परा पश्यन्ती, मध्यमा, वैजरी और ध्वनि, वर्ण, पद, वाक्य इनको क्रमशः अंगी बनाकर रूपक से अच्छा दृश्य खींचा । २२ वर्ष की अवस्था तक आपने अपने अभ्यास को ऐसा पुष्ट बनाया कि एकवार बनाया हुआ पद्य हुआर विचार के योग्य न हो अर्थात् ठीक ठीक शुद्ध बन जावे । इसके बाद आपने जो जो ग्रन्थ आज तक बनाये उनकी सूची संस्कृत में लिखी हुए आपके जीवन में दी है, वही देखिएगा आज कल जो ग्रन्थ बन रहे हैं उनकी सूची ग्रन्थांतर में दीजावेगी । आज तक बनाये हुए ग्रन्थों की पद्य संख्या २५००० हजार है । विशेष वृत्तान्त आपके बड़े जीवनचरित में देखिए जो ग्रन्थ लिखा गया है । यह आज तक का संक्षिप्त जीवन मैंने लिखा है । इति-

सुबोधचन्द्रशर्मा

विषयानुक्रमणिका

प्रथमः सर्गः

अत्र च—सर्वतः प्रागीश्वरप्रणतिः । श्रीमतो महर्षेर्वैद्यानन्दस्य निर्देशः । जगदीश्वरादस्य महाकाव्यस्य पूर्त्यै सहायप्रार्थनम् । महर्षेर्यशोविद्यासः । भारते नदाक्षापालनम् । महर्षिसेञ्चितवेदप्रणतिवृद्धिः । महर्षेरन्वय्यनामकत्वम् । महर्षिप्रतापासहाना । महर्षेः सकाशाद्गुणानामुदयः । कद्विपतशिवविष्णुविरिञ्चिभ्यो महर्षेर्योगबलस्याधिष्यम् । समस्तगुणकलाकृतानिवृत्तिः । दर्शनरूपदर्पणशोकविलयः । महर्षेरुदयशैलता । महर्षिकर्तृकनानोपकारनिर्देशः । एतत्काव्यनिर्माणप्रयोजनम्, सर्गसङ्कलनञ्च । सर्गान्ते कवेराशीर्वाद इत्येतावन्तो विषया वर्णिताः ।

द्वितीयः सर्गः

अत्र च—काठियावाडदेशवर्णनम् । तद्गतजनव्यवहारनिर्देशः । महर्षेर्जन्ममूर्तिवर्णनम् । नगरसमृद्धिवर्णनम् । वंशवर्णनम् । तत्पितृवर्णनम्, मातृवर्णनञ्च । देशोपकारममीपया मुक्तात्मनो महर्षेर्जन्मधारणसङ्कल्पः । गर्भगमनस्य महर्षेः सङ्कल्पवर्णनम् । जन्मदिनवर्णनम् । नामकरणसंस्कारणम् । बाललीलावर्णनम् । अक्षरारम्भवर्णनम् । यज्ञोपवीतवर्णनञ्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

तृतीयः सर्गः

अत्र च—महर्षेर्वैद्याध्ययनसङ्कल्पः । गृहावृत्तिर्गमनम् । पुरान्तरेऽमरत्वप्राप्तिविचारः । वेदाङ्गाध्ययनम् । आश्रमान्तरगमनामिच्छा । काषायबलधारणम् । सरस्वतीतटस्थितसिद्धपुरगमनम् । दण्डप्रहयकामनया ततोऽग्रे गमनम् । बान्धवसङ्गमः, तेभ्यो विमुक्तिः । दक्षिणदिग्गमनम् । वर्धमानपुरप्राप्तिः । चेतनसदृशगमनम् । नर्मदानटगमनम् । तत्र नवीनवेदान्तपठनम् । पूर्वानन्दसङ्गमः । संन्यासाश्रमधारणम् । योगविद्याभ्यासः । दण्डपरित्यागः । व्याकरणाध्ययनम् । इतस्ततो गत्वा नानाविधोपासनम् । अर्बुदगिरिगमनम् । तत्र योगक्रियाभ्यासः । भवानीगिरिप्रस्थानम् । तत्र विद्योपासनम् । इष्टारगमनम् । चण्डीपर्वतनिवासाः । ऋषिक्षेत्रगमनम् । ततोऽग्रे टीरीनगरप्राप्तिः । तत्र तन्त्रप्रस्थावलोकनम् । केदारगिरिगमनम् । खड्गप्रयागगमनम् । सिद्धाश्रम-

निवासः । शुभकाशीगमनम् । हिमालयारोहणम् । तुङ्गनाथगमनम् । बदरिकाश्रमगमनम् । पर्वतकूटारोहणम् । हिमालयादवतरणम् । सिद्धपथगमनम् । निजसिद्धान्तनिश्चितिः । रामपुरे रामनिर्याश्रमनिवासः । द्वाणसागरगमनम् । भागीरथीतटसेवनम् । नवीनयोगपरीक्षा । भागीरथी तटे भ्रमणम् । पुनर्नर्मदा-तटं प्रतिगमनम् । तत्र वर्षत्रयं निवासः । तत्रैव योगसाधनम् । पुनर्मथुरागमः । तत्र श्रीविरजानन्दपादेभ्यो विद्याधिगमः । दक्षिणादानम् । वरप्राप्तिश्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

चतुर्थः सर्गः

अत्र च—दिग्विजयाद्यांसा । जगदीश्वरस्तवनम् । लोकदशासमीक्षणम् । कल्पितग्रन्थनिवारणनिश्चयः । मृतकभ्रातृनिराकरणनिश्चयः । जलमयतीर्थ-निराकृतिनिश्चितिः । जडमूर्तिपूजानिराकरणनिश्चयः । समयोचितविचारपर-म्परा । शाक्त-वैष्णव-शैव-गाणपत-मतसमुत्पत्तिर्मीमांसा । सत्पुरुषेषु दोषा-रोपणविचारः । पौराणिकमतसमीक्षा । अष्टतारवादमीमांसा । वेदानामपि मूर्तिकल्पना । मन्दिरगतपूजाविह्वलना । पौराणिकलीलाफलम् । दिग्वि-जयसाधनश्चेत्येते विषया यथायथं वर्णिताः ।

पञ्चमः सर्गः

अत्र च—दिग्विजयारम्भः । तत्र समये मङ्गलपरम्परा । दिशां प्रसादः । सरस्वतीसमृद्धिः । सर्वतः प्रागर्गलपुरगमनम् । तत्र वैदिकधर्मोपदेशः । कैलासपर्वतसङ्गमः । सन्न्यापुस्तकवितरणम् । रोगशान्तये योगाभ्यासः । ततो घण्टपुरप्रस्थानम् । ततो लङ्करगमनम् । तत्र राज्ञा सह संवादो वैष्णवादिमतखण्डनम् । तत्रैव शास्त्रार्थविज्ञापनवितरणम् । वैष्णवानां परा-जयः । ततोऽग्रे करौलीनगरप्रस्थानम् । ततो जयपुरगमनम् । सिद्धसंवादः । तद्गतपण्डितानां पराजयः । राज्ञा सह सङ्गमः । तत्रैव जैनगुरुपराजयः । अत्र दत्तस्योपदेशस्य फलम् । भागवतखण्डनम् । वैष्णवमतनिराकरणम् । ततः कृष्णाङ्गगमनम् । ततोऽजतुन्दगमनम् । ततः पुष्करगमनम् । तत्रावतार-वादखण्डनम् । ३०० मितपण्डितानां पराजयः । कौमुद्यादिखण्डनम् । तत्रो-पदेशफलम् । ततो योधपुरगमनम् । पुनरजतुन्दगमनम् । तत्र विज्ञापन-दानम्, मठानां खण्डनम् । गौराङ्गसङ्गमः । तेन सह गोरक्षाविषये विचारः । तपस्विद्युगलमानसङ्गः । पुनर्गर्गलपुरगमनम् । भूपसमाजे भागवतखण्डनम् । मथुरागमनम् । गुरोरन्तिमदर्शनम् । कुम्भोपलस्ये हरद्वारगमनम् । पाखण्ड-खण्डनीपत्राकारचनम् । विशुद्धानन्दपराजयः । सर्वस्वदानम् । भागीरथी-तटे भ्रमणम् । कर्णवासगमनम् । तत्र शास्त्रार्थः । ततो रामवट्टगमनम् । पुनरनूपनगरगमनम् । अघहरगमनम् । तत्र गरलाशनम् । गरलदस्य बन्धना-न्मोक्षः । विलम्बनगमनश्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

षष्ठः सर्गः

अत्र च—महर्षेः कार्यपरत्वम् । धौदार्यम् । अतरौलीगमनम् । तत्र मनुष्य-
कर्तव्योपदेशः । ततश्छलेश्वरगमनम् । तत्र विंशतिमन्दिराणां भङ्गः । यज्ञ-
शालापाठालयकल्पनम् । घगडियानाञ्चि नगरे चक्राङ्कितैः समं शास्त्रार्थः ।
चक्राङ्कितानां नत्र पराजयः । ततः सूकरक्षेत्रगमनम् । तत्राङ्गदेन समं
शास्त्रार्थः । अङ्गदस्य पराजयः । गुरुस्वर्गतिसमये खेदः । नरौलीपत्तने धर्मो-
पदेशकरणम् । कायमगङ्गागमनम् । ततः फल्गुनगरगमनम् । तत्र धर्मो-
पदेशः । पौराणिकानां शोकः । मानपत्रनिवेदनम् । तत्र शास्त्रार्थे पौराणि-
कानां पराजयः । हृलधरगमनम् । नत्यराजयः । ततोऽग्रे गमनम् । तत्र धर्मो-
पदेशः । ततोऽप्यग्रे गमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । सुभ्रगमनम् । तत्र पण्डित-
धार्मानभङ्गः । ब्रह्मावर्तगमनम् । ततः कर्णपुरगमनम् । तत्र विभ्रान्तघट्टे
घर्षेतुविनोदः । शिवविल्वपत्रनिराकरणम् । भैरवमीनिभङ्गः । धर्मोपदेशो-
करणम् । महादेवैर्लवणपेयः । चक्राङ्कितेषु मांसाशित्वम् । यधनप्रश्नोत्तरे
शरदागमे शास्त्रार्थः । पौराणिकरोदनम् । हृलधरमानभङ्गः । ततोऽग्रे राम-
नगरगमनम् । तत्र रामलीलोदरे धर्मोपदेशः । पण्डितानां पलायनम् । ततः
काशीगमनम् । आनन्दारामे निवासः । विद्यापनवितरणम् । पण्डितेषु कोला-
हलः । काशीनरेशसन्धिषे पत्रप्रेषणम् । पण्डितानां वेदशास्त्रानभिज्ञता । अन-
न्तरं समस्तवाराणसेयपण्डितैः समं मूर्तिपूजाविषये शास्त्रार्थः । तत्र समस्त-
पण्डितानां पराजयः । विशुद्धानन्दच्छलम् । अन्ते तन्मानभङ्गः । प्रकारेणामुना
सप्त वारं काशीस्यपण्डितानां पराजयः, महर्षेर्जयश्चैत्येते विषया वर्णिताः ।

सप्तमः सर्गः

अत्र च—कुम्भोपलक्ष्ये- प्रयागगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । प्रश्नोत्तराणि ।
शिवसहायकृतरामायणटीकावलोकनम् । परतो विन्ध्याचलगमनम् । तत्र
धर्मोपदेशः । बालकृष्णकृतभारतटीकावलोकनम् । उत्तरोत्तरं पूर्वा विशु-
द्धिय गमनम् । कुम्भार्यपत्तनगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । ततः पाटलिपुत्र-
गमनम् । तत्र ५० मितपण्डितानां पलायनम् । पुराणखण्डनमखनविचारः ।
पादुकोपानत्काव्यरचना । मागळपुरगमनम् । तत्र ४० मितपण्डितानां मानम-
र्दनम् । धर्ममानपत्तनगमनम् । तत्र राजा सह भाषणम् । मतान्तरमधिगतस्य
द्विजस्य पद्मात्तापाः । महर्षेरीश्वरस्मरणम् । कङ्कितातापुरीगमनम् । तत्र नाना-
खलेषु धर्मोपदेशः । पण्डितानां प्रश्नेषु महर्षेर्वृत्तरम् । अनेकविषयकव्याख्या-
नदानम् । राजकीयपाठनालये सस्कृतग्रन्थनिवेशनम् । हुगलीपत्तनगमनम् ।
तत्र चक्राङ्कितसमाकल्पनम् । पुनर्भागळपुरगमनम् । ततश्छपरापत्तनगम-
नम् । मधुधगमनम् । तत्र चक्राङ्कितमतखण्डनम् । ततो बृध्वाचनगमनम् ।

अत्र वैष्णवमतखण्डनम् । ततो मुरशयनपत्तनगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । ततो
 हस्तरसामिधनगरगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । ततः कोळनगरगमनम् । तत्र
 धर्मोपदेशः । ततः प्रतिपुरं विधाम्यतोस्य जखळपुरगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः ।
 ततः पञ्चवटीगमनम् । नासिकश्रयम्बकगमनम् । ततो मुम्बापुरीगमनम् । तत्र
 भाषाचतुष्टयविलिखितविद्यापनवितरणम् । बह्ममतनिराकरणम् । चतुर्विं-
 शतिप्रश्नकरणम् । तदुत्तरदानम् । वैष्णवसमाकल्पनम् । तत्र गट्टूलाळादि-
 विदुषां पराजयः । नारद्व्यमत्रगरुडानोद्यमः । पुस्तकालये पण्डितानां
 मानभङ्गः । रामानुजसमाकल्पनम् । तत्र शाळार्थे रामानुजविद्वत्पराजयः ।
 अनेकमतगैः सम्भाषणम् । ततोप्रे पुण्यपत्तनगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः ।
 एतलामप्रभृतिनगरगमनम् । तेषु धर्मोपदेशः । स्वदेशगमनम् । तत्र यज्ञशाला
 गोशाला-पाठशालाकल्पनम्भेत्येते विषया वर्णिताः ।

अष्टमः सर्गः

अत्र च—ग्रन्थरचनारम्भः । तल्लेखनाय वस्तुमितविदुषां नियमनम् ।
 ऋग्वेदादिभाष्यसूत्रिकाप्रारम्भः । तद्विषयनिरूपणम् । तत्रशंसा । सत्यार्थ-
 प्रकाशरचना । तत्रशंसा प्रतिसमुच्छ्रांसं तद्विषयनिरूपणम् । वेदभाष्यारम्भः ।
 तत्रेश्वरसाहाय्यप्रार्थना । यजुर्वेदभाष्यरचना । भाष्यरचनावश्यकता ।
 सायणमहीधरोषटभाष्यखण्डनम् । वेदैकता । प्रकरणवशास्य चातु-
 र्विध्यम् । ऋग्वेदभाष्यारम्भः । तदसमाप्तिकारणम् । वेदाङ्गप्रकाशनिर्माणम् ।
 तद्विषयनिर्देशः । अष्टकविवरणारम्भः । पञ्चमहायज्ञविधिविधानम् । संस्कार-
 विधिसङ्कलनम् । तद्विषयनिर्देशः । गोकर्णानिधिकल्पनम्, तद्विषयनिर्देशः ।
 आर्योद्देश्यरत्नमालानिर्माणम् । तद्विषयनिर्देशः । अमोच्छेदन-भ्रान्तिनिवारण-
 रचना । आर्याभिविनय-संस्कृतवाक्यप्रबोध-अवहारमानु-वेदविरुद्धमतखण्डन-
 निर्मातिः । स्वामिनारायणमतखण्डनम् । वेदान्तिष्वान्तनिवारणम् । सत्य-
 धर्मप्रचारः । ग्रन्थरचनावसानम्भेत्येते विषया वर्णिताः ।

नवमः सर्गः

अत्र च—नाटकरूपेण महर्षेर्यशोवर्णनम् । नाटकरचना । अग्निवायुरधीनां
 पात्रत्वेन वर्णनम् । अथर्वणस्य सूत्रधारत्वम् । षडङ्गानां पात्रता । शास्त्रार्थां
 प्रधानभूत्यत्वम् । ब्राह्मणग्रन्थानां कञ्चुकीवेषता । यमानां नियमानाम्ब
 भूत्यता । यशोनटीसंभाराः । नादीपाठः । यजुर्वेदनाटकम् । तन्मध्ये विदु-
 षकताखण्डनम् । अवलोकपातनम् । वेदान्तरनाटकम् । पुनर्जवतिकापतनम् ।
 विदुषकविलासः । पुनः काण्डपटीपतनम् । सामवेदनाटकम् । मनुजान्तर-
 रकषणे नियामककृतं तर्जनं नाटकपात्रप्रशस्तिः मनुजकृतं नाटकनायकप्रशं-
 सनम् । अथमविषसमस्तुतनाटकसमाप्तिरित्येते विषया वर्णिताः ।

दशमः सर्गः

अथ च—द्वितीयदिवसनाटकवर्णनम् । तत्रागतादिहृष्टुसं-
 वेशः । नाटकनायकागमनम् । मुषणसिंहासने तदुपनिवेशः । तत्समक्षे विह-
 ठिलासः । नमसः कीर्तनवतरणम् । तैर्यथिकसमारोहः । पात्राणां पूर्वव-
 द्विन्यासाः । नाडीपठनम् । सूत्रधारनिर्देशः । यशोनटीनर्तनम् कम्बुकिप्रहाराः ।
 अनन्तरं नायकभाषणम् । मृतकभ्रातृखण्डनम् । जीवच्छ्राद्धनिर्देशः । जीवस्य
 स्वकृतफलमोगिता । तस्य लोकान्तरगमनम् । जन्मान्तरगतजीवव्यवहृतिः ।
 शब्दनिर्घचनम् । अन्योन्यदुर्घटना । पाथेयनिर्दिष्टिः । विद्युत्कर्तव्यता । सूर्या-
 कार्यान्वयमनम् । कर्मविशेषफलस्य जन्मान्तरानुगामित्वम् । सूर्यजलदाननिरा-
 करणम् । सामान्यदाने विधेर्देशान्यम् । देहस्य पञ्चमूलात्मफलम् । जीवत्या-
 जयमरुतम् । जज्ञोपासनाविधेः । मोदकादीनां लोकान्तरप्राप्तौ विस्मयः ।
 दानयोम्यपात्रनिर्देशः । मूर्खप्रचारिणमृतकभ्रातृप्रयोजनम् । गरुडपुराणसिद्धा-
 त्तखण्डनम् । जीवस्य लोकान्तरगमने समयनियमः । समस्तप्रेतानिपु तत्साध-
 नसंपत्तिः । जवनिकापतनम् । धास्तविकतीर्थवर्णनम् । जलमयतीर्थखण्डनम् ।
 नदीनामस्मृतिजन्यफलोपहासः । तीर्थफलावश्यभावेत्वे कर्मफलनिराकृतिः ।
 सत्यतीर्थनिर्देशः । शुद्धिपद्धतिः । पुराणसमालोचनातत्कर्तृकच्छलप्रयोगः ।
 तत्कृतं सज्जननिन्दनम् । तत्राचारफलम् । जवनिकापतनम् । जडपूजानिराकृ-
 तिः । देदीपदिष्टमन्धरस्वरूपम् । तदागमनगमननिराकृतिः । मूढकर्तृकस्तदुप-
 हासः । जडपूजात्मः । परस्परविरुद्धपूजनम् । अतस्तभिराकृतिः । नाटका-
 वसानम् । नाटकपात्राणां भूमण्डले प्रचारः । महर्षेर्देवैवजयाभिमुखीकरण-
 ष्वेत्येते विषया यथायथं वर्णिताः ।

एकादशः सर्गः

अथ च—महर्षेः स्वकार्यपरता । पुस्तकमुद्रणाय काशीगमनम् । मुद्रणाख्ये
 पुस्तकजातं प्रदाय तदुत्तरमयोभ्यागमनम् । तत्रावतारवादखण्डनम् ।
 ततो लक्ष्मणपुरगमनम् । तत्र बहुनां प्रसाः, महर्षेरुत्तरम् । नानादिपिधानम् ।
 शाहजहाँपुरगमनम् । तत्रोपदेशकरणम् । वंशावलीगमनम् । तत्रोपदेशः ।
 कर्णवासगमनम् । तत्र पूर्वपरिचितः सकुम्भः । ततो हृदिप्रसंगमनम् । तत्रो-
 पदेशकरणम् । जम्बूकाश्विनरेशयोर्महर्षिसन्धिषे वृत्तप्रवचनम् । दूनस्य संदेश-
 कथनम् । गणेशशास्त्रिकीला, तत्परिचयः । हुत्करनरेशसमितिः । तत्र महर्षे-
 र्वक्तृता, पञ्चाशुदेशनिमन्त्रणस्वीकृतिः । मयराष्ट्रगमनम् । तत्रोपदेशः । शाह-
 पुरगमनम् । तत्र अर्जुनोपदेशः । अन्तपुरजनतायां गमनम् । तत्र पौराणिकानां
 पराजयः । पुस्तकान्तरनिर्देशः । लौघपुरगमनम् । तत्रोपदेशः । बेरिमहो-
 दयप्रसंगम् । नस्योपर्याक्षेपः । पौराणिकपराजयः । मुञ्जावलीकले पापम् ।

पृथग्निरीक्षणनिर्देशः । वैदिकधर्मोत्तरपथगतद्विजनिवारणम् । छवपुरगमनम् । तत्रोपदेशः । यशोविलसितम् । कस्यचिदेकप्रार्थना । तदुत्तरम् । अग्निहोत्रि-
तर्जनम् । सामाजिकोत्सवः, आर्यसमाजनियमाः । प्रधानतायैजनप्रस्तावः ।
सेवकत्वस्वीकृतिः । इतस्ततो गत्वा पुनरागमनम् । ब्रह्मसमाजे महर्षेर्वाप्या-
नम् । पुरान्तरगमनविचारश्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

द्वादशः सर्गः

अत्र च—अमृतसरसि गमनम् । ज्ञानकमतसमंक्षा । धर्मोपदेशारम्भः ।
पौराणिकपलायनम् । रामदत्तस्य हृद्धारगमनम् । केनचित्कृतस्य प्रश्नस्तोत्रम् ।
स्थूलनरजनागमे महर्षेः कथनम् । गौडसङ्गमः । इ स्ततो गत्वा पुनःत्रैवा-
गमनम् । पुनर्धर्मोपदेशः । उन्मत्तवाक्यखण्डनम् । समयनियमनम् । धूर्त-
तर्जनम् । पौराणिकच्छलम् । तदुत्तरदानम् । पौराणिकपराजयः । पाषाणवर्ष-
णम् । भयदानोद्यमः । महर्षेर्निर्मिता । देहप्रचारकृते महर्षेर्देह्यम् ।
अत्वारिंशन्मितच्छत्रधर्मक्षयम् । एकत्र भोजने प्रश्नस्तदुत्तरम् । शुद्धास-
पुरगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । गणेशदारुपराजयः । पण्डितान्तरकम्पनम् ।
जालध्वङ्गमनम् । तत्रोपदेशा मः । श्राद्धखण्डनम् । पौराणिकानां वैदिक-
धर्मानुगतत्वम् । रामदत्तस्य पराजयः । फीरोजपुरगमनम् । तत्रोपदेशारम्भः ।
पौराणिकपराजयः । पूजारीतिशब्दस्य निरुक्तिः । कस्यचिद्धूर्तस्य दोषदिका-
पाठः । तदुत्तरम् । रावटपिण्डीगमनम् । तत्रोपदेशः । पौराणिकपरामर्शः ।
छूतचरितप्रश्नोत्तरम् । पौराणिकाक्षेपः । तन्ज्ञानमञ्जनम् । काश्मिरनरेश-
निमन्त्रणास्वीकृतिः । राघवसंहजालखण्डनम् । पौराणिकानां लेखकप्रश्नाः ।
तदुत्तरदानम् । गुर्जरदेशगमनम् । मध्ये मध्ये धर्मोपदेशः । यवनानामार्यधर्मा-
नुगतत्वम् । श्वेलमनदीतटगतसिद्धसङ्गमः । गुर्जरनगप्राप्तिः । तत्र धर्मोपदेशः ।
पौराणिकयोः प्रश्नः । लिखितपत्रदानम्, तदुत्तरम्, तयोःपराजयः । प्रश्नान्त-
रम्, तदुत्तरम् । गायत्रीमन्त्रजपानुमतिः । कस्यचित्प्रश्नः । तदुत्तरम्, तत्प-
राजयः । द्वेषमार्जा कारागृहगमनम् । वजीराबादगमनम् । तत्रोपदेशः ।
पौराणिकधूर्तता । तत्पराजयः । पुरान्तरगमनम् । तत्रोपदेशारम्भः । पौरा-
णिकपलायनम् । देवोत्तरपथगानां निमन्त्रणम् । तेषांछलम् । महर्षेरुत्तरम् ।
पुनर्देवपुरगमनम् । पूर्वपरिचितसङ्गमः । प्रश्नोत्तराणि । वैदिकधर्मप्रचाराय
परमात्मस्तवनमित्येते विषया वर्णिताः ।

त्रयोदशः सर्गः

अत्र च—छवपुरतो सुलतानगमनम् । तत्र होलिकोत्सवे धर्मोपदेशः ।
पौराणिकनिमन्त्रणम् । महर्षेः कथनम् । गोकुलधरहस्योद्मेदः । तेषां मदी-
उत्तमखण्डनम् । गुप्तलीलाप्रकाशः । गोकुलधरानां पलायनम् । पारसीक-

निम्नत्रयम् । तेषां मध्ये धर्मोपदेशः । मनुष्याणां प्रज्ञाः । तेषामुत्तरदानम् । नास्तिकस्यास्तिकता । महर्षेः प्रभावातिशयः । वैद्यतात्मकम् । योगबल-
महिमा । कन्याविक्रयनिषेधः । विवाहरीतिनिर्देशः । लौमनिन्दनम् । मांस-
भक्षणनिषेधः । तेनात्मनुक्षणाशः । पण्डितक्रियासम्बोधनम् । संन्यासदानम् ।
मोक्षमूलविषयकप्रश्नः । तदुत्तरम् । एकत्र पानाशननिषेधः । वृद्धकीर्णमनम् ।
तत्र धर्मोपदेशः । यवनकृतशङ्कानामुत्तरम् । पौराणिकपण्डितपलायनम् ।
विद्यार्थिगणे चमत्कारावेशः । सुरोपीयविद्वत्सिद्धान्तचम्बनम् । प्रज्ञानुज्ञा,
विद्यार्थिनां प्रज्ञाः । तदुत्तरदानम् । वेदवेदाङ्गमहिमाकथनम् । इक्ष्वाकुपुस्तक-
समालोचना । राजकीयपुरुषैः समं वार्तालापः । शङ्खोत्तरदानम् । व्याकरण-
पुस्तकसमालोचना । तत्सम्पादकनिराकृतिः । अलीगढगमनम् । तत्रोपदेश-
परम्परा । विदुषोः समागमः । मयराष्ट्रगमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । विद्यापन-
वितरणम् । प्रज्ञोत्तरे शास्त्रार्थकटककः । तत्र पौराणिकपरराजयः । हरिप्रस-
गमनम् तत्रोपदेशः । तत्फलम् । अजतुन्दगमनम् । तत्र धर्मोपदेशो विभ्राम-
इत्येते विषया वर्णिताः ।

चतुर्दशः सर्गः

अत्र च—पुष्करगमनम् । तत्र विद्यापनदानम् । अनेकप्रज्ञानामुत्तरदानम् ।
धाममार्गिसाधुमानमङ्ग । पुनरजतुन्दप्रत्यागमनम् । तत्र धर्मोपदेशः । अनेक-
मतानुगानां वैदिकधर्मानुगतत्वम् । प्रशस्तिपरम्परा । नसीरावावगमनम् ।
तत्रोपदेशः । उत्थितविभ्रविज्वंसः । जयपुरगमनम् । तत्रोपदेशः । पौरा-
णिककृतं राजवम्बनम् । रिवाडीगमनम् । तत्रोपदेशः । पौराणिकमत-
प्रशंसः । हरिप्रसगमनम् । तत्रोपदेशत्रयम् । मयराष्ट्रगमनम् । ततो हर्यार-
गमनम् । कुम्भोत्सवे प्रचारः । वैहरगमनम् । तत्र धर्मप्रचारः । छुपाराम-
शासनम् । वेदोत्तरप्रत्यसमालोचना । विपक्षिमानमर्दनम् । गौराङ्गसङ्गमः ।
ब्रह्मसमाजचम्बनम् । मिथ्यादुष्टान्तमिथ्यात्वम् । शाङ्गपुरगमनम् । अलीगढ-
गमनम् । छठेश्वरगमनम् । मुरावावावगमनम् । तत्र सेनाशिविरे राजधर्मो-
पदेशः । बदार्युगमनम् । तत्रोपदेशः । कृतशङ्कानामुत्तरदानम् । बरेली-
गमनम् । तत्रोपदेशः । स्काटमहोदयस्य प्रज्ञानामुत्तरम् । शाहजर्हापुर-
गमनम् । तत्र विद्यापनवितरणम् । पौराणिकपलायनम् । छस्मणपुरगमनम् ।
कर्णपुरगमनम् । फर्रुखनगरगमनम् । तत्रोपदेशः । पौराणिककटकमञ्जनम् ।
तत्कृतप्रज्ञोत्तरदानम् । मिर्झापुरगमनम् । तत्रोपदेशः । वानापुरगमनम् ।
तत्रोपदेशः । छस्मणपुरप्रत्यावृत्तिः । तत्रतजनकृतशङ्कानिराकरणम् । फर्रुख-
नगरगमनम् । सेनाशिविरे धर्मोपदेशः । मांसाशनवर्ना योगान्यासायोग्य-
त्वम् । मैनपुरीगमनम् । तत्रोपदेशः । मयराष्ट्रगमनम् । तत्रोपदेशः । पौरा-
णिकलीलातत्परराजयः । रमावार्तालापः । धियासोफिहमतसमालोचना ।
मुजफ्फरनगरगमनम् । आर्यविषयकशङ्कानां समाधानम् । वैहरगमनम् ।

तत्र विद्यापनदानम् । पौराणिकपरामर्शः । मयराष्ट्रगमनम् । तत्र दिनत्रयं
 विभ्रामः । अर्गलपुरगमनम् । तत्रोपदेशः । पौराणिकजीविकालोपः । रुमन्दे-
 शागतजनप्रश्नोत्तरम् । भरतपुरगमनम् । तत्रोपदेशः । राधा सह भाषणम् ।
 जयपुरगमनम् । तत्र कविभिः कृतमेतत्प्रशंसनम् । अजतुन्दगमनम् । दीनो-
 पकारिता । व्याख्यानदानम् । मसूदागमनम् । तत्रोपदेशः । राधा समं-
 भाषणम् । प्रचलितकुरीतितिवारणम् । तत्रैव यज्ञकरणम् । रायपुरगमनम् । तत्र
 राजकृतंस्वागतम् । प्रश्नोत्तरे राजधर्मोपदेशः । यद्यत्रैः सह संवादः । नाना-
 जनकृतशङ्कानामुत्तरम् । पौराणिकपराजयः । व्याखरगमनम् । तत्रोपदेशः ।
 मसूदागमनम् । वनेडागमनम् । तत्र राजकृतं स्वागतम् । राजकुमारयोर्वेद-
 गीतः । पारितोषिकदानम् । चक्राङ्घ्रिमानसङ्गः । विशौरगढगमनम् । तत्र
 कविराजकृतं स्वागतम् । तैलङ्गशास्त्रिणां पराजयः । अनेकराजसङ्गमः ।
 इन्दौरगमनम् । मुम्बईगमनम् । वार्षिकोत्सवे महर्षेरुपदेशः । हवनम् । चतु-
 र्मुखनेत्रिकः । वणिजां मनीषितम् । महर्षेरुत्तरम् । महोत्सवसाफल्यम् ।
 पौराणिकशुद्धिविनाशः । बालोपयोगी महर्षेरुपदेशः । लघुपुरीयनियम-निय-
 मनम् । आर्यवत्यजो विभ्रसिः । आण्डवपुरगमनम् । तत्रोपदेशः । इन्दौर-
 गमनम् । एतलामगमनम् । तत्रोपदेशः । जाधराप्रभृतिनगरेषु धर्मोपदेशो
 विभ्रामश्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

पञ्चदशः सर्गः

अत्र च—निमन्त्रणागमनम् । उदयपुरगमनम् । पौराणिकेषु फलकलाः ।
 राजदशावर्षानम् । महर्षिकृता तच्छिक्षा । राधो भक्तिः । राधोच्ययनम् । पाठ-
 शालास्थापनम् । आर्यमाधानियमनम् । चारणपाठशालादर्शनम् । राजानं
 प्रति महर्षेरुपदेशः । स्वदेशस्यवैद्यमानम् । तेषामभावे तदुत्पादनप्रकारः ।
 ईश्वरेच्छाविलसितम् । कविराजसम्मतिपरामर्शः । तत्पक्षचण्डनम् । अनेक-
 राजसङ्गमः । राजनीतिकथनम् । कस्यचिच्छङ्कायाः समाधानम् । छात्रानां
 पाठनम् । गानोपदेशः । वेद्यागीतिगर्हणम् । केषाञ्चिदाशांसा । तान्प्रति-
 महर्षेरुत्तरम् । सज्जनसिंहप्रलोभनम् । तं प्रति महर्षेरुत्तरम् । परोपकारिणी-
 समानेदेशः । प्रधानमन्त्रिधरयोर्नियोजनश्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

षोडशः सर्गः

अत्र च—शिक्षापत्रसम्पादनम् । तदाकारवर्णनम् । तच्छीर्षकलेखः ।
 समापतिनिर्देशः । उपसमापतिकथनम् । मन्त्रिपदानुग्रहणम् । अमात्यान्तर-
 सङ्कलनम् । उपमन्त्रिनिर्देशः । सम्यसङ्कलनात्तुत्तरं लोकमित् १४ नियमानां
 वर्णनम् । तदर्थो महर्षेर्नामनिर्देशः । महर्षेरपूर्वकार्यकरणम् । परोपकारिता ।
 चतुष्ययोदितशुद्धवदस्य महर्षेः सर्वोपकारित्वम् । विम्बोपकारियामनोपम्यम् ।
 अनुकार्यानुकारिसम्बन्धश्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

सप्तदशः सर्गः

अत्र च—नवीनकल्पितमतिरिपकरणप्रस्तावः । तेषामवैदिकत्वम् । शिव-
समक्षा, तज्जातिनिश्चितः । तद्व्युत्पत्तिवर्णनम् । हिमवतो गङ्गायाः प्रभवः ।
शिवजटासु तदवस्थाननिराकरणम् । शिवे शशिकलावस्थाननिराकृतिः ।
त्रिनेत्रसमक्षा । रुद्राक्षसमाक्षा । शङ्करसिंहवर्णनम् । वैष्णवमतसमक्षा ।
विष्णोर्मनुष्येतरत्वम् । विष्णुजातिनिश्चितः । तन्मते लिङ्गसमक्षा । चतु-
राननकल्पनम् । तदुत्पत्तिमाभासा । तज्जातिविषयकोत्प्रेक्षा । तद्व्यवहार-
बुद्ध्या । तद्वाहनविडम्बना । सामान्यजङ्गपूजाप्रकरणम् । शाक्तमतनिराकृतिः ।
शक्तिविचारः । तदनेकत्वैकत्वविचारः । गणपतिकल्पनम् । तदुत्पत्तिवि-
चारः । पूगात्मकगणपतिसत्कृतिः । गणेशनाम्नो बुधस्य वर्णनम् । नानकमत-
विषयः । नवीनवेदान्तिमण्डलम् । महावाक्यविचारः । ऋषेयवाक्समक्षा ।
वैद्यमतसमुत्पत्तिः । जैनमतागमः । पौराणिकमतोदयः । सर्वेषामेषां जङ्ग-
पूजाकथम् । मूर्तिभेदः । धेनुभेदः । वैदिकधर्मानुगतौ मुक्तम् । महर्षिवाक्य-
प्रवणत्सज्जनसिंहद्वानोदयः । पुत्रोत्सवे निवृत्ते महर्षेर्गमनम् । गमनावसरे
महीप्रार्थना । शाहपुरप्राप्तिः । तत्रोपदेशारम्भः । नाहरसिंहधर्मणामव्ययनम् ।
ईश्वरानन्दसंन्यासप्राप्तिः । तस्य वैदिकयन्त्रालये प्रेषणम् । दाहूपस्थीमतस-
मूर्खजनतिरस्कारः । पतितभवनाधोगतमनुजेभ्यो महर्षिकर्तृकं जीवनदानम् ।
रामगङ्गागतफाल्गुरामसमागमः । हरदत्तसमागमः । योचपुरवृत्तागमः ।
शाहपुराधीशप्रार्थना । तदुत्तरदानम् । मित्रजनप्रार्थना । तदुत्तरदानम् ।
मित्रजनसम्प्रतिः । तन्निराकरणम् । योचपुरप्रस्थानम् । काळाद्यावत्प्रवृत्त-
त्येते विषया वर्णिताः ।

अष्टादशः सर्गः

अत्र च—महर्षेर्गमने जनानामौदासीन्यम् । महर्षेः साहसिकता । योच-
पुरप्राप्तिः । अनेकराजकर्तृकं स्वागतम् । विद्यामालये विद्यामकल्पनम् । राज-
समागमः । तत्कृतप्रबन्धकल्पनम् । राज्ञा सह सम्भाषणम् । महर्षेर्वक्तृता ।
चक्राकृतखण्डनम् । शङ्कासमाधानविषयः । यवनप्रस्थानामुत्तरदानम् ।
क्षत्रियशिवनाथसिंहप्रस्थानामुत्तरम् । मन्त्रिपरस्वागतविहितः । राजबुद्ध्या-
विषयकं महर्षेर्भाषणम् । तत्र धेनुप्रसङ्गखण्डनम् । मूर्तिपूजननिराकरणम् ।
महर्षेः समयनियमनम् । अरकर्तृकनिवेदनम् । तच्छ्रवणानन्तरं महर्षेः पञ्चा-
सायः । राजसभने व्याख्यानदानम् । तत्र निम्नितकर्मणां निराकरणम् । योच-
पुराधीशद्वानोदयः । पतिव्रताप्रदांसनम् । समाधिसर्जनोत्तरं सम्प्राप्तसमय-
वर्णनम् । तदुत्तरं प्रतापसिंहसविधे महर्षिकर्तृकं पत्रप्रेषणम् । फाल्गुतागमः ।
तद्वाचिकम् । फाल्गुतागमैरितजनकृत्यम्भेत्येते विषया वर्णिताः ।

एकोनविंशः सर्गः

अत्र च—स्वामिनां त्रिसोद्वेगः । तन्निदाननिम्नयः । शूलोद्गमे वमनम् । वायुशुद्धये भृत्यकर्तृकं हवनम् । अतीसारोदयः । सूर्यमलचिकित्सनम् । यवनकृतं चिकित्सनम् । अतीसारदृष्टौ मूर्च्छनोदयः । सूर्यप्रसादकृतः पञ्चा-
 सापः । समाचारपत्रे महर्षिश्चवत्सामुग्रयम् । तद्दर्शनादजतुन्दनगरे शोको-
 दयः । महर्षिश्चानिरीक्षणाय मनुष्यप्रेषणम् । तद्विभाग्यं सर्वत्र महर्षि-
 दद्यागमनम् । अनेकमिन्नगमनम् । महर्षिकृतं तेषां सान्त्वनम् । वायुपरि-
 वर्तनाय खलान्तरगमनम् । तत्रबन्धः । राजप्रार्थनम् । अर्षद्गिरिगमनम् ।
 मार्गं हवनकरणम् । वेदपाठिसत्कारः । पौराणिकनिराहृतिः । मार्गं वैद्य-
 समागमः । वैद्यगमनम् । प्रतापसिंहसमागमः । अजतुन्दपुरगमनम् ।
 तत्रौषधोपयोगः । रोगदृष्टिः । वैद्यागमः । तत्कृतं महर्षिप्रशंसनम् ।
 शौचक्रियाकरणम् । हस्तपादाद्यवयवधावनम् । महर्षेर्व्यानोदयः । जीवन-
 दासप्रदस्योत्तरम् । मनुजशोकोदयः । आत्मानन्दाह्वानम् । तत्सान्त्वनम् ।
 गोपालगिरिसमाहृतिः । तत्सान्त्वनम् । आत्मानन्दमीमंसेनयोराह्वानम् ।
 पारितोषिकदानम् । मार्गतजनसत्कारः । प्राणायामकरणम् । मनुजानामे-
 कदेशावसानम् । कपाटोन्मेषः । तिथ्यादिप्रज्ञाः । तदुत्तरम् । महर्षिकर्तृकं
 गायत्रीपठनम् । वेदमन्त्रपाठः । परमेश्वरस्तुतिः । तसुद्दिश्यभाषणम् । स्वर्गो-
 रोहणम् । नरमेषसामग्रीचयनम् । नरमेषयज्ञवर्णनञ्चेत्येते विषया वर्णिताः ।

विंशतितमः सर्गः

अत्र च—महर्षेर्वियोगे जगदीश्वरं कारयमवगत्य तदुपात्मः । तदु-
 त्तरम् । कालस्येवं चैद्वितमिति मत्वा तदुपात्मः । ततः परं पञ्चभूता-
 त्मकस्य महर्षेर्देहस्य पञ्चभूतैरेव स्वात्मनि विच्यसनं विहितं नान्येन केन-
 चिदिति मत्वा पञ्चभूतोपात्मः । ततः परतरं महर्षिगुणानुवादपूर्वकं जन-
 ताशोकसमूर्च्छनम् । महर्षेर्वियोगे गुणानामनात्म्यता । सरस्वतीवैधव्यम् ।
 घृत्यादिधर्मलक्षणानां निराधारता । वियोगमूर्च्छिते जगति सूर्योदयः । सूर्यकृतं
 रूपकेण जनसान्त्वनम् । सूर्यापगमे चन्द्रोदयः । चन्द्रकृतं रूपकेण जनसान्त्व-
 नम् । महर्षिस्तुपरिगमनोत्तरं शोककार्श्यमेत्येते विषया यथायथं वर्णिताः ।

एकविंशतितमः सर्गः

अत्र च—महर्षेः पदे प्रतिनिधिसापनम् । शोकगर्भं महर्षिगुणस्मरणम् ।
 आर्यसमाधिदेशनम् । तत्र प्रधानवस्तुता । तदनुमोदनम् । प्रतिनिधिकार्य-
 विवरणम् । कविर्षशवर्णनम् । कवेरार्थवचनम् । जगदीशस्मरणञ्चेत्येते
 विषया वर्णिताः ।

अधिकानन्दशर्मा ।

सर्ग-सूची

सर्ग-सर्गवृत्त-सर्गपद्य-विवरणम्

सर्गक्र०	वृत्तानि	पद्य-संख्या
१	वंशस्थं वृत्तम्	३८
२	अनुष्टुभ्वृत्तम्	६९
३	वंशस्थं वृत्तम्	७५
४	द्रुतविलम्बितं वृत्तम्	५३
५	नानावृत्तानि	९३
६	नानावृत्तानि	१०२
७	अनुष्टुभ्वृत्तम्	१६४
८	मालिनी वृत्तम्	९८
९	वंशस्थं वृत्तम्	६६
१०	वसन्ततिलका वृत्तम्	११४
११	वंशस्थं वृत्तम्	१०७
१२	आर्या वृत्तम्	१७०
१३	वंशस्थं वृत्तम्	१३१
१४	अनुष्टुभ्वृत्तम्	३०१
१५	इन्द्रवज्रा वृत्तम्	८०
१६	वसन्ततिलका वृत्तम्	९१
१७	प्रमिताक्षरा वृत्तम्	१२८
१८	रथोद्यता वृत्तम्	९५
१९	अनुष्टुभ्वृत्तम्	३०९
२०	विवेगिनी वृत्तम्	९५
२१	वसन्ततिलका वृत्तम्	६६

आवश्यक विवरण

न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला ।
जायते यत्र काव्याङ्गमहोमारो महान्कवेः ॥

(खट्ट)

न वह संसार में कोई शब्द है, न अर्थ है। न न्याय है, न कला है, जो काव्य का अङ्ग न होता हो अर्थात् सभी काव्य के अङ्ग बनते हैं। देखिए कितना भारी कवि के लिए भार उठाना पड़ता है इसलिए यदि कोई नया शब्द या नया अर्थ इसमें प्रतीत होता हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

बहुत से अविचारशील पुरुष प्रायः कहा करते हैं कि अमुक पद यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा न होना चाहिए। परन्तु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमने कितने विषयों का कहाँ तक अवलोकन किया है। जहाँ तक हमने देखा है वहीं तक शास्त्र की भी अवधि हो गई है अथवा शास्त्र कुछ हमारे देखने से अधिक भी हैं। देखिए—

पतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमननुनिश्चयं सन्त्यप्रयुक्ताः शब्दा इति वचनं केवलं साहसमात्रम् (महानाष्य) ।

अर्थात् चार वेद, छः अङ्ग, छः शास्त्र, ११२७ शास्त्रा, वाकोषाक्षय और इतिहास, इतना शब्दजाल न देख कर केवल शब्दों को अप्रयुक्त बतलाना साहस मात्र है। इस प्रकार का साहस थोड़े पड़े लोग किया करते हैं, विद्वान् नहीं।

घातु, उपसर्ग और निपात ये तीनों समस्त आचार्यों के मत में अनेकार्थ माने गये हैं, विशेष कर 'वररथि' के मत में। जैसा कि उनके इस निम्नलिखित श्लोक से प्रकट होता है—

घातवश्चोपसर्गाश्च निपाताश्चेति ते त्रयः ।

अनेकार्थाः स्मृताः सर्वे पाठस्तेषां निदर्शनम् ॥

(वररथि)

दीक्षित ने भी, 'शमो दर्शने' भा०'। इस घातु के ऊपर घातुओं का अनेकार्थत्व मान कर (निश्चय) का अर्थ अवगण माना है। यदि ऐसा न माना जावे तो निर्वाह होना सर्वथा में असम्भव है इसलिए मानना ही पड़ता है। उपसर्गों का क्रियाओं से सम्बन्ध कहाँ सार्थक और कहाँ निरर्थक भी हो जाता है। जैसे—

आख्यातान्युपसर्गैः संमृज्यन्ते कदाचिदर्थाय ।

(छट)

धारार्थं वाघते कश्चित्कश्चित्तमनुवर्तते ।

तमेव विशिनष्ट्यन्योऽनर्थकोन्यः# प्रयुज्यते ॥

(वाक्यपदीय)

अब रहा क्रियाओं में आत्मनेपद और परस्मैपद का विचार । जो वह महाकवियों की इच्छा पर निर्भर है । आत्मनेपदी धातु का परस्मैपदवत् प्रयोग करना सब महाकवियों के मन में अनुमन ही । सबसे प्रथम परस्मैपदियों में पढ़े हुए 'चसु' धातु का श्रीहर्ष ने आत्मनेपदवत् प्रयोग किया है । जैसे—“इमां किमाचामयसे० । नैषव” । आत्मनेपदियों में पढ़े हुए 'अय' धातु का परस्मैपदवत् प्रयोग “माव” ने किया है । जैसे—“उदयति विततोर्ध्व० । माव” । “आजग्रे धिपमथिलोचनस्य । भारवि” । “एशासीति पुरापि संभृशुमं । मुरारि” । इन्हीं सब प्रयोगों को देख कर दीक्षित ने “अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यं चक्षित्ते लिङ्करणाज्जापकात्” । यह कानून बना दिया, नहीं तो इसका कुछ प्रयोजन नहीं है ।

यदि कहें कि यह सब प्रयोग अपाणिनीय है तो अनेक स्थलों में पतञ्जलि ने महाभाष्य में पाणिनि के विरुद्ध धातु एवं प्रातिपदिकों का प्रयोग किया है । उन के लिए क्या कहियेगा ? “पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्” इस निर्बचन के अनुसार कात्यायन वा पतञ्जलि का कहा हुआ पाणिनीय नहीं ठहर सकता । पाणिनि ने धातुपाठ में 'पसज्' धातु को परस्मैपदियों में पढ़ा है । पतञ्जलि ने उसके विरुद्ध अपने भाष्य में 'सञ्जते' प्रयोग किया है । कहिये यह अपाणिनीय हुआ या नहीं ? पाणिनि ने लिङ्गानुशासन के अन्तर्गत 'न्युङ्क्त' शब्दों को नपुंसकलिङ्ग माना है । उसके विरुद्ध पतञ्जलि ने अपने भाष्य में “कोसावनुमानः” लिखा है । कहिये अब यह अपाणिनीय हुआ या नहीं ?

धारों की क्या कहें स्वयं पाणिनि महाराज ही अपने बनाये हुए “पाताल-विजयमहाकाव्य” में “सन्ध्यावधूं गृह्यकरेण” लिख गये हैं । जो उन्हीं की कानून से गलत है । उनके मत में बिना ‘अनञ्’ पूर्वक समास के कृा के स्थान में ल्यप् होता ही नहीं है” परन्तु काशिकाकार जयादित्य इसको शुद्ध मानता है और कहता है कि बिना भी समास के ल्यप् होता है । जैसे “अर्ध्वं देवा-नात्” । अब कहिये पाणिनि की यह ग़लती हुई या नहीं ? और उसको जयादित्य ने ठीक किया या नहीं ?

रास्ता में बात तो यह है कि कविलोग स्वच्छन्द होकर नवीन मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे किसी के बताये हुए मार्ग को पसंद नहीं करते। 'भेड़ियाघसान या गतानुगतिकन्याय' इनको अच्छा नहीं लगता। ईश्वर के दिये हुए मनुष्य-जीवन को ये लोग तंग दायरे में नहीं लाते। अपनी विमल प्रतिभा को किसी बन्धन में गिरा कर मलिन करना नहीं चाहते। इसीलिए कवियों की सरस्वती के लिए मम्मटाचार्य ने "नियतिकृत. नियम-रहित. आनन्दस्वरूप. अनन्यपरतंत्र. नवरससुन्दर" कहा है। यह लोकोक्ति भी घट जाती है कि—

अनुगतमन्यैर्भोगं गच्छति गन्त्री तथा कुपुत्रश्च ।

स्वच्छन्दं मुवि विचरति सुकविः सिंहास्तथा सुपुत्रश्च ॥

मर्थात्—किसीके बनाये हुए मार्ग पर चलना या तो जड़—गाड़ी का काम है या अज्ञबुद्धि कुपुत्र का काम है। कवि. सिंह और सुपुत्र ये-जो तीनों चारों के लिए स्वयं मार्ग बनाते हैं, ये क्यों दूसरों के मार्ग पर चले। यदि इंजीनियर इस बात का नियम करले कि मैं भी बनी बनाई सड़क को छोड़ कर अन्यत्र नहीं जाऊँगा तब तो संसार में कोई भी नई सड़क तयार न हो। यह नहीं होता। रास्ता बनाने वाला हमेशा रास्ते से अलग चलता है।

मैं यहाँ पर प्राचीन कवियों की अशुद्धियाँ पकत्र करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। इसके लिए तो मैंने "काव्यदोष-प्रकाश" पृथक् पुस्तक तयार किया है। केवल सामान्यतया कुछ बातें मुझे कहनी थीं, जो कि सामान्य कुतर्कशील पुरुषों के लिए कहनी उचित थीं वे कह दी। अब मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करके सहृदय पाठको से निवेदन करूँगा कि वं मेरे इस 'उपायन' को जिसको कि मैं उनके अर्पण करता हूँ स्वीकार कर मेरे परिश्रम को सफल करें।

इस ग्रन्थ के छपाने का विचार

पहले मेरा विचार इस ग्रन्थ को छपाने के लिए स्वामीप्रेस, मेरठ, में था जैसा कि आर्यमित्र के द्वारा कई बार प्रसिद्ध भी किया गया था परन्तु अंत में यह विचार परिवर्तित हुआ। इस परिवर्तन के कारण—

"द्विजकुल-निलक. सामवेद-भाष्यकार. वेदप्रकाश-सम्पादक. आर्यप्रति-निधिसभा संयुक्त प्रान्त के वर्तमान प्रधान. दूरदर्शी एवं आर्यजन-बन्धनीय—

श्रीपण्डित तुलसीरामजी स्वामी

हैं। आपने मुझको कई बार समझाकर इस पुस्तक को इंडियन प्रेस, प्रयाग,

में छपवाने के लिए प्रेरित किया। आप मेरे लम्बे शुभचिन्तक और मित्र हैं। आपका कहना मानकर मैं प्रयाग आया और इंडियन प्रेस में ग्रन्थ छपना आरम्भ हुआ।

ग्रन्थ-संशोधन

जिन समय ग्रन्थ छपना आरम्भ हुआ उस समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इसको छपाने से प्रथम प्रयाग में किसी ऐसे पण्डित को दिखाया जाये जो कि सर्वोपरि हो। इसी प्रसङ्ग में कई पण्डितों से भेंट हुई। उनमें से किसी में कोई दृष्य मिला, किसी में कोई, अन्त में अन्वेषण करते करते सर्वगुण-सम्पन्न, पूर्ण धैर्याकरणा, निरभिमान, अनेक विधाओं के भाचार्य, गाम्भीर्य में समुद्र, धैर्य में हिमवान, विद्या में बृहस्पति, उदारता में कर्ण, सत्यमायिता में हरिश्चन्द्र, भीमान् प्राणः स्मरणीयचरितं सुगु-हीतनामधेय—

श्रीपण्डित बटुकनाथजी द्विवेदी

मिले। आप सरयूपारीण ब्राह्मण होते हुए भी गङ्गोपकण्ठसित हैं। विद्या के समुद्र होने हुए भी निरभिमान हैं। आज कल जैसे पण्डित लोग थोड़ा पढ़कर अभिमान के पुष्प बन जाते हैं वह जान आप में लेनामत्र भी नहीं है। आपका कुटुम्ब कलियुग का सा प्रतीक होता है। आपकी सारी अवस्था विद्याभ्यापन में ही व्यतीत हुई है। २१ वर्ष तो केवल प्रयाग के नार्मलस्कूल ही में प्रधानाध्यापक पद पर रहते हुए व्यतीत हो चुके हैं। आपका जन्मस्थान वरंसर, जिला प्रतापगढ़, में है। आपके पिता पण्डित शिवलालजी द्विवेदी थे। आपने श्रीपण्डित अम्बिकाप्रसादजी अवस्थी से विद्याध्ययन किया था जोकि रहनेवाले जिला इटावा के थे। और चारागड्डी प्रयाग, की पाठशाला में अध्यापक थे। आज कल आप कटरा, प्रयाग, में रहते हैं। आप मेरे पिताजी के परममित्र हैं। आपने मेरे ऊपर परम अनु-ग्रह करके इस प्रेम और भक्ति के साथ पुस्तक का संशोधन किया जैसा कि ग्रन्थ पण्डितों से असम्भव था। अपने अत्यावश्यक कामों को छोड़ कर मेरी तुच्छ प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरे ऊपर दया भाव रखना आप का परम सौहार्द है। मेरे पास इस योग्य कोई शब्द नहीं है जिससे कि मैं पण्डितजी की प्रशंसा करूँ। इसलिये पण्डितजी क्षमा करेंगे, ऐसी आशा है।

कार्यपूर्ति के कारण


यह सब सद्युयोग जिनकी कृपा से फकीरूत हुआ, वह पण्डित रामजी-काकडीवाम्सी और पण्डित सुन्दरकाकडी द्विवेदी हैं। आपने ही इस ग्रन्थ को इंडियन प्रेस, में प्रकाशित करने के लिए पण्डित तुलसीरामजी को लिखा

था । आप दोनों महाशय अनेक ग्रन्थों के सम्पादक तथा संस्कृत एवं हिन्दी के अद्वितीय संशोधक हैं । आप दोनों महाशयों ने जिस उद्योग के साथ इस कार्य को तैयार किया है उसका वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है ।

मेरा निवास

इस प्रयाग में जब मैं आया तब पहले कटरा समाज में गया । वहाँ के समाज की तथा सामाजिकों की अभ्युत्था एवं कुप्रवृत्ति देख कर मैं अपने मन में बहुत विषम हुआ । अन्त में मैंने बाबू मेवालालजी की कोठी में आकर आराम पाया । आप इस प्रयाग नगर के प्रतिष्ठित गृह हैं, धन-सम्यक्त हैं, आर्य्य हैं, तथा बड़ेही सज्जन हैं । आपने मेरे लिए उत्तम स्थानादि का बहुत अच्छा प्रवन्ध कर दिया । जून से नवम्बर तक अनुमान छः मास मेरा आप के पास निवास रहा और बड़े आराम से मेरे दिन व्यतीत हुए । इस कृपा के लिये मैं उक्त बाबू साहब को धन्यवाद देता हुआ उनका कृतज्ञ हूँ ।

ग्रन्थकार



दयानन्ददिग्विजयम्

महाकाव्यम्

प्रथमः सर्गः

प्रणम्य भक्त्या परमेश्वरं परं
दयालुमाकारविशेषनिर्गतम् ।
मया दयानन्दयशोविभूषितं
विरच्यते काव्यमिदं विलोक्यताम् ॥१॥

मैं सर्वोत्कृष्ट, निराकार, दयालु, परमेश्वर को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके, ऋषि दयानन्द के यश से अलङ्कृत इस काव्य को रचता हूँ। सखन देखें ॥ १ ॥

अमूदभूमिः कलिकालकर्मणा-
मशेषसौन्दर्यनिवासवासवः ।
जगत्त्रये दर्शितवेदभास्कर-
प्रभो दयानन्द इति प्रतापवान् ॥२॥

जिनमें कलिकाल-अन्य पापी का नाम तक नहीं, जो समस्त सुन्दरताओं के निवास से प्रति रुचिर थे, जो तीनों लोकों में वेदरूपी सूर्य का प्रकाश फैलाते थे वैसे परम प्रतापी एक ऋषि दयानन्द हुए ॥ २ ॥

यदीयधान्नः स्मरणं जगत्यहो
 मनोविनोदं तनुते महात्मनाम् ।
 कथं नु तद्वर्णनसाहसाङ्किते
 सहायदानं न करिष्यतीश्वरः ॥३॥

इस जगत् में जिनके तेज का स्मरण मात्र महात्माओं के मन को मोहित कर लेता है उनके चरित्र-वर्णन के लिए प्रवृत्त हुए मुझको क्या ईश्वर सहायता न देंगे ? अवश्य देंगे ॥ ३ ॥

यशो यदीयं जगतीतले ततं
 तमो नितान्तं तनिमानमानयत् ।
 शरन्मृगाङ्कादधिकं विशोभते
 विशोभितान्तःकरयैरभिष्टुतम् ॥४॥

जिनके यश की प्रशंसा विशुद्ध हृदयवाले महात्मा करने हैं, जिनका उल्लवळ यश जगत् में फैले हुए अन्धकार को नष्ट करता हुआ आज शरत्काल के निर्मल चन्द्रमा से भी अधिक शोभित हो रहा है ॥ ४ ॥

गुणानुरागेण समस्तमानवै-
 रमन्दसंदर्शितभव्यभावनैः ।
 सदा सदारोधितमेव यत्कृतं
 प्रकामभवत्या धियतेनुशासनम् ॥५॥

जिनका किया हुआ उपदेश आज समस्त जगत् में अत्यन्त भक्ति के साथ वर्ता जा रहा है और जिनके उपदेश को शुभ भावना रखनेवाले समस्त उत्तम जन बड़े ही गुणानुराग से ग्रहण करते हैं ॥ ५ ॥

तुषारपातोत्तरकालबालिता
 नवीनवल्लीव बसहलोदया ।
 जगत्त्रये येन विकाशमापिता
 विवर्धते वेदमयी सुवह्वरी ॥६॥

ससन्तकाळ के द्वारा फैलाई हुई नवीन पत्तों वाली कता के समान जिन्होंने तीनों कोकों में वेदरूपिणी कता फैलाई है और जिनकी वेदकता दिन दिन बढ़ती चली जा रही है ॥ ६ ॥

दयामयानन्दविशेषवर्धनाद्

भुवस्तले यो नितरामुदारधीः ।

ततान नामानुगुणां निजाभिधां

गुरुर्दयानन्द इति प्रकल्पिताम् ॥७॥

जिस उदारमति गुरु दयानन्द ने, अपने नामानुगुण, जगत् में दयामय यानन्द की वृद्धि करके, अपने नाम को चरितार्थ कर दिखाया ॥ ७ ॥

दिधंचुरन्तर्गतपापसञ्चयं

प्रतापवह्निर्बहुदग्धिवर्धनः ।

अहृदिवं यस्य मतैः समेधितो-

ज्वलत्यनन्ताज्ञजनेषु सर्वथा ॥८॥

जिनके मन्त्रियों से बड़ा हुआ अत्यन्तदाह-वर्धक प्रतापान्नि मनीषत पापपुंजों के जलाने की इच्छा करता हुआ बहुत से मूर्ख मनुष्यों के चित्त में आग भी बराबर जल रहा है ॥ ८ ॥

समस्तलोकान्तरहर्षवर्धनो-

जवेन शुक्लीकृतविश्वमण्डलः ।

संसार यस्माज्जगतीतलेनवो-

गणो गुणानां गणनाशतैर्धृतः ॥९॥

जिनसे प्रकट हुआ समस्त मनुष्यों के हर्ष का बढ़ानेवाला, अपने वेग से धारे विश्वमण्डल को शुक्ल (निर्मल या श्वेत) करनेवाला अगणित गुण-समूह आज जगत् में निरन्तर बढ़ रहा है ॥ ९ ॥

विजित्य यो मन्मथमप्रयत्नतो-

जितेन्द्रियत्वादिह योगमागतः ।

तृतीयनेत्रज्वलनप्रयासितां

जहास वेगाघ्नितरां कपर्दिनः ॥१०॥

योग को प्राप्त हो कर जिन्होंने इन्द्रियनिग्रह के द्वारा सहज ही में कामदेव को जीत कर महादेव के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्निज्वाला से उस का मरम होना हँस दिया ॥१०॥

महीतलेनन्तगुणप्रबोधिकां

त्रिवेद्वीथीमधिगम्य योनघः ।

गुणत्रयातीतपथोपगामिनीं

दधौ धरायां स्वयंशस्त्रिमार्गगाम् ॥११॥

जिस ऋषि ने पृथ्वी-तल में अनन्त गुणों के बतलाने वाली त्रिवेद्वीथी को प्राप्त कर अदृश्य मार्ग में चलनेवाली निज कीर्तिरूपिणी त्रिपथगा (गंगा) को पृथ्वी तल पर ही धारण कर दिखाया ॥ ११ ॥

भुवं समासाद्य सुखेन पार्वतीं

गणेशतामाप्तुमतीव यत्नतः ।

गुहागृहान्तःकृतयोगसाधनः

शिवंत्वमापाखिलविश्वभूतये ॥१२॥

पार्वती (पर्वतसम्बन्धिनी) भूमि को प्राप्त होकर जो ऋषि गुफाओं में योगसाधन करके गणेशत्व की कामना से, जगत् के कल्याण के लिए उद्योग करके शिवत्व को प्राप्त हो गये ॥ १२ ॥

श्रिया समाराधितपादपङ्कजो-

जयेन यद्वा विजयेन सङ्गतः ।

निरर्थकां वैष्णवलोककल्पनां

ततान विद्याविभवेन यो यतिः ॥१३॥

जिस ऋषि के चरण-कमलों की सेवा स्वयं छस्मी किया करती थी और जिसके साथ सदा जय और विजय रहा करते थे और इन्हीं कारणों से जो वैष्णव जनो की कल्पना को निरर्थक बना कर दिखा गया ॥ १३ ॥

मुधैव यः कौस्तुभरत्नकल्पनां
विधाय धीमानखिलेपि भूतले ।

धृतिक्षमाद्यैर्मणिभिः प्रशुम्भितां

स्वजं दधाद्विष्णुतयावतिष्ठते ॥१४॥

पुराणों में विष्णु मगधान् को कौस्तुभ मणि धारण करनेवाला बत-
लाया गया है, परन्तु जो ऋषि उस जड़ कौस्तुभ मणि की महिमा को व्यर्थ
बता कर धृति, क्षमा आदि सबे वृष नियमरत्नों की बनी हुई माळा को
धारण करके सर्वत्र व्यापक सा होकर विष्णुवत् विद्यमान है ॥ १४ ॥

न विद्यते क्वापि नु पन्नगासनं

रमा तदीशावपि कुत्रचिन्न तौ ।

मुधैव सर्वं परिकल्पितं जडै-

रिति स्फुटं यः समदर्शयज्जनान् ॥१५॥

जिज्ञ ऋषि ने सब को यह सिद्ध कर दिखाया कि न कहीं शेष है, न
छस्मी है, न विष्णु है—यह सब अज्ञानियों की निज की कल्पना
मात्र है ॥ १५ ॥

सरस्वती यस्य सदावतिष्ठते

सुनामधेयाप्रपदेतिशोभना ।

समस्तवेदार्थपटीयसी कथं

न तिष्ठताद्भ्रमपदे स देवराट् ॥ १६ ॥

जिनके सुन्दर नाम के साथ समस्त वेदार्थ के जानने वाली सरस्वती
सर्वदा विद्यमान रहती है वे देवराज विद्वानों में श्रेष्ठ होने के कारण ब्रह्मा की
पदवी को क्यों न प्राप्त हो ॥ १६ ॥

विरक्तवेशोप्यविरक्तवासनः

प्रकाममाकल्पितमव्यभावनः ।

अनेकविद्यारमणीयकामनो-

यदीयवेशो मुनिताममण्डयत् ॥१७॥

विरक्तो का सा वेश धारण करने पर भी धर्म-कार्यों की ओर से जिनके जी में कमी विरक्ति नहीं पैदा हुई, जो सदा उत्तरोत्तर उत्तम भावनाओं की कल्पना किया करते थे, जिनकी इच्छायेँ अनेक विद्याओं में रमण किया करती थी और जिनका वेश मुनिपन को भूषित करता था ॥ १७ ॥

न विश्वमध्ये निखिला गुणाः क्वचि-

द्भवन्ति नित्यं मनुजे विधेर्वशात् ।

इमं परीवादलवं निनीषवो-

गुणा यदीयं वपुरापुरादरात् ॥१८॥

संसार में समस्त गुण किसी एक मनुष्य में नहीं होते—यह कलंक आज तक गुणों में लगा हुआ था, परन्तु इसी कलंक के घेने के लिए समस्त गुणों ने ऋषि के शरीर में निवास करना आरम्भ कर दिया । ऋषि दयानन्द समस्त गुणों की खान थे—यह भाव ॥ १८ ॥

न कोप्यलं भूबलयेऽस्मदन्तरे

मुखं गताङ्कं समधादिमां शुचम् ।

विनाश्य यो दर्शनदर्पणेऽमले

समस्तमात्मानमधादधर्षितः ॥१९॥

दर्शन-रूपी दर्पणों को यही शोक था कि अभी तक हमारे सामने किसी की निर्मल मुखाकृति नहीं आई—अभी तक किसी ने हमारे द्वारा आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया—परन्तु ऋषि ने अपना पूर्ण आत्मा उन में लगा दिया । ऋषि समस्त दर्शन-शास्त्रों के ज्ञाता थे—यह भाव ॥ १९ ॥

न वेदसूर्योदयमन्तरा कलौ

जना गमिष्यन्ति समुत्थितिं पराम् ।

इति स्वचित्तेऽनुविचार्य दैवतो-

जगाम योत्रोदयशैलभावताम् ॥२०॥

जिन्होंने इस बात को जान कर कि कलियुग में वेदरूपी सूर्य के उदय हुए बिना मनुष्य नहीं जागेँगे, अपने आपको उदयगिरि बना लिया ॥ २० ॥

अधर्मपाखण्डविवादवर्धना-

समुत्थनानामतवादवारिदान् ।

विधूनयन्त्यो जगतीतलेनवं

ततान वेदोदितधर्ममुत्तमम् ॥२१॥

अधर्म, पाखण्ड और विवाद आदि से पैदा हुए मतमतान्तररूप बादलों को कम्पायमान करके जिसमें वैदिक धर्म को पूर्ण रूप से फैला दिया ॥ २१ ॥

यदीयवीर्यस्मृतिशङ्कितक्रमाः

पदे पदेधर्मपरा नृकौशिकाः ।

त्यजन्ति नाद्यापि भयं स्वहृद्गतं

महद्भयं कस्य भयाय नो भवेत् ॥२२॥

जिनके वीर्य को याद करके फितने ही अधर्मी लोग पद पद पर शंका करते हैं—भयभीत होते हैं—और महापापी मनुच्यरूप दिवान्ध अपने हृदय के डर को अभी तक नहीं दूर करते । मतलब यह कि जिनके भय से अधर्मी लोग सदा भयभीत रहते हैं ॥ २२ ॥

निवार्य यो वेदविरुद्धमण्डलं

महीतले तर्कवलेन वेदवित् ।

विधाय तामार्यमनुप्यपद्धतिं

बभूव धर्मेचितकार्यतत्परः ॥२३॥

जो वेदविरुद्ध मण्डल संसार में अपने तर्क-बल से अवैदिक मनुजमण्डल को हटा कर आर्यपुरुषों के जाने योग्य सुमार्ग बनाते हुए धर्मकार्यों में सदा तत्पर रहे ॥ २३ ॥

अनाथदीनार्तदशानिवारणं

विधाय कन्यासुतपाठनालयान् ।

पुरे पुरे यः स्वपरिश्रमैरलं-

चकार सामाजिकमन्दिराण्यपि ॥२४॥

जिन्होंने प्रनाथों की दीन दशा को दूर करके कन्या और पुत्रों के छिपे पाठशाळायें खुलवाईं और अपने ही परिश्रम से नगर नगर और गाँव गाँव में समाजमन्दिर निर्माणा करवाये—आर्यसमाज स्थापित किये, यह भाव ॥ २४ ॥

षडङ्गवेदाध्ययनं मतान्तरा-

त्रिवृत्तिमप्यार्यजनेषु विन्यसन् ।

समस्तलोके युगपत्समुत्थिता

क्रमाद्दिदीपे बहु यत्कृतिद्युतिः ॥२५॥

जिनके कर्मों का प्रभाव एक ओर आर्यजनों को षडङ्ग वेदों के पढ़ाने में और दूसरी ओर मतमतान्तरों से इताने में लगा हुआ संसार भर में एक साथ उठकर क्रमशः बढ़ने लगा ॥ २५ ॥

विवाहितामक्षतयोनिमुत्तमां

नियोगमार्गेण नियोज्य सत्पतौ ।

भुवस्तले मन्दजनोद्गतां कृतिं

निनाय नाशं व्यभिचारितां च यः ॥२६॥

जिन्होंने अक्षतयोनि विवाहित, किन्तु विधवा, कन्याओं को नियोग द्वारा दुबारा सनाथ बना कर, जगत् में अधम शीघ्रबोध और व्यभिचार नष्ट कर दिये ॥ २६ ॥

उपासनां पार्थिवमूर्तिसङ्गतां

निवार्य वेदोदितमातृपूजनम् ।

गुरोः सपर्यां जनकस्य सक्रिया-

मबोधयद्यः परमार्थसन्मतिः ॥२७॥

जिन परमार्थ बुद्धिवाले ऋषि ने पाषाण-मूर्ति की पूजा को दूर करके सबके छिपे वेद-विहित माता, पिता और गुरु की पवित्र पूजा बतलाई ॥ २७ ॥

शुभानि विद्याविनयार्जवादिभि-

र्गुणैरुपेतानि निबोध्य भूतले ।

सुखेन तीर्थानि जनान्परिश्रमा-

दवारयद्यो बहु धावनोद्गतात् ॥२८॥

जो ऋषि जगत् में विद्यादि गुणों से युक्त शुद्ध को तीर्थ-रूप बना कर
नाना देशों में जाने के भ्रम से मनुष्यों को बचा गये ॥ २८ ॥

बभूव यो वेदविरुद्धकारिणां

पुराणपद्योदरमर्मवेदिनाम् ।

अदृश्यकेतुर्विलयैकसूचकः

स्वतेजसा दर्शितसत्पथः कृती ॥२९॥

अपने तेज से दूसरों को सन्मार्ग दिखानेवाले जो ऋषि पुराणों के पद्यों
का मर्म जानने वाले, और वेद-विरुद्ध आचरण करनेवाले लोगों के लिए
नाशसूचक गुप्त केतु के समान प्रकट हुए ॥ २९ ॥

यदीयशिष्यैरघुनापि तादृशै-

र्न केवलं भारतमेव सत्वरम् ।

समस्तलोकोदरमानयिष्यते

क्रमेण वेदस्थितये सुवेश्मताम् ॥३०॥

जिनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिष्यों द्वारा इस समय न केवल भारतवर्ष ही
किन्तु समस्त संसार वेदों के प्रचार का ध्यान बनाया जायगा । जिन के
मुख्य मुख्य शिष्य अब भारत में ही नहीं सब देशों में वेदों का प्रचार करने
का उद्योग करेंगे—यह भाव ॥ ३० ॥

गता कथा यत्करुणावशाद्द्रुतं

कथावशेषं किल विश्वमण्डले ।

न लभ्यतेऽपि मुहुर्विलोडिता

तर्वेकविज्ञैरुदरंभरिद्विजैः ॥३१॥

जिन की कृपा से आज पुराणों की कथा केवल कथा मात्र हो रह गई, पुराणों के जाननेवाले उदरम्भरि लोगों के प्रयत्न करने पर भी कहीं दिखाई नहीं देतो ॥ ३१ ॥

असत्यनारायणनामनाशनं

विधाय लोके बहु येन कल्पिता ।

यथार्थनारायणपूर्णवर्णना

मनोविनोदाय समानधर्मिणाम् ॥३२ ॥

जिन्होंने असत्यनारायण की कथा को दूर कर के वेदप्रतिपाद्य सत्य परमेश्वर का पूरा वर्णन करना ही आर्यों के लिए सदा सर्वथा योग्य कर्तव्य बताया ॥ ३२ ॥

समस्तवेदाध्ययनादनन्तरं

समेत्य योगेश्वरभावमुत्तमम् ।

यशोवशिष्टो भुवने विधेर्वशा-

ज्जगाम यो मुक्तिमनन्तसौख्यदाम् ॥३३ ॥

सर्गापरांग वेदों को पढ़ कर योगिराज की पदवी को प्राप्त हो कर जो ऋषि अपने बड़के में अपना यज्ञ यहाँ छोड़ कर आप परमात्मा की प्रेरणा से अनन्त सुखदायिनी मुक्ति को पा गये ॥ ३३ ॥

परोपकारव्रतमेकमुत्तमं

निधाय लोके लघु ये मूर्तिं गताः ।

तएव धन्या महनीयतां गतं

यशोवपुत्वं चिरकालमालभन् ॥३४ ॥

जिन्होंने जगत् में परोपकार व्रत को धारण कर स्वामाधिक मृत्यु को प्राप्त किया और जो चिरकाल तक रहनेवाले यशोरूप शरीर को धारण करके धन्य हुए ॥ ३४ ॥

यदीयसद्धर्मपथावलम्बिनी

महत्त्वदीक्षा भुवने विराजते ।

विराजते विश्वतले स एव ना

यथा दयानन्दसरस्वती यतिः ॥३५॥

जिस के महत्त्वपूर्ण उपदेश जगत् में सम्मार्ग दिखानेवाले विद्यमान हैं वही महात्मा सर्वदा जीवित रहता है। दृष्टान्त—जैसे ऋषि दयानन्द विद्यमान हैं ॥ ३५ ॥

तद्दर्शनाय जगतीतलरत्नमेत-

त्काव्यं निरस्तपरकाव्यमुदारपद्यम् ।

लोकोत्तरस्मृतिमताऽऽर्यकवीश्वरेण

सर्गेः कृतं कुमुदिनीदयितेक्षणां कैः ॥३६॥

उन्हीं के दर्शन के लिए लोकोत्तर प्रतिभाशाली आर्य कविरत्न पण्डित अखिलानन्द धार्ष्णी ने इसीस सर्गों में बना कर यह काव्य पूरा किया। यह सरस काव्य संसार में स्मररूप होगा। इस के सामने अन्य कवियों के काव्य फीके पड़ जायेंगे ॥ ३६ ॥

जन्मनः प्रसृति यद्यद्वसुतं

कार्यमाचरितेमासृतेरत्नम् ।

तत्तदत्र सकलं विलोक्यतां

वैदिकाध्वगमने कृतव्रतैः ॥३७॥

वैदिक धर्मरूपी मार्ग में चलने का व्रत धारण करनेवाले आर्य पुत्र, ऋषि दयानन्द के जन्म से मरण पर्यन्त के सारे अवसृत कर्म, इस काव्य में देखें ॥ ३७ ॥

जयतु जयतु लोके वेदसूर्यप्रकाशो-

भवतु भवतु पश्चादाार्यधर्मप्रभावः ।

नयतु नयतु दूरं न्यायकारी दयानु-

र्नवमतबहुरोगं नूनमार्याधिवासात् ॥३८॥

अब सर्ग के अन्त में ग्रन्थकार आशीर्वाद देता है । इस जगत् में वेदरूपी सूर्य का प्रकाश जय को प्राप्त हो, आर्यधर्म का प्रभाव सर्वत्र फैले, न्यायकारी दयालु परमात्मा नवीन मतमत्तान्तर रूप रोगों को इस संसार से दूर करें ॥ ३८ ॥

इति भीमदक्षिणानन्दराम्मकृतौ सतिशके दयानन्दद्विजये महाकाव्ये .

महर्षिप्रभाववर्यानो नाम प्रथमः सर्गः ।



द्वितीयः सर्गः

तस्यैवाविधवृत्तस्य धीरोदात्तस्य धीमतः ।

देशभूमिरभूद्भव्या भव्यानन्तफलप्रदा ॥१॥

जिन ऋषि दयानन्द का धर्मन पदके सर्ग में हो चुका है उन्हीं धीरोदात्त भोमान् का जन्म भारतवर्ष के सुन्दर काठियावाड़ प्रान्त में हुआ ॥ १ ॥

यत्र नानावनोद्देशविराजद् वृक्षमण्डले ।

मण्डलीकृतसद्दर्हाः प्रनृत्यन्ति कलापिनः ॥२॥

जहाँ नाना प्रकार की सुशोभित वृक्षावली युक्त वन-भूमियों में मोर अपने पंखों को मण्डलाकार फैला फैला कर नाचा करते हैं ॥ २ ॥

अद्यापि यत्र विषये वसन्तो मनुजाः सुखम् ।

गणयन्ति न वैशेष्यात्स्वर्गस्थाममरावतीम् ॥३॥

जहाँ अच्छी तरह सुखपूर्वक रहते हुए मनुष्य स्वर्ग की अमरावती पुरी को भी कुछ नहीं गिनते ॥ ३ ॥

नानासस्यसमृद्धामिरारामतरुपङ्क्तिभिः ।

लसते परमा यत्र भूमिरप्यतिशोभना ॥४॥

जहाँ की अनेक सुखवती और उपवन युक्त मनोहर भूमि अत्यन्त शोभित होती है ॥ ४ ॥

पीनापीनभराक्रान्तलसन्मन्थरगामिनी ।

राजते नितरां यत्र गवामपि परा ततिः ॥५॥

जहाँ दूध से भरे हुए, अतपव भारी, ऊँच के भार से मंड़ मंड़ चलने वाली गायों की पंक्ति बहुत ही सुन्दर प्रतीत होती है ॥ ५ ॥

वापीकूपतडागेभ्यस्तोयाहरणहेतवे ।

गताः प्रतिपथं यत्न रमन्ते तोयहारिकाः ॥६॥

अहाँ बावड़ी, कुप और सरोवरों से जल छाने के लिए गई हुई पतिहारियाँ प्रत्येक मार्ग में लीड़ा किया करती हैं ॥ ६ ॥

पयोधरपतत्तोयसम्पन्नाञ्च विशोमिताः ।

देवमातृकतां यत्र गायन्ति बहु गोपिकाः ॥७॥

अहाँ मैवों से गिरे हुए जल के द्वारा पके हुए जेतों की गोपिकायें (रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ) अपने देश को देवमातृक कह कह कर गाया करती हैं ॥ ७ ॥

समस्तवस्तुविस्तारस्तुतिप्रस्तारभूषिता ।

पृथिवीतलरत्नाभा या कृता परमेष्ठिना ॥८॥

जिस देश की भूमि, मानो ईश्वर ने समस्त पदार्थों की उत्पादयित्री और धरित्री बना कर, समस्त भूमिखण्डों में रत्न-रूप बनाई है ॥ ८ ॥

तस्यामत्यन्तभव्यायां मौरवीराज्यमण्डले ।

सर्वशक्तिमतोनन्तशक्त्येव परिकल्पिता ॥९॥

श्रीमती मतिमन्मान्या माननीयजनान्विता ।

समस्तवस्तुबहुजा विद्यतेनुपमा पुरी ॥१०॥

[युग्मम्]

ऐसी छुन्दर भूमि में मौरवी प्रान्त के अन्तर्गत एक अनुपम पुरी है । वह पुरी सर्वशक्तिमान् की अनन्त शक्तियों से बसी हुई है, माननीय सज्जनों से युक्त है और अनेक अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण है ॥ ९—१० ॥

यत्न नैसर्गिकी काम्यकल्पनानल्पसुन्दरी ।

जनता जनतापानामपायाय विजृम्भते ॥११॥

जिस पुरी में अतिछुन्दर काम्य कल्पना करने वाला स्वामाधिक जन-समूह मनुष्यों के दुःख दूर करने के लिए समर्थ है ॥ ११ ॥

कामदेवतिरस्कारकारिणी यत्र सर्वदा ।

सर्वदा रूपसम्पत्तिर्जनानाक्रम्य वर्तते ॥१२॥

जिस पुरी के रहनेवाले मनुष्यों में ऐसी सुन्दरता रहती है कि जो कामदेव की सुन्दरता को भी मात करती है ॥ १२ ॥

नानावस्तुलसत्कोषपोषमाहपरायणाः ।

कुवेरमपि मन्यन्ते न यत्र धनिनो विशः ॥१३॥

जहाँ के धनी व्यापारी वैश्य, नाना प्रकार के पदार्थों से कोष करने मात्र का काम करने के कारण, कुवेर को भी कुछ नहीं गिनते ॥ १३ ॥

वारस्त्रीबहुभोगापि रक्तवर्णापि या पुरी ।

अखण्डितचरित्राढ्या चन्द्रिकोज्ज्वलतामिता ॥१४॥

बहुप्रकृतियुक्तापि स्थिरा चित्रितभित्तिभिः ।

प्रव्यक्तविश्वरूपेव सशैलेवोच्चवेशमभिः ॥१५॥

[युग्मम्]

जो पुरी धारणियों से परिपूर्ण होने पर भी सखरिजनों से युक्त है, लाल रंग की होने पर भी चन्द्रमा की चाँदनी से सफ़ेद है, अनेक प्राकृतिक पदार्थों से युक्त होने पर भी स्थिर है, चित्रांकित दीवारों से ऐसी मादूम होती है कि मानो सारे संसार की वस्तुओं को धारण करती है, ऊँचे ऊँचे मकानों से ऐसी मादूम होती थी कि मानो एक पर्वत बना लड़ा है ॥१४-१५॥

सन्व्यारागारुणा यत्र सिन्दूरमणिकुट्टिमे ।

सहस्रांशोरविश्रान्ता विराजन्ते गभस्तयः ॥१६॥

जिस पुरी में सन्व्याकाळ की लालिमायुक्त सूर्य की किरणें मकानों के प्रांगणों में लड़ी हुई लाल मणियों पर निरन्तर (रात भर) चमकती रहती हैं ॥ १६ ॥

भूषणप्रमया यत्र रजनीष्वपि योषिताम् ।

व्यर्थतां नीयते रम्या दीपकाली विलासिभिः ॥१७॥

जिस पुरी की स्त्रियों के भ्रामूषणों की ऐसी चमक और प्रभा होती है कि उनके सामने विलासी जन रात्रि में दीपावली को व्यर्थ समझते हैं ॥ १७ ॥

गुर्जरीवदनालोकलज्जामन्थरसंक्रमः ।

कलङ्कापनयं वाञ्छन्प्रासादानुपगच्छति ॥१८॥

जिस पुरी की स्त्रियों के मुख को देख कर छलित चंद्रमा कलंक मिटाने के लिए धीरे धीरे प्रासादों (महलों) को छू कर जाया करता है ॥ १८ ॥

सौधाग्रशायिवनितामुखालोकान्मदोद्धतः ।

पतितो यत्र छुठति प्रतिमामिषतो विधुः ॥१९॥

जिस पुरी में प्रासादों के ऊपर सोती हुई स्त्रियों के मुख-दर्शन से मदीयत अन्ध प्रतिमामिष से उनके चरणों में छोटता रहता है ॥ १९ ॥

प्रभातोत्थितहारीतपठ्यमानशुभाक्षरैः ।

प्राभातिव्यो विधीयन्ते व्यर्था मङ्गलगीतयः ॥२०॥

जिस पुरी में प्रातः समय पिंजरों से निकाले हुए तोते अपने पढ़ने की ध्वनि से प्रातःकालीन मङ्गलपाठ को भी मात करते हैं ॥ २० ॥

अस्थिरत्वं पताकानां मित्रद्वेषो निशात्रजाम् ।

कोषगुप्तिरसीनान्नु लक्ष्यते यत्र नान्यथा ॥२१॥

जिस पुरी में चंचलता पताकाओं में, मित्र से द्वेष शत्रुओं में, कोष में रहना तलवारों में पाया जाता है, औरों में नहीं ॥ २१ ॥

तस्यामुत्साहसम्पन्नो मतिमानप्रमेयभः ।

बभूव जगतीरत्नं द्विजोम्बाशङ्कराभिधः ॥२२॥

सहस्रोदीच्यविख्यातगुर्जरान्वयभूषणः ।

वंशेनल्पगुणग्रामः सामगे शास्त्रदर्शकः ॥२३॥

[शुक्लम्]

उसी पुरी में अम्बाशंकर नामक एक सहस्रोदीच्य ब्राह्मण रहता था । वह सामवेदी ब्राह्मण था । उसका विख्यात वंश गुर्जर नाम से प्रसिद्ध था । वह बड़ा उत्साही, बुद्धिमान्, अनुपम कान्तियुक्त, गुणागार, शास्त्रज्ञ और पृथिवी का रत्नरूप था ॥ २२—२३ ॥

आदर्शः सर्वशास्त्राणामाधारः करुणाम्भसाम् ।
 आरामो गुणवृत्ताणामाकारो ज्ञानसन्ततेः ॥२४॥
 तीर्थं विद्यावताराणां बोधको न्यायवर्त्मनाम् ।
 नेमिस्तसाहचक्रस्य सखा सत्यस्य तत्परः ॥२५॥
 गुरुगुणानां धैर्यस्य धाम स्थानं स्थितेः परम् ।
 सेतुः सत्यस्य धर्मस्य धाता पाता दरिद्रिण्याम् ॥२६॥

(विशेषकम्)

वह समस्त शास्त्रों का आदर्श, करुणास्रक का आधार, गुणरूपी वृत्तों का उपवन, ज्ञान की मूर्ति, विद्यावतारों का तीर्थ, न्यायमार्ग का बोधक, उत्साहरूपी पहिये की धुरी, सत्य का सखा, गुरुओं का गुरु, धीरता का स्थान, स्थिति का परम स्थान—आश्रय,—सत्य का सेतु, धर्म का धारक करनेवाला और दरिद्र पुरुषों का पावन करनेवाला था ॥ २४, २५, २६ ॥

तस्यासीदिन्दुवदना वेल्लेव पयसांनिधेः ।
 मदलेखेव करिणो लतेव सुवनस्पतेः ॥२७॥
 तारापङ्क्तिरिवाभ्रस्य नबिनीव सरस्वतः ।
 चन्द्रिकेव निशांपत्युर्ललनानल्पविभ्रमा ॥२८॥

(शुष्मम्)

उसके एक ही थी । उस का मुख चन्द्रमा के समान उज्वल था । जैसी समुद्र की वेला, हाथी की मणकेला, वृक्ष की लता, आकाश की तारा, सरोवर की पक्षिनी और चन्द्रमा की राशि होती है वैसी ही वह थी ॥ २७—२८ ॥

पत्युरिच्छानुकूलत्वाद्यया सर्वसतीव्रजः ।
 नीचैः कृतो महाधर्मशर्मतत्परया रसात् ॥२९॥

जिस उच्चम धर्म में तत्पर ही ने समस्त कार्यों को पति के इच्छानुकूल करने से समस्त सती-समूह नीचा कर दिया ॥ २९ ॥

सा महेशस्य कृपया दधौ गर्भमतिप्रभम् ।
 शुभाय सर्वलोकानां पृथ्वी निधिमिवोत्तमम् ॥३०॥

जैसे पृथ्वी मिट्टी को प्राप्त होती है वैसे ही वह भी, ईश्वर की कृपा से, समस्त लोकों के कल्याण के लिए उल्लवळ गर्भ को प्राप्त हुई ॥ ३० ॥

यदारभ्य गतो गर्भं दयानन्दो दयामयः ।

तदारभ्यैव भूतानामानन्दोभूदसंशयम् ॥३१॥

जिस समय ऋषि दयानन्द गर्भ में आकर प्राप्त हुए तभी से मनुष्यों को आनन्द प्राप्त होने लगा ॥ ३१ ॥

निवारयिष्यति ध्वान्तमयमेव भुवस्तलात् ।

इति मत्वा दिशोप्याशु गतशोका इवाभवन् ॥३२॥

यही गर्भ में आया हुआ ऋषि जन्म लेकर जगत् से संघकार को हटा-वेगा—पेला जानकर दिशायें भी शीघ्र निर्मल हो गईं ॥ ३२ ॥

कारणात्कार्यसम्पत्तिर्दृश्यते भूतले परम् ।

ऋषेरस्योदयारम्भे पूर्वतः फलमाभवत् ॥३३॥

लोक में कारण के अनन्तर कार्य होता है परन्तु इनके जन्म से पहले ही हर्षरूप कार्य होने लगा ॥ ३३ ॥

श्रीमानपि गतो गर्भं प्रसस्मार पुरातनीः ।

लोकाभ्युदयहेत्वर्था वैदिकीः प्रक्रियाः शुभाः ॥३४॥

ऋषि दयानन्द भी गर्भ में आकर विश्व के कल्याण करनेवाली वैदिक प्रक्रियाओं को गर्भ में ही सोचने लगे ॥ ३४ ॥

निर्गत्यैव करिष्यामि धर्ममार्यं भुवस्तले ।

इतिचिन्तयतोस्याशु स कालः समुपागमत् ॥३५॥

यत्रार्यजनचित्तानि प्रसन्नान्यभवन्ब्रुतम् ।

म्लानतामाययौ मन्ये तद्विरोधिजनव्रजः ॥३६॥

(शुक्लम्)

गर्भ से निकल कर ही आर्य-धर्म का प्रचार जगत् में करूँगा, पेला सोचते ही वह समय आ गया जिसमें कि आर्यजन प्रसन्न और उनके विरोधी मलिन हुए ॥ ३५—३६ ॥

मासि भाद्रपदे पक्षे सिते वारे बृहस्पतेः ।
 नवम्यां मध्यमायाते भास्करेपि विहायसः ॥३७॥
 नक्षत्रेतिशुभे मूले योगेतिप्रीतिवर्धने ।
 चन्द्राष्टवसुराकेशयोजनाल्लब्धभावने ॥३८॥
 विक्रमादित्यनृपतेर्वत्सरे जगतां गुरुः ।
 निर्गत्य जननीकुक्षेरागतो जगतीतले ॥३९॥

(विशेषकम्)

शंकों की वाम से गति हुआ करती है इस नियम से चन्द्र १ अष्ट ८ वसु ८ राकेश १ इनके योजन से निकले हुए १८८१ विक्रम संवत् भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, नवमी, बृहस्पतिवार. मध्याह्न के समय मूल नक्षत्र और प्रीति-योग में जगद्गुरु ऋषि दयानन्द माता की कुक्षि से निकल कर भूतल में पधारे ॥ ३७—३९ ॥

सहस्रांशुरिवोदग्रो ध्वान्तनाशनतत्परः ।

विरराज जनन्येव धरित्र्याङ्के निवेशितः ॥४०॥

अन्धकार को दूर करने में तत्पर प्रचंड सूर्य के समान ऋषि दयानन्द को, माता की तरह, पृथ्वी ने अपनी गोद में ले लिया ॥ ४० ॥

प्रसन्नाशमसन्नाशकाशि पुण्यविवर्धनम् ।

प्रमोदाय बभूवार्यजनानां तज्जनोर्दिनम् ॥४१॥

उसके जन्म का शुभ दिन आर्यजनों के लिए बड़ा हर्षवाचक हुआ, क्योंकि उस दिन समस्त दिशायें प्रसन्न—निर्मल—धीं और वह दिन असत्य का नाश कर के पुण्य का बढ़ानेवाला था ॥ ४१ ॥

धन्या सा जननी धन्यो जनकोपि स तादृशः ।

याभ्यामधर्मनाशाय दयानन्दोदयः कृतः ॥४२॥

उस माता तथा उस पिता को अन्धवाद है कि जिन्होंने अधर्म के नाश के लिये ऋषि दयानन्द को उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥

लब्धोदयो दयानन्दो दयानन्दविवर्धनात् ।

सिते पक्षे शशीवाप परमां वृद्धिमृद्धिमान् ॥४३॥

पृथ्वीतल पर उदय हो कर दया और आनन्द के बढ़ाने से दयानन्द
शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगे ॥ ४३ ॥

लसह्नावण्यललनालास्यलीलायिते गृहे ।

बाललीलालवोह्लासैर्लालयामास तं जनः ॥४४॥

सुन्दर छावण्यवाली स्त्रियों के नृत्य से छीछायमान गृह में बाललीलाओं
के उत्साह से उनको स्त्रीजनों ने खिलाया ॥ ४४ ॥

कापि दोलासमारूढं चालयामास तं बधूः ।

कापि भव्याङ्कगं कृत्वा तमाचुम्बदतिप्रभम् ॥४५॥

कापि तं भ्रामयामास कराङ्गुल्या मनस्विनी ।

शाययामास तं कापि पयः फेननिभे तले ॥४६॥

(युग्मम्)

कोई हिंडोले में छिटा कर उनको झुलाने लगी, कोई गोद में लेकर
धूमने लगी, कोई डँगली से घुमाने लगी और कोई दूध के फेन के समान
कौमल शाय्या पर सुला कर खिलाने लगी ॥ ४५—४६ ॥

क्वचिच्चरणविन्यासैः क्वचित्करतलस्थितैः ।

धरित्र्यपि तदानन्दं मेने निखिलविश्वसूः ॥४७॥

उनके हाथ और पैरों के झूने से, चारे संसार को उत्पन्न करनेवाली
पृथ्वी ने, बहुत आनन्द माना ॥ ४७ ॥

क्रमेणैवद्भ्रगते तत्र समयेतिलघुक्षणे ।

मोदमानजने शान्तनानोपद्रवविद्रवे ॥४८॥

देशाचारकुलाचारविचारवशतो जनैः ।

श्रीमतोकारि गोत्राङ्कं मूलशङ्करइत्यरम् ॥४९॥

(युग्मम्)

इस प्रकार बाललीला के समाप्त होजाने पर, शांत और निरुपद्रव शुभ
समय में देशाचार तथा कुलाचार के अनुकूल श्रीमान् का नाम "मूलशंकर"
रक्खा गया ॥ ४८—४९ ॥

मूलस्य धर्मरूपस्य वृद्धिमुद्दिश्य कल्पिता ।
अन्वर्थतामुपययौ मूलशङ्करकल्पना ॥५०॥

धर्मरूप संसार के मूल की वृद्धि की सम्भावना से रक्षा हुआ उनका नाम वास्तव में सार्थक हो गया ॥ ५० ॥

पञ्चवर्षमितावस्थे कालेनल्पशुभोदये ।
कृताक्षरलिपिर्योगावक्षरं प्रारभद्यशः ॥५१॥

अनन्त कल्याणकारक पाँचवें वर्ष में किया हुआ अक्षरारम्भजगत् में प्रक्षर यद्य के बढानेवाला हो गया ॥ ५१ ॥

वर्णिनो वर्णनीयस्य वर्णास्तस्य मुखोद्गताः ।
वर्णनीयमवर्णाद्या गुणं ययुरवर्णवत् ॥५२॥

अवर्णनीय चरितवाले उस वर्णी के मुख से निकले हुए अवर्णादि वर्ण वर्णनीय अवर्ण गुण को प्राप्त हुए ॥ ५२ ॥

पूर्वजन्मकृताभ्यासवशतस्तस्य धीमतः ।
स्वल्पेनैव प्रयासेन विद्यावृद्धिमुपालभन् ॥५३॥

बुद्धिवाली ऋषि के पूर्व जन्म में किये हुए अभ्यास के कारण समस्त विधायें थोड़ेही प्रयत्न से आकर वृद्धि को प्राप्त होगईं ॥ ५३ ॥

गर्माष्टमे ततो वर्षे निगमोक्तविधानतः ।
ध्रौपनायनिकी शिक्षा समभूत्तस्य शोभना ॥५४॥

अक्षरारम्भ के अनन्तर गर्भ से आठवें वर्ष में उनका वैदिक विधानपूर्वक सुन्दर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया ॥ ५४ ॥

वेदारम्भविधिव्याससमासक्तमनःक्रियैः ।
अकारि तस्य सर्वापि परिदत्तैरुचितक्रिया ॥५५॥

वेदारम्भ संस्कार के विस्तार को जाननेवाले पंडितों ने उनकी समस्त उचित वैदिक क्रिया को पूर्ण किया ॥ ५५ ॥

वेदीद्वयसमिद्धोभिर्मुहुश्चटचटायितैः ॥

आशीर्वादमिवादातुमुपागादस्य सन्निधिम् ॥५६॥

उपनयन और वेदारंभ की दो वेदियों में प्रज्वलित अग्नि चार चार चट चट शब्द के व्याज से आशीर्वाद देने को इनके पास आता था ॥ ५६ ॥

एतत्प्रेरणया लोके जना होमपरायणाः ।

भविष्यन्तीति निश्चित्य तुष्टिमापदुषर्बुधः ॥५७॥

इनकी प्रेरणा से संसार में समस्त जन हवन में प्रवृत्त होगे ऐसा जान कर अग्नि अपने चित्त में बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ५७ ॥

प्राज्याज्याहुतिसंलब्धहृव्यभागविकल्पनाः ।

योजयामासुराशीर्भिरेनं निखिलनिर्जराः ॥५८॥

बहुत सी वृत्त की आहुतियों के द्वारा यह-भाग पानेवाले देवतागणों ने इनको आशीर्वाद दिये ॥ ५८ ॥

दातुं दण्डमधर्माय मञ्जुलस्तस्य मञ्जुले ।

रराज हस्तकमले दण्डोप्याषाढसञ्ज्ञकः ॥५९॥

अधर्म को दंड देने के लिए उनके सुन्दर हस्त-कमल में आषाढ नामक पलाश का दंड बड़ी शोभा को प्राप्त हुआ ॥ ५९ ॥

व्रतबन्धनसन्धानसाधनोचितकल्पना ।

कुरङ्गशृङ्गसङ्कास्य शुशुभे नवकृत्तिका ॥६०॥

ब्रह्मचर्य के समस्त साधनों में एक साधनमूल शृंग-सहित कुरंग की कृत्तिका इस ऋषि के पास शोभायमान थी ॥ ६० ॥

शरकारण्डसमुत्पन्नमुञ्जमञ्जुलसद्गुणा ।

विललास विरावृत्ता मेखलास्य कटीतटे ॥६१॥

शरकण्डे से उत्पन्न हुए सुन्दर मुंज के द्वारा निर्मित त्रिगुण मेखला उनकी कमर में शोभा देखी थी ॥ ६१ ॥

सुवर्णतन्तुसम्पन्नयज्ञसूत्रविडम्बिनी ।

विरराजोपवीतश्रीरस्य वक्षसि विस्तृता ॥६२॥

सुवर्ण के तारों से निर्मित यज्ञ-सूत्र की तरह इस ऋषि के विशाल वसुल्यक में उपवीत की शोभा चमकती थी ॥ ६२ ॥

हैमशङ्कुलसद्दीप्तमत्स्यशोभानुकारिणी ।

धातुजालावृता तस्य पदयोः पादुका बभौ ॥६३॥

सुवर्ण की खूँटी की चमक से सुन्दर मत्स्य के समान चाँदी की जाली से डुनी हुई बड़ाई उनके पैरों में शोभा देने लगी ॥ ६३ ॥

गुरुगोपरिचर्यैकनिदानबहुसूचिका ।

दक्षिणांसे ऋषेरस्य तदासीदुपपादिका ॥६४॥

ग्राचार्य की गौ की परिचर्या को बतलानेवाली पावड़ी (छफड़ी की बनी हुई एक चीज कि जिस से गोबर हटाया जाता है) उस समय उनके दक्षिण स्कन्ध में विद्यमान थी ॥ ६४ ॥

अशेषशेमुषीशिल्पकल्पनान्तमुपेयुषी ।

पीताम्बरधरी तस्य मूर्तिरासीन्मनोरमा ॥६५॥

पीतांबर धारण करनेवाली उनकी मूर्ति सबको बहुत ही मनोरम मान्दगी होती थी । उनकी मूर्ति सब प्रकार की बुद्धियों और शिल्पकला के ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुँची हुई थी ॥ ६५ ॥

एवं धृतोपनयनश्रीविशेषविशोमितः ।

स महात्मा बभौ लोके पूर्णचन्द्रइवाम्बरे ॥६६॥

इस तरह धारण की हुई उपनयन की शोभा से वह ऋषि लोक में ऐसा शोभित होता था कि जैसे आकाश में चन्द्रमा ॥ ६६ ॥

जितेन्द्रियत्वमायातमवज्ञयनयोरयम् ।

पुरस्तात्क्षोररीचक्रे विधिं वैवाहिकं ऋषिः ॥६७॥

जब उनके सामने मज्जता दिखलाता हुआ जितेन्द्रियत्व आया तब उन्होंने उसकी रक्षा की और वैवाहिक विधि को आश्रय नहीं दिया ॥ ६७ ॥

यमानां नियमानाञ्च विशेषेण विचारणे ।

सम्मतिं विरतां लोकाददादुपशमेप्यसौ ॥६८॥

वैराग्य धर्मवाली अपनी वृत्ति को वे यम-नियमों और योग के विचार में ही सदा लगाते रहे ॥ ६८ ॥

एवं निरस्तकालिदोषमनङ्गवेग-

विध्वंसि वेदविहिताचरणप्रधानम् ।


वृद्धिं परामुपययौ विधिना समेतं

तद्ब्रह्मचर्यचरितं किल तस्य भद्रम् ॥६९॥

इस प्रकार कलिकाल के दोषों से अलग, कामदेव के मद को भंग करनेवाला, वेदविहित आचरण रखनेवाला उनका ब्रह्मचर्य प्रति दिन बढ़ने लगा ॥ ६९ ॥

इति भूमिदक्षिणानन्दशर्मकृतौ सतिकाके दयानन्दद्विजये महाकाव्ये

ब्रह्मचर्यवर्णनो नाम द्वितीय सर्गः ।



तृतीयः सर्गः

ततः स विद्याध्ययनाय विस्तृतं
विहाय सर्वं सपरिच्छदं गृहम् ।
जगाम देशान्तरमिष्टसिद्धये
न गेहभाजां प्रभवन्ति भूतयः ॥१॥

ब्रह्मचर्य्य प्राप्ति के अनंतर अभीष्ट विद्याध्ययन के लिय ब्रह्मचर्य्य विमर्शों से पूर्ण अपने घर को छोड़ कर वे देशांतर जाने के लिय उद्यत हुए, क्योंकि घर में रहने वाले पुरुषों के लिय विमूर्तिर्या कदापि प्राप्त नहीं होती ॥ १ ॥

गृहे पिता यद्यपि सामवेदगो-
ध्यजीगपद्याजुषमन्त्रविस्तरम् ।
तथापि धीमान्स जगाम पूर्तये
समस्तवेदाध्ययनस्य सद्व्रतः ॥२॥

यद्यपि उनके पिता सामवेद जानते थे और उन्होंने उनको यजुर्वेद पढ़ाया भी, पर तभी सांगोपांग चारों वेद पढ़ने के लिय व्रत धारण करके वे बाहर चले ही गये ॥ २ ॥

न मातरं नो पितरं न बान्धवान्
स बोधयामास निजाङ्गतिं कृती ।
भुवस्तजे कीर्तिमुपेयुषो नवां
यतोन्तरायाः प्रभवन्ति बान्धवाः ॥३॥

जाने के समय उन्होंने अपना अमित्राय माता-पिता आदि बांधवों से कहना अच्छा न समझा, क्योंकि जगत् में कीर्ति चाहनेवालों के लिए बान्धव विघ्नरूप होते हैं ॥ ३ ॥

क्व गेहमोहः क्व च बान्धवस्मृतिः
क्व शोकदारिद्र्यभयानि भूतले ।
भवन्ति भव्यार्थविचारशालिनां
मनोविकारप्रभवा हि ते यतः ॥४॥

विचारशीलों के लिए घर का मोह, बन्धुओं का याद आना, शोक, दारिद्र्य, भय आदि कुछ नहीं हुआ करते, क्योंकि यह सब मन के विकार से उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥

स वंशबुद्धिर्भवनाद्विनिर्गतो-
विचारयामास पुरः पुरान्तरे ।
किमत्र कर्तव्यमनन्तसौख्यदं
मयामरत्वाय महीतलेचिरात् ॥५॥

बाँस के समान तीक्ष्ण बुद्धिवाले अरिषि घर से निकल कर किसी दूसरे गाँव में जाबैठे । वे वहाँ बैठ कर यह सोचने लगे कि मनुष्य अमर-पदवी को कैसे प्राप्त कर सकता है ॥ ५ ॥

तदेव कर्तव्यमिहास्ति भूतले
जनेन लब्ध्वा जनिमुत्तमे कुले ।
निसर्गरम्या नवकीर्तिसन्तति-
र्भवेद्यथा सभ्यजनेषु निश्चला ॥६॥

इस भूतल में उत्तम कुल में जन्म लेकर मनुष्य को वही कर्म करना उचित है जिससे सम्यजनों में अपनी कीर्ति निश्चल बनी रहे ॥ ६ ॥

तथा न काचित्किल कल्पना यया
समस्तमिष्टं प्रभवेन्नृणां यथा ।

अशेषकाम्यार्थफलोपधायिनी

सुधेव विद्या सकलेष्टकामधुक् ॥७॥

जैसी समस्त चाँछित फलों की देनेवाला अमृत के तुल्य विद्यारूपिणी कामधेनु है वैसा अन्य कोई पदार्थ नहीं दीजता ॥ ७ ॥

इति स्वचेतस्यवधार्य सर्वथा

स मुक्तबन्धो जगदेकशासकः ।

तथामरत्वाय चकार शेमुषीं

यथा न चक्रे किल कोपि मानवः ॥८॥

समस्त बन्धनों से मुक्त और जगत् के एक मात्र शासक ऋषि इसी तरह मन में विचार कर अमर होने के लिए ऐसा उपाय सोचने लगे कि जैसा आज तक किसी मनुष्य ने नहीं सोचा ॥ ८ ॥

बहूनि वेदाङ्गमयानि पुस्तका-

न्यधीत्य कालाल्पतयैव बुद्धिमान् ।

मुदैव मेने वसिति स्वहृद्गतां

समस्तवेदस्य विचित्रविक्रमः ॥९॥

योड़ेही समय में बहुत से निबन्धादि वेदांगों को पढ़कर विशिष्ट चाँफि होने से समस्त वेदों की पूर्ति को अपने मन में मानने लगे अर्थात् शीघ्रही समस्त वेदों को मैं पढ़ूँगा ऐसा साहस करने लगे ॥ ९ ॥

यमीश्वरो वाञ्छति वेदपारंगं

विधातुमुत्कृष्टधियातिसत्वरम् ।

नियोजयत्यान्तरतम्यभावना-

वशादिवोदारपरिश्रमे स तम् ॥१०॥

जिस पुरुष को परमात्मा वेद का पारंगत बनाना चाहता है उसको विशेष ब्या से निर्मल बुद्धि देकर शीघ्रही परिश्रम करने में लगा देता है ॥ १० ॥

यदा निजं नव्यवपुर्मदालसं
परिश्रमे शास्त्रगते समालभत् ।
तदा स्ववेषस्य विपर्यये मनो-
ददौ स धीमानभिधापदस्य च ॥११॥

जब वे अपने नवीन शरीर को शास्त्र के परिश्रम में आलस्ययुक्त देखने लगे तब धैर्य द्वारा मन को रोक निज वेश तथा नाम के बदलने में प्रवृत्त हुए ॥ ११ ॥

कृतोपि देवादधिगत्य नैष्ठिकं
स वर्णिनं वर्णितमुत्तमैर्जनैः ।
अवाप दीक्षां यतिवस्त्रधारिणीं
विशुद्धचैतन्यपदं च निर्भयम् ॥१२॥

उसी समय कहीं से एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी दैवयोग से वहाँ आगये ।
उन्होंने ऋषि ने दीक्षा ली, काषाय वस्त्र धारण किये और शुद्ध चेतन ब्रह्म-
चारी नाम रखाया ॥ १२ ॥

कषायधारी कमनीयकामनः
करेप्युपात्तैककमण्डलुर्यतिः ।
प्रचक्रमे सिद्धपुरं स सिद्धये
सरस्वतीतीरगतं महामनाः ॥१३॥

इसके बाद काषायवस्त्रधारी, मङ्गल कामनावाले ऋषि कमण्डलु
हाथ में लेकर अपनी इष्टसिद्धि के लिये सरस्वती के तट पर बसे हुए
सिद्धपुर नामी नगर में पहुँचे ॥ १३ ॥

अमन्सरस्वत्युपकण्ठपत्तने-
ष्वर्यं सदण्डेषु यतिष्वनन्तरम् ।
चचार दण्डग्रहणैककामनो-
निगूहयन्स्वं मनुजेभ्य आदृतः ॥१४॥

वे बृष्णी संन्यासियों के साथ गाँव गाँव फिरते थे और बृष्ण ग्रहण करना चाहते थे। जब उनके कुटुम्बी जन उन को ढूँढ़ने के लिए आते थे तब वे छिप जाते थे ॥ १४ ॥

विचारयत्येव यतौ स्वबान्धवान्
समागतास्ते परितोन्ववेष्टयन् ।

मुनिं मनुष्यादिसुरक्षणेभ्यैः

परं ततोपि प्रजगाम यत्नतः ॥१५॥

परन्तु एक दिन वे बहुत छिपे, तो भी उनके बान्धवों ने उनको गुप्त रीति से आ घेरा। किन्तु अपनी खतुरता और यत्न से वे वहाँ से भी जन को बचे गये ॥ १५ ॥

शुचान्वितो बान्धवसज्जनोपि तं
यदा विचिन्वन्न समालभत्पदम् ।

तदा परावृत्य निराशतामगा-

त्तदीयसम्मेलनभाषणादिषु ॥१६॥

जन आने के अनंतर अन्वेषण के लिए इधर उधर निकले हुए बान्धवों ने जब उनको न पाया तब उनसे निराश हो कर वे अपने घर को छोट गये ॥ १६ ॥

स वर्णिवेशोपि सवर्णितां गतः

समानवर्णैर्बहुवर्णिभिर्यतिः ।

सवर्णभावं न जहौ सवर्णिनां-

विवर्णभावेपि सवर्णशासनात् ॥१७॥

ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की अवस्था में स्वामी ब्रह्मानन्द जैसा वेश रखाते थे वैसा ही वेश उनके और साथी ब्रह्मचारी भी रखाते थे किन्तु उनके कितने ही साथी ब्रह्मचारियों ने अपना वेश बदल दिया परन्तु स्वामी ब्रह्मानन्द ने अपना वेश पूर्ववत् ही स्थिर रखा, बदला नहीं ॥ १७ ॥

न योगमार्गेण विना स्थिरम्मनो-
भविष्यतीति प्रविचार्य मानसे ।

विशुद्धभावादरमाश्रमान्तरे

ययौ स सत्सङ्गतये च धार्मिकः ॥१८॥

विना योगाभ्यास के मन कदापि स्थिर न होगा ऐसा निश्चय कर के वे संन्यास धारण तथा सत्संग-द्वारा योग सीखने के लिए दक्षिण देश को गये ॥ १८ ॥

स वर्द्धमानादिपुरेषु विश्रम-

न्न वाप पूर्वं किल चेतनं मठम् ।

नवीनवेदान्तिषु वादकल्पनां

प्रवर्तयन्नैजबलेन वेगवान् ॥१९॥

मार्ग में वर्द्धमान आदि नगरों में विश्राम होते हुए ब्रह्मानंदादि नवीन वेदांतियों के साथ विवाद करते करते वे सब से पहले चेतनमठ में पहुँचे ॥ १९ ॥

समेत्य यत्नेन यतिं महासतिं

विजित्य शास्त्रैकविचारकल्पनैः ।

चिदाश्रमाद्यैर्विवदन्समाश्रिता

सुनर्मदातीरवनस्थपद्धतिः ॥२०॥

वहाँ आकर आपने वहाँ रहते हुए सच्चिदानंद परमहंस को शास्त्रार्थ में जीत कर चिदाश्रम आदि संन्यासियों के साथ विवाद करने करते नर्मदातट के बन का मार्ग लिया ॥ २० ॥

तटे तदीये बहुभिः प्रकल्पयन्

स शास्त्रचर्चा सह नग्नसाधुभिः ।

प्रकल्पयामास निवासमुत्तमं

महात्मनां संगतिमेत्य दुर्बभाम् ॥२१॥

उस नर्मदा के तट पर बहुत से महानर्दादि नम्र परमहंसों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए उनके संगम को उसम जाग वे कुछ दिन वहीं निवास करने लगे ॥ २१ ॥

नवीनवेदान्तमथानि पुस्तका-

न्यधीत्य तत्रैव कुतोपि कानिचित् ।

प्रसङ्गतः प्राप्तमुदारदर्शनं

यतिं प्रपेदे परतः सदण्डकम् ॥२२॥

वहीं पर परमानन्द नामक एक परमहंस से वेदात परिभाषा आदि कुछ पुस्तकों को पढ़कर वे अकस्मात् आये हुए उदारदर्शन वृंढी पूर्णानन्द सरस्वती से मिले ॥ २२ ॥

निजान्नु तस्मै विनिवेद्य सम्मतिं

निरोधितोपि श्रुतिचोदनादिभिः ।

स तेन संन्यासपदं यथाक्रमं

विधेर्विधानादलभत्ततो यमी ॥२३॥

उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करके उनके मना करने पर भी आपने उन्हींसे विधिपूर्वक संन्यास धारण कर "स्वामी वयानन्द सरस्वती" नाम पाया ॥ २३ ॥

निजस्य वेशस्य विपर्ययन्तथा

- शुभस्य नाम्नोपि विधाय निर्भयः ।

समस्तलोकव्यवहारविस्तरे

निजं मनो योगपथे न्यवेशयत् ॥२४॥

अपने वेश तथा नाम को पलट कर समस्त लोक-व्यवहारों में निर्भय हो कर वे अपने मन को योग-मार्ग में लगाने लगे ॥ २४ ॥

स चापि वृत्त्वा विधिवन्महात्मने

यतित्वदीक्षां महितः सदण्डिकाम् ।

परां च सर्वोपनिषद्गतिं मुदा

जगाम तीर्थाटनबद्धनिश्चयः ॥२५॥

वे पूर्वोक्त भी उनके लिए विधिपूर्वक सङ्घ संन्यास-दीक्षा और उपनिषद् रूप परा विद्या को भी देखकर आनंदपूर्वक तीर्थाटन के लिए चले गये ॥ २५ ॥

परोपकारैकपरः क्व सद्गुरुः

क्व चापि दीक्षावसरः क्व सङ्गमः ।

समस्तमेतत्परमात्मना कृतं

निजेच्छया भाति विचारणे कृते ॥२६॥

कहाँ ऐसे परोपकारी गुरु का मिलना । कहीं दीक्षा का होना । और कहीं देनों का परस्पर मिलना । ये सब बातें ईश्वर ने अपनी इच्छा से ही इकट्ठी करवाई ॥ २६ ॥

समुद्रमध्यादवसानतोदिशा-

मथान्तरीपाद्भुत वा नभस्तलात् ।

काटित्यभीष्टं घटयत्ययन्त्रितः

समक्षमेकान्तमुपागतो विधिः ॥२७॥

जब विधाता अद्भुत होता है तब मनुष्य का काम, चाहे वह समुद्र की नीची तह में हो या आकाश के ऊँचे से ऊँचे परदे पर, हीन ही सिद्ध हो जाता है ॥ २७ ॥

स चापि योगाश्रममाप्य यत्नत-

स्तदेकनिष्ठं विधिनानुमोदितः ।

अशिक्तानुत्तमसौख्यसत्फलं

सुयोगमार्गं मदनप्रणाशनम् ॥२८॥

स्वामी दयानन्द भी, ईश्वर के अनन्य भक्त और योगी योगाश्रमजी को पाकर उनसे उत्तम सुखदायक और मदनविनाशक योग-विद्या को सीखने लगे ॥ २८ ॥

कृतासनं धारणयानुयन्त्रितं

समाधिमद्भ्यानपरं यमोज्ज्वलम् ।

निरोधयन्तं मरुतोन्तरस्थिता-

निमं न के योगिजनास्तदाभ्ययुः ॥२६॥

जिस समय स्वामी ध्यानन्द प्राप्तन लगा कर समाधि लगाते और धारणा के बल से ध्यान में मग्न हो कर प्राणायाम करते थे तब उनके दर्शन करने के लिए अनेक योगी जन आते थे ॥ २६ ॥

विहाय तत्रैव स दण्डविक्रिया-

मितस्ततो विश्रुतपण्डितव्रजः ।

समस्तवेदाङ्गविलोकनोत्सवे

कृतोद्यमोभूदतिपुण्यदर्शनः ॥३०॥

उसी योगाश्रम में दण्ड त्याग कर, पास पास पण्डितों को बुनते हुए वे समस्त वेदांगों के पढ़ने के लिए उद्यत हुए ॥ ३० ॥

अधीत्य योगागममागमोत्तमं

समध्यगीष्टायमथैकपण्डितात् ।

नवामलं व्याकृतिविस्तृतिं तथा-

वशिष्टवेदागमपद्धतिं च ताम् ॥३१॥

शास्त्रों में उत्तम योगदर्शन को पढ़, आप फिर ऊँच शास्त्री से नवीन व्याकरण और अवशिष्ट वेदों को भी पढ़ते रहे ॥ ३१ ॥

यथा यथा यत्र च या नवा कला

समीक्षिता तेन कुशाग्रबुद्धिना ।

तथा तथा तत्र च सा कलाचिरा-

दशिक्षि शिक्षाविनयेत् सुन्दरी ॥३२॥

जो जो जैसी जैसी नवीन कला वहाँ वहाँ पर आपने देखी वह वह कला वहाँ वहाँ से यथोचित विनयपूर्वक प्रश्न की ॥ ३२ ॥

न सर्वलोकः किल सर्वविद्भव-
 त्ययं नयो यो जगतीतलेचलः ।
 तमेव मत्वा स चचार चारवत्
 स्वकार्यसिद्धिप्रवणैकसाधनः ॥३३॥

“सर्वः सर्वं न जानाति” यह दृष्टांत जो भ्राम कल जगत् में स्थिर है उसी को विचार कर निज कार्य-सिद्धि के लिए आप दूत की तरह भ्रमण करते रहे ॥ ३३ ॥

अथ प्रसङ्गादधिगत्य योगिनौ
 पुनः स योगं सकलं सदर्शनम् ।
 समीक्ष्य विद्योपगमाय यत्नत-
 स्ततोर्बुदं नाम जगाम पर्वतम् ॥३४॥

फिर स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रसंग से ज्वालानन्द शिवानन्द इन दोनों योगियों से योगदर्शन को दुबारा पढ़ कर विद्योपार्जन के लिए भावू पहाड़ को चले गये ॥ ३४ ॥

अगोत्तमे तत्र स राजयोगिभिः-
 समं समास्थाय सुखेन साधनैः ।
 सुदुस्तरान्योगसमाधिविस्तरा-
 नवाप्य तस्मादपरं ययौ गिरिम् ॥३५॥

उस भावू पर भवानीगिरि आदि बड़े बड़े योगियों के साथ रह कर उनसे अतिदुर्लभ समाधि क्रिया को सीख कर फिर वहाँ से भी भवानीशिवर को चले गये ॥ ३५ ॥

समेत्य तत्पण्डितमण्डलीगतः
 समस्तशास्त्राणि सहाङ्गकौरयम् ।
 विविच्य तेभ्योधिकविद्भवू किं
 न वा दयानन्दसरस्वती यतिः ॥३६॥

वहाँ पहुँच कर अनेक विद्वानों में रहते हुए भंग सहित छः शाकों को पढ़ कर क्या वे उनसे अधिक न हुए ? ॥ ३६ ॥

इति क्रमेणाप्य स वाङ्मयोदधेः

परं तटं योगबलेन सत्वरम् ।

निजोन्नतौ दत्तमनास्तथाभव-

द्यथा न कोप्यस्य पुरोभवत्परः ॥३७॥

इस प्रकार वे अपने योगबल से वाङ्मय समुद्र (विद्यासमुद्र) के दूसरे तट पर पहुँच कर अपनी उन्नति में इस प्रकार लगे रहे कि आज तक उनकी समता किसी ने नहीं की ॥ ३७ ॥

अलम्भि या यत्र नवा कला सता

खवहूनिवर्षावधि तेन तत्र ताम् ।

विनीतभावेन समेत्य दर्शिता

निजश्रमस्याधिकता भुवस्तले ॥३८॥

तीस वर्ष की अवस्था तक उनकी यह दशा रही कि जब और जहाँ कोई अच्छी बात उन्हें मिली उसे उन्होंने बड़ी नम्रता से ग्रहण किया। उन्होंने जगत् में अपने परिश्रम की पराकाष्ठा दिखायी ॥ ३८ ॥

दिगम्बरीभूय दिगम्बरैरयं

वृतः समन्तादनुगामिमिस्ततः ।

जगाम कुम्भस्य विदक्षया द्रुतं

पुरं हरेर्जह्नुसुतातटस्थितम् ॥३९॥

फिर वे कौपीनमात्रचारी (दिगम्बर) हो कर अन्य दिगम्बर ब्रह्म-यारियों के साथ कुम्भ देवता की इच्छा से हरिद्वार पधारे ॥ ३९ ॥

निनाय तत्रैव दिनानि कानिचित्

सचण्डिकापर्वतगङ्गरोवरे ।

नवीनयोगाभ्यसनक्रियाकला-

निविष्टचेता बहुसाधुभिः समम् ॥४०॥

नवीन योग-क्रिया में दृत्तचित्त हो कर वे हरिद्वार में चंडी पर्वत पर बहुत साधुओं के साथ कुछ दिन व्यतीत करते रहे ॥ ४० ॥

गते समस्ते जनताजने पुन-

दिदृच्छया दिग्वसनो यतीश्वरः ।

शुभं हृषीकेशमगात्स्वसिद्धये

विहाय सर्वानपि सङ्गमाश्रितान् ॥४१॥

कुम्भ का मेला समाप्त होने पर जब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तब वे भी योग की पुष्टि के लिए साधियों को वहीं छोड़ कर हृषीकेश चले गये ॥ ४१ ॥

दिनानि तत्रापि बहूनि संवस-

न्यदृच्छया संगतिमागतौ नवौ ।

स पार्वतीयौ समुपेत्य वरिणौ

जगाम टीरीनगरं नगाश्रितम् ॥४२॥

वहाँ वे बहुत दिन तक रहे। वहाँ भी उनके पास बहुत से ब्रह्मचारी आकर इकट्ठे हो गये। फिर वे उन्हीं ब्रह्मचारियों के साथ पर्वत पर बसे हुए टिहरी नगर को चले गये ॥ ४२ ॥

निमन्वितस्तत्र जनैर्यथायथं

गतागतैर्भोजनवस्तुसंगताम् ।

अशुद्धतामीक्ष्य घृणामुपेयिवा-

न शुद्धिभाजो विरमन्त्यशुद्धिषु ॥४३॥

वहाँ पर लोग उन्हें अपने घर लेजा लेजा कर मोसन कराने लगे। पर उन लोगों के घरों की अशुद्धता को देख कर उनको बड़ी घृणा हुई। क्योंकि शुद्धि से रहनेवालों को अशुद्धि में प्रसन्नता नहीं होती ॥ ४३ ॥

रसादनिच्छन्नपि वासमात्मवित्

स तत्र देशव्यवहारपद्धतेः ।

समक्षभावेन परीक्षणेच्छया

निनाय कालं कमपि क्रमागतम् ॥४४॥

यद्यपि वहाँ पर अधिक रहने की उनकी इच्छा न थी तथापि वहाँ के रीति-व्यवहारों के देखने और जानने की इच्छा से वे कुछ दिन तक वहाँ ठहरे रहे ॥ ४४ ॥

विलोक्य सर्वाण्यपि तन्त्रपुस्तका-

न्ययं सुखेनात्र यतीश्वरो घृणाम् ।

गतः परामामिषमद्यवर्णनै-

रतोहि लक्ष्मीनगरं समागमत् ॥४५॥

वहाँ पर उन्होंने सब तन्त्र-ग्रन्थों को देखा था । उनमें किसी हुई मांस-मद्य की बातों को पढ़ कर उनके जी में बड़ी घृणा हुई । फिर वे वहाँ से श्री-नगर चले गये ॥ ४५ ॥

क्रमेण केदारतटे कृतालयो-

बुधेन गङ्गागिरिणा समं कृती ।

चकार शास्त्रादिषु वादकल्पनां

मुदैव मासद्वितयं स सन्मतिः ॥४६॥

वहाँ उन्होंने केदारघाट को अपना निवास-स्थान बनाया और वहीं के रहने वाले गंगागिरि के साथ शास्त्र-विचार करते हुए वे कोई दो मास तक वहाँ रहे ॥ ४६ ॥

ततः परं तेन समं महात्मभि-

र्गतेन रुद्रादिपुरीषु संस्थितिम् ।

दिनैककंकल्पयता मुनिस्थली

नगोदरीभूतदरीव सेविता ॥४७॥

वहाँ से चढ़ कर उन्होंने महात्मार्यों के साथ रुद्र प्रयागादि नगरों में एक एक दिन व्यतीत कर पर्वतों में शुद्धा के समान शुभ भगवन्त मुनि के सिद्धाभ्रम का सेवन किया ॥ ४७ ॥

शरद्वृतुं तत्र समाप्य साधनै-

स्ततः परावृत्य यथाक्रमं कृती ।

स शुभकाश्यादिषु संवसन्त्ययौ

हिमालयं सज्जनमार्गणोद्यतः ॥४८॥

वहाँ पर योग साधन द्वारा शरद ऋतु को बिता कर लौटते समय शुभ काशी आदि स्थलों में विभ्राम ले कर वे सज्जनों की शोका में हिमालय पर चढ़ने लगे ॥ ४८ ॥

यथाकथञ्चित्कतिचिद्दिनान्यहो-

नयन्स तत्रापि विचारवर्द्धनैः ।

महात्मनामेव विलोकनेच्छया

समारुरोहाचलमभ्रसुन्दरम् ॥४९॥

वहाँ पर भी विचार करते हुए वे कुछ दिन बिता कर, सिद्धों के दर्शनों की इच्छा से, मेघों से सुन्दर तुंगलाय पर्वत पर चढ़े ॥ ४९ ॥

निरीक्ष्य तत्रातिवनानि तत्परं

मठांश्च नानाविधसिद्धसेवितान् ।

जगाम सोरं बदरीवनाश्रमं

बृहन्नदीर्बाहुबलेन वारयन् ॥५०॥

वहाँ पर अनेक धन और नानाविध मठों को देखते हुए विशेष काम के लिये नदियों को पैर कर बदरिकाश्रम गये ॥ ५० ॥

निवासमाकल्पयता महात्मना

सुखेन तस्मिन्बदरीवने शिवे ।

व्यधायि चर्चाखिलवेदविस्तरे

निजोचिता रावलयोगिना समम् ॥५१॥

उन्होंने वहाँ पर भी एक रात्रिभर निवास कर वहाँ के रहनेवाले रावल
योगी के साथ समस्त वेद विषय में विचार किया ॥ ५१ ॥

पुनर्दिहृत्तावशतो दिनोदये
समेत्य कूटं हिमवत्परिभ्रमन् ।
ददर्श साभ्रानचलान्न कुत्रचित्
स योगिनां वासमतोवतीर्यवान् ॥५२॥

सूर्योदय के समय फिर वहाँ से सिद्धों की दिहृसा से पर्वत के शिखर
पर चढ़ कर जब उन्होंने हिमालय के सिवा और कुछ न देखा तब वे धीरे
धीरे नीचे को उतरने लगे ॥ ५२ ॥

नदीं समुत्तीर्य गतः परंतटं
यदा न तत्राप्यवलोकयत्सुधीः ।
समाधिनिर्धूतमलान्स योगिनो-
निजाश्रमं गन्तुमनास्तदाभवत् ॥५३॥

मार्ग में एक नदी आ गई । उसको पैर कर वे परती पार चले गये । जब
वहाँ भी कोई योगी न मिला तब वे बदर्याश्रम को लौट आये ॥ ५३ ॥

दिनात्यये सहदरीवनेमुना
हिमादनं यत्परिकल्पितं चुधा ।
तदेव मूर्च्छोदयकारणं मुने-
र्वभूव देहान्तकरं सुदुःसहम् ॥५४॥

बदर्याश्रम में पहुँच कर जब उनको भूक लगी तब सन्ध्या-समय उन्होंने
बर्फ खा लिया । उसके जाने से उनको प्राणान्तक वेदना हुई और मूर्च्छा
भी हो आई ॥ ५४ ॥

जनद्वयं देववशादुपागतं
समीक्ष्य ताभ्यां सममेव तद्गृहम् ।

तदाययावर्थनया ततः परं

जगाम तीर्थान्तरमुद्यमोद्यतः ॥५५॥

उनकी मूर्च्छा बुर हुई ही थी कि इतने में कहीं से दो आदमी उनके पास आये। उन्होंने स्वामीजी को अपने घर लेजाने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की। स्वामीजी उनके घर चले गये। रात भर रह कर फिर वे वहाँ से भी चले दिये ॥ ५५ ॥

स सङ्गमे सङ्गतिमाप्य योगिनां

प्रसिद्धमेकं वसुधाभिधं पुरम् ।

प्रचक्रमे स्वल्पनदीसमुद्भवे

न धर्मभाजो विरमन्ति दुःखतः ॥५६॥

नदियों के संगम के साथ ही साथ उनको योगियों का भी समागम होता गया। वहाँ से फिर वे सिद्धपथ जाने की तैयारी करने लगे। वे दुःखों से नहीं घबराते थे, क्योंकि धर्मात्मा जन दुःखों से नहीं हटा करते ॥ ५६ ॥

अवाप्य तत्रापि गतिप्रयोजनं

ततोऽग्रं मार्गमलभ्य धैर्यतः ।

अवातरत्तं क्रमशो हिमालयं

निजेष्टसंसिद्धिमुदानुमोदितः ॥५७॥

जब सिद्धपथ में पहुँच कर भी उनके जाने का प्रयोजन सिद्ध न हुआ— वहाँ भी कोई सिद्धयोगी न मिला—तब वे धीरे धीरे हिमालय से नीचे उतरने लगे, क्योंकि वहाँ से आगे जाने का मार्ग ही दिखाई न देता था ॥ ५७ ॥

अवाप्य मध्येवसितिस्थलं शिवं

निशां च तत्रैव निवार्य तद्गतम् ।

महर्षिमभ्येत्य स नैजनिश्चयं

स्थिरीचकार स्थविरोपमं मुनिः ॥५८॥

मार्ग में एक नये स्थान में आकर अपने रात्रि व्यतीत की और वहाँ के निवासी एक अतिबृद्ध महर्षि के सामने अपने विचारों को हड़ किया ॥ ५८ ॥

पुनस्ततो दुर्गमकाननान्यटन्
दिनात्यये रामपुरान्तरस्थिते ।
नवाश्रमे रामगिरेरवस्थितिं

चकार तस्माद्गमत्स सागरम् ॥५६॥

वहाँ से बल कर अंगुली में घूमते घूमते वे सार्यकाळ रामपुर के नवीन रामगिर्याश्रम में पहुँचे । वहाँ रात्रि भर निवास करके फिर वे प्रोणसागर चले गये ॥ ५६ ॥

क्रमेण काशीपुरसंश्रिते वने
शरदतोः कानिचिदप्ययं थमी ।
निनाय योगेन दिनानि तत्परं
मर्तिं प्रचक्रे मरणाय निश्चिताम् ॥६०॥

प्रोणसागर से बल कर फिर वे काशीपुर में पहुँचे । शरत्काल के कुछ दिन उन्होंने वहाँ बिताये । फिर उन्होंने योगद्वारा शरीरत्याग करने का निश्चय कर लिया ॥ ६० ॥

परं विचारादवरुध्य तां मर्तिं
परोपकारैकमना यतीश्वरः ।
यथाकथञ्चिन्नगरेषु संवस-
न्नाप गङ्गातटमुच्चसैकतम् ॥६१॥

परन्तु विचार करके उन्होंने उस प्रपञ्च को रोक दिया और वे परोपकार के लिये उद्यत हो गये । मुत्तदाषाद आदि नगरों में कुछ दिन विग्राम लेकर फिर वे भागीरथी गंगा के तट पर विचरने लगे ॥ ६१ ॥

निवासबुद्धिं परिकल्प्य तत्तटे
नवीनयोगभ्रमपारवश्यतः ।
शवं चलन्तं कमले दिवृक्षया
व्यदारयञ्चक्रविशेषमण्डले ॥६२॥

गंगा के तट पर रहते हुए उन्होंने बहुतों को एक मुर्दे के अलाफ और छाती को खीरों और यह देखना चाहा कि आज कल के योग-ग्रन्थों से शारीरिक का मिळान होता है या नहीं ॥ ६२ ॥

अलभ्य तच्चक्रगतीवयत्नतो-

मनुष्यसंवर्धितसर्वपुस्तके ।

नितान्तमिथ्यामतिमेव सर्वशः

स्थिरीचकार क्रमशो यथोचिताम् ॥६३॥

उन्होंने बहुत यत्न किये परन्तु मनुष्य-कल्पित सब ग्रन्थों को उन्होंने मिथ्या पाया । तब से उनका यही निश्चय हो गया ॥ ६३ ॥

वसन्पुनस्तत्र दिनानि कानिचि-

न्नदीतटे निर्मलबालुकोच्चिते ।

यथायथं प्रारभताप्रमेयभो-

गतिं पवित्रीकृतभूतलो मुनिः ॥६४॥

मुर्दों की परीक्षा करके आप कुछ दिन वहीं रहे और फिर पवित्र बालुकामय गंगा-तट पर आपने भ्रमण करना आरम्भ किया ॥ ६४ ॥

दिनद्वयं कुत्रचिदेकवासरं

दिनाष्टकं वा तटिनीतटे वसन् ।

स योगिवर्यो मुनिदर्शनेच्छया

जगाम वेगादिव नार्मदं तटम् ॥६५॥

इसी तरह भ्रमण करते करते कहीं एक दिन, कहीं दो दिन गंगा तट पर डहरते डहरते महात्माओं के दर्शनों की आकांक्षा से नर्मदा चले गये ॥६५॥

परिश्रमादाप्य मुनिव्रजोचितं

स नर्मदातीरवनं तदन्तरे ।

ददर्श भल्लूकमतीवभीषणं

समक्ष एवागतमुत्तरोत्तरम् ॥६६॥

बड़े परिश्रम से वे मुनियों के निवास करने योग्य नर्मदा-सट पर पहुँचे । वहाँ जंगल में जाते समय सामने उनको एक रीछ आता दिखाई दिया ॥ ६१ ॥

विमोचयंस्तद्वदनात्स्वजीवनं

सहाययोगेन ततोतिगह्वरम् ।

विवेश भीमं वनमेकसत्पथा

वपुर्लघूकृत्य सरीसृपो यथा ॥६७॥

अपने साहस और भीलों की सहायता से रीछ से बच कर फिर वे एक प्रति गहन वन में पहुँचे । वहाँ संकीर्ण स्थान होने के कारण साँप के समान छाती के बल डोट डोट कर भीतर चले गये ॥ ६७ ॥

यथाकथञ्चित्क्वचिदुन्नतोभवन्

क्वचिद्विनम्रः स वनान्तभूमिषु ।

महात्मभिः साकमुवास विभ्रमद्-

गवीषु वर्षत्रयमेकमानसः ॥६८॥

वह स्थान बड़ा विषम था । कहीं ऊँचा था और कहीं नीचा । उस वन के अन्त भाग में पहुँच कर वे कोई तीन वर्ष तक महात्मा जनों के साथ वही नर्मदा-सट पर रहे ॥ ६८ ॥

तपो महोषं फलमूलभोजनः

समापयित्वा स वनान्तभूमिषु ।

महस्तदोङ्कारसमाख्यमीक्षयन्

प्रचक्रमे भूषितमूतलः क्रमात् ॥६९॥

वहाँ पर तीन वर्ष तक व्रत तप करके उन्होंने ओंकार रूप ईश्वर को जाना । फिर वे क्रमशः वहाँ से चल दिये ॥ ६९ ॥

परिभ्रमन्वैदिकधर्मसेविनां

गृहेषु देवात्कृतभोजनो हुतम् ।

करीलकङ्कोलकदम्बसंवृतां

समाजगामाथ स माथुरीं भुवम् ॥७०॥

वहाँ से चल कर वे वैदिक धर्मरत मनुष्यों के यहाँ विभ्राम लेते हुए करील, कंकाल और कदम्ब आदि वृक्षों से सुशोभित मथुरापुरी में पहुँचे ॥ ७० ॥

श्रवाप्य तस्यामपि दण्डिनं गुरुं

विनीतवेषेण पुरस्तदाज्ञया ।

नवीनमहोजिकृतिं यथावलं

पदत्रपातैर्नितरामपूपुजत् ॥७१॥

वहाँ दंडी विरजानन्द सरस्वती के शिष्य बन कर उनकी आज्ञा से पहले महोजिकृत नवीन कौमुदी का आपने पदत्रायों से सत्कार किया ॥ ७१ ॥

पुनः प्रसादादतिभक्तिसञ्चिता-

त्ततोधिगत्याष्टकभाष्यविस्तरम् ।

स योगिवर्यो गुरुदर्शितक्रमं

समाललम्बे गुरुयानुमोदितः ॥७२॥

फिर प्रसन्नतापूर्वक विरजानन्दजी से अष्टाध्यायी महाभाष्य रूप प्रसाद लेकर उनकी आज्ञा से उन्हीं के बतलाये हुए मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया ॥ ७२ ॥

उपात्तविद्यो ऋषिरेष सादरं

लवङ्गरूपां विनिवेद्य दक्षिणाम् ।

जयोचितामाशिषमाप भूतले

किमस्त्यलभ्यं गुरुपादवन्दनात् ॥७३॥

जब ऋषि दयानन्द विद्या पढ़ चुके तब उन्होंने गुरुदक्षिणा में गुरुजी को थोड़ी सी लौंग मेंट कीं । गुरुजी ने प्रसन्न हो कर आशीर्वाद दिया कि तुम दिग्विजय करो ॥ ७३ ॥

जगत्प्रमुष्मिन्पुरुभक्तिरुत्तमा

ऋषिप्रविष्टेषु पथःसु निश्चितिः ।

विशेषतः संगतिरात्मवेदिनां

समस्तवाञ्छा फलदास्ति देहिनाम् ॥७४॥

संसार में गुरु में भक्ति रचना, ऋषि-प्रविष्ट मार्ग में निश्चय रचना, योगियों का संग करना, मनुष्यों के लिए समस्त वाञ्छितप्रद माना गया है ॥ ७४ ॥

इत्थं समस्तविषयानधिगत्य योगी

पूर्वापरार्थगतिमात्मगतां विबोध्य ।


नानामतानुगतदिग्विजयाय चक्रे

नैजं मनः शमदमादिगुणैरुपेतः ॥७५॥

इस प्रकार समस्त वेद-वेदाङ्गों को पढ़ कर और अपनी पूर्वापर गति को अच्छी तरह जाँच कर अनेक मतपूर्व विशासों के जय करने में अपना मन लगाने लगे ॥ ७५ ॥

इति श्रीमदसिद्धानन्दशर्मकृतौ सतिसक्रे दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

विद्याभ्यसनवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः ।



चतुर्थः सर्गः

अथ जयाय दिशां स महामति-
निजबलेन मनःसु विपक्षिणाम् ।
भयमनल्पममन्दमुपादधे-
रविमहा विमहाः कलयन्दिशः ॥१॥

पूर्वोक्त सर्ग में विद्याध्ययन का वर्णन कर दिग्बिजय से पहले उनके विद्यार्थी का वर्णन करने के लिये यह सर्ग आरंभ किया जाता है:—

वे सूर्य के समान महर्षि दिशाओं को उत्सव-शून्य देख कर दिग्बिजय से पूर्व अपने आत्मिक बल से विपक्षियों के मन में भय उत्पन्न करने लगे ॥ १ ॥

प्रथममेव समुन्नतिभावनां
समधिगम्य शुभार्यपथस्य सः ।
निगममन्त्रशतैः परमेश्वरं
प्रमुदितो मुदितोत्कलमस्तुवत् ॥२॥

वे प्रसन्नचित्त ऋषि पूर्व से ही शुभ आर्य-पथ की उन्नति का अनुमान कर अनेक वेद मंत्रों से ईश्वर की स्तुति करने लगे ॥ २ ॥

अधमबौद्धमतादुदयङ्गतां
प्रकृतिपूजनविस्तृतिमुद्धुराम् ।
निगमवाग्विशिखैः परितर्जयन्
स सकलां सकलामतनोद् भुवम् ॥३॥

बौद्ध मठ से प्रकट हुई इस पाषाण-पूजा को वैदिक प्रमाणी से हटा कर ऋषि समस्त भूतल को पुकारा चेतन बना गये ॥ ३ ॥

- न जननी जनकोपि न सोदरो-
 न तनयो न सुहृन्न धनं स्वकम् ।
 अभवदस्य सुदिग्विजयोद्यमे
 तदपि स प्रससार सहायकृत् ॥४॥

यद्यपि इस दिग्विजय के कार्य में माता, पिता, भाई, पुत्र, मित्र और बहू
 कोई भी उनका सहायक न था तो भी केवल आत्मिक बल पर विश्वास
 कर वे अपने उत्साह को प्रति दिन बढ़ाते ही गये ॥ ४ ॥

भवति यस्य सहायकरः प्रमु-
 नं स बलान्तरमिच्छति मानवः ।
 इति निदर्शयता किमयं महान्
 प्रकटितः किल दिग्विजयोद्यमः ॥५॥

- जिस पुरुष का सहायक ईश्वर होता है वह शैरो की सहायता नहीं
 चाहता । क्या इस लोकोक्ति को दिखाते हुए श्रवि ने इस बड़े भारी कार्य
 का आरंभ किया । यह उत्प्रेक्षा है ॥ ५ ॥

साम्प्रतं महर्षेर्विचारनेवाह—

मनुजनिर्मितभागवतादिका
 बहुपुराणकथा जगतीतले ।
 प्रथममस्ति निदानमदः कथं
 कलयताग्निगमागमविस्तृतिम् ॥६॥

अब उन के विचारों का वर्णन करते हैं—इस जगत् में मनुज-रचित
 नामा पुराणों की जो कथाएँ प्रचलित हैं यही नाश का पहला कारण है । यह
 वैदिक धर्म की उन्नति न होने देगा इसलिये पहले इस का ही निराकरण
 करना उचित है । यह प्रथम निश्चय किया ॥ ६ ॥

न लिखिता किल वेदचतुष्टये
 मृतकदेहनिमित्तपरा क्रिया ।

इयमतोपि कथं परिदर्शये-

ज्जगति सन्निगमोदितकल्पनाम् ॥७॥

सारेण वेदों में कहीं भी मृतक आत्मा का उल्लेख नहीं इसलिये इस का भी जब तक बाँडन न होगा तब तक वैदिक धर्म का प्रचार न होगा। यह उन्होंने बुरा निश्चय किया ॥ ७ ॥

निगदिता सलिलेषु वृथा कृता

क्व ननु तीर्थमतिर्मनुजैरलम् ।

तदियमार्यनिवासविनाशिनी

विलयमेष्यति चेन्नविता शिवम् ॥८॥

संसार में मनुष्यों ने जो जल में तीर्थ-बुद्धि मानी है यह भी वेद में कहीं नहीं इसलिये इस भाव के दूर होने पर जगत् का कल्याण होगा। यह तीसरा निश्चय किया ॥ ८ ॥

दृषदुपासनया जडताङ्गतं

जगदिदं कथमेष्यति चेतनाम् ।

यदि न यास्यति नाशमियं प्रथा

सदुपदेशयुयैर्जगतीतलात् ॥९॥

जड़ मूर्तियों की उपासना करते करते यह जगत् जड़ता को प्राप्त हो गया। अब तक सदुपदेशों से यह जड़पूजा की प्रथा न उठायी जायगी तब तक यह जगत् चेतन न होगा ॥ ९ ॥

इति विचारयतोस्य हृदन्तरे

जनदशां जगतीतलसंश्रिताम् ।

अभवदुन्नतिचिन्तनमार्गगा-

मतिरतीत्य समस्तमनोरथान् ॥१०॥

संसार में मनुष्यों की ऐसी दशा देख कर उनके मन में जो विचार हुआ, उससे उनकी मति सब कामों को छोड़ कर पहले उन्नति के साधनों का विचार करने लगी ॥ १० ॥

जगति यैरहहाप्य शुभां जनिं
न विहिता परमेश्वरवर्त्मनि ।
निजगतिर्बहुधा सकलं वयः
प्रगमितं ननु तैः खरखर्ववत् ॥११॥

जिन्होंने संसार में शुभ जन्म पा कर ईश्वरोक्त देवमार्ग का अनुसरण नहीं किया उन्होंने सब अपनी भवस्था मानो गये और बौने पुरुष के समान गए की ॥ ११ ॥

सकलमेव जगत्परिवञ्चितं
बहुमतानुगतेर्बहुदुर्जनैः ।
परहितानुरतो न हि वृश्यते
जगति कोपि महान्पुरुषोत्तमः ॥१२॥

जाना सतो में कैसे हुए दुर्जनों ने साराही जगत् छग रफना है, कोई भी पुरुषोत्तम परोपकार में वृत्तचित्त नहीं दीखता ॥ १२ ॥

यद्यपि पूर्वमुनिप्रतिपादिता
विधिमयी नितरां भुवि राजते ।
बहुशुण्या सरणिस्तरणीसमा
तद्यपि दुर्दशया भरितं जगत् ॥१३॥

यद्यपि सूक्त में मुनियों के द्वारा बतलाई हुई, अनन्त शुभ वाली, वैदिक सरणि तरणि (नीका) के समान विद्यमान है, तो भी यह जगत् दुर्दशा में हुआ हुआ है ॥ १३ ॥

बहव एव भवन्ति गतानुगाः
सकलकृत्यविधौ जगतीतने ।
नयनयोर्न विभाति पुरोगतो-
वतरणे कृतनिश्चयकोम्रणीः ॥१४॥

हर एक कार्य में पीछे पीछे जानेवाले लोग जगत् में बहुत से पाये जाते हैं परन्तु स्वतन्त्रता से नवीन कार्य करनेवाला कोई भी दृष्टिगत नहीं होता ॥ १४ ॥

समवलम्बितमेव जनैर्मतं
निजमनोविषयङ्गतमादरात् ।
न विहितं किल वेदविधौ पदं
मलिनता न दधाति गुणे पदम् ॥१५॥

जगत् में अपने अपने मन के अनुकूल मतों को तो मनुष्यों ने माना परन्तु वेद-मार्ग में किसी ने पैर न रक्खा । ठीक है, मलिनता गुणों में पद नहीं रखती ॥ १५ ॥

विधिविरुद्धविधानपरायणा
न विधिनोदितमर्थमुपासते ।
जगति सम्यगियं वचनीयता
न मधुरेस्ति कषायवतां रुचिः ॥१६॥

वेद के विरुद्ध कार्य करनेवाले पुरुष वेद-प्रतिपादित अर्थ को नहीं माना करते । यह संसार में प्रसिद्ध है कि कसीले पदार्थ के खानेवाले मीठे पदार्थ को पसंद नहीं करते ॥ १६ ॥

कथमियं जगतीतलवर्तिनी
विलयमेष्यति भिन्नरुचिर्नृणाम् ।
विमलवेदपथात्समलं गता-
धमपुराणपथं परिपन्थिनम् ॥१७॥

निर्मल वैदिक मार्ग को छोड़ कर मलिन पौराणिक मार्ग में लगी हुई -
जनों की मिला बधि संसार से किस प्रकार नष्ट होगी ॥ १७ ॥

अहह मन्मतिमार्गमुपागता
कविजनश्रुतिरत्न सहायिनी ।

दिवसभीतनिशाटनसन्तति-

र्न रविदर्शनमिच्छति कर्हिचित् ॥१८॥

इस समय मेरे लिए उन कवियों की घाणी सहायक बन गई कि दिन से डरे हुए उलूकों की संतति कदापि सूर्य का दर्शन करना नहीं चाहती ॥ १८ ॥

सहजवैरमिदं प्रतिभाति मे

मनसि सज्जनदुर्जनमध्यगम् ।

जलहुताशनयोरिव वैदिके

तदितरे पथि यद्गमनं स्वतः ॥१९॥

जल और अग्नि के समान यह सज्जन-दुर्जनों का विरोध हमें स्वामाविक प्रतीत होता है जो कि वैदिक तथा अवैदिक मार्ग से स्पष्ट ही है ॥ १९ ॥

विमलवैदिकधर्ममणिप्रभा

न विषयैर्मलिने हृदि राजते ।

विमलदर्पण एव विराजते

मुखशशियुतिरुत्तमवर्ष्णाम् ॥२०॥

जिनके अन्तःकरण विषयरूपी मलों से मैले हैं उनके अन्तःकरण में वैदिक धर्ममणि की प्रभा नहीं झलका करती । शुद्ध दर्पण में ही सुन्दर शरीर धारण की मुख-शोभा प्रतिबिम्बित होती है ॥ २० ॥

कतकवृक्षफलं मलिनं पयो-

विमलतां नयतीति जनश्रुतिः ।

फलवती न हि केवलकर्दमे

भवति किन्तु तदाविलवारिणि ॥२१॥

कतक वृक्ष का फल मलिन जल को निर्मल बना देता है, यह हृद्यंत केवल कीचड़ में कदापि फलित नहीं होता, किन्तु वह गड़बड़े जल को ही शुद्ध कर सकता है ॥ २१ ॥

सकलवाञ्छितदो जगतीतले
 यदपि वेदकुटः प्रतिराजते ।
 तदपि नाम जनैरनुसंश्रिताः
 कटुफलास्तरवः किमतःपरम् ॥२२॥

यद्यपि इस जगत् में समस्त फलों का देनेवाला वेद-वृक्ष 'विरा-
 जमान है तो भी मनुष्यों ने कटु फलोंवाले अनेक वृक्षों का आश्रय ले
 रखा है ॥ २२ ॥

साम्प्रत कटुफलास्तरुनेवाह—

रुधिरपानपरायणचेतसा
 जगति शाक्तमतं प्रतिपादितम् ।
 प्रकटमेव यदस्ति महीतले
 श्रितमनेकजनैर्नरकोन्मुखैः ॥२३॥

अब कटु फलवाले वृक्षों को ही बतलाते हैं—किसी रुधिर के प्यासे
 पुरुष ने इस जगत् में शाक्त मत प्रकट किया है जोकि अनेक नरकोन्मुख
 पुरुषों से जमा हुआ है ॥ २३ ॥

व्यरचि केनचिदुत्पथगामिना
 तदपि वैष्णवमार्गविडम्बनम् ।
 भवति यत्र पशोरिव दुर्वशा
 जनिमितस्य जनस्य नु तापनैः ॥२४॥

उत्पथगामी किसी अन्य पुरुष ने जगत् में वैष्णव मत का डोंग फैलाया
 है जिसमें कि जन्म ले कर मनुष्य को पशु के समान जल कर दुर्वशा
 भोगनी पड़ती है ॥ २४ ॥

तदितरेण जनेतरवृत्तिना
 गतमतद्वयभिन्नमदः कृतम् ।

जगति शैवमतं शिशुबुद्धिना

भवति यत्र सुखेन वनस्थितिः ॥२५॥

दोनों मतों से मिश्र मत चढानेवाले किसी बालबुद्धि पुरुष ने जगत् में शैव मत बना दिया है जिस में फँस कर वनों में ही रहना पड़ता है ॥ २५ ॥

गणपतिं परिकल्प्य तदाश्रितं

व्यधृत किं न मतं पुरुषाधमैः ।

प्रकृतिभिन्नतया किल वास्तवे

भवति यत्र मुखस्य विपर्ययः ॥२६॥

कल्पित गणेश को मान कर उसके नाम से चढाया हुआ गणपत मत क्या मनुष्यों ने धारण नहीं किया कि जिस में प्रकृति से विरुद्धमुख का भी वास्तव में विपर्यय होजाता है ? ॥ २६ ॥

मनुजतामपहाय कुबुद्धिभि-

र्जनवरेषु गुणान्वितनामसु ।

विमुखता चतुराननता तथा

भुजचतुष्टयताध्यवरोपिता ॥२७॥

मनु-बुद्धियों ने गुणयुक्त नामवाले अच्छे पुरुषों से मनुष्यत्व को हटा कर उनमें विमुखता, चतुर्मुखता और चतुर्भुजता का आरोप कर दिया ॥ २७ ॥

क जडमूर्तिरनार्यफलप्रदा

गुणमयी क्व परेशगुणस्मृतिः ।

परमहो गतबुद्धिभिराहता

जगति सैव विचित्रमिदं कृतम् ॥२८॥

अनिष्ट फल देनेवाली कहीं जड़ की उपासना, कहीं परमेश्वर की गुणमयी स्तुती । पर तो भी मनु-बुद्धियों ने उसको छोड़ जड़ का ही आश्रय ले लिया । क्या ही आश्चर्य है ! ॥ २८ ॥

सकलशक्तिमतः करुणाकरा-

दजरभावगतात्परमेश्वरात् ।

जगति ये विमुखाः प्रकृतिं जडा-

मनुनमन्ति कथं न हि ते जडाः ॥२६॥

सर्वशक्तियुक्त करुणाकर अजर परमेश्वर से विमुक्त हो कर जो पुरुष जड़ प्रकृति का अवलंब लेते हैं वह क्योंकर जड़ नहीं हैं ? ॥२६॥

मतिलघुत्वमुपेत्य पुराणतां

समधिरोप्य जडैर्निजपुस्तके ।

तदनुकूलकथापरिकल्पनात्

सुमनुजेष्वपि दोषगतिः कृता ॥३०॥

बुद्धि की हीनता से जड़ मनुष्यों ने स्वयं बनाये हुए ग्रन्थों का पुराण नाम धर कर उनके अनुकूल कथा कर करके अच्छे पुरुषों को भी कर्त्तकित कर दिया ॥ ३० ॥

गुणचतुष्टयवत्यतिसुन्दरे

धवलिते यशसा धनवद्गृहे ।

निजसुताविषयैककलङ्किता

निजमतानुगमादधिरोपिता ॥३१॥

अब दोषारोपण ही बतलाते हैं—चार वेदों के जाननेवाले, अति सुन्दर, यशोविभूषित, धनवान् ब्रह्मा के ऊपर अपने मत के अनुरोध से पुत्री-गमन का पाप लगा दिया ॥ ३१ ॥

रजतपर्वतवासिनि सत्कले

त्रिनिगमोदितकर्मपरे कृता ।

अधमभिल्लवधूजनसंगति-

र्नगसुतादयितेधमपरिदतैः ॥३२॥

कैलास पर्वत के ऊपर रहनेवाले शुभ शुभयुक्त तीन वेदों के वेत्ता शिव में अधम जनों ने भीळिनी के साथ पाप करने का पाप लगा दिया ॥ ३२ ॥

यदुकुलैकमणौ गुणसागरे
निखिलयोगिवरेतिबले ह्रौ ।

सकलगोपवधूजनसंगमं

समधिरोप्य कृतास्ति निरादृतिः ॥३३

यदुवंश के मणिरूप, गुणसागर, योगिराज, बलवान् श्रीकृष्ण के रूप
गोपियों के साथ अभिचार करने का पाप लगा कर उनका निरादर कर
दिया ॥ ३३ ॥

अतिमतौ गुणवत्तरभावने-

प्यकृत सत्यवतीतनये खलैः ।

बहुपुराणविनिर्मितिकल्पना

परमदोषमयी किमतःपरम् ॥३४॥

इससे अधिक और क्या होगा कि महाबुद्धिमान्, महाबुद्धी श्रीव्यासदेवजी
में अब इन यहाँ तक कल्पना करने लगे, कल्पना ही नहीं किन्तु हठात् स्पष्ट
कहते हैं, कि अठारहों पुराण व्यासजी ने ही बनाये हैं । क्या यह व्यासदेव के
छिप भाप दोष नहीं है ? ॥ ३४ ॥

दिनमणौ बडवागमनं वृषे-

प्यथ सहस्रभगोदयकल्पनम् ।

द्विजपतौ गुरुतल्पगता न किं

जगद्धि भागवतैरवरोपिता ॥३५॥

हा हन्त ! सूर्य में घोड़ी के साथ ॐ ॐ करने का, इन्द्र में सहस्रॐ ॐ
चारक करने का और चन्द्रमा में गुरुपत्नी के साथ अभिचार करने का दोष
भागवत बाबों ने लगा दिया ॥ ३५ ॥

तदपरं किमिहास्ति महीतले

यदुदरम्भरिभिर्न कलङ्कितम् ।

मनुजरूपधरैर्निगमारिभिः

स्वकृतिसिद्धिपरैः पशुबुद्धिभिः ॥३६॥

पृथ्वी-तक पर कौन बचा हुआ है जिसको इन स्वार्थी, वेद के शत्रु, स्वार्थी, बुद्धिहीन, मनुष्य नामधारी जीवों ने कलङ्कित नहीं किया ॥ ३६ ॥

अभिमतासिकरी गुरुगौरवा-
दभिमुखत्वमुपैत्यपि या चिरात् ।
विमुखतामुपगम्य ततो जनै-
रुदरपूरणहेतव आहताः ॥३७॥

हा ! अभीष्ट फलों के देने वाली और गुरु-सेवा से प्राप्त होनेवाली विद्या से विमुख हो कर मूर्ख जनो ने उदर-पूरणार्थ नाना प्रकार के ढकोसढे निकाल लिये ॥ ३७ ॥

प्रकृतिपूजनमेव समाश्रितं
बहुविधं परिहाय निजं पथम् ।
तदितरेण कथाकथनाश्रिता
निगममार्गगतिर्न च केनचित् ॥३८॥

कोई स्वार्थ-साधन के लिए प्रकृति की पूजा करने लगा और कोई कथा-कहानियों के द्वारा ही अपना आजीवन करने लगा, परन्तु वैदिक मार्ग पर चलने के लिए कोई भी आरुढ़ नहीं हुआ ॥ ३८ ॥

अहह किं कथयाम्यधिकं परे
सकलजीवनदातरि निर्जरे ।
कमठमीनवराहनृसिंहता
व्यरचि वेदपथेष्वपि रूपता ॥३९॥

अहो ! यह कैसे आश्चर्य की बात है कि जो परमेश्वर भज्ज है और जो सब को जीवन देनेवाला है उसको भी इन्होंने मच्छ, कलुषा, वराह, वृत्सिंह और वामन आदि अवतार धारण करनेवाला बतला-दिया और वेदों में भी मूर्ति की कल्पना कर डाली ! ॥ ३९ ॥

अजमुखो यजुरुद्धतगर्वमा-
ननधरो ऋगथाश्रमुखोद्भुतः ।

स किल सामविधिः कपिवक्त्रवा-

नकृतसोंगिरसाविहितः खलैः ॥४०॥

इन मूर्खों ने यजुर्वेद को बकरे के से मुँहवाला, ऋग्वेद को गधे के से मुँहवाला, सामवेद को घोड़े के से मुँहवाला और अथर्ववेद को बंदर के से मुँहवाला बता दिया ॥ ४० ॥

उपकृतिं जगतामवलोक्य यो-

रविशशिव्युतिमत्रचकारताम् ।

निखिलविश्वगतस्य सुवर्तिका-

द्वितयविव्युतिरावरणे कृता ॥४१॥

जिस ईश्वर ने जगत् के उपकार के लिए सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिया, मूढ़ जनों ने उसके लिए दो बस्तियों की रोशनी की ॥ ४१ ॥

जंगति येन नदीनदसागरा

विरचिताः सकलोपकृतेः कृते ।

बहुलघौ वसने जलकल्पना

व्यतनि तस्य कृते शठमानवैः ॥४२॥

जिस ईश्वर ने सबके उपकार के लिए नदी, नद और सागर बना दिये, मूर्खों ने उसके लिए छोटी सी बंदी में पानी देना शुरू किया ॥ ४२ ॥

बहुविधास्रफलार्जुनशर्करा

दधिघृताद्यकरोदिह यः परः ।

स जनदत्तपदार्थविदम्बना-

सहनमाचरतीति महाद्भुतम् ॥४३॥

१ हेमाद्रिकृत चतुर्वर्ग चिन्तामणि के अठ सयड में विश्वकर्म शास्त्र के नियम से देवों के रूप ऐसे ही बताये गये हैं ।

जिस ईश्वर ने नाना प्रकार के अन्न, फल, तृण, मिष्ट, दधि, घृत आदि पदार्थ बनाये हैं वह मनुष्य-वृत्त पदार्थों के द्वारा अपनी विडम्बना देख रहा है। बड़ा आश्चर्य है ॥ ४३ ॥

मनुजदण्डवशे पशवोप्यलं

प्रथमतः किल येन नियन्त्रिताः ।

स कथमानडुहं रथमास्थितो-

व्रजति गच्छति चेत्कथमीश्वरः ॥४४॥

जिस ईश्वर ने पूर्व से ही समस्त पशु मनुष्य के बंध कर दिये वह निराकार बैल के रथ पर क्योंकर जायगा ? यदि जायगा तो वह परमेश्वर कैसा ? ॥ ४४ ॥

क्व विहितास्ति विधौ पशुमारणा

परमहो बहु सापि महाधमैः ।

निजविनिर्मितवाक्यवशादलं

प्रतिदिनं क्रियते किमतोधिकम् ॥४५॥

वेद में हिंसा कहीं नहीं लिखी, परन्तु तो भी इन मूढ़ों ने स्वयं बनाये हुए वाक्यों से संसार में हिंसा प्रचलित की। इस से अधिक और क्या होगा ! ॥ ४५ ॥

गुरुषु मातृषु पितृषु थार्चना

विलिखिता निगमानुगबुद्धिभिः ।

मरणतः परमत्र भवत्सु सा

जगति किन्न मदेन विधीयते ॥४६॥

जो सत्कार जीते माता, पिता, गुरुओं के लिए वेद में करना लिखा है, मन्व-भक्तियों ने उसको उनके मरने के बाद करना आरंभ कर दिया ॥४६॥

निखिलशास्त्रनिधौ गुणमञ्जुले

परहितानुविधायिनि सज्जने ।

विमलतीर्थमतिं परिहाय सा

कलुषतोयसमाधितिराहता ॥४७॥

मनुष्यों को शास्त्रवेत्ता गुणयुक्त परोपकारी सज्जन में जो तीर्थ-बुद्धि करनी उचित थी उसको छोड़ गढ़के पानीवाले गढ़ों में करनी प्रारंभ की ॥ ४७ ॥

विलयमेव गतास्ति गृहे गृहे

निजसुतोन्नतिकारणकल्पना ।

गुरुकुलानुमतिर्यमधारणा

सकलसौख्यविवर्धनकारणा ॥४८॥

अपने पुत्रों की उन्नति की कल्पना, गुरुकुलों की अनुमति, यमों का धारण, सारे सुखों के बढ़ने का कारण घर घर से बढ गया ॥ ४८ ॥

अधमपुस्तकविश्वसनाद्गता

कथनभावमलं जगतीतले ।

विरचना तनयापठनोचिता

फलमतो विधवापरिवर्धनम् ॥४९॥

शीघ्रवोधादि पुस्तकों में विश्वास होने से जगत् में कन्याओं के पढ़ने की प्रथा ही बढ कर खली गई, नष्ट हो गई, जिस का परिणाम विधवाओं की वृद्धि विद्यमान है ॥ ४९ ॥

असमये मरणं बलहीनता

गुणपराङ्मुखता धनशून्यता ।

विषयिता विधवाजनविस्तृतिः

सकलमस्ति पुराणविचेष्टितम् ॥५०॥

अकाल में मृत्यु, बल का न होना, गुण-शून्य रहना, धन-हीन होना, विषयी बनना, वैभव फँकना, यह सब पुराणों का ही फल है ॥ ५० ॥

इति विचिन्त्य समस्तजगद्दशां

प्रथमतो यतिरात्मनि धीरधीः ।

कुपथखण्डन एव गुणोत्तरां

निजमतिं प्रददौ विधिदर्शनात् ॥५१॥

समस्त जगत् की पहले से ऐसी दशा देख कर वे धीरमति, गुणी अपनी मति को कुपथों के खंडन में ही लगाने लगे ॥ ५१ ॥

कर्तव्यमेव जगतामुपकारकृत्यं

विद्वद्भरैरिति विचारयतोस्य चित्ते ।

यामूत्तया सकलमेव विचारबुध्या

दिङ्मण्डलं समभिवेष्टितमादरेण ॥५२॥

विद्वानों को जगत् का उपकार करना चाहिय ऐसा विचारते हुए जो उनके मन में विचार उठा उसने समस्त संसार को ठक दिया ॥ ५२ ॥

अथ जगदुपकारदत्तचित्तो-

यतिरतिपुण्यवशेन लोकपूर्णाम् ।

बहुमतवितर्ति निराकरिष्युः

समचलदात्मबलेन विश्वमध्यम् ॥५३॥

विचार के अनन्तर पुण्यवश से लोकोपकार में दत्त-चित्त हो कर वे अर्थि, लोक में फैली हुई मत-कल्पनाओं को हटाने के लिए, अपने आत्मिक बल से संसार में विचरने लगे ॥ ५३ ॥

इति श्रीमद्विज्ञानन्दशर्मकृतौ सतिसके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

लोकदशासमीक्षण नाम चतुर्थः सर्गः ।



पञ्चमः सर्गः

ततः समारब्धजयोत्सवं मुवा
दिदृक्ष्वो विश्वजनाः समन्ततः ।
ऋषिं दयानन्दमुपागमन्नवं-
पतिं धराया इव हर्षनिर्भराः ॥१॥

जिस तरह महीन राजा के वर्जन करने के लिए प्रजा हर्षित हो कर उसके वर्जनार्थ उसके समीप जाया करती है उसी तरह लोकवृथा के भव-
छोफन करने के पश्चात् द्विध्वज्य के लिए उठे हुए ऋषि दयानन्द के वर्जन
करने की इच्छा से चारों ओर से मनुष्य आने लगे ॥ १ ॥

समस्तदुःखानि जगत्ययञ्जनो-
विनाशयिष्यत्यतिसाहसोदयात् ।
अवः स्वचेतस्यवधार्य मानवै-
स्तदातिमाङ्गल्यमकारि सर्वशः ॥२॥

सब लोग यही सोच कर कि—यही ऋषि जगत् के सारे दुःखों को,
अपने असीम साहस से, नष्ट करेगा—उनके प्रस्थान के समय मंगलाचार
करने लगे ॥ २ ॥

पपाठ वेदं बहु कोपि मानवः
परोपि पथैः प्रशशंस तद्गुणान् ।
थयो तमुद्दिश्य करे जनेतरः
फलं रसालस्य निधाय सुन्दरम् ॥३॥

कोई वेद का पाठ करने लगा, कोई श्लोक पढ़ कर उनके गुणों का कीर्तन करने लगा और कोई मंगल-कामना से हाथ में ग्राम लै कर सामने आकर खड़ा हो गया ॥ ३ ॥

निवारयिष्यत्ययमेव सज्जन-

स्तमिस्रमस्मासु चिरादुपागतम् ।

मनागिति स्वान्तपथे विचार्य ता-

दिशोपि हर्षादिव निर्मला बभुः ॥४॥

हमारे भीतर मरे हुए अन्धकार को यही ऋषि दूर करेगा ऐसा जान कर समस्त विद्यार्थे भी उस समय आनन्द से निर्मल हो गईं ॥ ४ ॥

समस्तवेदार्थपटीयसी तदा

सरस्वती तं परितोन्ववेष्टयत् ।

प्रमाणदानैकपरायणा कुतो-

भवेन्न माता सुतपक्षपातिनी ॥५॥

जिस समय ऋषि दयानन्द द्विग्विजय के छिय निकले उस समय समस्त वेदार्थों के जाननेवाली, प्रमाण देने में चतुर सरस्वती भी उन को सर्वतः देखने लगी। खलते समय पुत्र का मोह और पक्षपात माता को होता ही है ॥ ५ ॥

अथ प्रसादोदितरश्मिमण्डलः

स पद्मिनीनाथ इवातिदुःसहः ।

ऋमेण रत्नाकरमेखलागता-

न्यभिप्रतस्थे नगराणि कानिचित् ॥६॥

ऋषि दयानन्द भी अति दुःसह दुःख के समान उद्वेग हो कर पृथिवीस्थ मुख्य मुख्य नगरों को चला पड़े ॥ ६ ॥

पूर्वमर्गलपुरे स महात्मा

धर्ममार्गमुपेक्षुमुवास ।

सार्धमद्वयुगलं वरलोकै-

रावृतो व्रतपरिग्रहरम्यः ॥७॥

वे महात्मा सबसे पहले धर्मोपदेश करने के लिए आगे पहुँचे । वहाँ यमुना के किनारे शैरव मन्दिर के समीप छाया गङ्गामठ की घाटिका में ठहरें और कोई दार्द बर्ष वहाँ रहे ॥ ७ ॥

तत्रोपदिश्य बहुवैदिकधर्मदीक्षां

कैलासपर्वतइति प्रथितं यतीशम् ।

सम्प्राप्य तत्कृतबहुस्तवदृष्टचेता-

स्तस्थौ कथाः प्रकथयन्कतिचिदिनानि ॥८॥

वहाँ पर वैदिकधर्म का उपदेश करते हुए वे कैलास पर्वत नामक संन्यासी से मिले । उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की । कुछ दिन तक वे वहाँ वेदान्त की कथा कहते रहे ॥ ८ ॥

सन्ध्यानिबोधनपराणयथ पुस्तकानि

तत्रैव वैदिकविधेरनुगानि तूर्यम् ।

मुद्राप्य लोकहितकामनया नयार्थी

मूल्यं विनैव विततार स योगिराजः ॥९॥

वहाँ पर वैदिक विधि के अनुकूल संन्या की पुस्तक बना और कपडाक के द्वारा छपवा कर वे लोकहितकार के लिए विनामूल्य ही बाँटने लगे ॥ ९ ॥

ततः परं निःसृतशीतलाकृते

विधाय योगोचितकार्यमद्भुतम् ।

चकार शास्त्रार्थविधिप्रचारणैः

स मूर्तिपूजाकरणस्य खण्डनम् ॥१०॥

तदनन्तर गरमी के कारण निकली हुई कुक्षियों को दूर करने के लिए योग [ल्योडीक्रिया] कर, शास्त्रार्थों के द्वारा फिर वे मूर्ति-पूजा का खण्डन करने लगे ॥ १० ॥

अस्योपदेशविधिना बहुभिर्मनुष्यै-

राराधनाविधिमपास्य महाशिलानाम् ।

पूज्येषु मातृगुरुतातपदेषु भक्ति-

राविष्कृता न महतां क्व फलन्ति वाचः ॥११॥

आप के उपदेशों से सैकड़ों मनुष्यों ने जड़-पूजा को छोड़ सब्से माता, पिता, गुरु आदि का पूजा प्रारंभ कर दी । सच है, महात्माओं के वाक्य सर्वत्र फलते हैं ॥ ११ ॥

विहारालापसंवासजन्यप्रीतिपरैर्जनैः ।

कृताप्याशा निराशामूत्तन्निरोधे ततःपरम् ॥१२॥

फिर आप के प्रेमी पुरुषों ने आप से वहाँ अधिक रहने की, जो प्रार्थना की वह सब निष्फल हुई ॥ १२ ॥

मार्गणाय सततोथ महात्मा

प्राप्तवान्धवलपत्तनमादौ ।

लशकरं प्रति ततः सह शिष्यै-

राजगाम चपलं निगमानाम् ॥१३॥

फिर आगरे से आप वेदों की तलाश में बौलपुर पधारे । वहाँ से भी अपने शिष्यों के साथ शीघ्र छुटकर चले गये ॥ १३ ॥

राज्ञा पृष्टः पुराणानां माहात्म्यविषये यतिः ।

पुरे तत्र जगादासाबुत्तरे दुःखमित्यलम् ॥१४॥

छत्कर में पहुँचने पर जो आप से राजा ने पुराण सुनने का फल पूँछा तो आपने उसका फल केवल प्रति दुःख ही बतलाया ॥ १४ ॥

वेदमार्गणपरः स यतीश-

स्तत्र किं न धरणीशविरुद्धम् ।

विस्तराद्विविधमार्गगतानां

खण्डनं क्रमश एव चकार ॥१५॥

वेदों की आज्ञा करते हुए वे लड़कर में बहुत पंडितों के बीच में राजा से विरुद्ध होने पर भी वैष्णवादि मतों का खंडन करते रहे ॥ १५ ॥

शास्त्रार्थविज्ञापनतः प्रसिद्धान्
पलायमानानवलोक्य लोकान् ।
जयेतिवाग्भिर्मनुजैः प्रशस्तो-
ययौ करौलीनगरं ततोयम् ॥१६॥

बाबा साहब के बाग में उतरे हुए वे (७ मई सन् १८१५ ई० को) शास्त्रार्थ के विज्ञापन से प्रसिद्ध रामाचार्यादि पण्डितों को भागते हुए देख, जय शब्दों के द्वारा प्रशंसा को सुनते सुनते करौली पधारे ॥ १६ ॥

विधाय राज्ञा सह तत्र वार्ता-
मसौ तदीयान्परिभाव्य सूरिन् ।
निनाय कालं कमपिप्रसङ्गा-
द्ययौ ततोरं जयपत्तनं सत् ॥१७॥

करौली में राजा से बात कर उनके पंडितों को तिरस्कृत करके वे कुछ काल वहाँ रहे और फिर वहाँ से जयपुर पधारे ॥ १७ ॥

आरामे वसता सता जयपुरे सिद्धेन साकं शुभां
कृत्वा सम्मतिमन्यपण्डितजनैः सत्रा च वादं द्रुतम् ।
नीताः सर्वश एव मौनविषयं सर्वेपि रम्योत्तरे-
र्वक्तव्यं किमतःपरं सहृदयो भूयोप्यमात्यैः समम् ॥१८॥

जयपुर में स्वामीजी रामकुमार के बाग में उतरे । वहाँ वे गोपाळामन्दिर से मिले । उन्होंने अथयनाथ आदि पण्डितों को शास्त्रार्थ में हराया । वहाँ तक कि मन्त्री सहित राजा को भी निरुत्तर कर दिया ॥ १८ ॥

तत्रैव जैनगुरुमेकमुदारलेखै-
मूकं विधाय मतवादपरे विचारे ।

नानाविधैरथ विराजमनन्तशिखा

रक्षाबलेन विधिवत्प्रचकार विज्ञम् ॥१६॥

वहीं आपने एक जैन गुह को अपने उदार लेंबों द्वारा निरुत्तर किया और अक्षरौल के रणजीतसिंह को अपने उपदेशों से ज्ञानी बनाया ॥ १६ ॥

तेनार्थितो निजगृहोपगमाय योगी

न स्वीचकार गमनं भवनेषु तस्य ।

वन्यानि नव्यकमलानि विहाय कुत

हंसाः प्रयान्ति नगरीगतनिम्बवृक्षान् ॥२०॥

एक दिन उसने अपने महलों में पधारने के लिए आप से अत्यन्त प्रार्थना की परन्तु आपने जाना स्वीकार न किया, क्योंकि हंस कमलों के पुष्पों को छोड़ कर नगर के नीबों पर कभी नहीं जाते ॥ २० ॥

तस्योपदेशवशतोरुचिरन्तराले

मद्याह्नभूव कतिचिद्धनिनां प्रसादात् ।

किं किं न सम्भवति सज्जनसङ्गमेन

पुंसां यदीश्वरकृपावशतः स भूयात् ॥२१॥

आप के उपदेश से जयपुर के कितने ही धनिकों के चित्त में मद्य से घृणा उत्पन्न हो गई । यदि ईश्वर की कृपा से सत्संग मिल जाय तो उस से मनुष्यों को कौन से लाभ नहीं होते ॥ २१ ॥

श्रीमद्भागवतादिखण्डनपरस्तत्रैव चक्रे स्थितिं

पूर्ण मासचतुष्टयं जयपुरे भव्यार्थचिन्तापरः ।

मिथ्यावैष्णवशैवयोरनुगतां लीलां जगद्विस्तृता-

मातेने स यथेच्छखण्डनमतियोगी दयावानलम् ॥२२॥

भागवत का खण्डन करते हुए वे जयपुर में पूरे चार मास रहे और जगत् में फैले हुए बनावटी वैष्णव तथा शैव मत की लीलाओं की पोल अच्छे प्रकार खोलते रहे ॥ २२ ॥

एतावतैव समयेन समस्तराज्य-
 राजन्यकर्णकुहरेषु गता तदीया ।
 नामाक्षरानिरतनोदतिदीप्यमाना
 सर्वं विहाय निजकृत्यमहो विवृत्ताम् ॥२३॥

जब स्वामीजी की गुणावली उस राज्य के समस्त क्षत्रियों के कानों तक पहुँची तब वे अपने सब कामों को छोड़ कर उनके दर्शनों की इच्छा करने लगे ॥ २३ ॥

अभ्यागमन्बहव एव तदीक्षणाय
 मूर्धाभिषिक्ततनयाः सनया विनीताः ।
 यैरन्तरात्मनि तदीयमतप्रणाली-
 माराध्य शिष्यपदवी सफलीकताभूत् ॥२४॥

आप के देखने के लिए बहुत से नीतिज्ञ विनीत भियकुमार आपके पास आये जिन्होंने आप के उपदेशों को ग्रहण कर शिष्यता प्राप्त की ॥२४॥

अनन्तरं ततो धीमानयं कृष्णगढ़ाभिधम् ।
 नगरं प्राप वेगेन यत्र नीता दिनद्वयी ॥२५॥

जयपुर से फिर आप कृष्णगढ़ को पधारे । वहाँ पर आपने दो दिन निवास किया ॥ २५ ॥

प्रापास्मादपि तद्विव्यमजतुन्दपुरं महत् ।
 यत्र नीतं दिनस्यैकमारामे वसता सता ॥२६॥

तीसरे दिन अजमेर पहुँच कर उन्होंने बौद्ध बाग में एक दिन निवास किया ॥ २६ ॥

पुष्करं नाम संवासं यथावस्माद्यतीश्वरः ।
 भवत्यनन्ता जनता यत्र तीर्थधियाधियाम् ॥२७॥

अजमेर से आप पुष्कर गये जहाँ भोले भाळे हिन्दू तीर्थ-भुक्ति करने इच्छे होते हैं और एक बड़ा मेला लग जाता है ॥ २७ ॥

तत्र तेन बहुमानवमध्ये
 ब्रह्ममन्दिरगतेन समन्तात् ।
 मूर्तिपूजननिराकरणेच्छा
 सर्वथैव सफला व्यतनिष्ट ॥२८॥

वहाँ आपने ब्रह्मा के मन्दिर में उतर कर इस प्रकार मूर्ति-पूजा का खण्डन किया जिससे सब लोगों की ब्रह्मा मूर्ति-पूजा से हट गई ॥ २८ ॥

अभ्यागमद्विजजनत्रिशती बलेन
 शास्त्रार्थविज्ञापनपत्रमवेक्ष्य तस्य ।
 वीरं मृगेन्द्रमिव बालशशालिरेनं
 शेके न वीक्षितुमपि क्षणमप्यतोगात् ॥२९॥

वहाँ पर आपके दिये हुए शास्त्रार्थ के विज्ञापन को देख कर तीन सौ पण्डित आये, परन्तु वे आपको देख भी न सके, तुरंत छैट गये। सिंह के सामने कहीं गीदड़ ठहर सकते हैं ? ॥ २९ ॥

पूर्व वीक्षितकौमुदीविरचना तेनादृता खण्डने
 पश्चान्द्वागवतादिपथरचना दुर्गादिपद्यस्तुतिः ।
 मिथ्यातीर्थपरम्परापरिणतिः प्रेतक्रिया चापरा
 सर्वापीह यथायथं प्रतिदिनं व्यामर्दिताभूत्कृतिः ॥३०॥

वहाँ पर पहले आपने वीक्षितकृत कौमुदी का खण्डन किया फिर भागव-
 तादि पुराण एवं दुर्गादि कल्पित स्तोत्रों का खण्डन कर के तीर्थ और मृतक-
 शास्त्र का भी अच्छी तरह खण्डन किया ॥ ३० ॥

व्यङ्कटेन पुनरत्र विचारं
 कुर्वता मतमतान्तरकोटौ ।
 व्यक्तमेव विहिता निजपक्षे
 तत्परे च विजयाजयकीर्तिः ॥३१॥

फिर व्यंकट शास्त्री के साथ मतमतान्तर विषय में शास्त्रार्थ कर आपने
शीघ्रही अपने पक्ष का जय तथा दूसरे पक्ष का पराजय दिखा दिया ॥ ३१ ॥

तदुपदेशबलेन जनैर्गले

परिधृतास्तुलसीनवमालिकाः ।

त्वरितमेव जले विनिपातिताः

अथ महतां न फलन्ति शिवा गिरः ॥३२॥

आपके उपदेश के प्रभाव से हजारों मनुष्यों ने कंठ में पहनी हुई
काँठियाँ तोड़ कर जल में फेंक दीं, क्योंकि महात्माओं के शुभ वचन कहीं
पर सफल नहीं होते ? ॥ ३२ ॥

ब्रह्ममन्दिरगतं द्विजमेकं

चर्मभाण्डबहुवादनकृत्यात् ।

ईश्वरोपकरणे विनियोज्य

स्वागतानि स चकार बुधानाम् ॥३३॥

वहीं पर ब्रह्म-मन्दिर के एक पुजारी को ढोल के बजाने से हटा कर,
ईश्वर की सभी मक्ति में लगाकर, आप पण्डितों के स्वागत में दत्त-विद्य
रहे ॥ ३३ ॥

रामानुजादिमार्गाणां खण्डनार्थमुपस्थिते ।

महामतौ दयानन्दे नागमत्कोपि पण्डितः ॥३४॥

जब आप वहाँ रामानुजादि मतों के खण्डन के लिये उपस्थित हुए तब
आपके सामने कोई पण्डित न आया ॥ ३४ ॥

द्राविडं यतिमप्येकं धावन्तमुपवीक्ष्य सः ।

भयतो मतवादस्य जयमत्र संमालभत् ॥३५॥

मतवाद के भय से आगते हुए एक द्राविड़ संन्यासी को देख कर
आप अत्यन्त खय को प्राप्त हुए ॥ ३५ ॥

अनुदापेत्सर्वस्य तदोऽनित्यत्वान्न दोषः । अनुक्रमव्यूहतीतिवत्, इति तत्त्वोपनिनी ।
म्यादौ वाङ्मयस्य इति धातोर्भाष्यायाम् ।

इतो यद्यपि तस्येच्छा मरुदेशोपवीक्षणे ।
बभूव परमेकस्य प्रार्थनात्तत्पुरं ययौ ॥३६॥

यद्यपि आपकी इच्छा यहाँ से मारवाड़ जाने की थी तथापि जोधपुर के एक क्षत्रिय की प्रार्थना से आप वहाँ को पधारे ॥ ३६ ॥

इतः स गत्वा पुनरुक्तपत्तनं
नवीनविज्ञापनदानतो द्रुतम् ।
नवीननानामतवादविप्लवे
निरुत्तरानेव चकार कोविदान् ॥३७॥

वहाँ से (३० मई सन् १८६६ ई० को) फिर अजमेर पधार कर आपने नवान विज्ञापन द्वारा मतमतान्तरों के विषय में समस्त पण्डितों को परास्त किया ॥ ३७ ॥

विधाय सत्यस्य बलेन सत्वरं
पुनः स तत्रैव विवादविस्तरे ।
गतोत्तरानीशमतावलम्बिनो-
मिमेल सत्रा नवराजशासकैः ॥३८॥

फिर अपने सत्यबल से (राबिन्सन आदि) ईसाइयों को शास्त्रार्थ में निरुत्तर कर आप (डेविन्सन साहब प० जी०) कमिश्नर से, मिलने को गये ॥ ३८ ॥

गवादिरक्षाविषये यथोचितां
- विधाय वार्ता सह तेन स स्वयम् ।
तदुत्तरेणापि तथाविधेन ता-
मगादरं कृष्णगढामिधं पुरम् ॥३९॥

उनसे गोरक्षा के विषय में स्वयं यथोचित बात कर और दूसरे रीपटन साहब से भी मिलते हुए आप दुबारा कृष्णगढ़ पधारे ॥ ३९ ॥

मार्गे तपस्वियुगलेन समं विधाय
 वार्तामहद्वृत्तिजयाजयपक्षवादे ।
 सद्गणिभिः सममिपूजित एष चक्रे
 श्रीवल्लभस्य मतखण्डनमत्त धीरः ॥४०॥

मार्ग में वे तपस्वियों से ग्रहणकार के अग्र-पराग्र में कुछ बात कर,
 ब्रह्मचारियों के द्वारा पूजित होकर वे बल्लभ मत का खण्डन करने
 लगे ॥ ४० ॥

ततः पुनर्जयपुरमाययौ मुनि-
 जनैः स्तुतो दृढतरशासनक्रमः ।
 शुभां मर्ति बहुविधिभिः प्रवर्तयं-
 स्ततो ययौ विधिवशतोर्गलं पुरम् ॥४१॥

कुप्यागढ़ से फिर आप जयपुर आये और वहाँ अपने सनुपदेशों से
 मनुष्यों को कृतार्थ करके आप फिर आगे बढ़े आये ॥ ४१ ॥

तत्र भागवतखण्डनं बला-
 द्राजयूथविषये विधाय सः ।
 दर्शनार्थमभयो ययौ पुन-
 र्माथुरीं भुवमितोपि दशिडनाम् ॥४२॥

आगे में (१ नवंबर सन् १९६६ ई०) के दरबार में बहुत से राजाओं
 के बीच में भागवतादि ग्रन्थों का खण्डन करके आप दण्डीजी के दर्शनार्थ
 मथुरा पधारे ॥ ४२ ॥

विधाय तत्रान्तिमदर्शनं यति-
 र्महागुरोराप्य तथाशिषं शिवाम् ।
 जगाम नानानगरेषु संवसन्
 पुनः स कुम्भोपरि पत्तनं हरेः ॥४३॥

मथुरा में विरजानन्दजी का अन्तिम दर्शन तथा आशीर्वाद ग्रहण कर
दीर्घ में आये हुए मेरठ आदि नगरों में विभ्राम लेते हुए आप दुबारा कुम्भ
के मेले पर हरिद्वार पधारे ॥ ४३ ॥

[षड्भिः कुलकम्]

यत्र पर्वतविदारणापटुः

शिल्पशास्त्रपरिशीलनश्रमी ।

उन्नतादगवरात्समानय-

जाह्नवीमतिजलां भगीरथः ॥४४॥

जहाँ पर पर्वतों के मेदन में निपुण भगीरथ नामक शिल्प वेद का विद्वान्
उन्नत पर्वत से बहुजल-पूर्ण गङ्गा को नीचे उतार लाया ॥ ४४ ॥

एकतः किल विभाति यत्र सा

पर्वतद्वयविचित्रकल्पना ।

रम्यभूमिरचनान्यतः परा

दृश्यते सहृदयैः कवीश्वरैः ॥४५॥ .

और, जहाँ पर दो पर्वतों का मेळ, एक ओर अद्वितीय दृश्य को दिखा
रहा है और दूसरी ओर जहाँ बड़ा भारी मैदान फैला रहा है ॥ ४५ ॥

रामणीयकविलोकनोत्सुकै-

र्यत्र योगिमिरपि प्रकल्पिता ।

मुक्तिभूरियमिति प्रकल्पना

सर्वसौख्यसमुदायदर्शनात् ॥४६॥

जिसकी उच्चम सुन्दरता को देख ऋषियों ने भी सुखाधिक्य से मुक्ति-
स्थल माना है ॥ ४६ ॥

गाङ्गमम्बु बहु यत्र निर्मलं

तोयमध्यगतमिष्टकल्पनाम् ।

सत्यमेव सफलत्वमानयत्

किन्न भाति बहुविश्वमण्डले ॥४७॥

गङ्गाजी का निर्मल मधुर जल जहाँ पर जल के स्वाभाविक मधुर गुण को बता रहा है ॥ ४७ ॥

द्वादशे भवति यत्त ह्यायने

कुम्भ इत्यतिजनैः प्रशंसिता ।

सर्वदेशमनुजानुवर्तिनी

रम्यकूलवसना जनस्थितिः ॥४८॥

जहाँ बारहवें वर्ष बड़ा भारी कुम्भ का मेला हुआ करता है ॥ ४८ ॥

यत्समीपविषयेधुना धृतं

सज्जनैर्गुरुकुलं विराजते ।

प्राक्तनार्षपदवीमुपागतं

वास्तवेपि जगदेकमण्डनम् ॥४९॥

जिसके पास आज कल प्राचीन ऋषि-प्रणाली के अनुसार विश्व-भूषण गुरुकुल विराजमान हो रहा है ॥ ४९ ॥

स तत्र गत्वा रचयत्समन्ततो-

महान्तमेकं तृणकल्पितं कुटम् ।

यदन्तरे तत्समभावभाविनो-

यतीश्वराश्चक्रुरनन्तकल्पनाः ॥५०॥

उस हरिद्वार में पहुँच कर सप्तस्रोत के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा लकड़ी का बाड़ा बनवाया जिसमें बहुत से संन्यासी या प्राकृत वैदिक-धर्म के उन्नति-मार्ग का विचार करते रहते थे ॥ ५० ॥

सप्तस्रोतोभिधा यत्त निर्मिता परमात्मना ।

वनस्थली ऋषिवातानाक्रष्टुमिव सुन्दरी ॥५१॥

अहाँ पर खसखोत नामक स्थान ईश्वर ने मुनियों के मनो को मोहित करने के लिय बनाया था ॥ ५१ ॥

पाखण्डखण्डिनीं तत्र पताकां विजयोद्यताम् ।

बहुभिः सज्जनैः सार्धं योजयामास योगिराट् ॥५२॥

घोर उलके सामने ही आपने विजय-सूचक पाखण्ड-खण्डिनी नाम की पताका गड़वा दी ॥ ५२ ॥

अत्रान्तरे महौस्तत्र समुदायोभवत्परः ।

नानामतपरा यत्र नानालोकाः समाययुः ॥५३॥

इसी बीच मैं वहाँ पर एक बड़ा भारी मेला लगा जिसमें अनेक मत-वादी अनेक जन आये ॥ ५३ ॥

वाराणसीनिवास्येको विशुद्धानन्दनामभाक् ।

समं राजजनैस्तत्र विवादार्थमुपागमत् ॥५४॥

काशी-निवासी स्वामी विशुद्धानन्दजी भी कुछ राजाओं के साथ आप से घाड़ार्थ करने आये ॥ ५४ ॥

मन्त्रं जातिपरं कञ्चित्प्रस्तूय कृतवाग्भ्रमः ।

तथा परामर्षं प्राप यथानाप परः पुमान् ॥५५॥

वे जातिपरक (ब्राह्मणोत्सव) मन्त्र के छेड़ने पर ऐसे परास्त हुए कि जैसा आज तक कोई नहीं हुआ ॥ ५५ ॥

कैलासपर्वतस्तत्र दृष्ट्वा दुर्धर्षकल्पनाम् ।

दयानन्दस्य मध्यस्थो जयमस्यान्वमोदत् ॥५६॥

उस घाड़ार्थ में श्रीमान् कैलास पर्वतजी मध्यस्थ थे । उन्होने स्वामी दयानन्द का पक्ष प्रबल देख कर उन्हीं को विजयी प्रसिद्ध किया ॥ ५६ ॥

पौराणिका जनास्तत्र श्रुत्वा तद्गर्जनध्वनिम् ।

सिंहान्मृगा इव दिशो ययुरुदिश्य कातराः ॥५७॥

बहुत से पौराणिक पण्डित आपकी गर्जना को सुन कर इस प्रकार भागने लगे कि जैसे सिंह की गर्जना को सुन कर मृग भाग जाते हैं ॥ ५७ ॥

बहुवः सज्जनास्तत्र दर्शनार्थमुपागताः ।

यतीशं तुष्टुवुर्भक्त्या परेशमिव योगिनः ॥५८॥

बहुत से सज्जन आपके दर्शन के लिय आकर आपको देख कर प्रति प्रशंसा करने लगे ॥ ५८ ॥

बहून्विपक्षिणोलोकाञ्छ्रुतभाषणविस्तरान् ।

वैदिके पथि संयोज्य जयभागभवन्मुनिः ॥५९॥

ऋषि भी बहुत से विपक्षियों को आर्य्य-मार्ग में लाकर विजय की प्राप्त हुए ॥ ५९ ॥

ज्ञातवान्क इदं वृत्तं दयानन्दो भविष्यति ।

लोकोपकारकरणे सप्तसहस्रः सर्वशास्त्रवित् ॥६०॥

इस बात को कौन जानता था कि समस्त शास्त्रों का जाननेवाला ऋषि दयानन्द लोकोपकार में तत्पर होगा ॥ ६० ॥

विहायेमं दयानन्दं कस्य शक्तिरमूत्परा ।

य एवंविधसङ्घेपि मतवादाग्निवारयेत् ॥६१॥

आपके सिवा किसकी शक्ति थी जो कि इतने जन-समुदाय में समस्त मतों का मुक़ाबिला करता हुआ वैदिक धर्म का प्रचार कर सके ॥ ६१ ॥

दृष्ट्वा यतिवरोस्तत्र स्वार्थसाधनतत्परान् ।

हृदये समभूदस्य विचारैकपरा मतिः ॥६३॥

उस भेदे में संन्यासियों को भी स्वार्थ-साधन में तत्पर देख कर आपके मन में बड़ा दुःख हुआ ॥ ६२ ॥

य एव लोकरक्षायै विधिना विनियोजिताः ।

त एव लोकनाशाय विचेष्टन्ते किमद्भुतम् ॥६३॥

जिनको ईश्वर ने अज्ञ का रक्षक बनाया था वे ही आज उसके भङ्गक बन गये ! ॥ ६३ ॥

केचित्पञ्चशिखाः केचिन्मुशिडनः केपि केशिनः ।
काषायवह्नवन्तोपि मतमित्थं वितन्वते ॥६४॥

कोई पञ्चशिख, कोई मुण्डी, कोई शिखी. काषाय बल धारण करके भी
नामा मतों का प्रचार करते हैं ॥ ६४ ॥

देशस्याधोगतिं वीक्ष्य पश्चात्तापपरो मुनिः ।
नितरामुन्नतौ तस्य मनः स्वीयं न्यवेशयत् ॥६५॥

इस दुर्दशा को देख कर पश्चात्ताप करते हुए आप उसकी उन्नति में
अपना मन लगाने लगे ॥ ६५ ॥

विरागिणामपि दशां बहुरागपरायणाम् ।
उदासीनवदासीनो विलोक्य शुचमागमत् ॥६६॥

विरागियों को भी बहुरागी देख कर वहाँ पर आप और भी चिन्ता में
प्रस्त हुए ॥ ६६ ॥

दुर्दशा दुर्दशां यातु सुदशा यातु भारतम् ।
इति प्रार्थितवानीशमात्मोत्तेजनया यतिः ॥६७॥

और आप भारत की दुर्दशा के दूर होने और सुदशा की प्राप्ति के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करने लगे ॥ ६७ ॥

सतां परोपकाराय सम्भवन्ति विभूतयः ।
इति मत्वा निजं सर्वं ददौ सर्वेभ्य आदरात् ॥६८॥

यह सोच कर उन्होंने निश्चय किया कि सबकी विभूति परोपकार
के लिए ही होती है। इसलिए उन्होंने भी अपना सर्वस्व दूसरों को दे
डाया ॥ ६८ ॥

महामाष्यं गुरोरर्थे मशुरामयमात्मवित् ।
सवह्नं सधनं साधुः प्रापयामास तत्क्षयम् ॥६९॥

सबसे पहले अपने गुरु के लिए एक महामाष्य का पुस्तक, दो सुवर्ण-
मुद्रा और एक दुशाळा मयरा को भेजा ॥ ६९ ॥

कौपीनवान्दिग्बसनो भस्मोद्घूलितविग्रहः ।

भूत्वा परोपदेशाय मतिमादादनुत्तमाम् ॥७०॥

इस प्रकार अपनी सभ धस्तुओं को परोपकार्य दान कर आप कौपीन-
धारी हो गये और भस्म को धारण करके आप परोपकार में ही निरन्तर मग्न
रहने लगे ॥ ७० ॥

देशस्यातिपवित्रत्वान्निजवेशोचितं शुभम् ।

गङ्गातटमुपक्रम्य प्रारेमे भ्रमणक्रियाम् ॥७१॥

देश के प्रति पवित्र होने से आप गङ्गा-तट पर भ्रमण करने के लिए
उद्यत हुए ॥ ७१ ॥

पूर्वं यथावृषिच्छेत्रं परावृत्य ततस्त्वरम् ।

हरिद्वारादिवासेषु क्रमशो गमनं व्यधात् ॥७२॥

पहले वे वृषिकेश जाकर वहाँ से लौट, कानपुर तक गङ्गा के किनारे
किनारे क्रमशः रहने लगे ॥ ७२ ॥

सार्द्धमद्वयुगं कूले जाह्नव्याः स परिभ्रमन् ।

स्वकीये बलविद्येपि तपोयुक्तेकरोन्मुनिः ॥७३॥

इस प्रकार छह वर्ष भ्रमण करते हुए वे आत्मिक बल बढ़ाते रहे ॥७३॥

देववाणीव्रतो नित्यमेकाहारपरः शुचिः ।

आकर्णपुरमागच्छन्प्रत्यावृत्तिमुपागमत् ॥७४॥

एक समय भोजन और संस्कृत में भाषण करते हुए कानपुर से फिर
लौटने लगे ॥ ७४ ॥

येषु येषु निवासेषु पूर्वं वासमकल्पयत् ।

तेष्वेव स पुनर्गच्छन्नाप योगित्वमद्भुतम् ॥७५॥

जिन स्थानों में वे जाते समय ठहरे थे उन्हीं में आते समय भी रहे ॥७५॥

सर्वेष्वपि निवासेषु सन्ध्यादिशुभकर्मणाम् ।
विधानमुपदिश्यासौ कर्णवासमवासवान् ॥७६॥

जहाँ जहाँ पर वे रहे वहाँ वहाँ पर सन्ध्यादि कर्मों का उपदेश देते हुए कर्णवास पधारें ॥ ७६ ॥

यत्र मत्पितृचरणैरेभ्य एव यथाविधि ।
समग्राहि शिवादीक्षा शिक्षापि निगमोचिता ॥७७॥

वहाँ पर मेरे पिता पण्डित टीकारामजी ने आप ही से वैदिक दीक्षा एवं शिक्षा भी ग्रहण कर शिष्यता प्राप्त की ॥ ७७ ॥

वनभूमिरसम्बाधा यत्र विश्राम्यतां नृणाम् ।
समाकर्षति चेतांसि चिरविश्रामहेतवे ॥७८॥

वहाँ की निरुपग्रह वनभूमि रहनेवाले पुरुषों का मन अधिक रहने के लिए आकर्षित करती है ॥ ७८ ॥

मृगुर्यत्र तपस्तेपे महर्षिः कतिचित्समाः ।
पश्चात्समाधावातस्थौ परमात्मपरायणः ॥७९॥

वहाँ पर महर्षि मृगु ने कुछ वर्ष तप कर फिर समाधि द्वारा परमेश्वर को जाना था ॥ ७९ ॥

कर्णराजो निवसनाद्यत्र नूनमहर्दिनम् ।
अन्वर्थतामुपगता कर्णवासेति कल्पना ॥८०॥

वहाँ पर राजा कर्ण के सर्वदा रहने से कर्णवास नाम सार्थक बन गया ॥ ८० ॥

स तत्र नानाविधपरिदतैः समं
विधाय शास्त्रार्थमयत्नासिद्धिदम् ।
चकार गप्पाष्टकखण्डनं तथा
यथा पतन्मन्दिरमूर्तयो जले ॥८१॥

उस कर्मवास में अम्बावत्सादि बहुत पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ कर आपने आठ गण्यों का ऐसा सम्बन्ध किया कि जिसके प्रताप से मन्दिरों की मूर्तियाँ गङ्गा में गिरने लगीं ॥ ८१ ॥

तत्रैव दुष्टजनभीतिमसौ विमुच्य
शस्त्रामिघातमपि तादृशवैरिजातम् ।
सत्योपवेशमकरोन्मनुजेषु नूनं
हुंकारदूरकृतशत्रुजनौघदर्पः ॥८२॥

वहीं पर हुंकार मात्र से शत्रुओं को डरा, निर्भय होकर, ठाकुर कर्मसिंह की लड़ाई का भी भय न करते हुए ऋषि धर्म का उपदेश करते रहे ॥८२॥

अस्मान्तरे जह्नुसुतातटस्थं
स रामघटं गतवान्महात्मा ।
महोपदेशाय भवन्ति यत्र
विपरिचतस्तीर्थधिया समेताः ॥८३॥

इसी बीच में कार्तिकी के मेले पर बहुत से मनुष्यों को उपदेश देने के लिए वे गङ्गातटस्थ रामघाट को पधारे ॥ ८३ ॥

निवार्य नानामतगान्मनुष्या-
नयं महात्मा नरकस्य मार्गात् ।
बलेन तस्माथ निवेश्य धर्मे
पुनर्मृगोराप तपःस्थलं तत् ॥८४॥

उस रामघाट में अनेक मतवाले पुरुषों को दुःख-मार्ग से हटा और सब्से वैदिक धर्म में लगाकर आप फिर (धृष्टकेतु) कर्मवास पधारे ॥ ८४ ॥

धैर्येण तत्र निवसन्स जितात्मभावः
पाश्चात्यदेशजमनुष्यगणेन सार्द्धम् ।
वार्ताश्चकार परमेश्वरवत्तचेता
नाशं यथा किल ययुर्निजवैरियूथाः ॥८५॥

इस कर्णवास में धैर्य से रहकर पञ्चाब के कुछ पुरुषों के साथ वे इस प्रकार की बात करने लगे कि जिससे वहाँ के सब शत्रु नष्ट हो गये ॥ ८५ ॥

सर्वेपि तद्रिपुगणाः क्रमशो महान्तं

क्लेशं समापुरिति वीक्ष्य समेति चित्ते ।

सत्यं वदन्ति ऋषयः परमार्थविज्ञाः

पापस्य यत्फलमहो भवतीह कष्टम् ॥८६॥

ऋषियों का यह कथन सत्य है, कि पाप का फल दुःख ही होता है । जिन जिन दुष्टों ने ऋषि को कष्ट दिया उन उन का अन्त में बुरा ही हुआ ॥ ८६ ॥

सूर्यग्रहागतमनुष्यगणे स तत्र

वेगेन खण्डनमकल्पयदप्रमेयम् ।

मिथ्याविनिर्मितनिजार्थपरायणानां

तीर्थप्रशस्तिवचनस्य किमन्यदस्मात् ॥८७॥

उसी कर्णवास में सूर्य-ग्रहण में आये हुए मनुष्य-समुदाय में कर्णवास-माहात्म्य का आपने खूब खण्डन किया । यह माहात्म्य वहाँ के लोगों ने बना रक्खा था ॥ ८७ ॥

तस्मादनन्तरमितो विजयाय योगी

नानापुत्रेषु पुनराप जवादनूपम् ।

गङ्गातटस्थितमितोपि ययौ स पश्चात्

तस्मात्परं करुणयाघहरं निवासम् ॥८८॥

वहाँ से समीप ही नगरों में भ्रमण करते करते आप चनूपशहर में लाला बाबू की कोठी पर कुछ दिन रह कर वहाँ से भी आहार पचारे ॥८८॥

रामादिभूपतिचरित्रमृतो मनुष्यान्

मिथ्याविनोदनपथाच्छुभकर्ममार्गं ।

नानोपदेशविधिना विनियोज्य तत्र

योगासनस्थितिमकल्पयदप्रमेयाम् ॥८९॥

आहार में बहुत से लोग रामलीला आदि में लगे रहते थे । स्वामीजी ने अपने उपदेश से उनके उस बोल से हटा कर वास्तविक धर्म-मार्ग में लगाया और आप कुछ दिन तक वहाँ योगाभ्यास करते रहे ॥ ८९ ॥

अत्रान्तरे दलमिषेण जनेन दत्तं

मत्वा महद्गुरजमाशु जलान्तरस्थः ।

योगक्रियाविधिवशादयमेकदेशा-

दुग्धमाञ्चकार सहसैव महर्षिवर्यः ॥६०॥

उन्हीं दिनों किसी दुष्ट ने उनके पान में विष दे दिया । जाने पर स्वामीजी को मालूम हो गया । वे तुरन्त गङ्गा में गये और वहाँ जाकर योग-मार्ग से उस विष को शरीर से बाहर निकाल दिया ॥ ९० ॥

निःसार्य तद्गुरजमीक्ष्य विषप्रदं तं

बन्धे महीपरचिते निरमोचयत्सः ।

संसारबन्धनविमोचनदत्तचित्ताः

नो बन्धनेषु मनुजान्गमयन्ति सत्यम् ॥६१॥

विष निकल जाने पर उन्होंने देखा कि विष देनेवाला हवालात में लड़ रहा है । उसका दुग्ध समझे न देखा गया । उन्होंने अपनी कृपा से उसको छुड़वा दिया । महा बन्धनों को काटनेवाले पुरुष किसी को बन्धन में थोड़े ही आकते हैं ॥ ९१ ॥

निवार्य तं बन्धनतः स योगी

ययावितो बिल्ववर्नं प्रशस्तम् ।

महर्षयो यत्र फलाशनेन


योगानलभ्यानलभन्सुखेन ॥६२॥

बन्धन से उस पुरुष को छुड़ा कर आप यहाँ से बेलौन पधारे । वह ऐसा स्थान था कि जहाँ पर ऋषियों ने केवल फल खाकर योग-सिद्धि को प्राप्त किया था ॥ ९२ ॥

गत्वा तत्र विधाय खण्डनमलं श्राद्धस्य तस्मात्परं
 रामादीनवतारभावरहितान्संबोध्य चायं मुनिः ।
 व्याख्यानैरपि वेदमन्त्रमहितैर्विश्वास्य विद्वज्जना-
 नन्ते मङ्गलमन्त्रपाठमकरोद्भद्राय विश्वात्मनाम् ॥६३॥

फिर स्वामी दयानन्द सरस्वती बेलौन जाकर मृतक के श्राद्ध तथा अवतारवाद का युक्ति तथा प्रमाणों द्वारा अच्छे प्रकार खण्डन कर और व्याख्यानो द्वारा विद्वानों को भी आनन्दित करते हुए अन्त में जगत् के कल्याण के लिए शान्ति-पाठ करने लगे ॥ ९३ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दरामकृतौ सतिषके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये
 सद्युपदेशारम्भवर्णन नाम पञ्चमः सर्गः ।



षष्ठः सर्गः

श्रीयुतः स पुनरप्युपदेष्टुं
व्यातनोज्जनहितानि हि तानि ।
कुत्र यान्ति विरतिं निजकृत्या-
दादृताः परशिवेषु महेच्छाः ॥१॥

परोपकार में दृष्ट-चित्त पुरुष कदापि निज कार्य से नहीं हटा करते,
पेसा जान कर श्रीमान् फिर भी हितोपदेश देने के लिए उद्यत हुए ॥ १ ॥

यत्र यत्र स जगाम महात्मा
तत्र तत्र सुमहार्यसमाजः ।
सङ्गतोभवदचिन्त्यगुणाना-
मादरे भवति को न हितैषी ॥२॥

जहाँ जहाँ पर वे ऋषि जाते थे वहाँ वहाँ पर सज्जन-समाज हुआ करता
था, क्योंकि अव्युत्त गुणों के ग्रहण में कौनसा जन आदर नहीं करता ? ॥२॥

योमिवाञ्छति जनेषु नितान्तं
स्वागतं स तनुते सहसैव ।
निष्प्रयोजनतया सुगुणानां
पूर्णावृष्टिमिव नूतनमेघः ॥३॥

जो पुरुष मनुष्यों में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है वह पहले उन से कुछ
प्रयोजन न रख कर उनके लिए नवीन मेघ के समान गुणों की वृद्धि किया
करता है ॥ ३ ॥

स्वार्थसाधनपरे मनुजे के
 विश्वसन्ति मनुजा इह लोके ।
 वृश्यते जगति नैव समुद्रं
 यान्ति मूढमतयोपि जलाय ॥४॥

जो पुरुष स्वार्थ-साधन में तत्पर रहते हैं लोग उनका विश्वास नहीं करते । यह बात है भी ठीक । यह बात प्रत्यक्ष है कि मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी मछ के छिप समुद्र के पास दौड़ा नहीं जाता ॥ ४ ॥

इत्यवेक्ष्य मुनिरार्यनिवासं
 कर्तुमेतदखिलं किल विश्वम् ।
 मानसे मनुनिबोधितकृत्यां
 व्याततान निगमानुगतां ताम् ॥५॥

यही मन में सोच कर वे जगत् को आर्यनिवास बनाने के छिप मनुप्रोक्त वेदानुसूक्त कार्यों का विचार करने लगे ॥ ५ ॥

मन्दिरेथ लघुभैरवमूर्ते-
 र्मानुषं वपुरुपेत्य किमत्र ।
 कर्म कर्तुमुचितं जनिमासै-
 रित्युदारमतिरेष जगाद ॥६॥

यही विचार कर वे वहाँ से प्रतरौली पहुँचे । वहाँ भैरव के मन्दिर में उन्होंने मनुष्यों के कर्तव्य पर व्याख्यान दिया ॥ ६ ॥

विश्वविश्रुतमनोहरकीर्तिः
 सोत्र सज्जनजनानुपदिश्य ।
 वन्दितो बहुजनैरुपपेदे
 पत्तनं लघु ब्रह्मेश्वरसङ्गम् ॥७॥

वे विख्यात-कीर्तिं अपि अतरोही में सज्जनों को उपदेश देकर वहाँ से शीघ्र ही छुट्टेसर चले गये ॥ ७ ॥

मन्दिराणि गमनोत्तरेमेव

प्रस्तोरुपचितानि स योगी ।-

विंशतिर्निजकृतैरुपदेशै-

स्तत्र यज्ञसदनानि चकार ॥८॥

छुट्टेसर में पहुँच कर उन्होंने ऐसा उपदेश दिया और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहाँ के दीसियों मन्दिरों से मूर्तियाँ हटा दी गईं और उनमें यज्ञशाळायें बनने लगीं ॥ ८ ॥

विधाय तस्मिन्नगरे महात्मा

स पाठशालाः कतिचित्सुखेन ।

जगाम वेगादपरं निवासं

विलोक्य नम्रं जयकृष्णदासम् ॥९॥

उसी शहर में वे महात्मा राजा जयकृष्णदास से मिले और उन्होंने कई पाठशाळायें खुलवाईं । फिर वे वहाँ से बगदिया में पहुँच गये ॥ ९ ॥

समेत्य चक्राङ्कितपण्डितानां

स तत्र लीनां बहुशोविलोक्य ।

विजित्य सर्वानथवादमध्ये

जयं प्रपेदे जगति प्रसिद्धम् ॥१०॥

वहाँ पहुँच कर उन्होंने चक्राङ्कितों की शीळायें देखीं । वहाँ शाळार्थ में सबको जीत कर प्रसिद्ध जयकाम किया ॥ १० ॥

इतः परां कोलपुरीमयं यति-

जगाम तत्रापि बहुन्महोदयान् ।

श्रुतेर्मते सम्मिलितानकल्पय-
ज्जनौघमध्ये बलवद्रचोबलः ॥११॥

यहाँ से आप सूकरहोत्र में पहुँचे । वहाँ व्याख्यान द्वारा बहुत से
सज्जनों को वैदिक मार्ग में लगाकर आप कुछ दिन वहीं निवास करने
लगे ॥ ११ ॥

अथाङ्गदं परिहृतमेकमादरा-
द्विजित्य नानाविषयेषु सत्वरम् ।
तथा वशीभूतमकल्पयद्यथा
सहस्रशस्तद्वशमापुरस्मयाः ॥१२॥

कुछ दिनों के बाद वहीं पर एक अंगद नामक पंडित को समस्त विषयों
में ऐसा परास्त किया कि जिससे बहुत जन आर्य होगये ॥ १२ ॥

यथोत्तरं सर्वपुराणकल्पनां
नवीनरूपामनुवाच्य सर्वशः ।
स पर्वतं प्रत्यवदन्मतक्षयी-
विभञ्जनार्थे निगमानुशासनः ॥१३॥

वहीं पर सबके समस्त पुराणों की रचना नवीन एवं मिथ्या बता कर
आप कैलास पर्वत से रामानुज, बल्लम और भाष्य मतेों के खण्डन के लिए
कुछ कहने लगे ॥ १३ ॥

क्रमेण तत्रागतमङ्गदान्तरं
स पूर्वशिष्यो द्रुतमङ्गदाभिधः ।
तथा विवादेनयदेकमूकतां
यथा स गेहं प्रजगाम लज्जितः ॥१४॥

इसी अवसर में पीलीभीत का रहनेवाला एक दूसरा अंगद आपसे
विवाद करने आया जिसको पहले अंगद ने ही परास्त करके भगा दिया ॥१४॥

बलदेवगिरिर्विलोक्य बुद्धिं
महतीमस्य जयोद्यमप्रविष्टाम् ।
शरणं गतवानिमं यतीशं
त्रिभिरप्यात्ममनोधनैः समेतः ॥१५॥

वहीं पर बलदेवगिरि गुसाईं ने आपकी छाछार्य में जीत देकर अपना तन मन धन सबही आपके अर्पण कर दिया ॥ १५ ॥

अतः परं कोपि यतिर्दिगम्बरः
कृते विवादस्य समाययौ रसात् ।
परं बलं वीक्ष्य निजं ततोवरं
जगाम देशाटनतत्परो द्रुतम् ॥१६॥

कुछ समय के बाद वहाँ पर एक नग्न सन्यासी आपसे विचार करने आया, परन्तु अपना बल अल्प देकर शीघ्र ही चला गया ॥ १६ ॥

यतीश्वरोपीश्वरदत्तमानसः
पुरान्तरं प्राप्य गुरोर्विवङ्गमम् ।
निपीय दुःखीसमभूवितो महान्
गुरोर्वियोगे वत को न दूयते ॥१७॥

ईश्वर में मन लगानेवाले अधि द्यानन्वसी वहाँ से फकोड़े चले गये । वहाँ पहुँच कर गुरु विरजानन्वसी का देहान्त-संवाद सुनकर वे बहुत शोकाकुल हुए । महा गुरु का शोक किस को दुःख नहीं देता ? ॥ १७ ॥

वियोगदूनोपि स पत्तनान्तरं
पुरादितः प्राप्य विचारपद्धतौ ।
महोदयान्नष्टविशेषसंशया-
नकल्पयत्सत्त्वरमेव तत्त्वरः ॥१८॥

शोकाकुलावस्था में ही आप नरीली गये और वहाँ आपने बहुत से लोगों की शंकाओं का समाधान करके उन्हें निःसंशय कर दिया ॥ १८ ॥

इतः स गत्वा नगरान्तरं यति-

निजोपदेशैर्बहुबोधयञ्जनान् ।

ययावितः कायमगंजमंजसा

ततोपि वेगेन नु फल्युपत्तनम् ॥१६॥

फिर आप नरौली से बहरामपुर गये और वहाँ के लोगों को उपदेश देकर कायमगंज होते हुए फ़र्दनाबाद पधारे ॥ १९ ॥

धर्मोपदेशमथ तत्र विधाय विद्या-

सम्बन्धिनं सुविषयं खलु बोधयित्वा ।

गङ्गातटे वटविशोभितकूलयुग्मे

तस्थौ समाधिविधिवर्धनदत्तचित्तः ॥२०॥

वहाँ पर जाकर धर्म एवं विद्या विषय में व्याख्यान देकर वट-वृक्षाच्छादित गंगा-तट में समाधि-क्रम बढ़ाते हुए रहने लगे ॥ २० ॥

श्रुत्वा तमद्भुतविचारपरं यतीन्द्रं

पौराणिका भयविशुष्कमुखाः कथञ्चित् ।

वाराणसीविलिखितं लघुमानपत्रं

शीघ्रं निवेद्य पुरतोस्य शौनरतिष्ठन् ॥२१॥

वहाँ के मयभीत पौराणिक विचारशील ऋषि के सामने स्वयं कुछ भी विचार-शक्ति न रहने के कारण काशी के पण्डितों के दिये हुए मानपत्र पेश करने लगे ॥ २१ ॥

दृष्ट्वा तदीयलिपिमादरतोस्य चित्ते

दृषोत्कताक्षतिलोकनतोभवद्या ।

वाराणसीबुधगणस्य पराजये सा

प्राकव्यमेष्यति किमत्र विलेखनेन ॥२२॥

काशीस्थ पण्डितों के हाथ के लिखे हुए पत्र में अशुद्धियों को देख कर स्वामीजी के मन में उनके जीतने की जो प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई वह इसी सर्ग के अन्त में वर्णन की जायगी । यहाँ अधिक कहने से क्या प्रयोजन ? ॥ २२ ॥

अद्यान्तरे दिनविनिश्चयपूर्वकं यः

शास्त्रार्थनिश्चयपणः समभूद्बुधानाम् ।

पीताम्बरः समभवत्परिषत्प्रधानो-

गोपालकश्च लघु तत्र वचःप्रधानः ॥२३॥

इतने में ही वहाँ शास्त्रार्थ का दिन निश्चित होगया जिसमें प्रधान पीताम्बर जी बनाये गये और वक्ता पण्डित गोपालजी नियत हुए ॥ २३ ॥

मूर्तिप्रपूजनविधावभवद्विचारः

सर्वैः समं बुधवरैः प्रहरत्रयं सः ।

यस्मिन्ययुर्विमुखतां विबुधाः क्रमेण

पौराणिकास्तदपरे लघुहर्षमापुः ॥२४॥

वह शास्त्रार्थ मूर्ति-पूजन विषय में हुआ जिसमें पौराणिक लोग हार गये और विद्वानों को बहुत बड़ा हर्ष हुआ ॥ २४ ॥

एतावतैव समयेन तत्र द्वितीयं

वाराणसेयमनयन्विबुधाः पुरोस्य ।

यत्तस्य खण्डनमयं विदधे महात्मा

सम्यक्तया प्रतिपदं तिलशः किमन्यत् २५

इतने ही में दूसरे शास्त्रार्थ का निश्चय होने पर जो दूसरा काशी का पत्र आपके समक्ष आया उसका आपने खूब खंडन किया ॥ २५ ॥

कामार्थिनोपि शिवइत्यवगम्य तस्थ

शीर्षे निर्जासधृतगाङ्गजलप्रपूरान् ।

आपातयञ्छिवकरं जगतामवेक्ष्य

सत्यं तदद्भुतमभूच्छिवमेव यूनाम् ॥२६॥

वहीं पर कुछ कामरियों ने स्वामी जी को शिव समझ कर अपने कंधे पर रखी हुई गंगाजल की सारी शीशियाँ उनके सिर पर चढ़ा दीं । वास्तव में उनका भी कल्याण हो गया ॥ २६ ॥

अत्रान्तरे हलधरो बहुभिर्मनुष्यैः

सत्राजगाम किल तत्र महाभिमानी ।

यत्वाश्रितिः समुचिता मुनिना वनान्ते

ध्यानोपयोगितटमाप्य कृता निसर्गात् ॥२७॥

इसी बीच में अभिमानी हलधर (भोक्ता) बहुत से पुत्रों को साथ लेकर वहीं पर आये जहाँ कि गंगा-सट पर आप ठहरे हुए थे ॥ २७ ॥

दृष्ट्वेश्वरं बुधगणस्य स तत्र मानाद्

द्रव्यात्मकं विनिमयं परिकल्प्य तूर्याम् ।

मौर्तं प्रकल्प्य विषयं निगमप्रमाणा-

भावान्निरुत्तरइवाभवदश्रमेण ॥२८॥

वह गर्व से उनके सामने चार सहस्र की जमा रखकर मूर्तिपूजन विषय में कुछ बोला, परन्तु वेद-प्रमाणाभाव से स्वयं मूक हो गया ॥ २८ ॥

सर्वं विहाय मतपक्षमयं विपक्षी

रात्रौ कृञः प्रकरणं प्रथयन्न चक्रे ।

∴ यन्नाषणं मलिनतां महतीं जनेषु

∴ तत्सत्यमाप बलवन्मुनिना परास्तः ॥२९॥

दूसरे दिन रात के समय चार सत्र बातों को छोड़ कर केवल ' कृञ ' शब्द का प्रकरण उठाया गया, परन्तु जब वह कुछ भी न बोला तब उसकी बड़ी निन्दा हुई ॥ २९ ॥

पश्चादसौ मलिनशाक्तमतैकपक्षो-

वार्तामकल्पयदनल्पविषादवेषः ।

यस्मिन्पराजयमवाप्य परं न पश्चा-

दास्यं प्रकर्तुमशकन्मनुजेषु नूनम् ॥३०॥

फिर ओम्हा महाशय ने क्रोध में भर कर शाक-मत की बातें छेड़ों, परन्तु उनमें भी वह ऐसा परास्त हुआ कि उसको मुँह दिखाना भारी होगया ॥ ३० ॥

अनन्तरं तत्र निवेश्य रम्यां

स पाठशालां मनुजैः प्रशस्तम् ।

पुरान्तरं प्राप लघु क्रमेण

जनौघसन्दर्शितमञ्जुमार्गः ॥३१॥

शास्त्रार्थ के अनन्तर आप वहाँ पर एक पाठशाला स्थापन कर वहाँ से शीघ्रही सिहीरामपुर पधारे ॥ ३१ ॥

तत्र तर्जितमतान्तरवादः

सत्यशास्त्रविनिवेशितभावः ।

यापयन्दिनयुगं मनुजौघा-

नश्रुपूर्णनयनानकरोत्सः ॥३२॥

वहाँ पर दो दिन रह के मतों का अण्डन एवं सत्य शास्त्रों का मंडन करते हुए अंत में वियोग के लिए उद्यत हुए ॥ ३२ ॥

इतो गमिष्याम्यधुनेति सादरं

वदत्यमुष्मिन्यमिनाम्बरे परा ।

निरस्तधैर्याभवदेव सर्वथा

शुचा बुधाली किमतः परं वचः ॥३३॥

अब आपने अपने जाने का मनोरथ विद्वानों को सुनाया तब अमस्त विद्वान् शोक से अत्यन्त शोकाकुल हुए ॥ ३३ ॥

पुरान्तरं गतवति पुण्यदर्शने

मुनौ ततः परतरमेकतः स्थिता ।

मुदाभवत्प्रमुषितशोकसागरा

शुचान्यतः प्रमुषितहर्षसागरा ॥३४॥

जलालाबाद जाने के समय आपके एक भाग में स्थित जन तुष्ट हुए,
दूसरी तरफ के शोकाकुल हुए ॥ ३४ ॥

विश्रम्य तत्र दिवसैककमादरेण

सम्भाषणैर्बुधजनान्परितोष्य चारम् ।

गङ्गातटस्थितमयं प्रययौ क्रमेण

सुधं सुरामिषपरायणकान्यकुब्जम् ॥३५॥

जलालाबाद पहुँच कर एक दिन वहाँ के विद्वानों को भाषण से संतुष्ट
कर आप वहाँ से क्रमोज पधारे ॥ ३५ ॥

गत्वा स तत्र विबुधद्वयमञ्जसैव

मूर्तिप्रपूजनपथे बलवद्विजित्य ।

सर्वासु दिक्षु जनगीतशुभावदान-

स्तस्थौ दिनानि कतिचिन्निजयोगचित्तः ॥३६॥

क्रमोज में गुलजारीलाह हरिणंकर नामक दो पण्डितों को मूर्तिपूजन
विषय में परास्त कर स्वामीजी सर्वतः निज कीर्ति को सुनते हुए कुछ दिन
वहाँ योग-क्रिया करने लगे ॥ ३६ ॥

ब्रह्मावर्तं पुरवरमथ प्राप्य योगीश्वरोयं

नानासिद्धैः सह परिचयं वर्धयित्वा महद्भिः ।

नानायोगाभ्यसनपटुतां वीक्ष्यन्मोक्षशिक्षा-

मिक्षामिक्षाव्रतपरिचये दत्तचित्तो बभूव ॥३७॥

वहाँ से फिर आप ब्रह्मावर्त गये वहाँ के सिद्धों से परिचय कर उनसे
कुछ योग की बातें करते हुए रहने लगे ॥ ३७ ॥

ततः परं कर्णपुरं महात्मा

ययौ तटस्थानि बहूनि पश्यन् ।

पुराणि सामध्वनिसुन्दराणि

मनुष्यवर्यैरपि सेवितानि ॥३८॥

फिर आप वहाँ से गंगा तट पर बसे हुए अनेक ग्रामों को देखते हुए
कमलाः कानपुर पधारे ॥ ३८ ॥

गत्वा तत्र तटोत्तमाश्रितलसद्विश्रान्तघट्टाश्रमे
विश्रान्तिं समुपेत्य सज्जनवरैरामोदितः सत्कथाः ।
कुर्वन्वार्षिकयोगसाधनविधावम्भोजिनीमञ्जुले
देशे हंस इवातिहर्षमगमत्सत्यं परिव्रूडायम् ॥३९॥

वहाँ पर विभात घाट पर विभाम कर आप वहाँ के पण्डितों से बात
करते हुए, वर्षा काल के योग्य योग-क्रिया करने लगे ॥ ३९ ॥

न भवति नवबिल्वैः प्रीतिमानीश्वरस्त-
न्निगमलिखितमन्त्रैः स्तूयतामादरेण ।
इति वदति यतीन्द्रे सज्जना बिल्वपर्णैः
करमशिशुबुमुत्तामेव दूरं प्रचक्रुः ॥४०॥

वहीं पर 'आवस्य मे बेलपत्र लड़ाने वालों से आपने कहा कि ईश्वर
इससे प्रसन्न नहीं होता, बेल-मन्त्रों से उसकी प्रार्थना करो । ऐसा करने
पर पण्डितों ने सब पत्तों छंटों को चरा दिये ॥ ४० ॥

भैरवो यदि विभीषणमूर्तिः
कारणं त्विजगतां न हि पूर्तिः ।
सर्वमेतदनृतं क्व महेशो-
भैरवः क्व महदन्तरमेतत् ॥४१॥

वहीं पर निवासस्थान में भैरव का भय दिखानेवालों से आपने कहा
कि यदि भयानक भैरव ही जगत् का कारण है तो संसार कदापि स्वल्प
नहीं रह सकता, इतकिय यह सब मिथ्या है ॥ ४१ ॥

जनेन मुक्तिमिच्छता विधेय एव सर्वदा
 स पञ्चयज्ञसङ्ग्रहः श्रमेण भक्तिपूर्वकम् ।
 विलोक्यते जगत्ययं विमुक्तिमार्गउत्तमो-
 न मूर्तिपूजनादिकं कदापि मुक्तिदं भवेत् ॥४२॥

वहीं पर जनों से आप कहने लगे कि मुक्ति चाहनेवालों को सर्वदा पंचयज्ञ से हवन करना ही शास्त्रों में बतलाया है। मूर्ति-पूजनादि से कदापि मुक्ति नहीं होती ॥ ४२ ॥

न मूर्तयः प्रस्तरनिर्मिताङ्ग्यो
 भवन्ति शीतादिभिरत्रतान्ताः ।
 अतः किमर्थं वसनव्ययोयं
 मनुष्यवर्यैः क्रियते मुधैव ॥४३॥

वहीं पर आपने यह भी कहा कि पत्थर की मूर्तियों को कमी शीत नहीं लगता इसलिए उन्हें कपड़ा पहनाना व्यर्थ है ॥ ४३ ॥

इति निगदति योगिवृतपूज्ये नितान्तं
 सकलविपणिभाजां मन्दिरे मन्दिरेरम् ।
 वसनरहितवेषा मूर्तयः सम्बभूवुः
 क्व न फलति बुधानां वाक्यमेकान्तरस्यम् ॥४४॥

ऐसा कहने पर वैद्यों के सब मन्दिरो में मूर्तियों से बस उतरवा दिये गये ॥ ४४ ॥

न वास्तवेऽयं शिवइत्युदीरय-
 त्यरं मुनौ तत्र तदा गृहे गृहे ।
 उपस्करीभूतपदार्थपेषणं
 बभूव पाषाणशिवैर्यथोचितम् ॥४५॥

यदि शिव हो तो क्योंकि यह संसार का कल्याण न करे ? इसलिए यह शिव नहीं । ऐसा कहने पर वहाँ के मनुष्य महादेवों से घर घर मसाला पीसने लगे ॥ ४५ ॥

एकस्मिन्दिवसे विलोक्य रचनां चक्राङ्कितानां मुनि-
स्तानित्थं निजगाद कुत्र लिखितं मांसाशनं पुस्तके ।
नोचेत्तर्हि वित्तमुद्रणशिलासंपृक्तमांसासृजां-
पानं यत्क्रियते तदत्र न कथं पापोदयः सम्भवेत् ॥४६॥

एक दिन आप चक्राङ्कितों से कहने लगे कि आपके किस पुस्तक में मांस खाने का विधान है ? यदि नहीं तो दुग्ध में तप्त मुद्रा बुझाकर पीना कहाँ तक विहित है ? ॥ ४६ ॥

‘तोबाह’ शब्दकथनेन लयन्नयान्ति
पापानि कस्यचिदपीह तदेतदत्र ।
केनापि मन्दमनसा वचनं प्रयुक्तं
पापान्वितो भवति पापमना मनुष्यः ॥४७॥

वहाँ पर आये हुए यवनों से आप कहने लगे कि “ तोबाह ” के करने से किसी के पाप दूर नहीं होते । किया हुआ अप्रिय भोगना ही पड़ता है ॥४७॥

एवं वादिनि देवे
सकलापरिषत्पुरोस्य यवनानाम् ।
सत्यं ते किल कथनं
प्रावददित्थं समास्थिता हृषात् ॥४८॥

ऐसा सुन कर सब लोग प्रसन्नता से सत्य है सत्य है कहने लगे ॥ ४८ ॥

अधमकार्यवशाज्जगतीतले
सुमनसामपि निन्दनमीक्ष्यते ।
इति वदत्युचिंतं विदुषांपतौ
परिषदस्य वचोन्ववदच्छिवम् ॥४९॥

बुरे काम के करने से ब्रह्मे पुरुषों की भी बुराई ही हुआ करती है, आप के इस प्रकार कहने पर सब मान गये ॥ ४९ ॥

इत्थं विनीतसमयः

स्वामी विश्रान्तघट्टभवनेषु ।

अनयद्वर्षाकालं

वेदोदितमार्गमुपदिशन्नखिलम् ॥५०॥

इस प्रकार उपदेश देते हुए आप विघात पर वर्षा-काल बताते रहे ॥५०॥

अथ प्रवृत्तां शरदं विलोक्य

जयागमाशामपि पत्तनेषु ।

बभूव हंसः परमः स योगी

विभागचुञ्चुर्युण्णदोषवारासू ॥५१॥

फिर शरद तथा जयाशा को देख आप शुच दोष-रूप जल के विभाग में हंस बन विचरने का प्रारंभ करने लगे ॥ ५१ ॥

प्रवृत्तमेनं प्रसमीक्ष्य योगिनं

विपश्चितां दिग्विजयेषु सर्वथा ।

मनस्यभूत्सा भयवेपथुव्यथा

न शक्यते या मयकापि वर्णितुम् ॥५२॥

आपको विन्दिजयोद्यत देख जो दुःख पण्डितों के हृदय में हुआ वह अकथनीय है ॥ ५२ ॥

निजोपदेशैर्भयमावधानः

स तत्र पौराणिकमण्डलेषु ।

नवीनकोलाहलकार्यमाने

निदानमृतोभवदप्रमेयः ॥५३॥

अपने उपदेशों से पौराणिकों में भय जमाते हुए वे जगद् में नवीन कोलाहल के कारण बन गये ॥ ५३ ॥

जनेः समस्तैर्नगरे समस्ते
विमर्दनां वीक्ष्य पुराणभाजाम् ।
कथाविलोपानुगमादरोदि
सतारमुत्तारितवस्त्रभूषैः ॥५४॥

पौराणिकों ने नगर में कथा बाजों की दुर्दशा देखकर और वस्त्रभूषणों को उतार कर रोना चारंभ कर दिया ॥ ५४ ॥

परस्परं केप्यवदन्मुखे मुखे
किमत्र कुर्मो वयमस्य भाषणैः ।
पुराणि सर्वाणि गतानि चेतनां
न कोपि शेते वत्त निद्रयावृतः ॥५५॥

कोई कोई आपस में कहने लगे कि अब हम क्या करें । इनके भाषण से सभी पुरुष सचेत होगये, किसी को रात में नींद तक नहीं आती ॥ ५५ ॥

एवं विचारयति तत्र जने सशोकं
प्रादुर्बभूव नितरां मनुजेषु हर्षः ।
सन्द्रष्टुमद्भुततयोभयतः प्रवृद्धं
वादं यतीन्द्रहृलयोर्जगति प्रसिद्धम् ॥५६॥

अब इस प्रकार पौराणिक लोग दुःख के साथ विचार कर रहे थे तब लोगों ने देखा सोचा कि हम स्वामीजी के साथ इच्छर पण्डित का शास्त्रार्थ करावेंगे ॥ ५६ ॥

वेदोपवेदमुनिकल्पितशास्त्रजातं
वेदाङ्गजातमितरन्मुनिभिः प्रविष्टम् ।
सिद्धान्तकोटिमुपनीय जगत्प्रसिद्धः
शास्त्रार्थकल्पनपटुर्यतिराजगाम ॥५७॥

यह सुन कर स्वामी जी भी वेद, वेदाङ्ग और उपांगों को सिद्धान्त केटि में रखकर शास्त्रार्थ के छिप तयार होगये ॥ ५७ ॥

घट्टे भैरवनाम्नि विष्टरवरैराभूषिते सर्वतः
सर्वे तत्पुरवासिनोतिधनिनो मान्यास्तथा सूरयः।
अन्ये राजजनाः प्रबन्धविषये न्यस्ताः सभानायकं
चक्रुस्थेनपदामिधं पुनरभूत्संभाषणस्योदयः ॥५८॥

भैरवघाट में विस्तर विछाने पर नगर के सब धनी एवं गुणियों की उपस्थिति में संस्कृत (मिष्टर यै न साहब को) समापति बनाकर शास्त्रार्थ का आरंभ हुआ ॥ ५८ ॥

पूर्व तत्र हृलः पराजितमुखः प्रस्तावनाडम्बरं
कृत्वाख्यन्मुनिमैतिहासिकमतं सत्यं न वेत्यावद ।
मिथ्येति प्रतिगद्य तद्यतिवरः सर्वाङ्गनानावद-
द्युयं वैदिकमार्गसंश्रितिपरास्तूर्यं भवन्त्वादरात् ॥५९॥

उसमें पूर्व परास्त हृलधरजी कुछ देर प्रस्तावना पढ़कर आपसे पूँछने लगे कि पुराण आपके मत में सत्य हैं वा मिथ्या हैं ? स्वामीजी ने मिथ्या कहकर कहा कि सबके सब वैदिक-मार्ग का अवलंबन करो ॥ ५९ ॥

लज्जासन्नतमेनमीक्ष्य सकला गोष्ठी परास्तं मुदा
मेने तत्र हृलं जयोन्मुखमियं योगीन्द्रमेकान्ततः ।
अन्ते तन्मतपक्षपातमकरोत्सर्वं विहाय भ्रमं
के लोके मनुजा भवन्ति न सदा सन्मार्गसंसेविनः ॥६०॥

इस शास्त्रार्थ में हृलधरजी का पराजय एवं आपका जय देखकर सब लोग अंत में गत-संदेह हो, वैदिक-मार्ग का आश्रय लेने लगे ॥ ६० ॥

समापतिरनन्तरं निजविचारपक्षोचितं
दलं वितरयाम्बभूव यतये प्रशंसापरम् ।

प्रणम्य च ततो ययौ मुनिवरं हृलस्याज्ञतां
वदञ्जनशतैर्वृतः स्वभवनं समन्ताद्भनम् ॥६१॥

शंत में समापति भी अपने विचार से स्वामीजी को जयपत्र देकर
घाट हलधरजी की द्वार बतला कर अपने बंगले को चले गये ॥ ६१ ॥

अथारभन्निपातनां सरिद्धराजलेष्वरं
गृहे गृहेभिहोत्रिणो जना बभूवुरेकतः ।
शिवागणेशकालिकामहेशकेशवाश्मनां
क्रमेण वीक्ष्ययन्निदं हृलो जगाद मानवान् ॥६२॥

अब नगर के मनुष्यों ने जब अग्निहोत्री वन मूर्तियों को गंगा में फेंकना
आरंभ किया तब हलधरजी उनसे कहने लगे ॥ ६२ ॥

मा पातयन्तु सलिलेषु शिवादिदेवान्
मा धारयन्तु हृदयेषु मतं नवीनम् ।
मा विश्वसन्तु विदुषोस्य वचःसु लोकाः
किं किं न भञ्जितमनेन पुराणकृत्यम् ॥६३॥

नवीन मत को धारण कर मूर्तियों को मत फेंको । तुम इसकी बात
का विश्वास मत करो । इसने किस का अण्डन नहीं किया ॥ ६३ ॥

यदि मतमस्य नैव हृदयावधुना भवतां
व्रजति लयं ततो मम पृहस्य पुरः क्रियताम् ।
बहुविधमूर्तिसञ्चयइति प्रविशन्मनुजा-
नयमतिशोकपूरिततनुः समभूववरः ॥६४॥

उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से इसका मत नहीं निकलता तो
अपनी अपनी मूर्तियों मेरे घर के द्वार पर धर आओ ॥ ६४ ॥

वाचं यदा हृलधरस्य जनाः समन्तात्
सामाजिकं समधिगत्य मतं न केचित् ।

आकर्ण्यन्नतिविशुष्कमुखस्तदानी-

मेषः स्वमेहमुदगादतिरोषयुक्तः ॥६५॥

अंत में जब किसी ने न सुना तब अपना हा मुँह लेकर महाराज घर बैठ गये ॥ ६५ ॥

अन्ते समाजनवमन्दिरमत्र योगी

सम्यग्विधाय सुजनैरभितः प्रशस्तः ।

हैमीभिरादरवशाद्बहुमुद्रिकाभि-

राराधितो जयमनन्तमवाप दैवात् ॥६६॥

स्वामीजी ने शास्त्रार्थ के अंत में वहाँ पर समाज-मन्दिर की स्थापना करवाई । फिर सुवर्ण-मुद्राओं से अभिपूजित मुनि अय को प्राप्त हुए ॥ ६६ ॥

इतः प्रतस्थे मनुजैरभिष्टुतः

सपत्तनान्युत्तमशिष्यसंवृतः ।

क्रमेण पश्यन्पुरमेकमद्भुतं

सराजमप्येकपथादराजकम् ॥६७॥

यहाँ से फिर आप बीच में आये हुए नगरों को क्रमशः देखते हुए उत्तम शिष्यों सहित " रामनगर " को पधारे ॥ ६७ ॥

तत्र रामनगरे स महात्मा

वैदिकं मतमशेषजनेषु ।

दर्शयन्न विरराम बुधाना-

मन्तरेषु विनिवेशितभीतिः ॥६८॥

वहाँ पर (२१ सितम्बर सन् १८६९ ई० को) पहुँच कर रामजीजी में उसका खण्डन कर वैदिक धर्म प्रचार करने लगे ॥ ६८ ॥

तद्भयादविदुषां तु कथा का

निःसृतिर्न विदुषामपि मन्ये ।

षष्ठः सर्गः

सम्बभूव भवनादपरं किं
मूर्च्छिताभवदशेषबुधाली

आपके मन से मूर्खों की तो बात ही क्या विद्वान् भी अपने अपने घरों में से नहीं निकले ॥ ६९ ॥

अन्धकारकृतकुथुतिलेशा
ज्योतिरिङ्गणकुकीटकभेदाः ।
नो विभान्ति हरिदश्वसमक्षे
सत्यतामयमगाजनवादः ॥७०॥

सूर्य के समस्त पटबीजना नहीं समझता। वह अँधेरे में ही समझा करता है। यह हुआत उस समय में खल देगया ॥ ७० ॥

परतरमितः स योगी
कुत्सितमार्गप्रचारपटुलोकम् ।
उपकण्ठस्थितमारात्
काशीनगरं समाजगामारम् ॥७१॥

वहाँ पर धर्मोपदेश देकर आप उस काशी में गये जहाँ के लोग निम्नित मार्ग का प्रचार करते थे ॥ ७१ ॥

तत्रानन्दारामे
नितरामानन्दयँल्लोकान् ।
सानन्दं किञ्च कृतवान्
वसतिं श्रीमान्दयानन्दः ॥७२॥

२२ अङ्कपर खन् १८६९ ई० को आप आन्दबाग में बसर कर निवास करने लगे ॥ ७२ ॥

तद्गतबुधजनविजये
दत्तमनास्तन्निवासिनो विबुधान् ।

नानाविधमनुजोचित-

भेदव्यासैरपृच्छदयमखिलान् ॥७३॥

वहाँ के पण्डितों के पराजय का ध्यान करते हुए स्वामीजी वहाँ के पुत्रों से वहाँ की व्यवस्था पूछते रहे ॥ ७३ ॥

तदाययुद्धिचतुराः क्रमशो महीशा

ये नास्तिका इव निरादरणीयवेदाः ।

तानुत्तरोत्तरविवादसमृद्धशङ्कान्

नव्योत्तरैरयमकल्पयदार्यमद्रान् ॥७४॥

इतने में ही दो तीन नास्तिक से राजा लोग आकर आपसे कुछ पूछने लगे, जिनका उत्तर देकर आपने उनको नास्तिक बना दिया ॥ ७४ ॥

अज्ञान्तरे कतिचिदुन्नतगर्ववन्तो-

नूनं विपश्चिदवराः सहसोपगम्य ।

शङ्कासमाधिविषयैः प्रसमीक्ष्य पूर्ण

तं प्रार्थनापटुवचोभिरलं प्रणोमुः॥७५॥

कुछ देर बाद कई असिमानी पण्डित और आये जो आपको देखकर आपकी प्रशंसा करने लगे कि आपके समान यहाँ पर कोई विद्वान् नहीं है ॥ ७५ ॥

एवं विनीतादिवसः स सुखेन योगी

विद्यामवेक्ष्य विदुषां सहसैव तत्र ।

विज्ञापनेरहरहः सकलप्रतोली-

मितीश्चकार खचिता इव चित्रभेदैः ॥७६॥

दूसरे दिन स्वामीजी ने गली गली में शास्त्रार्थ के विज्ञापन लगावा दिये ॥ ७६ ॥

तार्तीयिकदिने प्रधानमनुजद्वारा दलं मुद्रितं

सर्वेषां विदुषां ग्रंथेषु बलवानेकः समप्रापयत् ।

यद्दृष्ट्वा समकालमेव सभयाः कैलासचन्द्रादयः
कार्याकरिणि गतागतैर्बहुविधं मन्त्रं प्रचक्रुः स्वयम् ॥७७॥

तीसरे दिन आपने एक प्रधान पुरुष के हस्ताक्षरांकित विद्यापत्र छपा कर समस्त विद्वानों के घर पर पहुँचवा दिया, जिसको देखकर कैलास-चन्द्रजी जैसे विद्वान् भी भयभीत होकर विचार करने लगे ॥ ७७ ॥

अस्मादप्यपरं दलं नरपतेः संप्रेष्य पार्श्वेवद-
द्विद्वन्निः सह कारयाशु महितं शास्त्रार्थमेकं मम ।
नोचेत्स्वीकुरु वेदमार्गममलं हित्वा मतानिक्रमा-
द्यत्ते रम्यतरं चकास्ति हृदये तत्स्वीकुरुष्वानयोः ॥७८॥

चौथा पत्र आपने श्रीमान् काशीनरेश के पास भेजा । उसमें लिखा था कि या तो आप काशी के पण्डितों से मेरा शास्त्रार्थ करावेँ और या आप वैदिक-सिद्धान्तों को मानें । इसमें जो उचित हो सो कीजिए ॥ ७८ ॥

निरीक्ष्य दलमीदृशं नरपतिः समाहूयतां
समस्तबुधमडलीं गदितवानिदं श्रूयताम् ।
अनेन मुनिना समं कुरुत वादमेकान्ततो-
न चेत्परमतो निजे मनसि मानमानीयताम् ॥७९॥

स्वामीजी के पत्र को देखते ही काशि-राज ने पण्डितों को बुलाकर कहा कि या तो आप लोग स्वामीजी के साथ शास्त्रार्थ करें और या आज से पण्डित्य का अभिमान छोड़ दें ॥ ७९ ॥

इति श्रुतवचोलवाः सकलपण्डिताः प्रावदन्
न वेदविषयेषु नो गतिरतः प्रदेयो ध्रुवम् ।
कथंचिदवधिस्ततो वयमितस्ततः स्वेच्छया
निरीक्ष्य कथनक्रमे प्रचलिता भविष्यामहे ॥८०॥

काशि-राज के बचन सुनकर पण्डितों ने कहा कि हम वेद बिल्कुल नहीं जानते । वहाँ वेद का विषय छिड़ेगा । इसलिए आप हमको कुछ दिन का अवकाश दें तो हम कुछ देस भाल कर शास्त्रार्थ की तैयारी करें ॥ ८० ॥

इति श्रुत्वा वाचं परिषदुदितां पञ्चदशकं
दिनानां विद्वद्भ्यो नरपतिरदान्मार्गणकृते ।
प्रबन्धं दीपानामथ नियतसंवादभवने
प्रकर्तुं मृत्यादीनवददितिबृत्तव्यसनवान् ॥८१॥

यह सुनकर राजा ने उन्हें पन्द्रह दिन का अवकाश दिया और शास्त्रार्थ के स्थान की सफ़ाई आदि के लिए नौकरों को आज्ञा देदी ॥ ८१ ॥

एकस्तेषु ययौ महर्षिसविधे कालात्यये परिडतः
प्रष्टुं के भवतां मतेमिमतां प्राप्ताः प्रमाणोचिताः ।
ग्रन्थाइत्यधिगत्य शास्त्रनिचयं तं प्रावदत्सादरं
विद्वन्मण्डलनायकानुतलसत्पादारविन्दद्वयः ॥८२॥

नियत समय बीत जाने पर एक विद्वान् स्वामीजी के पास आये और आकर पूछने लगे कि आप किन किन ग्रन्थों का प्रमाण मानते हो ? स्वामीजी ने यह उत्तर दिया कि ॥ ८२ ॥

स्वातन्त्र्येण मते ममास्ति सुमते प्रामाण्यमेषां क्रमा-
द्वेदानां परतः प्रमाणपदवी शास्त्रेषु मे संमता ।
अङ्गब्राह्मणपुस्तकेष्वपि मतिस्तादृग्विधा वर्तते
नातः किञ्चिदपि प्रमाणपदवीमासं मते मे कृतम् ॥८३॥

मैं वेदों को स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण तथा अङ्गशास्त्र आदि को परतः प्रमाण मानता हूँ । इनके अतिरिक्त मैं और किसी ग्रन्थ का प्रमाण नहीं मानता ॥ ८३ ॥

इति निगदितवाचं स्वामिनं वीक्ष्य लोकाः
कथमपि न वचांसि प्रावदंस्तत्समचे ।

परमितरभयेन प्राप्तकालान्तभागा-

नियतमगुरनेके वाहनेः पारिषद्याः ॥८४॥

इस प्रकार उत्तर देते हुए उनके समक्ष कुछ न कह कर एका के मय से सब पण्डित सवारियों में बैठ कर नियत ध्यान पर जा पहुँचे ॥ ८४ ॥

द्रष्टुं महत्त्वमिह वासवताम्बुधाना-

मत्रान्तरेऽतिमहती जनता समेता ।

यामाहुरानुमिकभावविदश्चिरत्वा

विद्वद्रा इति ह षष्टिसहस्रदेश्याम् ॥८५॥

इतने ही में यहाँ के पण्डितों का पाण्डित्य देखने के लिए बाहर से कोई ६०००० मनुष्यों का समूह आकर उपस्थित हुआ ॥ ८५ ॥

तस्यां स सत्वरमुपेत्य विवादवेश्म

संवेष्टितो बुधजनैर्मतिमानतिष्ठत् ।

कौशेयतन्तुपरिगुम्फितहारमध्ये

सर्वोत्तमो मणिरिवातिरुचानुविद्धः ॥८६॥

उस भीड़ में आप भी विद्वानों के बीच उष्णान पर ऐसे जा बैठे कि जैसे द्वार के बीच में मणि ॥ ८६ ॥

दृष्ट्वाभितो निखिलपण्डितमण्डलन्तत्

सन्नद्धमुद्धततया निगमप्रमाणैः ।

सार्द्धं चकार कतिचिद्धटिकाः प्रवादं

पूर्वं प्रतर्जितसमस्तबुधः स पश्चात् ॥८७॥

सब विद्वानों को समा में बैठा देख कर पहले तो स्वामीजी वेद-मन्त्रों के सम्बन्ध में कुछ वार्तालाप करते रहे ॥ ८७ ॥

मूर्तिप्रपूजनपरं परिकल्प्य वादं

स्वामी समस्तबुधमण्डलतो यथाचे ।

वेदप्रमाणमतिगर्जनतुल्यवाचा

मन्ये न कश्चिदशकत्पुरतोऽस्य वक्तुम् ॥८८॥

• फिर स्वामीजी अति उच्चस्वर से गर्ज कर सबसे मूर्च्छिपूजन के सम्प्रस में वेदमन्त्रों का प्रमाण माँगने लगे । पर किसी ने एक भी प्रमाण नहीं दिया ॥ ८८ ॥

अत्रान्तरेतिगलितं नितराश्चिरत्नं

दष्टं घुणैरपगताक्षरमेकपत्रम् ।

वेगादुपेत्य मुनये समदाच्छलेन

काशीबुधैः पुरत एव निस्तृष्टमेकः ॥८९॥

जब कोई न बोला तब एक मनुष्य ने एक गला, सड़ा, फटा पुराना सा पत्र लाकर स्वामीजी को दिया । यह सब चालाकी वहाँ के पण्डितों ने पहले से ही रच रखी थी ॥ ८९ ॥

सायङ्कालवशादनन्तरमतिदृष्वान्तोदये तद्वलं

यावद्दीपरुचौ विलोक्य विपलद्वन्द्वेन नष्टाक्षरम् ।

वक्तुं प्रारमताशु तावदखिला मिथ्याजयोद्घोषिणी

साऽविद्वज्जनमण्डली समचलद्देहानि यानैः स्वकैः ६०

समय सायंकाल का था, अँधेरा हो चला था और वायु के कारण लालटेन की ज्योति हिल रही थी । ऐसी दशा में जब स्वामीजी उस पत्र को पढ़कर उसका उत्तर देना ही चाहते थे तब इतने में ही वह अधिष्ठानों की मण्डली जय बोळती हुई अपने घर को चली गई ॥ ९० ॥

यातेषु तेषु विबुधेष्वयमेकयोगी

दत्त्वा तदुत्तरमुपान्तजनेषु सत्यम् ।

वासं जगाम रघुनाथबुधश्च तेषां

सन्तर्जनं गतवतामकरोद् बुधानाम् ॥९१॥

उनके चले जाने पर और कितने ही विद्वानों के सामने स्वामीजी कुछ पत्र का उत्तर देकर अपने स्थान को चले आये। स्वामीजी के चले जाने पर पण्डित रघुनाथप्रसादजी ने काशी के पण्डितों को खूब फटकारा ॥९१॥

प्रातः समस्तनगरेषु जयप्रशस्तिं
गीतां जनैरुपनिशम्य स योगिवर्यः ।
तुष्टिम्परामुपजगाम बुधास्तथान्ये
रुष्टा बभूवुरतिनिन्दनया किमन्यत् ॥९२॥

प्रातःकाल होते ही समस्त नगर में पर्व समाचार-पत्रों में अपना जय देव स्वामीजी प्रतिप्रसन्न हुए और काशीस्थ पण्डित उन्हीं पत्रों से अपनी हार देव प्रति शोकाकुल हुए ॥ ९२ ॥

यातेषु केषुचिदयं दिवसेषु योगी
भूयोपि विद्वद्वरान्नवसूचनाभिः ।
वेगादिवाह्वयवहो परमेषु कोपि
चूकारमात्रमपि नैव शशाक कर्तुम् ॥९३॥

कुछ दिनों के बाद आपने फिर भी शास्त्रार्थ का मोटिख दिया। परन्तु उनके तपोबल से किसी ने चूँ तक नहीं की ॥ ९३ ॥

वसन्निवासे मधुसूदनस्य
यथाकरोत्खण्डनमेष देवः ।
पुराणदीक्षाविषये समस्ता
पुरी तथा साक्ष्यपदेस्ति नूनम् ॥९४॥

जहाँ मधुसूदनदास के यहाँ जिस प्रकार आपने पुराणों का खण्डन किया उसकी साक्षिणी समस्त काशी विद्यमान है ॥ ९४ ॥

यदा संस्कृतस्याशयं मूढबोका
विपर्यस्तभावेन चक्रुस्तदानीम् ।

गिरा मानवानामदाद् वक्तृतां ता-

मतो जन्तवः सर्व एव प्रसन्नाः ॥६५॥

अब संस्कृत का आशय मनुष्य उलटा लगाने लगे तब आपने भाषा में व्याख्यान देना आरंभ किया। अब तक जितनी बातें हुईं वे सब संस्कृत में ही होती रहीं, भाषा में व्याख्यान सुन कर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९५ ॥

द्वयं व्याख्यानानामतिबलवदाकर्ण्य सभया-
बुधा न्यायाधीशालयकृतपदं नष्टसुषमाः ।

अभूवन्राजापि द्रुतमुपगतः पादपतनान्

निजं मन्तुं क्षन्तुं समवददिदञ्चित्रमभवत् ॥६६॥

अब जज साहब के बँगले पर आपके तीन व्याख्यान हुए तब तो सभी विद्वान् डर गये और काशिराज भी आपके चरणों में गिर कर अपने अपराध की क्षमा माँगने लगे ॥ ९६ ॥

देवोप्यथोत्तमगिरेरुपवाटिकं द्राग्

वेगाद् विजित्य विदुषः सकलान्पुनश्च ।

विज्ञाप्य सर्वमतगानपि सर्वभावै-

रन्ते निरीक्ष्य विबुधान्मुदितो बभूव ॥६७॥

आपने भी उत्तमगिरि के बाग में समस्त विद्वानों को शास्त्रार्थ में फिर जीत भेंट में विज्ञापन द्वारा सूचना दी। पर फिर भी अब किसी को भावा न देना तब शांति को प्राप्त होकर आप अपना कार्य करते रहे ॥ ९७ ॥

लोकाः पुनर्मुनिमिसं समवेक्ष्य तत्र

पुष्पामिषेकमुचितं प्रमदावकुर्वन् ।

प्राचीनतामुपगतामथ नैजमैत्रीं

नव्यामनुत्तमफलामपि सर्वभावैः ॥६८॥

शास्त्रार्थों के बाद नाना देशों से आये हुए पुरुषों ने हर्ष से आपके ऊपर पुष्प-वृद्धि कर प्राचीन मैत्री को नवीन बनाया ॥ ९८ ॥

द्वाविंशतिः समभवन्तृगिरा यदानीं
 सम्भाषणानि महतोस्य तदा पुरेत्र ।
 हर्षेण सज्जनवरैर्महदार्यधर्म-
 संवर्धनाय रचितं भवनं विशालम् ॥६६॥

जब आपके २२ व्याख्यान भाषा में हुए तब वहाँ के पुरुषों ने आनन्द से
 काशी में भी समाज-मन्दिर बनवाया ॥ ६६ ॥

तत्र वैदिकमतप्रचारिणी
 पाक्षिकी समभवच्छुभा सभा ।
 यां विलोक्य शुचमेव सङ्गताः
 सर्व एव किल कोविदाधमाः ॥१००॥

वहाँ पर वैदिक-मत-प्रचारिणी एक पाक्षिक सभा होने लगी जिसको
 देख वहाँ के पण्डित और भी अछ गये ॥ १०० ॥

इत्थं विजित्य विबुधान्मुनिरस्र सर्वा-
 नेकान्तमात्मिकबलेन स सप्तवारम् ।
 वेदोदितं सकलमत्र निवेश्य कार्य्यं
 देवात्परिश्रमफलं समवाप पूर्य्यम् ॥१०१॥

इस प्रकार एक बार नहीं स्वामीजी ने सात बार काशी के विद्वानों को
 परास्त किया और वहाँ वैदिक धर्म का बीज बोते हुए आपने अपना परिश्रम
 सफल माना ॥ १०१ ॥

लब्ध्वा केन्द्रस्थले स्वं
 जयमयमखिलं व्याप्य कीर्त्या महेशं ।
 न्यायाधीशं दयालुं
 विमलमखिलदं निर्जरं निर्विकारम् ।

सर्वाधारं समस्ते


जगति विजयदं वीक्ष्य मन्त्रैरसंख्यै-

भूयोभूयः प्रसन्ना-

क्षरत्कलितपदं वर्णयन्नाप लक्ष्मीम् ॥१०२॥

भारतवर्ष के मुख्य विद्यापीठ काशी में, ईश्वर की कृपा से, विजय प्राप्त कर स्वामीजी सब दिशाओं में अपना यज्ञ फैलाने लगे। विजय पाकर अन्त में आपने वेद-मन्त्रों से उस महेश, दयालु, निर्मल, अज्ञर, निर्विकार, सर्वाधार और विजयप्रद परमेश्वर की प्रार्थना की जिससे आपकी बड़ी शोभा हुई ॥ १०२ ॥

इति श्रीमदसिद्धानन्दशर्महृतौ सतिसके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये
वाराणसी-विजयो नाम षष्ठः सर्गः ।



सप्तमः सर्गः

अथ प्रतस्थे सानन्दो दयानन्दः प्रतापवान् ।
गङ्गायमुनयोरन्तः पुलिनायितपत्तनम् ॥१॥

काशी के पण्डितों को जीतने के पश्चात् परमानन्दी, परमप्रतापी श्रीस्वामीजी महाराज गंगा-यमुना के बीच में बसे हुए प्रयाग में, कुम्भ के अवसर पर पधारे ॥ १ ॥

यत्र प्रकृष्टयज्ञानामनुष्ठानादहर्निशम् ।
नामानुगुणतां याता प्रयाग इति कल्पना ॥२॥

जहाँ पर प्रतिदिन शुभ यज्ञों के होने से प्रयाग नाम अमर्य्य पद गया ॥२॥
यत्र माघे महाकुम्भसंभवा जनता नवाम् ।

गङ्गायमुनयोः शोभां वर्धयत्यागमैर्गमैः ॥३॥

जहाँ माघ में कुम्भ का मेला मनुष्यों के आने जाने से, गंगा और यमुना के दोनों तटों की शोभा बढ़ाया करता है ॥ ३ ॥

सप्ताशीति सहस्राणि ऋषयो यत्र सङ्गताः ।
मीमांसनपराश्चक्रुर्वैदिकं कर्म शाश्वतम् ॥४॥

जहाँ पर सत्तासी सहस्र ऋषि जन आपस में विचार करते हुए वैदिक कर्म करते थे ॥ ४ ॥

तत्र गंगातटे श्रीमान्कल्पयित्वा निजस्थितिम् ।
वैदिकं धर्ममाख्यातुं चकमे काम्यकल्पनः ॥५॥

सुन्दर कल्पना करनेवाले श्रीमान् स्वामीजी महाराज वहाँ अपने निवास का प्रबंध करके वैदिक धर्मोपदेश के लिये उद्यत हुए ॥ ५ ॥

चत्वार्युद्देश्य भूतानि कल्पयित्वातिवेदवित् ।
लक्ष्याणि प्रारभत्तेषां खण्डनामुत्तरोत्तराम् ॥६॥

स्वामीजी अड़पूजन, मृतकभ्रातृ, कल्पित पुराण, जलतीर्थ इन चार उद्देश्यों को लक्ष्य में धर कर क्रमशः इनका खण्डन करने लगे ॥ ६ ॥

कृतार्थान्विदधँल्लोकानुपदेशैर्महाशयैः ।
महाशयेतिपदवीमाप तत्र महाशयाम् ॥७॥

अपने भावगर्भित उपदेशों से मनुष्यों को कृतार्थ कर स्वामीजी ने वहाँ महाशय की पदवी को प्राप्त किया ॥ ७ ॥

साधवाः परिडिताश्चैनं तत्र शङ्कासमाधिभिः ।
सहस्रशो व्यवृण्वन्त दातारमिव याचकाः ॥८॥

जिस तरह माँगनेवाले दाता के समीप आया करते हैं इसी तरह बहुत से साधु और पण्डित जन अपनी शंकाओं को दूर करने के लिये स्वामीजी को घेरे रहते थे ॥ ८ ॥

एकस्तमवदत्तत्र मानवो मानगर्वितः ।
नम्रस्य शीतबाधा ते कथं भवति न प्रभो ! ॥९॥

जिन दिनों स्वामीजी प्रयाग के कुम्भ-मेले में आये थे उन दिनों वे नम्र रहा करते थे । वे रात को भी कौपीन के अतिरिक्त और कोई वस्त्र नहीं पहनते थे । उन्हीं दिनों किसी अभिमानी पुरुष ने आप से पूँछा कि महाराज, ऐसे शीतकाल में आपको शीत की बाधा क्यों नहीं होती ? ॥ ९ ॥

नासिकामिव देहं मे तव मानवशीतता ।
बाधते नेति कथिते तस्मिन्स निरगादरम् ॥१०॥

स्वामी जी ने इस प्रश्न का तुरंतही कैसा अच्छा उत्तर दिया वह सुनने के योग्य है । उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुम्हारी नाक को शीत नहीं लगता उसी प्रकार हमारे सारे शरीर को शीत की बाधा नहीं होती । इतना सुन और निरस-होकर वह आदमी चला गया ॥ १० ॥

रचितां कविपद्यानां वीक्ष्य टीकामयं सुधीः ।

अशुद्धेति समाभाष्य तत्कर्तारमतर्जयत् ॥११॥

प्रयाग में पण्डित शिवसहायजी एक बड़े विद्वान् गिने जाने थे । उन्होंने वाल्मीकिरामायण की टीका बनाई थी । उस टीका में स्वामीजी ने अनेक अशुद्धियाँ निकालीं और टीकाकार को खूब फटकारा ॥ ११ ॥

जनताजनसंजातनिजवादप्रचारणः ।

स परं हर्षमापेदे वेदमार्गप्रवर्तनात् ॥१२॥

वहाँ पर बहुत से मनुष्यों के समुदाय में अपने व्याख्यानों द्वारा वैदिक धर्म को बढ़ता देखाकर आप अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥

पुरान्तरमथो गत्वा भागीरथ्यास्तटे वसन् ।

वेदोदितानि कर्माणि व्याख्यानैरुपदिष्टवान् ॥१३॥

वहाँ से फिर स्वामीजी मिर्जापुर पहुँच गंगा तट पर रहते हुए व्याख्यानों द्वारा वैदिक-कर्मों का प्रचार करने लगे ॥ १३ ॥

अस्योपदेशैर्मनुजाः पुराणप्रतिपादितम् ।

विहाय मनुसंदिष्टमग्निहोत्रादि चक्रिरे ॥१४॥

आपके उपदेशों से वहाँ पर मनुष्यों ने पुराण-ग्रंथ बातों को छोड़कर मनु-ग्रंथ अग्निहोत्रादिक करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १४ ॥

कृतां तत्रापि केनापि टीकां भारतमूर्द्धनि ।

समालोच्य प्रणेतारमशुद्धस्वादनिन्दयत् ॥१५॥

मिर्जापुर में भी किसी बालकृष्ण नामी पण्डित ने महाभारत की टीका बनाई थी । उसको स्वामीजी ने देखा तो वह भी टीका नहीं थी । अशुद्ध होने के कारण आपने उस टीकाकार की भी खूब फटकार ली ॥ १५ ॥

वक्तुकामा अपि जनाः पुराणोदारकल्पनाम् ।

पुरतस्तस्य नास्थातुमशकञ्चकृतान्तराः ॥१६॥

वहाँ कितने ही पौराणिक पण्डित आपके सामने आकर कुछ पौराणिक बातों के विषय में आपसे कुछ कहने की इच्छा तो करते थे, परन्तु वे इतने मयभीत हो रहे थे कि कुछ न कह सके ॥ १६ ॥

वर्षेककमयं गङ्गातटे निजनिवेशिताः ।

पाठशालाः प्रपश्यन्सन्नुपदेशानदात्परान् ॥१७॥

एक वर्ष तक गंगा-तट पर स्वयं स्थापित की हुई पाठशालाओं को देखते हुए आप उपदेश देते रहे ॥ १७ ॥

इतो गत्वा दिशं पूर्वा पुरमेकमवाप्य सः ।

तस्थौ दिनद्वयं तस्मात्पुनराप पुरान्तरम् ॥१८॥

वहाँ से यथाक्रम पूर्व की ओर चलते हुए आप दुमरावँ पहुँचे और वहाँ दो दिन रहकर आरा पहुँचे ॥ १८ ॥

प्राड्विवाकस्य भवने कृतावासो महायशाः ।

नानोपदेशैर्मनुजान् गतशङ्कानिवाकरोत् ॥१९॥

वहाँ पहुँच कर आपने एक बकील (नाम् हरिवंशराय) की कोठी पर निवास किया । वहाँ आपने अपने उपदेशों से बहुत से लोगों की शंकाओं को दूर किया ॥ १९ ॥

अनन्तरमितः श्रीमान्ययौ पाटलिपुत्रकम् ।

यस्य कीर्तिः पुरो गत्वा सर्वं कार्यमकल्पयत् ॥२०॥

वहाँ से फिर आप उस पटने को पधारे कि जहाँ पर आपकी कीर्ति आपसे पहले ही पहुँच चुकी थी ॥ २० ॥

एकस्मिन्दिवसे तत्र पञ्चाशत्यण्डिताऽवराः ।

अर्द्धं शास्त्रार्थमुत्सृज्य वेगेन प्रययुर्गृहान् ॥२१॥

वहाँ पर एक दिन पचास पण्डित आप से शास्त्रार्थ करने को आये परन्तु विचार प्रस्तुत होने पर वे बीच में ही भाग गये ॥ २१ ॥

पुराणं गारुडं तत्र दुर्गा सप्तशतीमपि ।

मनुजान् बोधयामास मिथ्यासंवादपूरिताम् ॥२२॥

आपने फिर वहाँ गरुड पुराण और सप्तशती दुर्गा का बण्डन कर उसका अर्थ सब मनुष्यों को बता दिया ॥ २२ ॥

प्रभावादुपदेशस्य विबुधैस्तत्र सत्वरम् ।

गङ्गायां पूजनाशमानो विनिक्षिप्ता विचारणात् ॥२३॥

आपके भाषणों के प्रभाव से वहाँ पर सज्जनों ने विचारपूर्वक पाषाण-मूर्तियाँ गङ्गा में डाल दीं ॥ २३ ॥

गुरुप्रसादस्तत्रैव बाँकीपुरत आगतः ।

गृहशब्दस्य नैरुक्त्यं पृष्ट्वा मौनमधारयत् ॥२४॥

बाँकीपुर से गुरुप्रसाद नामी एक मनुष्य ने आकर आपसे 'गृह' शब्द का निर्वचन पूछा । यथार्थ उत्तर पाकर वह चुप हो गया ॥ २४ ॥

पुरान्तरागतः कश्चित्पण्डितस्तत्र खण्डनम् ।

पुराणानां समाकर्ण्य योगीन्द्रमिदमब्रवीत् ॥२५॥

इतने में तिलहर से आये हुए यह ब्रह्म आपसे द्वारा पुराणों का बण्डन सुनकर कहने लगे ॥ २५ ॥

सरलं खण्डनं मन्ये रचनं कठिनं मुने ।

पुराणानामदः श्रुत्वा वचो मुनिरभाषत ॥२६॥

हे मुने, बण्डन करना तो सरल है, पर पुराणों का बनाना कठिन है, यह सुनकर आपने कहा— ॥ २६ ॥

उपानत्यादुके कृत्वा प्रश्नोत्तरपरायणे ।

क्रियते पद्यरचना मया लिखतु तां भवान् ॥२७॥

मैं जूते और चाड़कों का कल्पित संवाद बनाकर इलोक-रचना करता हूँ
आप लिखते जायें ॥ २७ ॥

विश्वासो यदि ते नास्ति वचने मे महामते ।
कुरु नेत्रगतामेनां को विलम्बः क्रियावताम् ॥२८॥

हे बुद्धिमन, यदि आपके विश्वास नहीं आता तो इस बात को प्रत्यक्ष
करके देख लो । देरी का कुछ काम नहीं ॥ २८ ॥

इति वादिनि योगीन्द्रे सामग्रीमुपपाद्य सः ।
लेखनाय प्रवृत्तोभूद्यतिश्च कथने द्रुतम् ॥२९॥

ऐसा कहने पर वे लिखने बैठ गये । स्वामीजी थड़ाथड़ इलोक बनाने
लगे ॥ २९ ॥

किञ्चित्कालं विलिख्यासौ मुनेर्दुर्धर्षभाषिताम् ।
वीक्ष्य लज्जानतो भूत्वा जगाम निजमन्दिरम् ॥३०॥

थोड़ी देर लिखकर वे स्वामीजी की शीघ्र रचना-शक्ति को देखकर
छिन्न हो गये और अपने घर को चले गये ॥ ३० ॥

पुराणखण्डनां वीक्ष्य हतोत्साहा जनास्तदा ।
दिनास्तकमलश्रीणि वदनानि दधुमृशम् ॥३१॥

इस समय आपके द्वारा पुराणों का खण्डन सुनकर मनुष्यों के मुख
सायकालिक कमलों के तुल्य मलिन हो गये ॥ ३१ ॥

दिनोदयलसत्पद्मश्रीमुखो यमिनां वरः ।
जयश्रियापि संयुक्तोभवदेव न संशयः ॥३२॥

सूर्योदय के समय खिले हुए कमल के समान आपका मुख अत्यन्त
शोभित हो गया और जयलक्ष्मी को प्राप्त होकर आपकी बड़ी शोभा हुई ॥ ३२ ॥

गतः पुरान्तरमितो मूर्तिपूजनभञ्जने ।
चत्वारिंशन्मितान्मूकानकल्पयदयं बुधान् ॥३३॥

वहाँ से आप भागलपुर गये । वहाँ पण्डितों में आपकी ऐसी खोमा हुई कि जैसे प्रजा के बीच में राजा की होती है ॥ ३३ ॥

मौनवेषधरस्तत्र कोपि साधुरसाधुताम् ।

विहाय तद्वचः श्रुत्वा सत्यं साधुरिवाभवत् ॥३४॥

वहाँ पर एक मीनी साधु आपके भाषण सुनकर वास्तव में सच्चा साधु बन गया और उसने मौन छोड़कर सत्य बोलना आरम्भ कर दिया ॥ ३४ ॥

पुरान्तरमभिप्रेत्य यतिर्धर्मप्रचारकृत् ।

विबुधैः संवृतो रेजे राजेव विलसत्प्रमः ॥३५॥

यहाँ से आप भागलपुर पहुँचे । वहाँ आप पण्डितों में जनश्रुत्यगत भूष के तुल्य भासने लगे ॥ ३५ ॥

यत्नायमवसत्तत्र जनतामभिवीक्ष्यते ।

उरव्याः परायवस्तूनि विक्रेतुमगमन्पुरात् ॥३६॥

जहाँ पर आप रहा करते थे वहाँ पर वैद्यों ने सर्वदा मेला सा देव नगर से अपनी दुकानें वहाँ पर लगाईं ॥ ३६ ॥

वर्धमानपुराधीशो भूपस्तत्कीर्तिमुत्तमाम् ।

विद्वज्जनगणाच्छ्रुत्वा चकितोभवदात्मनि ॥३७॥

उसी समय वर्धमान के राजा ने अनेक विद्वानों से आपका यश सुनकर अपने मन में बड़ा आश्चर्य माना ॥ ३७ ॥

परीक्षणाय विदुषां चतुष्टयमयं ततः ।

सविधे प्रेषयामास विदुषोस्य महामतेः ॥३८॥

और उनकी परीक्षा के लिये उन्होने राजाराम आदि चार पण्डित भेजे ॥ ३८ ॥

न्यायशास्त्रप्रवीणास्ते वीक्ष्य वेदविदांवरम् ।

अनुत्तरप दं गत्वा भाषण्ये नम्रतामगुः ॥३९॥

वे नैयायिक पण्डित आपके पास जाकर शास्त्रार्थ में निरुद्ध हो नम्र हो गये ॥ ३९ ॥

परावृत्य पुरन्नैजम्बुधास्ते सत्यभाषिणः ।

समस्तां क्षितिपस्याग्रे घटनां जगदुर्मृशम् ॥४०॥

और अपने नगर में जा राजा के समक्ष सत्य सत्य अपनी सब व्यवस्था कहने लगे ॥ ४० ॥

श्रुतवाक्यस्तदा राजा दर्शनाय महामतेः ।

सप्रजो निकटं प्राप भक्तिप्रह्वीकृतान्तरः ॥४१॥

उनकी बातें सुन कर राजा का हृदय स्वामीजी की भक्ति से उमड़ पड़ा । वे अपनी प्रजा के साथ स्वामीजी के चरणों में आ गिरे ॥ ४१ ॥

दर्शनावसरे वादं वीक्ष्य नानामतानुगैः ।

सहयोगेश्वरस्यार्यं राजा हर्षमुपागमत् ॥४२॥

नाना मतवादियों के साथ स्वामीजी के वाद विवाद को सुन कर राजा को बड़ा हर्ष हुआ ॥ ४२ ॥

मतमस्य महोत्साहैराविश्य विबुधान्वितः ।

पूजयामास चरणौ यथाशक्ति धनादिभिः ॥४३॥

और वह निज पण्डितों के साथ आर्यमत में प्रविष्ट हो यथाशक्ति धनादि से आपका सत्कार करने लगा ॥ ४३ ॥

अनुज्ञामधिगत्याथ गुरुवर्यास्त्रिजं पुरम् ।

प्रतस्थे परमोदारवचनैर्निगदन्गुणान् ॥४४॥

अन्त में आपसे आज्ञा माँग अनेक प्रकार से गुणानुवाद गाते हुए अपने नगर को चले गंगा ॥ ४४ ॥

गते राजनि योगीशोप्ययमानन्दनैर्जनैः ।

समं वाचां विलासेन यापयामास वासरान् ॥४५॥

उसके जाने पर भी अनेक मनुष्यों के साथ वाग्बिछास करते हुए कुछ दिन वहीं पर निवास करते रहे ॥ ४५ ॥

अनार्यमतगः कश्चिद् द्विजो मनसि योगिनम् ।

वीक्ष्य भाग्यमलं शोकाग्निनिन्द किमतः परम् ॥४६॥

उसी समय एक ब्राह्मण, जो ईसाई हो गया था, स्वामीजी को देखकर अपने भाग्य को सोचता हुआ यों कहने लगा ॥ ४६ ॥

यद्ययं योगिनां राजा मिलेत् प्रागेव दैवतः ।

भवेयं किमहं तर्हि नीचमार्गव्यवस्थितः ॥४७॥

यदि स्वामीजी महाराज यहाँ पर पहले ही आजाते तो मुझको काहे को धर्म-ब्रह्म होना पड़ता । फिर मैं कभी ईसाई न होता ॥ ४७ ॥

इति शोकमलंप्राप्तं ब्राह्मणं वीक्ष्य योगिराट् ।

हृदये परमात्मानं सस्मार निजगाद च ॥४८॥

ब्राह्मण-ईसाई की ऐसी व्याकुलता को देखकर स्वामीजी महाराज ईश्वर का ध्यान करके इस प्रकार कहने लगे ॥ ४८ ॥

आर्यावर्तमनार्याणामावर्तं बहवो नराः ।

कल्पयन्ति मनुष्याणां धर्मनाशनतत्पराः ॥४९॥

बहुत से मनुष्य, लोगों के धर्म बिगाड़ने के लिए, इस आर्यावर्त को अनार्यावर्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ॥ ४९ ॥

दयामय ! निराधार ! जगदीश्वर ! सत्वरम् ।

भारते करुणाहृष्टिं कुरु भारतवत्सल ! ॥५०॥

हे दयामय, हे निराधार, हे जगदीश्वर, हे भारतवत्सल, आप भारतवर्ष पर कृपाहृष्टि कीजिए ॥ ५० ॥

इति नानाविधाभासभासितात्मा स सन्मतिः ।

देशोपकारकरणे द्विगुणं यत्नमादधे ॥५१॥

इस प्रकार नाना प्रकार के सोच विचार करके सुमति स्वामीजी संसार की धार्मिक वृथा के सुधार के लिए और अधिक यत्न करने लगे ॥ ५१ ॥

राजधानीन्धनाधानीं गुणाधानीमतःपरम् ।
प्रतस्थे यानमाप्तेयमधिरुह्य बुधाग्रणीः ॥५२॥

पण्डितों में प्रप्रणी स्वामीजी आग्नेय (अग्नि से चलने वाली) रेलगाड़ी पर सवार होकर गुण और धन से परिपूर्ण राजधानी कलकत्ते पधारे ॥ ५२ ॥

तडिन्मार्गश्रुतारम्यागमनास्तत्र सज्जनाः ।
दर्शनाकाङ्क्षिणो नूनं बाष्पयानस्थलीमगुः ॥५३॥

जब लोगों ने स्वामीजी के आने का समाचार तार के द्वारा सुना तब स्वामीजी के दर्शन की इच्छा रखनेवाले कितने ही सज्जन रेलवे स्टेशन पर जा पहुँचे ॥ ५३ ॥

आगमोत्सवसम्भारबहुमानवभूषिता ।
सा स्थली रम्यतामाप किमतो वर्णनं परम् ॥५४॥

स्वामीजी के दर्शन और स्वागत करने के लिए लोगों की इतनी भीड़ स्टेशन पर लग गई कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । उस भीड़ से स्टेशन भी जगमगाने लगा ॥ ५४ ॥

स्वागताचारसञ्चारविचारवति तज्जने ।
समभूदुदयो यानादस्य योगीश्वरस्य सः ॥५५॥

लोग आपके स्वागत का विचार करही रहे थे कि इतने में आप रेलगाड़ी से उतर आये ॥ ५५ ॥

जाते तस्योदये पादपतिते मनुजव्रजे ।
या शोभा समभूत्सा किं वर्णनीयास्ति केनचित् ५६

जब स्वामीजी प्लेटफार्म पर आये तब लोगों की भारी भीड़ आपके चरणों में गिर पड़ी । उस समय जो शोभा थी क्या उसको कोई वर्णन कर सकता है ? ॥ ५६ ॥

चन्द्रशेखरसेनाद्या जनाः स्वागततत्पराः ।
प्रमोदकानने रम्यमावासं तस्य चक्रिरे ॥५७॥

श्रीयुत चन्द्रशेखरसेन आदि सङ्घर्षों ने आपका स्वागत किया और आपके ठहरने का प्रबंध प्रमोद-कानन में किया गया ॥ ५७ ॥

नन्दनादधिका तस्य दयानन्दसमागमात् ।

वनस्य ववृधे शोभा यया विश्वमिदं ततम् ॥५८॥

अपि दयानन्द के आने और ठहरने से देवताओं के नन्दन-वन से भी कहीं अधिक उस वन की शोभा बढ़ गई ॥ ५८ ॥

प्रातरेव समस्तेषु समाचारदलेष्वरम् ।

तदागमनसञ्चारा मुद्रिता अभवञ्छिवाः ॥५९॥

आपके आने का शुभ समाचार सबेरे ही समस्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया ॥ ५९ ॥

पण्डिता अपि तत्रत्याः समागत्य यथायथम् ।

निजां निजामनुमतिं तस्याग्रे क्रमशोवदन् ॥६०॥

वहाँ के बहुत से पण्डित जनों ने आपके सामने आ आकर अपनी अपनी अनुमति प्रकाशित की ॥ ६० ॥

असावपि महोदारवचनेरार्यमानवान् ।

नितरां तोषयामास वेदमार्गप्रवर्तकैः ॥६१॥

आप भी अपने उच्चार और वेदमार्ग-प्रवर्तक बच्चों से आगत आर्य जनों को सन्तुष्ट करते थे ॥ ६१ ॥

न सा कापि पुरे तत्र प्रतोली समभून्मुदा ।

जना यस्यां मुनेरस्य जगदुर्न यशस्ततिम् ॥६२॥

उस महानगरी में कोई गली ऐसी न रही कि जिसमें लोग आपकी कीर्ति का गान न करते हों ॥ ६२ ॥

अथैनं कोपि पप्रच्छ साङ्ख्यकर्ता किमीश्वरम् ।

वेदाँश्च मानयामास न वेति स तमब्रवीत् ॥६३॥

कुछ दिनों के बाद हेमचन्द्र चक्रवर्ती ने आपसे आकर पूँछा कि सांख्यकार वेद और ईश्वर को मानते हैं या नहीं ? ॥ ६३ ॥

उभयस्वीकृतिपरः कपिलोभूदसंशयम् ।

भाष्यं भागुरिसम्भूतं वीक्ष्यतामत्र दर्शनम् ॥६४॥

यह सुनकर आपने उत्तर दिया कि वह दोनों को मानते थे । भागुरि मुनि का भाष्य इसमें प्रमाण देखिए ॥ ६४ ॥

इत्युक्तवति योगीन्द्रे केपि ब्राह्ममतानुगाः ।

समागत्य यथायोग्यमदो वचनमूचिरे ॥६५॥

इतना कहने पर ब्रह्म-समाज के देवेन्द्रनाथ आदि आकर आपसे पूछने लगे ॥ ६५ ॥

ब्राह्मं समाजमाप्तानामस्माकं धारणाविधौ ।

निषेधे वा विधिर्वास्ति यज्ञसूत्रस्य शाधि नः ॥६६॥

महाराज, हम लोग ब्रह्मसमाजी हैं । आप कृपा करके हमें बतलाइए कि हम लोगों को यज्ञोपवीत धारण का अधिकार है या नहीं ? ॥ ६६ ॥

इति पृच्छापरानेतान्युणकर्मविभागशः ।

तद्विधानाविधानेषु कृतार्थानकरोज्जनान् ॥६७॥

इसके उत्तर में आपने उनको शुद्ध-कर्म-विभाग के द्वारा अधिकार एवं अनधिकार बतवा दिया ॥ ६७ ॥

श्रुत्वा तद्वचनं तेपि वेदसिद्धान्ततत्पराः ।

समभूवन्निदं चित्रं विस्मितामकरोत्पुरीम् ॥६८॥

स्वामीजी का बचन सुनकर कितने ही ब्रह्मसमाजी वैदिक सिद्धान्तों को मानने लगे । इस विचित्र वृत्तान्त से सारी पुरी आश्चर्य में निमग्न हो गई ॥ ६८ ॥

केपि तत्रोपनिषदां पठनाविविधौ रताः ।

अन्ये तन्मतवीक्षासु पुष्टतामगमन्पराम् ॥६९॥

कोई पुरुष आपसे उपनिषद् पढ़ने लगे, कोई वैदिक धर्म में अत्यन्त आविष्ट हुए ॥ ६९ ॥

विद्वांसो बहवस्तत्र नानाशास्त्रपरायणाः ।

निजबुद्ध्यनुसारेण लाभमापुर्यथायथम् ॥७०॥

बहुत से विद्वान् अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे अनेक प्रकार के लाभ उठाते रहे ॥ ७० ॥

पुनर्जन्मपरं वादं हवनानुगतं तथा ।

कृतवन्तौ बुधौ मूकीकृतवानयमात्मधीः ॥७१॥

पुनर्जन्म पक्ष हवन विषय में विचार करने लगे । श्रीसुरेन्द्रनाथ और श्रीरजेन्द्रकाष्ठ को आपने यथोचित उत्तर से पराश्रित कर दिया ॥ ७१ ॥

नानाभवनभागेषु कृतव्याख्यानविस्तरा ।

नगरी शुशुभे तस्य दर्शनैरतिदर्शनैः ॥७२॥

बहुत से स्थानों में प्रति दिन व्याख्यान होने के कारण वह नगरी आपके दर्शनों से अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुई ॥ ७२ ॥

नानाहवनपीठेषु यज्ञादिकमसौ मुनिः ।

कारयन्नवनीभागान्गन्धयुक्तानिवाकरोत् ॥७३॥

बड़े बड़े स्थानों में यह करते हुए वे सब स्थानों को सुगन्धित करते रहे ॥ ७३ ॥

एकस्मिन्दिवसे तत्र बहुमानवमण्डिते ।

भवने देववाचासौ व्याख्यानं संमवाकदात् ॥७४॥

एक दिन एक भवन में बहुत से मनुष्यों की भीड़ में आपने संस्कृत में व्याख्यान दिया ॥ ७४ ॥

भाषान्तरे ततः कोपि विपरीतार्थकल्पनम् ।

प्रकुर्वन्बोधयामास तत्समाजगताञ्जनान् ॥७५॥

परन्तु किसी बंगाली ने आपके व्याख्यान का तात्पर्य कुछ उलटा करके मनुष्यों को सुना दिया ॥ ७५ ॥

प्रार्थयामासुरितरे तदातङ्केपि सूरयः ।

भगवन्नृगिरा देयं व्याख्यानमिति वादिनः ॥७६॥

यह गड़बड़ी देखकर कुछ समझदार वैदिक लोग आपसे कहने लगे कि महाराज ! इससे तो आप कृपा करके प्रार्थ-भाषा (हिंदी) में ही व्याख्यान दें तो उत्तम हो ॥ ७६ ॥

भवदुक्तविपर्यासकल्पना मनुजैः कृता ।

दुनोत्यस्माकमत्यन्तं मानसानि विमर्शनात् ॥७७॥

क्योंकि आपके संस्कृत-व्याख्यान का अनुवाद जो बंगभाषा में करके लोगों को सुनाया जाता है वह आपके सिद्धान्त से सर्वथा प्रतिकूल होता है । यह देखकर हम लोगों को बहुत दुःख होता है ॥ ७७ ॥

इति श्रुतवचोव्रातः स महात्मा ततः परम् ।

मानवानां गिरा चक्रे भाषणं बहुविस्तरम् ॥७८॥

यह सुनकर फिर श्रीमान् स्वामीजी महाराज प्रार्थ-भाषा (हिन्दी) में बड़े बड़े व्याख्यान देने लगे ॥ ७८ ॥

नानामन्त्रप्रमाणानि विषये विषये वदन् ।

कृतव्याख्यानसंपूर्तिर्जगामावासकाननम् ॥७९॥

इसी तरह आप वेद-मन्त्रों के प्रमाणों से युक्त प्रमेक विषयों में व्याख्यान दे दे कर विग्राम के छिप प्रमोद-कानन में आजाते थे ॥ ७९ ॥

प्रमोदकाननान्तस्थसरोवरतटाश्रितम् ।

योगिनं विबुधैर्व्यासं मनुजः कोप्यचिन्तयत् ॥८०॥

प्रमोद-कानन के प्रमोद सरोवर के तट पर बैठे हुए एक पुरुष ने आपको याद किया ॥ ८० ॥

योगदृष्ट्या ततः श्रीमान्विचार्य तदभीप्सितम् ।
समाहूय मनाक्चक्रे तत्कार्यमपि गौरवात् ॥८१॥

उसी क्षण योग-दृष्टि से उसे जानकर और बुझाकर उसका काम पूर्ण किया ॥ ८१ ॥

कालान्तरे समीपस्थनिवासभवनेष्वयम् ।
नानावैषयिकीर्व्याख्याः कर्तुमारभतादशात् ॥८२॥

कुछ दिनों के अनन्तर [२ मार्च सन् १८७३ ई० को] निम्न निवासस्थान के समीपस्थ भवनों में निम्न निम्न विषय के व्याख्यान देने आपने प्रारंभ कर दिये ॥ ८२ ॥

क्वचिदीश्वरसद्भावविषयाभिमुखः क्रमात् ।
प्रमाणघटनाश्चक्रे तद्गताः समयोचिताः ॥८३॥

कहाँ आपने ईश्वर की सत्ता के विषय में अनेक प्रमाणमूर्ति और समयोचित व्याख्यान दिये ॥ ८३ ॥

जातिभेदपरं कञ्चित्प्रस्तूय विषयं ततः ।
सुमतिं कुमतिं सर्वलोकगामवदत्परात् ॥८४॥

फिर आपने एक व्याख्यान 'जातिभेद के विषय' में दिया । आपने जाति-भेद-सम्बन्धी भी संसार की सभी सुमति और कुमति का वर्णन किया ॥ ८४ ॥

बालवैधव्यदग्धानां कुलस्त्रीणां क्वचिदशासू ।
वर्णयन्नश्रुसम्पूर्णनयनानकरोज्जनान् ॥८५॥

किसी जगह आपने कुलीन बाल-विधवाओं की दुर्दशा का पेशा किन्हीं उदारों के सुनेवालों के नेत्रों से आँसू गिरने लगे ॥ ८५ ॥

ब्रह्मचर्यविधानादि क्वचित्प्रस्तूय तद्गताम् ।
दुर्दशां विबुधाग्रेषु वर्शयामास धीरधीः ॥८६॥

कहाँ ब्रह्मचर्य-रक्षा पर आपने व्याख्यान दिया और ब्रह्मचर्य-रक्षा के प्रभाव से जैसी कुछ दुर्दशा देश की हो रही थी उसका अच्छी तरह वर्णन किया ॥ ८६ ॥

इति नानानिबन्धेषु कल्पनाः पारमार्थिकीः ।

कल्पयन्नल्पकालेन कृतार्थानकरोत्पुरीम् ॥८७॥

इस प्रकार थोड़े से दिनों में ही आपने समस्त कलिकाता राजधानी को अपने सदुपदेश से कृतार्थ कर दिया ॥ ८७ ॥

पाठशालाप्रबन्धेपि राजकीये निजश्रमैः ।

वेदादिसत्यशास्त्राणां निवेशनमकारयत् ॥८८॥

राजकीय विश्व-विद्यालय में भी आपने निज परिश्रम से वेदादि सत्य शास्त्रों को रखवाया ॥ ८८ ॥

व्याख्यानान्यस्य विद्वद्भिर्लेखितुं यद्यपि श्रमः ।

कृतोपि मन्दभाग्यत्वान्नाप पूर्तिं यथोचिताम् ॥८९॥

यद्यपि वहाँ के विद्वानों ने आपके व्याख्यान लिखने प्रारंभ कर दिये तथापि वह दुर्भाग्य से पूर्ण न हुए ॥ ८९ ॥

तारानाथप्रभृतिभिर्विद्वद्भिः सह विस्तृतैः ।

प्रश्नोत्तरैर्नयव्याख्यामेव तदाकरोन्मुनिः ॥९०॥

तारानाथ भादि अनेक विद्वानों के साथ नीति-विषय में विचार करते हुए आप कुछ दिन तक वहाँ रहे ॥ ९० ॥

राजधानीश्रिया युक्तः स महात्मा भुवस्तले ।

कीर्तिमेकां व्यवस्थाप्य गमनाय मनो दधे ॥९१॥

फिर राजधानी की लक्ष्मी से विभूषित होकर वे वहाँ पर प्रद्वितीय कीर्ति को स्थापन कर चलने के लिए उद्यत हुए ॥ ९१ ॥

इतः स्थलान्तरं योगी बहुविद्बहुपावृतः ।

नानाविषयसंवादैः कृतार्थानकरोज्जनान् ॥९२॥

वहाँ से आप विद्वन्मण्डली से युक्त हुगली पहुँचे । वहाँ अपने सद्गुणदेशों से मनुष्यों को हतार्थ करने लगे ॥ ९२ ॥

वेदवेदाङ्गशास्त्राणि प्रमाणीकृत्य मण्डले ।
सत्वरं विदुषां वाणीर्निग्रहस्थानमानयत् ॥९३॥

वेद, वेदाङ्ग और शास्त्रों के प्रमाओं से आपने विपक्षियों को परास्त कर दिया ॥ ९३ ॥

बुद्धिमन्तो जनास्तस्य दर्शनेनैव हर्षिताः ।
अभवन्परिपूर्णेन्दोर्दर्शनेनेव सागराः ॥९४॥

जिस प्रकार पूर्ण चन्द्र को देखकर सागर आनन्दित होता है उसी प्रकार आपके दर्शन करके वहाँ के सज्जन बहुत हर्षित हुए ॥ ९४ ॥

विपक्षिणो जनास्तत्र सभामेकामकल्पयन् ।
वञ्चनाय धनाढ्यानां वाणिजामलसात्मनाम् ॥९५॥

उसी समय कुछ चक्राङ्कितों ने वहाँ पर एक “आर्यसन्मार्ग-सन्दर्शिनी” समा वैश्यों के बहकाने को नियत की ॥ ९५ ॥

घृन्दावनपराभूतिसञ्जातकलुषान्तराः ।
यस्यां परिषदि प्रायो मूढा एव निमन्त्रिताः ॥९६॥

जिसमें आपके द्वारा घृन्दावन में फटकारे हुए चक्राङ्कित ही निमन्त्रित किये गये ॥ ९६ ॥

प्रागेव भयभीतास्ते ऋषेरस्य कथामपि ।
न कर्तुमभवञ्छक्ताः किमाह्वानादिकं पुनः ॥९७॥

उन्होंने आपके डर से आपका नाम तक नहीं किया, बुढाना तो बखण पा ॥ ९७ ॥

इतस्ततः समागत्य पण्डितास्तत्र पक्षिणः ।
नानाचूंकृतिभिर्गोष्ठीं वृक्षतामनयन्परास् ॥९८॥

इधर उधर से बहुत से पण्डितों ने आकर समा में चूँ चाँ करके उसको देखा वना दिया कि जैसा पक्षियों से संयुक्त वृक्ष ॥ ९८ ॥

इन्द्रजालसमानामिः प्रश्नोत्तरसमाधिभिः ।

वशिजामलसान्तानां द्रव्याधानीरवञ्चयन् ॥६६॥

इन्द्रजाल के समान प्रश्नोत्तर करके उन लोगों को अपने जाल में फँस पौर उनका कितनाही रुपया धिगाड़ डाला ॥ ९९ ॥

समाचारदले वीक्ष्य निन्दां ते वंचनोत्थिताम् ॥

वास्तवेपि मसीम्ब्लानवदना अभवन्स्वयम् ॥१००॥

परन्तु समाचार-पत्रों में अपनी निन्दा सुन कर वे सबके सब मलिन-मुखा हो गये ॥ १०० ॥

परं मूढा न मन्यन्ते निन्दां जगति कित्तरम् ।

धनमेवाभिवाञ्छन्ति सर्वोपायैर्नु ते जनाः ॥१०१॥

परन्तु मूर्ख जन निन्दा की कुछ परवा न करते हुए केवल धन केन प्रकारेण धन ही कमाया करते हैं ॥ १०१ ॥

दयानन्दोपि महितं समाजभवनं क्रमात् ।

विधाय तत्र गमने मतिमाधादनुत्तमाम् ॥१०२॥

फिर स्वामी दयानन्दजी वहाँ-समाज-मन्दिर बनवा कर चलने को उद्यत हुए ॥ १०२ ॥

अवाप्य पत्तनं तस्मात्परमद्भुतदर्शनः ।

वेदोदितमतव्याख्यामयं तस्तार सर्वशः ॥१०३॥

फिर वहाँ से आगलपुर आकर अपने व्याख्यान दिये पौर लोगों को वैदिककर्म का प्रकार बतलाया ॥ १०३ ॥

तत्र नावाजनैरस्मादार्यधर्मप्रवर्धिनी ।

शीघ्रा सादरमप्राहि किमलभ्यं सदागमात् ॥१०४॥

वहाँ पर बहुत से सज्जनों ने आपसे आदरपूर्वक आर्यधर्म के बढ़ाने वाली दीक्षा ग्रहण की । सत्समागम से सभी बातें सुलभ हो जाती हैं ॥ १०४ ॥

विधाय वस्त्रावरणं विदुषा केनचित्कृताम् ।

वकृतामल्पयत्नेन खण्डयन्मूकतामदात् ॥१०५॥

(वहाँ से छपरे में पहुँचे । वहाँ) एक पण्डित परदे की झोट में शास्त्रार्थ करने लगा । उस पण्डित का नाम जगन्नाथ था । स्वामीजी ने उसकी बातों का तुरंत खण्डन कर दिया । वह सर्वथा निरुत्तर हो गया ॥ १०५ ॥

अनन्तरमसौ पूर्वपत्तनेषु यथायथम् ।

विश्राम्यन्नाप मथुरां प्रयोजनवशाद्द्रुतम् ॥१०६॥

वहाँ से फिर आप पूर्व परिचित सड़ों में विश्राम लेते हुए चक्राकितों के खण्डनार्थ मथुरा पधारे ॥ १०६ ॥

विद्वज्जनैस्तत्र सार्धं विधाय कथनं मनाक् ।

चपलं तत्र समगाद्यत्र रङ्गोत्सवोभवत् ॥१०७॥

मथुरा में भी कुछ विद्वानों से बात कर आप रंग्शी के मैडे पर वृन्दावन पधारे ॥ १०७ ॥

गत्वैव वैष्णवादीनां मतानि विदितक्रमात् ।

खण्डयामास योगीन्द्रो वैदिकैरेव साधनैः ॥१०८॥

वहाँ जातेही योगीन्द्र ने वैदिक-मंत्रों द्वारा वैष्णवमत का खण्डन किया ॥ १०८ ॥

बहवो द्वेषभाजोपि तत्रासन्मनुजाधमाः ।

परं ते नाशकन्कर्तुं किमप्यस्य महामतेः ॥१०९॥

वहाँ पर अनेक वैष्णव द्वेष-शुद्धि से उत्पात मचाने को उद्यत भी हुए परन्तु आपकी सावधानी से वे कुछ न कर सके ॥ १०९ ॥

मासैककमुपस्थाय तत्र खण्डनमण्डनैः ।

प्रवाहे यामुने मूर्तिः पातयामास गेहिनाम् ॥११०॥

एक मास तक बराबर वहाँ रह कर सण्डन करते हुए आपने सैकड़ों गृहस्थों की मूर्तियाँ यमुना में गिरवा दीं ॥ ११० ॥

प्रभावं तत्र विन्यस्य ससमाजं गिरामयम् ।

प्रत्यावृत्तौ मनश्चक्रे नानास्थानेषु शान्तधीः ॥१११॥

अन्त में वहाँ समाज स्थापन करके फिर आपने छोटने के लिए मन में विचार किया और मुरसान पधारे ॥ १११ ॥

जघान यत्र यत्नेन मुरं श्रीमधुसूदनः ।

दिनमेकं वसंस्तत्र वेदमार्गमचीकथत् ॥११२॥

जहाँ पर श्रीकृष्ण ने मुर नामक दैत्य को मारा था । उस मुरशयन में आकर स्वामीजी ने वैदिक-धर्म का प्रचार किया ॥ ११२ ॥

हस्ताभिधं ततो योगीपुरमेत्य मनोरमैः ।

योगदीक्षाक्रमैरेव हर्षितानकरोज्जनान् ॥११३॥

एक दिन मुरसान में रहकर फिर आप हाथरस पधारे और योग-मार्ग का व्याख्यान देकर आपने वहाँ के लोगों को बहुत संतुष्ट किया ॥ ११३ ॥

कौलं नाम ततः श्रीमानयमेत्य पुरं लघु ।

समाजकल्पनामत्र विधाय प्रययौ शनैः ॥११४॥

वहाँ से फिर आप अलीगढ़ पहुँचे । वहाँ कुछ दिन ठहर कर आप छलेसर चले गये ॥ ११४ ॥

यथायथं निवासेषु पूर्वदृष्टेषु संवसन् ।

दक्षिणां दिशमुद्यम्य यथावेकं पुरं महत् ॥११५॥

वहाँ से भी आप पहले देखे हुए प्रयागदि नगरों में होते हुए दक्षिण की ओर जबलपुर पधारे ॥ ११५ ॥

परं निधाय तत्रापि प्रभावं वचसामयम् ।

जगाम सत्वरं योगी शिवां पञ्चवटीमरम् ॥११६॥

वहाँ भी अपने वचनों का प्रभाव जमाकर स्वामीजी जल्दही वहाँ से कन्याशकारिणी पंचवटी पर चले गये ॥ ११६ ॥

पत्तने द्वे ततो गत्वा भिक्षावृत्तिपराङ्मनान् ।

विनिन्दन्देशसौन्दर्यनिरीक्षणपरोभवत् ॥११७॥

वहाँ से नासिक और ध्यम्बक होते हुए स्वामीजी भिक्षुक वृत्तिवालों को फटकार कर देश की सुन्दरता को देखने लगे ॥ ११७ ॥

मूर्तिपूजाविधानानां खण्डनैस्तत्कृतैः शुभाः ।

दिशः प्रपूरयामासुर्मानवा वानवाः स्वयम् ॥११८॥

आपके किये हुए मूर्ति-पूजन-खण्डन को वहाँ के मनुष्य स्वयं सर्वत्र फैलाने लगे ॥ ११८ ॥

दिनैः कतिपयैरेव विचरन्विदुषांवरः ।

दक्षिणाया दिशः प्राप राजधानीमलंकृताम् ॥११९॥

थोड़ेही दिनों में उच्च देश का सौंदर्य देखकर आप दक्षिण देश की राजधानी मुम्बई पधारे ॥ ११९ ॥

ऋषेरस्यागमं श्रुत्वा विबुधा हर्षनिर्भराः ।

समभूवन्नथो मूढा विषयणा युगपद्द्रुतम् ॥१२०॥

ऋषि का आना सुनकर शास्त्रिक विद्वान् तो अपने मन में अत्यन्त मुषित हुए परन्तु साधही मूढ़ जन अप्रसन्न भी हुए ॥ १२० ॥

बालकेश्वरविख्यातभवने तस्य सज्जनैः ।

समकारि मुनेरस्य निवासविधिरादरात् ॥१२१॥

मुम्बई के प्रतिष्ठित जनों ने बालकेश्वर के ऊपर एक प्रसिद्ध जग में आपके ठहरने का प्रबंध किया और वहाँ आप ठहरे ॥ १२१ ॥

भाषाचतुष्टयाभिज्ञैर्विबुधैर्धर्मनिर्णयम् ।
समुद्दिश्य मुनेरस्य विज्ञापनदलं कृतम् ॥१२२॥

ठहरने के बाद चार भाषाओं में प्रवीण विद्वानों ने एक एक विज्ञापन बनाया ॥ १२२ ॥

यस्मिन्मुद्रापिते पश्चात्त्रेषितेथ समुद्भवौ ।
नानापुरेषु विख्यातिरस्य सर्वजनश्रुता ॥१२३॥

जिसके छपने और बटने पर आस पास के सब नगरों में आपकी प्रसिद्धि होगई ॥ १२३ ॥

अनन्तरं समाजमुस्तन्न पौराणिका जनाः ।
परं हुङ्कारमाक्षेण गता निजगृहाङ्गणम् ॥१२४॥

विज्ञापन देखते ही पहले वहाँ पर पौराणिक आये परन्तु स्वामीजी की एकही फटकार से वे अपने अपने घरों को भाग गये ॥ १२४ ॥

एकाङ्गपाठिनः केचिदेकशास्त्रपरा बुधाः ।
कथं सर्वज्ञसविधे विदध्युः स्थितिमित्यलम् ॥१२५॥

फिर एकही विषय के ज्ञाता कई पण्डित आये परन्तु वे बहुत स्वामीजी के सामने क्योंकर ठहर सकते थे ? ॥ १२५ ॥

बाल्लभस्य मतस्याथ सर्वतः पूर्वमादरात् ।
विभञ्जनामयं चक्रे तिलशः सर्वरीतिभिः ॥१२६॥

इसके बाद सबसे पहले आपने वहाँ पर आदरपूर्वक बल्लभमत का श्रवण किया ॥ १२६ ॥

दुर्धर्ष वीर्यमेतस्य खण्डने तन्मतानुगाः ।
समीक्ष्य दन्तमध्येषु स्वाङ्गुलीः समवेशयन् ॥१२७॥

जिसको चुन कर सब बल्लभकुल के मत को मानने वाले दंतों के बीच में अँगुलियाँ दबाने लगे ॥ १२७ ॥

उपायाभावतः पश्चाद्भ्रमं दातुमुद्यताः ।

समभूवन्परं यत्नो नाभवत्कर्मणीदृशे ॥१२८॥

जब उनसे कुछ न बन पड़ा तब वे ज़हर देने को उद्यत हुए, परन्तु वे न सके ॥ १२८ ॥

परमात्मा मनुष्यस्य यस्य रक्षार्थमुद्यतः ।

कथं तस्य विनाशः स्यादिति सत्यं कथानकम् १२९

ठीक है, परमेश्वर जिसका रक्षक होता है उसका विनाशक कौन हो सकता है ? ॥ १२९ ॥

योगिराडपि दस्यूनामभिचारादि वीक्षण्ये ।

परमं यत्नमुद्यम्य तस्थौ तत्र यथा हरिः ॥१३०॥

आपसी फिर दुष्टों की दुष्टता जानकर बड़े सावधान होकर वहीं आनन्द-पूर्वक रहने लगे ॥ १३० ॥

एतावतैव कालेन गुप्तः कोपि सुमुद्रितान् ।

चतुर्विंशति सम्प्रश्नानकरोद्राचिधीमताम् ॥१३१॥

इतने में किसी गुप्त नामक पुरुष ने संस्कृत में चौबीस प्रश्न छपवाकर आपके पास भेजे ॥ १३१ ॥

उत्तरं मुद्रितं तेषामयमप्यतिवेगतः ।

सम्प्रदायावबद्धमे गुप्तता का महात्मनाम् ॥१३२॥

जिनका उत्तर आपने भी तुरंतही संस्कृत में छपवाकर भेज दिया और छिप दिया कि धर्म-कार्य में गुप्त नाम क्यों ? ॥ १३२ ॥

पापभीता जना लोके यान्ति गुप्तत्वमुद्धताः ।

प्रकाशन्ते गुणस्यार्थे गुप्ता अपि महोदयाः ॥१३३॥

पापी पुरुष ही जगत् में गुप्त रहा करते हैं । महात्मा वो गुप्त भी प्रकट हो जाया करते हैं ॥ १३३ ॥

एतस्मिन्नन्तरे विद्वदवराः केप्यकल्पयन् ॥

गोष्ठीं वैष्णवलोकानां पक्षपातेन गर्विताः ॥ १३४ ॥

इसी बीच में पक्षपात से गर्वित किन्हीं मूर्खों ने एक वैष्णवों की समा की ॥ १३४ ॥

गद्गूलादयो यस्यां सभापतिपदे स्थिताः ।

प्रमाणाभावतो मूर्तिपूजने मूकतां गताः ॥१३५॥

जिसमें गद्गूलादयो मद्याराज प्रधान बन मूर्ति-पूजन के शास्त्रार्थ में परास्त हुए ॥ १३५ ॥

धनलोभप्रभावेन यत्र विद्वद्रा अपि ।

मूर्तिखण्डनवाक्यानि नावदन्किमतः परम् ॥१३६॥

धन के लोभ से विद्वान् भी सत्य छोड़ प्रसत्य-वादी होते हैं, इसीसे किसी ने मूर्तिखण्डन के वचन न कहे ॥ १३६ ॥

यतिराडपि तां गत्वा गोष्ठीमबुधमण्डिताम् ।

नानामन्त्रपदैश्चक्रे मतानां खण्डनं क्रमात् ॥१३७॥

आपने भी उसमें जाकर वेद-मन्त्रों से अड़-पूजा का खूब खण्डन किया ॥ १३७ ॥

यदाकर्ण्य बुधास्तत्र शीघ्रमेव सहस्रशः ।

वेदमार्गमुपक्रम्य तस्थुरत्यंतहर्षिताः ॥१३८॥

उस शास्त्रार्थ के विजय का लोगों के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सैकड़ों मनुष्य प्रसन्नता से वेदमार्ग पर चलने लगे ॥ १३८ ॥

बलवत्तरमालोक्य मतमस्य जयोन्मुखम् ।

ययुः सर्वेपि वेश्मानि वैष्णवाः पापबुद्धयः ॥१३९॥

समा में आपका बड़ा प्रभाव देखकर सब वैष्णव अपने अपने घर में जा चुके ॥ १३९ ॥

येन केन प्रकारेण मारणे कृतनिश्चयाः ।

मरणं स्वयमेवापुर्जगन्मध्ये पराभवम् ॥१४०॥

उन्होंने विष द्वारा आपके मारने के छिप प्रयत्न किये परन्तु मरण से भी अधिक पराजय-रूप मृत्यु को स्वयं प्राप्त हुए । स्वामीजी का कुछ भी न बिगड़ा ॥ १४० ॥

पुस्तकालयमध्येपि कृतशास्त्रार्थकल्पनाः ।

सहसैव पराभूर्ति प्रापुरुद्धतपण्डिताः ॥१४१॥

फिर पुस्तकालय में कई पण्डित शास्त्रार्थ के छिप आपके पास आये जो बात की बात में परास्त होगये ॥ १४१ ॥

जयकृष्णादयोप्यन्ये वाटिकागतचत्वरे ।

जीवेश्वरपरं वादं कृत्वा मौनमुपागमन् ॥१४२॥

सेठ लीलाधर के बाग में चवतरे पर जयकृष्ण आदि कई पण्डित जीवेश्वर विषय में कुछ बोलने लगे परन्तु अन्त में मूकही हुए ॥ १४२ ॥

नानामतपरा लोकाः प्रभावादस्य सत्वरम् ।

सत्यमार्गपरा एव समभूवन्नहोवुमुतस् ॥१४३॥

अनेक मतों में फँसे हुए अनेक जन आपके प्रताप से फिर भी आर्य-समाज में प्रविष्ट होगये ॥ १४३ ॥

जनानां किल साहस्री संख्यया षष्ठिसंमिता ।

मतमस्य महोदारा स्वीचकार महाधना ॥१४४॥

साठ हजार पुरुषों के बड़े भारी समुदाय ने वेदमत को स्वीकार किया ॥ १४४ ॥

नियमान्वेदविहितान्विलोक्य समकल्पयत् ।

समाजरचनां भक्त्या गिरिग्रामे यथोचिताम् ॥१४५॥

उन्होंने ने समाज में प्रविष्ट होकर बड़े समारोह से गिरगाँव में समाज-मन्दिर बनवाया और सब वेदाहुतूठ दस नियमों पर चलने लगे ॥ १४५ ॥

एतस्मिन्नन्तरे तत्र रामानुजमताश्रितैः ।

परिषत्कल्पिता यस्यां मतवादो महानभूत् ॥१४६॥

इसी बीच में रामानुजों ने एक समा नियत की जिसमें निज पक्ष का बहुत कुछ मण्डन किया जाता था ॥ १४६ ॥

खेमराजादयो यस्यां व्यवस्थायै व्यवस्थिताः ।

स्वागतानि यथायोग्यं जनानां चक्रिरेचिरात् ॥१४७॥

उसके इन्तज़ाम के लिए सेठ खेमराज आदि नियत किये गये । उन्होंने सब का स्वागत किया ॥ १४७ ॥

नियतं समयं प्राप्य नानाभरणभूषिता ।

बभूव समितौ तस्यां जनानां क्रमशः स्थितिः ॥१४८॥

ठीक समय पर अनेक भूषणों से भूषित सभ्य जन यथोचित स्थानों पर बैठने लगे ॥ १४८ ॥

उभयाश्रितपक्षस्य लेखनाय व्यवस्थिताः ।

पक्षसंपादकाः सर्वे पदशोऽक्षरशोलिखन् ॥१४९॥

दोनों तरफ़ से संवाद लिखने के लिए पत्र-सम्पादक नियत हुए जो कि एक एक अक्षर लिखने वाले थे ॥ १४९ ॥

यतीश्वरोपि मतिमान्महासनमधिष्ठितः ।

समारंभे वचो व्यासं रामानुजजनैः समम् ॥१५०॥

सब काम जुड़ने पर आपसी उच्चासन पर बैठकर रामानुजियों से शार्वार्थ करने लगे ॥ १५० ॥

नियतग्रन्थसंवादप्रमाणपदभूषितः ।

ववृधे मूर्तिपूजायां विवादो विबुधोत्थितः ॥१५१॥

नियत ग्रन्थों को प्रमाण केटि में रखकर मूर्ति-पूजा पर शार्वार्थ आरंभ होगया ॥ १५१ ॥

आवाहनविसर्गादिप्रमाणाभावतः स्वयम् ।

रामानुजमताविष्टो जनोभयमुपागमत् ॥१५२॥

जिसमें आवाहन और विसर्जन के मंत्रामात्र से सब रामानुजी परास्त हुए ॥ १५२ ॥

पराभूतिमुपालभ्य रामानुजदत्ते गते ।

किमेतदपि वक्तव्यं योगीजयमुपागमत् ॥१५३॥

पराजय को प्राप्त हुए रामानुजियों के भागने पर आपका विजय सर्वत्र प्रसिद्ध होगया ॥ १५३ ॥

दिनान्तरे महामान्यैरेका व्यरचि सा सभा ।

राज्ञामवनतेर्यस्यां निदानान्ययमुक्तवान् ॥१५४॥

सभा के दूसरे दिन आर्यपुरुषों ने अपनी सभा की जिस में भारतीय राजों का अच्युतन का कारण खूब बतलाया ॥ १५४ ॥

ज्योतिर्विष्क्रीबकरभतैलिकानां निदर्शनैः ।

चातुर्विध्यं महायोगी मन्त्रिणामवदत्स्फुटम् ॥१५५॥

और जोतिषी, हीनदे, ऊँटवाले, तेकवाले, चार प्रकार के हस्तों से चार प्रकार के मन्त्रियों को बना कर आपने बड़े जोर के साथ क्षत्रियों की बुर्दशा कही ॥ १५५ ॥

ईसवीयमताः केचिदनेन सह संविदम् ।

कुर्वन्नगुरहो द्विलैः प्रश्नैरेव बहुध्रमम् ॥१५६॥

इतने ही में जिसने सह संविदम् के ईसाई पादरी आपसे कुछ बोलने आये परन्तु वे भी न बोल सके ॥ १५६ ॥

मूर्तिपूजापरानन्ते रामलाजादिपरिदितान् ।

विज्ञापनदत्तैरेव मूकीभूतानयं व्यधात् ॥१५७॥

अन्त में रामलाज आदि पौराणिकों को फिर विज्ञापन द्वारा परास्त कर अन्त में आपने विजय पाया ॥ १५७ ॥

नानामौक्तिकसम्प्रोतजयमालाविभूषितः ।

स बभौ तत्र परया शोभया परितो वृतः ॥१५८॥

मोक्षियों की माला से सुशोभित होकर आप जयचक्रियों से प्रसन्न हुए ॥ १५८ ॥

एकलक्षमितं द्रव्यं जनैर्दत्तमुपायने ।

समादाय ततो भव्यं पुंण्यपत्तनमागमत् ॥१५९॥

भेट में आये हुए एक लक्ष द्रव्य वैदिकधर्मप्रचारार्थ ले कर [२० जुलाई सन् १८७५ ई० को] आप पूना पधारे ॥ १५९ ॥

विद्वज्जनवरैरेषः सत्रा सम्भाषणादिकम् ।

विधाय वैदिकं मार्गं तत्रायमुपदिष्टवान् ॥१६०॥

वहाँ दो मास तक पण्डितों से शास्त्रार्थ करते हुए वैदिकधर्मप्रचार करते रहे ॥ १६० ॥

नानानगरसंवासेरथायं विगतश्रमः ।

धर्मोपदेशदानाय निजं देशं समाययौ ॥१६१॥

श्रान्त में रतलाम आदि नगरों में जा कर [१८७५ ई० में] अपने देश काठियावाड़ में पहुँचे ॥ १६१ ॥

निजदेशगतेष्वेवं समस्तेषु पुरेष्वयम् ।

वेदोदितानि कर्माणि समन्तादुपदिष्टवाम् ॥१६२॥

स्वामीजी पूर्वोक्त प्रकार से निज देशस्थ समस्त नगरों में वैदिक धर्म का उपदेश देते रहे ॥ १६२ ॥

यज्ञशाला गवां शालाः पाठशालाश्च सत्वरम् ।


विषये कल्पयामास निजे धर्मपरायणः ॥१६३॥

कहीं यज्ञशाला, कहीं गोशाला, कहीं पाठशाला बनवाते हुए स्वामीजी परमानन्द को प्राप्त हुए और ईश्वर का धन्यवाद एवं शुभकाम करने लगे ॥ १६३ ॥

एवं त्रिशङ्कुतिलकां दिशमुद्यमेन
 सम्यग्विजित्य निगमोक्तमतं वितन्वन् ।
 योगी परां श्रियमलम्भत सत्यमेव
 सिध्यन्ति कुल सुकृतानि न पुण्यभाजाम् ॥१६४॥

इन्द्र की दिशा (पूर्व) को तो स्वामीजी पहले ही विजय कर चुके थे जब उन्होंने उस यम दिशा को भी, कि जो त्रिशङ्कुतिलका के नाम से भी प्रसिद्ध है, विजय कर लिया । इन दोनों दिशाओं को अच्छी तरह जीतकर स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी महाराज सर्वत्र वैदिक-धर्म का प्रचार करते हुए वास्तव में सर्वोत्तम शोभा को प्राप्त हुए । ठीक है, पुण्यात्माओं के किये हुए परिश्रम कहीं पर सफल नहीं होते ? सर्वत्र ही सफल होते हैं ॥ १६४ ॥

इति भीमवसिष्ठानन्दशर्मण्डवौ सतिलके दयानन्दविनिबन्धे महाकाव्ये
 मोहमयी-प्रत्यावृत्तिर्नाम सप्तमः सर्गः ।



अष्टमः सर्गः

अथ जगदुपकारं सर्वशः कर्तुमिच्छ-

न्नयमतिकरुणार्द्रः कल्पयामास नव्यान् ।

निगमनियमपूर्णानप्रमेयप्रभावा-

नखिलगुणसमुद्रामुत्तमान्प्रन्थपूगान् ॥१॥

अब आपके बनाये हुए ग्रन्थों का वर्णन करने के लिए आठवाँ सर्ग प्रारंभ किया जाता है । दक्षिण दिग्बिजय के अनन्तर हर तरह से जगत् का उपकार करने के लिए वे कल्याण-सागर स्वामीजी वेदानुहूत, अचिंत्य प्रभावशाली, सम्पूर्ण गुणों के समुद्र, उत्तमोत्तम नवीन ग्रन्थों के बनाने के लिए प्रवृत्त हुए । १ ।

भवति सकलविज्ञो दर्शनैर्यत्कृतानां

जगति मनुजवर्यः पुस्तकानामयक्षात् ।

सकलगुणनिधानं नायकः सज्जनानां

कथमतिलघुवाचां मे पदं स्यात्स देवः ॥२॥

जिनके बनाये हुए ग्रन्थों के दर्शनों से ही मनुष्य जगत् में अनायास सम्पूर्ण बातों से अभिज्ञ बन जाता है वे सकल गुणनिधान, सज्जनों के नायक, दिव्यगुणवाले स्वामीजी अत्यन्त छोटीसी मेरी वाणी से किस प्रकार वर्णन के योग्य बन सकते हैं । २ ।

यदनुभवसमुत्था भारती भारते सा

विलसति विबुधानां पुष्पमालेव कण्ठे ।

गुणगणपरिपूर्णात्मिन्दसौरभ्यरम्या

जगति स चिरकालं कीर्तिमाप्नोति भव्याम् ३

जिसके प्रभुत्व से उत्पन्न हुई गुणयुक्त, उत्कट कीर्तिकर रचना विद्वानों के कण्ठ में पुष्पमाला के समान शोभा दे रही हो वही पुरुष चिरकाल तक इस संसार में यश का भागी होता है । ३ ।

इति मनसि स योगी चिन्तयित्वातिहर्षा-

लिखनविधिविधाने दक्षिणानष्ट विज्ञान् ।

नियमयदतुलश्रीर्वेतनादानयुक्त्वा

निखिलकरणयुक्तान्सर्वतः पूर्वमारात् ॥४॥

अपने मन में ऐसा निश्चय कर सबसे पहले लिखने में चतुर सब बातों में दक्ष, आठ पण्डितों को नौकर रखकर आप अपना विचार करने लगे । ४ ।

अवसरमथ लब्ध्वा भूमिकां वेदवाचा-

मरचयद्यमात्मज्ञानवेत्ता प्रशस्ताम् ।

यदनुकरणकृत्ये सूरिणां बुद्धिरुभ्रा

कथमपि बहुयत्नैः कल्पयामास कृत्यम् ॥५॥

विचार के अनन्तर, ईश्वरीय ज्ञान के वेत्ता ऋषि, प्रशस्त ऋग्वेदादि-शास्त्र-भूमिका का आरंभ करने लगे, जिसके लिखने में बड़े बड़े पण्डितों की बुद्धि खरक खाकर बड़े परिश्रम से काम दिया करती थी । अर्थात् जिसका लिखना भी कठिन था । ५ ।

अविरलविषयाणां दर्शनाद्यत्र चेतः

प्रसरति निगमानां दर्शने बुद्धिभाजाम् ।

भवति च सकलार्थप्राप्तिराश्रेव भक्ति-

र्जननमरणशून्ये सच्चिदानन्दरूपे ॥६॥

जिस भूमिका में लिखे हुए विषयों के दर्शन से बुद्धिमान् मनुष्यों का चित्त स्वयं वेद की ओर प्रवृत्त होकर उनके अर्थों की प्राप्ति होने पर अज्ञान्ता, अज्ञर, अमर, ईश्वर में शक्तियुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥

अनुभवति स एनां भूमिकां येन मन्ये
गुरुकुलमधिगत्यानेकविद्या व्यलोकि ।
न कथमपि समानव्याकृतिव्यासवेत्ता
विषयनिरतमर्त्यो वीक्षणोस्याः समर्थः ॥७॥

वही पुरुष इस भूमिका का विचार कर सकता है जिसने गुरुकुलों में जाकर बड़े बड़े कष्ट उठाये हो और अनेक विद्याओं का अभ्यास किया हो । छोटे मोटे व्याकरण, न्याय आदि शास्त्रों का जाननेवाला विषयी पुरुष इसको कदापि नहीं देख सकता ॥ ७ ॥

अखिलनिगममन्त्रैर्यत्र देवेन दैवात्
सकलविषयवार्ता मूलभूतां निबध्य ।
व्यरचि निखिलविश्वेनातपः संश्रिताना-
मतुलसुखनिदानं वेदवृत्तस्य नीचैः ॥८॥

जिसमें ऋषि ने चारों वेदों के मन्त्रों द्वारा मूल भूत समस्त बातों को दिखाकर श्रवण से तपे हुए मनुष्यों के लिये पूर्ण सुखों की देनेवाली वेद वृत्त की छाया समस्त भारतवर्ष में फैला दी ॥ ८ ॥

तिमिरगतजनानां दीपिका दर्शयित्री
निरयगतनराणां वारिका बोधयित्री ।
कुमतिमनुगतानां वर्तिका खण्डयित्री
व्यरचि सुमतिभाजां मोदिका भूमिकेयम् ॥९॥

यह भूमिका अन्धकार में आनेवाले मनुष्यों के लिये प्रकाश देनेवाली कर-दीपिका, नरक में आनेवाले मनुष्यों के लिये हटानेवाली परिखा, कुमति के पीछे आनेवाले जनों को पछाड़ने वाली तलवार की धार, सुमति के पीछे चलनेवाले मद्र पुरुषों के लिये आनन्द देनेवाली है ॥ ९ ॥

अपगततिमिराणां परिडितानां मुखश्री-

विधिविहितमतीनां सज्जनानां कुलश्रीः ।

नवनवयुवकानां बोधनार्था दिनश्री-

रियमियमनुष्टुप्त्वा सर्वदा भारतश्रीः ॥१०॥

यह भूमिका निर्मल चित्तवालों के लिए मुख की शोभा, वैदिक-धर्म-वालों के लिए कुल की शोभा और अविद्या-रात्रिमें सोये हुए लोगों के लिए दिन की श्री है। यह भारत वर्ष के समस्त पुरुषों के ग्रहण करने योग्य है ॥ १० ॥

किमिदमपि मयैवाभाष्यमस्यान्न कश्चि-

न्निगमविषयमिन्नो वर्णितः सर्वथैव ।

विलसनपटुविद्वन्मानसोद्यत्प्रकाशे

सकलमपि निसर्गाद्दृश्यते बुध्यते च ॥११॥

यह भी क्या मुझे ही कहना पड़ेगा कि इस में वेद-विद्वद् कोई विषय कश्चि ने नहीं लिखा ? यह तो बुद्धिमानों के अंतःकरण में स्वयं प्रतीत हो सकता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ॥११॥

परमिदमपि लोके दृश्यते दीपकानां

भवति किल तमिस्रं मूलदेशे निसर्गात् ।

परहितकरणार्थे वत्तचित्ता महेच्छा

नहि निजविधुराणि चालयन्तीति हेतोः ॥१२॥

परन्तु दीपक के नीचे बेंबेरा, यह दृष्टान्त लोक में प्रसिद्ध है। इस का कारण यह है कि परोपकार में इच्छित पुरुष अपने दीपों को अन्धमा के समान नहीं देका करते ॥१२॥

इति मनसि विचार्य प्रायशो वच्मि काँश्चि-

न्निखिलजनसमृद्ध्यैतद्गतान् रत्नभेदान् ।

नियमितमनसा यान्वीक्ष्य सिद्धाञ्जनाभा-
नधिगतपरमार्थाः सर्वलोका भवेयुः ॥१३॥

ऐसा विचार कर समस्त पुरुषों के लामार्थ उस के कुछ विषय प्रकाशित करता हूँ जिससे समस्त जन उन को देख कर अपने जन्म की सफलता अनायास प्राप्त करें ॥१३॥

निगमविधिविचारः पूर्वमेवास्ति तस्यां
परतरमथ यानाद्यङ्गनिर्माणमार्गः ।
जलगमनसमीक्षा विद्युदाकर्षणान्ता
गणितविधिरथान्ते वेदभाष्यप्रकारः ॥१४॥

उसमें पहले ही वेदोत्पत्ति विषय है, फिर शिल्प-विद्या का विषय है, तदनन्तर जलयान, बिजली का खींचना, गणित आदि करना और अन्त में वेद-भाष्य करने का प्रकार है ॥ १४ ॥

तदपरमिह लोके वस्तुजातं न मन्ये
यदतिमधुरवाचा वर्णितं नात्र हर्षात् ।
इति मनसि विचिन्त्यालोक्यतां भूमिकेयं
परतरमिह किं किं वर्णयाम्यल्पसिद्धिः ॥१५॥

संसार में वह कौन पदार्थ है जो ऋषि ने इसमें न बतलाया हो ? यह जानकर इस ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका को समस्त जन देखें ॥ १५ ॥

इति परमदयालोरीश्वरस्य प्रभावै-
रवसितिमथ नीत्वा भूमिकां शीघ्रमेव ।
परमकरुणचेताः सत्यमार्गप्रकाशं
रचयितुमवतस्थे श्रीदयानन्ददेवः ॥१६॥

इस प्रकार ईश्वर की कृपा से भूमिका को शीघ्र ही पूर्ण कर स्वामीजी फिर " सत्यार्थप्रकाश " के बनाने में प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥

विरचितमिव यस्मिन्वेदसिद्धान्तसारं
 सकलविषयभूतं सूत्रवत्कोविदेन ।
 विलसति विबुधानां मानसेष्वथ मन्ये
 मुनिजनहृदयान्तर्धामयद्बद्धरेणयम् ॥१७॥

जिसमें महर्षिं रचित सूत्ररूप से घरा हुआ सकलार्थप्रद वेदों का सार
 आज पण्डितों के चित्त में इस प्रकार वर्तमान है कि जिस प्रकार मुनीश्वरों के
 चित्त में परमेश्वर का रूप वर्त रहा हो ॥ १७ ॥

कथमलमतिमानं थापयेयन्तमेतं
 लघु लघुनिजबुद्ध्या यत्र योगेश्वरेण ।
 भुवनमितविभागैः पूर्वपश्चार्धरीत्या
 प्रतिभुवनमनन्तो दर्शितो वेदमार्गः ॥१८॥

मैं अपनी मन्दबुद्धि से उच्च ग्रन्थ की किस प्रकार प्रशंसा कर सकता हूँ
 कि जिसमें ऋषि ने पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के चौदह समुच्छास बनाकर
 चौदह भुवनों में वेद-मार्ग प्रकाशित कर दिया ॥ १८ ॥

निगमकुसुमजातात्सारभागांशवेत्ता
 मधुपइव महर्षिः प्रायशो वेदवृक्षम् ।
 कठिनमखिलशाखं यत्नतो व्याप्नुवानः
 कथमपि मधुकल्पं ग्रन्थमेनं चकार ॥१९॥

अमर के समान सार लेने वाले ऋषि ने ग्यारह ही सत्सईस शाखावाले
 वेद-वृक्ष को अत्यन्त परिश्रम से सर्वतः व्याप्त कर मन्म-रूपी पुष्पों से सार
 लेकर यह मधुरूपी ग्रन्थ बनाया ॥ १९ ॥

ऋषिमुनिकृतवाचां हंसतुल्यः स योगी
 जलमयबहुभागं दूरमुत्सार्य हर्षात् ।
 कथमपि निजबुद्ध्या सङ्गमादुद्धरन्सन्
 पयइव मधुधारं पाययामास देवान् ॥२०॥

उस हंसरूप महर्षि ने दुग्ध रूप ऋषियों की वाणी में मनुष्यों की चाणो-
रूप मिळे हुए जल को अपनी विवेक बुद्धि से अलग कर दिया। वे भीठा
भीठा दूध आर्यपुरुषों को पिछा गये ॥ २० ॥

अहह परतरं किं दर्शनाद्यस्य भीताः

कथमपि न समत्ते मानवाः स्थातुमीशाः ।

निखिलभुवनदीपे भास्करे दीप्यमाने

परिषदि बहुयत्नैरप्यलं ते दिवान्धाः ॥२१॥

जिस तरह समस्त लोक में प्रकाशमान सूर्य के प्रकाशित होने पर
दिवान्ध (उल्लू) पक्षी प्रकाश में नहीं आते, इसी तरह जिस समा में
स्वामीजी का यह सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ विद्यमान रहता है वहाँ इतर
धर्मावलम्बी जन ठहर भी नहीं सकते, कुछ कहने की तो बात ही
अलग है ॥ २१ ॥

कतिपयदिनलब्धां गाढनिद्रां प्रमादान्

मनुजकमलसङ्घे सङ्गतामेष दीपः ।

सततविलयमार्गं प्रापयँल्लोकमध्ये

दिनमणिरिव हर्षाद्राजते देवजातः ॥२२॥

कुछ दिनों से मनुष्यों में प्रमाद द्वारा आई हुई ऋषियारूप गाढ़ रात्रि
को सर्वथा हटाकर यह ग्रन्थ संसार में सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा
है ॥ २२ ॥

किमयमुत स किंवा तत्परो न्याय्यमार्गः

परतरमपि वेत्थं मानवानीहमानान् ।

विगलितनिजमार्गान्मार्गमध्ये नियन्तुं

ममतु मतपथेयं रत्नदीपो विभाति ॥२३॥

हमारा चलने का मार्ग यह है या वह ? अथवा उससे भी कोई अन्य
है इस प्रकार अपने मार्ग को भूले हुए मनुष्यों के लिए यह ग्रन्थ वैदिक
मार्ग में चलाने के लिए मेरी अनुमति में तो रत्नदीप का प्रतीक हो
रहा है ॥ २३ ॥

अनुचितविषयोत्थाविव्यया मुद्रिताङ्गान्
 निगमभुवनदीपज्वालयोच्चैः स्वरेण ।
 निजनिजशुभकर्मण्यादरात्सन्नियोज्या-
 नुकरणमिव धत्ते रात्रिपान्थस्य सैषः ॥२४॥

नामा मतरूपी अन्वकारों में लोभे हुए मनुष्यों को वेदरूपी छाकटैन
 दिखाता हुआ ऊँची आवाजों से जगाकर अपने कर्मों में चेतन कर यह
 ग्रन्थ चौकीदार के समान आज्ञा जगत् में प्रतीत हो रहा है ॥ २४ ॥

पठति किल य एनं ग्रन्थमाद्यन्तभागं
 सकलमतसमूहाञ्जालबुद्ध्या विमुच्य ।
 जगति स परमार्थप्रार्थनाच्चाटुकारः
 शरणांमिव समेति प्रायशो देवदेवम् ॥२५॥

जो पुरुष इस ग्रन्थ को एकबार साधन्त पढ़ता है वह समस्त आक-
 रूपी मतों को छोड़, ईश्वर में ध्यान लगाता हुआ जगत् में ओ३म् के मन्त्रों के
 नीचे आकर ईश्वर से रक्षा पाता है ॥ २५ ॥

दिनविकसनभागे सृग्यंतारागणौघो-
 निजरुचिपरिवेषैर्यामिनीशेषवेषम् ।
 विदधदुदयभावं मानवानां मनःसु
 प्रजनयति समन्तादेष सूर्यस्य सत्यम् ॥२६॥

स्वामीजी का यह सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ प्रमातसमय के समान है जिस
 तरह अक्षयतारागणबाहा प्रमात समय सूर्योदय से पहले अपने प्रकाश से
 रात्रि को हटा कर लोगों को सूर्योदय का समाचार सुनाता है इसी तरह
 यह ग्रन्थ भी अपनी शक्ति से अधिष्ठा-रात्रि को दूर कर लोगों को, वैदिकसूर्य
 के उदयहोने की सूचना देता है ॥ २६ ॥

विलसति किल यस्मिन्भागयुग्मेपि धर्मा-
 चरणकरणवाक्यं धर्मशास्त्रोपदिष्टम् ।
 इतरमतपथानां खण्डनाय प्रदिष्टं
 सहृदयहृदयेन स्वामिना सज्जनेन ॥२७॥

इस ग्रन्थ के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इन दो बड़े बड़े भागों में महर्षि ने ग्रन्थ मतों का खण्डन तथा वैदिक धर्म का मण्डन करने के लिए वेदानुसूक्त धर्मशास्त्रों के श्रवणों का प्रच्छा संग्रह किया है ॥ २७ ॥

अतिमधुरिमवृत्तो ग्रन्थ एषः समेयात्
 कथमपि पुरुषं तं सास्यभावेन शङ्के ।
 निजलघुकरशाखासूचनैः सूर्यलोकं
 शयितमनुजदृष्ट्या योजयेन्निर्दिशन्त्यः ॥२८॥

अत्यन्त सुन्दर विषयवाला यह सत्यार्थप्रकाश किसी प्रकार उस पुरुष के समान बन सकता है जो सोते हुए पुरुषों को एक हाथ से सूर्य की रोशनी दिखलाता हो ॥ २८ ॥

इतरकरबलेनालम्बनं दातुमग्ने-
 कृतनिजकरशाखाकृष्टतद्गात्रमङ्गम् ।
 विदधदखिलयत्नैर्जायतानां नराणा-
 मतिमहदुपकारे योजयेद्यः स्वदेहम् ॥२९॥

और दूसरे हाथ से उनको जगाने के लिए भटका देकर उनके उपकार में अपना शरीर भी अर्पण करता हो ॥ २९ ॥

कथमपि स समेयाद्वैद्यराजोस्य सास्यं
 निजकरयुगले यो वस्तुनी द्वे विदध्यात् ।
 प्रथमकरतले तन्नेषजं भेषजाना-
 मितरकरतले तत्पथ्यमारोग्यमूलम् ॥३०॥

इस ग्रन्थ की बराबरी किसी ग्रंथ में वह वैद्यराज कर सकता है जो अपने दोनों हाथों में एक एक चीज़ छिपे रहे। एक में रोगी के छिपे औषध और दूसरे में पथ्य का कटोरा। इस ग्रन्थ के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसीही समझने चाहिएँ ॥ ३० ॥

इति कृतवहुमान्ये अथरत्ने यदारात्
परमपुरुषवर्यैर्गुप्तरीत्या निवद्धम् ।
तदखिलमधुनाहं विस्तराविस्तरेण
प्रकथयितुमनल्पं साहसं कर्तुमीहे ॥३१॥

इस प्रकार उस प्रशंसनीय ग्रन्थ में महर्षि ने जो विषय गुप्तरिति से वर्णन किया है उसको संक्षेप से वर्णन करने के छिपे में अपना साहस प्रकट करता हूँ ॥ ३१ ॥

विहितमतिशयेन स्वामिनाद्ये विभागे
परमपुरुषनाम्नां वर्णनं विस्तरेण ।
यदुदितवचनानां पालने दत्तमारा-
द्रपुरपि किल तेन प्रीतिमासेन हर्षात् ॥३२॥

उस पहले समुच्छास में ऋषि ने परमेश्वर के सौ नामों का वर्णन किया है जिसके वेद रूप निर्देश के पाठन में उन्होंने अपना शरीर भी अर्पण कर दिया था ॥ ३२ ॥

अतिशयरमणीया पुत्रकायां द्वितीये
कथमिह करणीया बाल्यभावे सुरक्षा ।
निगदितमितिवृत्तं योगिराजेन वैवा-
दवसितिसमये सा शिक्षया बालकानाम् ॥३३॥

दूसरे में बतलाया है कि जन्मकाल में बालकों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए ? उनका वर्तव्य कैसा रचना चाहिए और उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए ॥ ३३ ॥

ऋषिमुनिरचितानां पुस्तकानामभिख्या
यमनियमसमेता ब्रह्मचर्यव्यवस्था ।

गुरुकुलगतभव्यामव्यदीक्षासमीक्षा
निखिलपठनरीतिर्बालकानां तृतीये ॥३४॥

तीसरे में ऋषि-मुनि-प्रणीत पुस्तकों के नाम तथा यम नियम समेत ब्रह्मचर्य की व्यवस्था और गुरुकुल में जाकर आचार विचार का वर्तव्य करना और ब्रह्मचारियों की छिछने पढ़ने की प्रक्रिया यथायोग्य वर्णन की है ॥ ३४ ॥

परिणयविधिरस्मिन् ब्रह्मचर्यान्तभागे
निजगृहविगतानां पुत्रिकापुत्रकाणाम् ।
व्यरधि विबुधवर्यैः कर्मदीक्षासमेतो-
गृहविधिरपि पश्चादवमुतोस्मिँश्चतुर्थे ॥३५॥

चौथे में ब्रह्मचर्य के अनन्तर गुरुकुल से घर जाने के बाद कन्याओं की तथा पुत्रों की विवाह की रीति वर्णन की है और गृहस्थाश्रम में जाकर किस प्रकार कर्मों को करना चाहिए यह बात भी स्पष्ट दिखला दी है ॥३५॥

प्रकरणवशतोस्मिन्वासरीतिः समुक्ता
गृहसुतसमुदायन्यस्तभारा वनेषु ।
विधिजनिखिलकर्मन्यासदीक्षा परस्ता-
च्छतगणितविभागेर्देहिनां पंचमेपि ॥३६॥

पाँचवें में प्रकरणवश अपने पुत्रों के ऊपर घर का भार छोड़ वन में जा वानप्रस्थाश्रम का पालन तथा अपनी आयु का चौथा भाग, संन्यासाश्रम को प्रारम्भ कर, देशोपकार में लगाने का वर्णन किया गया है ॥ ३६ ॥

विलसति किल षष्ठे यद्विभागे नितान्तं
नयविलसनरीतिर्दण्डनीतिश्च राज्ञाम् ।

सरलविरलदुर्गादुर्गभूभागरीत्या

करनियमसमीक्षा मानवानां विचारात् ॥३७॥

छठे में राजनीति और दण्डनीति का वर्णन तथा सम विषय विभाग से पृथिवी का कर देना और उसका भी प्राण्यदिकों में विवेचन करना आपने स्पष्ट बतलाया है ॥ ३७ ॥

निगमविषयरीतिः सप्तमे सम्प्रयुक्ता

प्रकृतिविकृतिभेदाभेदवैशिष्ट्यरम्या ।

गुणविभजनसङ्गासङ्गवैकल्प्यलीला-

विलसितिरिति घृत्तैराघृता लोकभाजासू ॥३८॥

सातवें में प्रकृतिविकृतिभावशून्य, भेदाभेदवैशिष्ट्य सुन्दर वैदिक विषय की रीति तथा सांसारिक पदार्थों के वर्णन से पूर्ण गुण-विभाग से शून्य वेदप्रतिपाद्य ईश्वरोपासना का विषय भी पूर्ण रूप से वर्णन किया है ॥ ३८ ॥

किमपरमतिसूक्ष्मा वेदमन्त्रनिबद्धा

जगदुदयविनाशस्थापना चाष्टमेपि ।

कलितसकलशक्तेरीश्वरस्यानुमत्या

जगदुपकरणं यत्सर्वमेवास्ति बद्धम् ॥३९॥

आठवें में अत्यन्त सूक्ष्म संसार का उत्पत्ति-स्थिति-विनाश-क्रम, यथा-थान्य वैदिक मन्त्रों से स्पष्ट कर दिया और परमेश्वर के इच्छानुकूल जो जो सांसारिक व्यवहार हैं उन सबका भी वर्णन कर दिया है ॥ ३९ ॥

उपनिषदुपगम्या बन्धमोक्षव्यवस्था

विलसति नवमेपि प्रायशो न्यस्तवेशा ।

अनुभवति यदन्ते विद्ययाविद्ययाथ

प्रलयविलयभावं विश्वलोकः सुखेन ॥४०॥

नववें में बहुत करके उपनिषदों द्वारा जानने योग्य बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था वर्णित की है कि जिसके अन्त में यह मनुष्य एक प्रलयरूप में आकर आनन्द में मग्न रहा करता है ॥ ४० ॥

असमयमृतिहेतुः कोस्ति लोके नराणां
भवति कथमनल्पं दुःखदारिद्र्यजातम् ।
इति सकलसमीक्षा विस्तरेण प्रदिष्टा
महितदशमखण्डे योगिराजेन नूनम् ॥४१॥

दशम में महर्षिजी ने, संसार में मनुष्यों की मृत्यु का कारण क्या है और क्योंकर बहुत प्रकार के दारिद्र्य आदि प्रतीत होते हैं इस बात की समीक्षा विस्तारपूर्वक की है ॥ ४१ ॥

अखिलमतसमीक्षा मूर्तिपूजानिरीक्षा
जनकगुरुपरीक्षा देवतीर्थप्रतीक्षा ।
तिलकविकृतियुक्तिर्नाममात्रेण मुक्ति-
निगमपदविभागैः खण्डितास्मिन्विभागे ॥४२॥

आरहवें में वैष्णवादि मतों का तथा मूर्तिपूजा का खण्डन, सब्दे माता-पिता की भक्ति करना, देवता और तीर्थों की परीक्षा, तिलक छाप का खण्डन, एवं नाम मात्र से मुक्ति के पाने का खण्डन किया गया है ॥ ४२ ॥

अगमनिगमवाचां नास्तिकैर्या प्रणीता
जगति कुमतिपूर्णेर्बोद्धजैनादिभिः सा ।
निजमतिकृतयुक्त्या खण्डनापीह शक्त्या
विलयपरमभागं प्रापिता देवदेवैः ॥४३॥

आरहवें में जो अपनी बुद्धि के अनुसार जैन, चार्वाक आदि मतानुयायी पुरुषों ने वेदों के ऊपर हस्तक्षेप किया है उसका निवारण कर आपने उन जैनादि कों का ऐसा खण्डन किया कि जिसका लिखना अशक्य है। वह केवल ग्रन्थ के देखने से ही विदित हो सकता है ॥ ४३ ॥

कलिसमयविभागप्राप्तराज्यप्रतिष्ठै-

जैगति बहुविभक्तं यन्मतं ताम्रवक्त्रैः ।

तदपि सकलमेव स्वामिभिर्युक्तिमन्त्रैः

कणश इव समासिं नीतमस्मिन्विभागे ॥४४॥

तेरह्वे में उस ईसाई मत का खण्डन किया है कि जो दूरवेद्य से आये हुए गौराङ्गों ने यहाँ फैलाया है। इसका खण्डन भी स्वामीजी ने बड़ी प्रकाश्य युक्तियों से किया है ॥ ४४ ॥

अथ यवनसमुत्थं यन्मतं लोकमध्ये

सकलमपि जनौघं नाशयिष्यन्प्रवृत्तसू ।

तदपि परमविद्वानेष नानाप्रमाणै-

स्तिलश इव विनाशं प्रापयामास देवः ॥४५॥

सौदह्वे में संसार के भीतर जो मनुष्यों के नाश करनेवाला यवनों ने अपना मत फैलाया था उस की पूर्णरूप से क्षणर डेकर ग्रंथ में अपने वेदा-
नुकूल मतधर्मों को प्रकट कर दिखाया दिया ॥ ४५ ॥

इति सकलगुणानामेकपालं विधाय

प्रथितमतिरपूर्वं ग्रन्थरत्नं स योगी ।

गुरुजनतटलब्धज्ञानजातं स्वचित्ते

सफलमिति विचार्य प्राप हर्षस्य सीमाम् ॥४६॥

इस प्रकार संपूर्ण गुणों का एक आधारभूत, अति मनोहर ग्रंथ को पूर्ण कर, गुरुओं की सेवा से मिली हुई अपनीविद्या को सफल मान आनन्द की परम सीमा को प्राप्त हो गये ॥ ४६ ॥

प्रशमितबहुभारः प्रत्तदस्थुप्रहारः

प्रकटितबहुसारो धीमतां चाटुकारः ।

अधरितमतभारः प्राप्तविद्याब्धिपारः

सकलनिगमचारः सर्वविद्यावतारः ॥४७॥

भार को शान्त करने वाले, दृष्टियों पर प्रहार करने वाले, सार बार्ता के प्रकाशक, सदा स्वतन्त्र रहनेवाले, विद्यासागर के पार पहुँचने-वाले, समस्त वेदों के जाननेवाले और समस्त विद्यार्थों के भवतार (स्वामीजी महाराज) ॥ ४७ ॥

पुनरपि मधुगीर्भिवेदभाष्यं चिकीर्षुः

करुणारसपदाङ्गैर्वेदमन्त्रैः परेशम् ।

अजमजरमनन्तं निर्विकारं दयालुं

प्रमुदितमनसाक्तः प्रार्थयामास देवः ॥४८॥

वेदभाष्य निर्माण करने की इच्छा से करुणारस-पूर्ण वेदमन्त्रों से परेश, अजन्मा, अजर, अनन्त, निर्विकार, दयालु परमात्मा की स्तुति करने लगे कि—॥ ४८ ॥

जय जय जय विष्णो ! देहि मे शक्तिमुद्रां

निरवयव ! विधाने वेदभाष्यस्य पूर्णाम् ।

कुरु कुरु कुरु बुद्धिं सर्वथा निर्मलाभा-

मिति बहु परमात्मध्यानमादौ चकार ॥४९॥

हे विष्णो, प्रापका जय हो, जय हो, जय हो । मुझको वेदभाष्य निर्माण करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए । मेरी बुद्धि को निर्मल बनाइए । इस प्रकार स्वामीजी ने पहले परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना की ॥ ४९ ॥

अथ कथमपि चित्ते चिन्तयन्निर्विकारं

स किल यजुपदानामातनोन्नाष्यमुग्रम् ।

पृथगिव विलसन्तो यत्र सर्वेपि मन्त्राः

स्वरभ्रूषिविनियोगालङ्कृतिव्याप्तमन्त्राः ॥५०॥

तदनन्तर निर्विकार परमात्मा का ध्यान करते हुए स्वामीजी महाराज ने यजुर्वेद का भाष्य करना आरम्भ कर दिया । एक एक मन्त्र का अलग अलग भाष्य किया और साथही स्वर, ऋचि, विनियोग और अलङ्कारों का भी वर्णन कर दिया ॥ ५० ॥

यदपि बहुभिरस्मिन्वेदभागे मनुष्यै-
 व्यरचि विवृतिरल्पा सा न भव्या कथञ्चित् ।
 निजनिजमतलेशावेषतो दूषितान्ता
 कृतिरपि किल तेषां वर्तते तासु यस्मात् ॥५१॥

यद्यपि इस वेद की महीघर, सायण आदि पुरुषों ने थोड़ी थोड़ी वृत्ति बनाई है, परन्तु वह सर्वथा देखने योग्य नहीं, क्योंकि उनमें महीघरादि पण्डितों ने अपने अपने मत के अद्रुकूळ बहुत सी बातें वेदों के विपरीत भी लिख दी हैं ॥ ५१ ॥

अनुकरणवशाद्ये कुर्वते भाष्यलेखं
 कुकृतिपटुमनीषास्तस्करास्ते जगत्याम् ।
 न सुखमनुभवन्ति प्रायशः कीर्त्तिजातं
 परवसुहरणानामेष मार्गः प्रशस्तः ॥५२॥

जो पुरुष दूसरे पुस्तक से कुछ बात छुराकर अपना नाम करने के लिये नया पुस्तक बनाते हैं वे चोर कहाने हैं । उनकी कीर्ति कदापि नहीं होती क्योंकि संसार में चोरों की तो मित्वा ही प्रसिद्ध है ॥ ५२ ॥

भूपिसुनिरचितानामत्र तत्तत्पदेषु
 प्रकरणवशतः सा राजते सूत्रभक्तिः ।
 न नयति बहुदूरं या पदार्थं निसर्गा-
 हुधजनकृतभाष्ये सारमेतन्निविष्टम् ॥५३॥

अपि मुनियों के बनाये हुए भाष्यों में प्रकरणवशा उन उन स्थलों में पाणिनि आदि मुनियों के बनाये सूत्रों की वह मर्यादा धोभायमान हो रही है जो स्वभाव से ही पदों के अर्थों को दूर नहीं जाने देती । यही एक बात पण्डितों के भाष्यमें अद्वितीय होती है ॥ ५३ ॥

अखिलकरणयुक्तं भाष्यमेतन्महात्मा
 व्यरचयदतिभक्त्या यत्र दोषावकाशः ।

प्रभवति न कथञ्चिद्भीक्षिते धीरमत्या

पदविभजनमस्मिन्कारणं मूलभूतम् ॥५४॥

महर्षि ने इस भाष्यको अत्यन्त प्रयत्न से समस्त साधनों समेत देखा प्रच्छन्न बनाया है कि जिसके देखने से ही हृदय के सब संशय दूर हो जाते हैं । कारण यह कि इसमें पदों का विभाग बहुत ही प्रच्छन्न किया गया है ॥ ५४ ॥

अधिगतगुरुपादप्रह्वविद्यो मनुष्यः

सकलमपि सुखेनालोकयेद् माष्यमेतत् ।

परमितरविलासानन्दसन्दोहभाजां

न हृदि कथमपीदं यास्यति स्थानमुग्रम् ॥५५॥

वही पुरुष इस भाष्य को बनायास देख सकेगा जिसने गुरु के चरणारविंदों की उपासना कर सांगोपांग विद्या पढ़ी हो । दो चार संस्कृत-पुस्तकों को पढ़कर पण्डित बना हुआ पुरुष पढ़ना तो क्या देख भी नहीं सकता ॥५५॥

निरवयवसमुत्थो ज्ञानरूपः स वेदो-

जगति विभजनात्प्रागेकरूपोवतस्थे ।

विधिनियमविभागात्तस्य चत्वारि मन्ये

कथमपि शकलानि प्रस्फुरन्तीह सम्यक् ॥५६॥

निराकार ईश्वर का ज्ञानरूप वेद सृष्टि से पहले वेद के नाम से ही प्रसिद्ध था, परन्तु सृष्टि के अनन्तर कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान इन चार विषयों में प्रवृत्त होकर चार नामों से प्रसिद्ध होगया ॥ ५६ ॥

विलसति ऋगभिख्ये वेदमध्ये समस्ता

सकलगुणगणानां विस्तृतिलोकभाजाम् ।

विमलकरणभाजां दर्शनादेव यस्याः

प्रभवति हृदि मन्ये देवदेवेनुरागः ॥५७॥

पहले ऋग्वेद में सम्पूर्ण सांसारिक शुद्धों का विस्तार पूर्णरूप से प्रतीत होता है जिस विस्तार के अवलोकन से शुद्धांतरण पुरुषों की परमात्मा में प्रीति उत्पन्न हो जाती है ॥ ५७ ॥

कथमिह करणीयं वैदिकं कर्म लोकैः

प्रभवति च किमस्माद्यज्ञभागात्फलं तत् ।

भवति विधिविधानं कुत्र कैः कैरुपायै-

रिति यजुषि समस्तं दृश्यते कार्यजातम् ॥५८॥

इस संसार में किस प्रकार वैदिक कर्म करना उचित है और उससे क्या फल होता है तथा किन किन साधनों से वह सिद्ध होता है, यह सब विषय पूर्णरूप से यजुर्वेद में विद्यमान है ॥ ५८ ॥

भवति हृदि जनानां सामवेदावलोक-

निरवधिपदसंगज्ञानमज्ञानवैरि ।

यदनुभवनवेत्तानन्दमामोति लोके

जनिसृतिगतचक्रान्मुच्यते चेतरेत्र ॥५९॥

सामवेद के देखने से मनुष्यों के चित्त में अज्ञान का शब्द ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस ज्ञानवाला पुरुष इस लोक में आनन्दों को भोग फिर मुक्त हो सर्वथा सुख में रहा करता है ॥ ५९ ॥

नसति परमविद्याथर्वणो या न लभ्या

क्वचिदपि बुधवर्यैः संशयच्छेदरूपा ।

प्रसरति शतधारं तद्वरेण्यं स्वचित्ते

नयनकमलपात्री सावरं धारयेच्चेत् ॥६०॥

अथर्व वेद में वह अशक्त पदार्थ-विद्या विद्यमान है जो और कहीं भी हृदि-गोचर नहीं होती और जिसके विचारने से अनन्त प्रकाशमय परमात्मा का स्वरूप हृदय में स्वयं प्राविर्भूत हो जाता है और अज्ञान रूपी अन्धकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है ॥ ६० ॥

इति गुणवशतोस्मिन्वेदमार्गे प्रवृत्ते
 जगति परमविज्ञः श्रीदयानन्दयोगी ।
 महदुपकृतिरस्मात्संभविष्यत्यतः किं
 जगति बहुगुणाढ्यं कल्पयामास भाष्यम् ॥६१॥

इस प्रकार गुणों के भेदों से प्रवृत्त हुए वेद में परम विद्वान् दयानन्दजी इसीसे बहुधा लोकोपकार आन सम्पूर्ण गुणों करके युक्त अति सुन्दरभाष्य को बनाने के छिप प्रवृत्त हुए ॥ ६१ ॥

अवसितिमथ नीत्वा वेदभाष्यं पुरस्तात्
 प्रचलितमतिशीघ्रं व्यातनोत्तत्परेपि ।
 ऋगिति निगमभागे पूर्ववद्योगिवर्यः
 सकलकलितशक्तेरीश्वरस्य प्रभावैः ॥६२॥

सर्वशक्तिमान् ईश्वर की कृपा से स्वामीजी अति शीघ्र प्रचलित यजुर्वेद भाष्य को [१८७५] ईसवी में पूर्ण कर उसी प्रकार ऋग्वेद भाष्य को बनाने लगे जिसकी संकलना १०५८९ इतने मन्त्रों की है अर्थात् ७ मण्डल ५ अष्टक ५ अक्षुधाक ३ वर्ग २ मन्त्र तक महर्षिजी ने ऋग्वेद का भाष्य किया ॥ ६२ ॥

ऋगिति निगमभागं व्याददाने मुनीन्द्रे
 हृतविधिलसितानां निर्विशङ्कं प्रचारात् ।
 अहह तदभवद्यत्कर्णशूलायमानं
 विबिखितुमधुना मे लेखनी मौनमाप्ता ॥६३॥

ऋग्वेद के भाष्य बनाने के समय दैववश से कर्णशूल के समान वृत्त होगये जिसके यहाँ पर वर्णन से लेखनी रुकती है और जिह्वा बन्द होती है यह शोक २० बीसवें सर्ग में वर्णन किया जायगा ॥ ६३ ॥

इतिकृतनिजभाष्याद्वेदरूपं समुद्रं
 सुतरमनुविचार्य प्रायशः सज्जनेशः ।

तदनुगमकृतेपि प्रोन्नतं ग्रन्थमेकं

रचयितुमवतस्थे मङ्गलारम्भचित्तः ॥६४॥

इस प्रकार अपने बनाये हुए भाष्य से वेदरूप समुद्र को दुगम जानकर स्वामीजी भाष्य के देखने योग्य बोध करनेवाले एक अद्वितीय ग्रन्थ को बनाने के लिए उद्यत हुए ॥ ६४ ॥

श्रवणमननरीत्या वेदवेदाङ्गमध्ये

प्रविशति मतियुक्तो मानवो यस्य तूर्यम् ।

अतिलघुरसनोद्यच्छूलोकपुण्यैः स्तुमस्तं

कथमिव कथयन्तु श्रीमतामेव मान्याः ॥६५॥

जिस ग्रन्थ के श्रवणमात्र से ही मनुष्य समस्त वेद-वेदांगों में प्रवीण हो जाता है उस ग्रन्थ को छोटी वाणी से किस प्रकार प्रतिष्ठा पद्यों को पढुचार्यो, ज्ञान आय ही कहिय ॥ ६५ ॥

वररुचिरसनोत्था वार्तिकाली विशाखा

विरचयति नितान्तं यत्र शोभामनल्पाम् ।

मुनिपदगतदाक्षीपुत्रसूत्रानुविद्धा

स कथमखिलयोगाक्ष प्रकुर्यादधस्तात् ॥६६॥

जिस ग्रन्थ में ब्राह्मण पार्थिव-मुनि-प्रणीत सूत्रों के अनुसार वररुचि के बनाये हुए वार्तिक अत्यन्त शोभा दे रहे हों वह समस्त कौमुद्यादि ग्रन्थों को किस प्रकार नीचा न दिखावे ॥६६॥

प्रकरणवशतोस्मिन्धातुपाठः स्वरूपै-

र्विलसति गणपाठः कोषदीक्षासमेतः ।

समसनपरिभाषासन्धिशिक्षाविभागो-

द्विगुणयति यदीयां विस्तृतिं मूलभूतः ॥६७॥

जिस ग्रन्थ में प्रकरणावश अपने अपने रूपों से युक्त धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ रखे गये और जिस ग्रन्थ की शोभा को मूलमूल समाप्त, परिभाषा, संधि, शिक्षादि प्रकरण अद्वितीयता से बढ़ा रहे हैं ॥ ६७ ॥

नवकुसुममयीनामञ्जलीनां सहस्रं
परिचरणविधाने यस्य विद्वज्जनानाम् ।
पतति स यदकार्षीद् व्याकृतेर्भाष्यमुग्रं
तदपि लसति वेगादत्र विद्यावतारः ॥६८॥

जिन की धाराधना सहस्रों विद्वान् प्रतिदिन किया करते हैं वह पतञ्जलि जिस व्याकरण महामाष्य को बना गये वह भी इस वेदांग प्रकाश में प्रकरणा-नुसार विद्यमान है ॥ ६८ ॥

अवसितिगतभागे सोपि नैघण्टुकोर्थः
प्रसरति किल यस्मिन्यास्कदेवप्रदिष्टः ।
यदधिगमवशेन ध्वस्तशब्दान्धकारा
जगति सकलमेव प्राप्नुयुः शब्दजातम् ॥६९॥

ग्रन्थ में शास्त्राचार्य का बनाया हुआ निघण्टु भी इस में विशेष करके शोभायमान हो रहा है, जिस के बोध से संशयहीन विद्वान् समस्त विषयों को प्राप्त कर सकते हैं ॥ ६९ ॥

इति निखिलपदानां बोधिकां देवराजो-
निवसितिमिव कृत्वा पेटिकामादरेण ।
इतरविरचनेषु स्वागतानां प्रशस्तिं
प्रकटयितुमिवाधान्मानसे हर्षजातम् ॥७०॥

इस प्रकार समस्त ग्रन्थों के बतलानेवाली इस वेदांग प्रकाशरूपी पिटारी को अग्रिम बनाकर और ग्रन्थों के बनाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना में दृष्टविष्ट हो ध्यान करने लगे ॥ ७० ॥

अथ मुनिरचितानामष्टकान्तर्गतानां
 सरलविवृतिमेषः कर्तुमैच्छद्यदेव ।
 अभवदतिनृशंसन् तावदेवात्र यस्मिन्
 न चलति मम जिह्वा वर्णनीये किमन्यत् ॥७१॥

वेदांगप्रकाश के अनन्तर जब महर्षि पाणिनीय सूत्रों के ऊपर वृत्ति बनाना चाहते थे तब एक पेशी चुबटना हुई कि जिस का वर्णन उन्नीसवें सर्ग में किया गया है ॥ ७१ ॥

अतिथिजनसपर्या देवयज्ञादिचर्या
 हवनविधिनियुक्तिस्तर्पणादिप्रयुक्तिः ।
 जगदिदमभिवीक्ष्याचारहीनं बुधेन
 व्यरचि निजनिबन्धे सर्वलोकेक्षणाय ॥७२॥

फिर इस जगत् को आचार-विचारों से शून्य देव कर समस्त भारतवर्ष के उपकार के लिए आपने "पंचमहायज्ञविधि" पुस्तक बनाया जिस में सांगो-पांग अतिथि-पूजन, देवपूजन, हवन, तर्पण, चर्चन किये गये हैं ॥ ७२ ॥

इति जगदुदितानां नित्यशिञ्जाविधीनां
 कलनमनुविधाय प्रबनैमित्तिकानासु ।
 विषयमपि जगत्यामादरेण प्रवृत्तं
 व्यकथयदयमाराद्रक्षितुं ग्रन्थमेकसु ॥७३॥

पूर्वोक्त रीति से महर्षि संसार के हित के लिए नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से युक्त भारत वर्ष को सुमार्ग में चलाने के लिए "संस्कारविधि" नामक एक ग्रन्थ बनाने लगे ॥ ७३ ॥

अभिहितमिव यस्मिँल्लभ्यते कार्यजातं
 सकलमपि सुधीभिः केनचित्कोविदेन ।
 भवनगतधरिस्त्रीन्यस्ततातादिभाण्ड-
 प्रगतधनमिवात्तं कास्य पश्चात्प्रशस्तिः ॥७४॥

जिस में पहलेही से किसी पण्डित का घरा हुआ सा समस्त विषय विद्वानों को ऐसा मिळ जाता है जैसे पूर्व पुरुषों का रक्खा हुआ द्रव्य-पूर्ण कलश घर में मिळ जाता है । इस से अधिक और क्या प्रशंसा करें ॥ ७४ ॥

ऋतुसमयविधानान् नूनमारभ्य मन्ये

सकलमपि यथावद्भस्मयावत्प्रदिष्टम् ।

परमविषयविज्ञैर्यत्र योगीन्द्रवर्यैः

किमपरमिह वाच्यं नास्ति साम्येस्य बन्धः ॥७५॥

जिस में महर्षिजी ने गर्माधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार पर्यन्त समस्त वेदोक्त संस्कार पूर्णरूप से वर्णन किये हैं । और कोई ग्रन्थ इस की समता नहीं कर सकता ॥ ७५ ॥

सदृशमिव तदेतन्नामधेयस्य मन्ये

यदतिकरुणभावाग्निर्मितं ग्रन्थरत्नम् ।

विलसति किल यस्मिन्वेदमन्त्रप्रमाणैः

सकलजनुमृतामारक्षणं किं परस्तात् ॥७६॥

यह तो एक महर्षिजी की करुणा ही थी जो "गोकर्णानिधि" नामक एक ग्रन्थ उन्होंने बनाया जिसमें कि स्पष्ट रीति से वेदों के मन्त्रों से अहिंसा को ही पूर्ण रूप से वर्णित है ॥ ७६ ॥

विधिविहितमहिंसावाक्यमेकत्र कृत्वा

पशुबलिजनितन्तन्मारणं नेति नेति ।

प्रतिविशति मुनौ यल्लोकमध्ये समन्ता-

दभवदिति समस्तं तस्य मन्ये चरितम् ॥७७॥

इस ग्रन्थ में आपने समस्त वेदों के मन्त्रों को इकट्ठा कर जो मांसमखी हिंसकों ने यज्ञादि कर्मों में गोहिंसा का विधान बतलाया था उसका ऐसा कण्ठन किया कि जिसका प्रभाव भारतवर्ष में पूर्णरूप से हृदि-गोचर हो रहा है ॥ ७७ ॥

मिलति किल न हिंसा वेदमन्त्रेषु लोके

पुनरपि गतधीभिः कार्यते या मनुष्यैः ।

निजवचननिवेशाद्धर्मशास्त्रादिमध्ये

कथमपि तत एषा लोकमध्ये न शस्ता ॥७८॥

वेदों में कहीं हिंसा का विधान नहीं है और जो मन्वादि धर्मशास्त्रों में पाया जाता है वह केवल कुसरे लोगों ने अपनी इच्छा से उसमें मिला दिया है और इसी छिप वह ठीक नहीं है ॥ ७८ ॥

प्रदिशति यदि हिंसां वेद एवाश्रमेधे

कथयति कथमेतां वारणावाक्यदीक्षां ।

शतपथविनिविष्टामध्वरेतिप्रशस्तिं

तदनुमतमिदं मे नास्ति वेदेषु घातः ॥७९॥

जो वेद ही हिंसा का विधान करता तो वेद में ही हिंसा का निषेध क्यों पाया जाता और ब्राह्मणों में यह का नाम क्यों अश्वर होता ? इसछिप मालूम होता है कि वेदों में हिंसा का विधान नहीं है ॥ ७९ ॥

इति बहुविधवादावेष्टितं ग्रन्थमेकं

सपदि विरचयित्वा योगिराजः प्रसन्नः ।

निगदितुमिव चक्रे रत्नमास्तां मनः स्वं

गत इव परमात्मध्यानमार्गं निसर्गात् ॥८०॥

इस प्रकार शंकासमाधानपूर्वक इस पुस्तक को बनाकर “आर्योद्देश्य-रत्नमाला” बनाने के छिप अब तक आप उद्यत हुए तभी तक योगाम्बास का समय आगया, सूर्य भी चलते चलते देशांतर को प्राप्त हो गया ॥ ८० ॥

शतमितनवरत्नैर्गुम्फितामुज्ज्वलाङ्गीं

स्रजमिव गलदेशं प्रापयिष्यत्यर्लं यः ।

स सलिलनिधिकाञ्चीभूषितायां धरित्र्यां

निजसुरभिविनासं यापयिष्यत्यवश्यम् ॥८१॥

जो पुस्तक सौ रत्नों से गुम्फित इस “आर्योद्देश्यरत्नमाला” को माला के समान कण्ठ में धारण करेगा वह इस अगत् में अवश्य ही अपनी कीर्ति फैलावेगा ॥ ८१ ॥

जननमरणविद्याप्रार्थनातीर्थनिन्दा-

नरकविलयधर्माधर्मसत्सङ्गजीवैः ।

सगुणविगुणसत्यासत्यवर्णादिरत्नै-

रियमतिललिताङ्गी निर्मिता देवदेवैः ॥८२॥

जन्म, मरण आदि सौ रत्न इसमें देखने योग्य हैं जो कि मेरे बनाये हुए
[आर्य-शिरोभूषण काव्य में] स्पष्ट वर्णित हैं ॥ ८२ ॥

क्रमगतमथ काशीविभ्रमोच्छेदनारख्यं

पदुतरमतिरारात्पुस्तकं तच्चकार ।

भवति हृदि नितान्तं यत्र दृष्टे जनानां

बहुकथनपथैः किं सत्यमेव प्रभावः ॥८३॥

आर्योद्देश्यरत्नमाला के अनन्तर आपने काशी के विद्वानों का सन्देह दूर
करने के लिए एक "भ्रमोच्छेदन" नामक पुस्तक बनाया, जिसके देखने से
स्वयं ही हृदय में प्रभाव उत्पन्न होता है ॥ ८३ ॥

शतनयनदिगन्ते यास्ति तोयाब्धितीरे

बहुधनकलिकाता तत्र योगेश्वरोयम् ।

विविधविबुधबुद्धिभ्रान्तिविध्वंसनाढ्यं

ललितपदनिबन्धं व्यातनोद् ग्रन्थमेकम् ॥८४॥

पूर्व की तपक समुद्र के किनारे जो कलकत्ता राजधानी है वहाँ के
विद्वानों का सन्देह दूर करने के लिए आपने एक "भ्रान्तिनिवारण" नामक पुस्तक
बनाया ॥ ८४ ॥

कथमिह परमात्मप्रार्थनोपासनाद्याः

समयविनिमयेपि प्रायशः कर्तुमर्हाः ।

इति सकलसमीक्षा यत्र मन्ये निबद्धा

तमभिविनयमार्याः सादरं वीक्षयन्तु ॥८५॥

इस संसार में मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर आपने एक "आर्याभिविनय" नामक पुस्तक बनाया ॥ ८५ ॥

जगति विबुधवाणी दर्शनाव्यस्य नूनं
विलसति शिशुकण्ठे कण्ठभूषेव साक्षात् ॥
स किञ्च नवजनानां बोधनाय प्रबोधः
प्ररचितइतिलोका ज्ञातवृत्ता भवन्तु ॥८६॥

जिसके दर्शन मात्रसे बालकों के कण्ठ में संस्कृत-विद्या निवास करती है ऐसा "संस्कृत-वाक्य-प्रबोध" नामक पुस्तक बनाया ॥ ८६ ॥

व्यवहरणंपराणां मानवानां कथं स्या-
जगति बहुपदार्थज्ञानमित्याकलय्य ।
बहुविधबुधवाणीपात्रमेषः प्रचक्रे
व्यवहृतिपदपूर्वं भानुमेकं नवीनम् ॥८७॥

व्यवहारों में मग्न मनुष्यों के लिए पदार्थ ज्ञान किस प्रकार हो, यही सोचकर महर्षिजी ने "व्यवहारमात्र" नामक एक ग्रन्थ बनाया ॥ ८७ ॥

जगति मतपथानां वेदमार्गेतराणां
समुपचितिमनल्पां वीक्ष्य नानाजनेषु ।
प्रबलतरसमाधिष्वस्तमूढोक्तशङ्कुः
समरचयदनन्तं खण्डनं योगिवर्यः ॥८८॥

मनुष्यों में फैली हुई वेदबाह्य प्रवृत्ति को देखकर उसके क्षयन में आपने "वेद-विच्छेद-मत-क्षण्डन" नामक एक अद्वितीय पुस्तक बनाया ॥८८॥

मतमथ विधिश्चून्यं स्वामिनारायणानां
प्रचलितमतिवेगाद् गुर्जरोद्भूतलोके ।
विलयमलमनैषीदेषदेवः प्रमार्यै-
र्यदनुगतमिहास्ते पुस्तकं विश्वमध्ये ॥८९॥

आज कल गुजरात देश में जो वेद-विरुद्ध स्वामिनारायणमत फैल रहा है उसके खण्डन में भी स्वामीजी ने एक पुस्तक बनाया कि जिसका नाम "स्वामिनारायणमतखण्डन" है ॥ ८९ ॥

प्रकृतिविकृतिशून्यैर्ब्रह्माजीवैक्यवादै-

र्जगति किल यदुक्तं शुद्धमद्वैतमेव ।

तदपि कणश एवामेकयद् धूलिमध्ये

प्रखरतरविचारैर्नाशितध्वान्तवादः ॥६०॥

यहाँ शुद्धाद्वैत-वाकियों ने जो अपना मत चला रक्खा है उसके खण्डन में भी आपने एक पुस्तक बनाया कि जिसका नाम "वेदान्ति-ध्वान्त-निधारण" रक्खा ॥ ९० ॥

इतरदिति महात्मा ग्रन्थजातं वितन्वन्

सकलभुवनमध्ये सूर्यवत्सन्दिदीपे ।

निजवचनमयूखध्वस्तलोकान्धकारः

प्रशमितमतवादः श्रीदयानन्ददेवः ॥६१॥

इसी प्रकार आप और भी "सत्य-धर्म-प्रचार" आदि तीन पुस्तकों को बनाकर इस जगत् में सूर्य के समान प्रकाशित हुए । और आपने अपने वचनरूपी किरणों से अज्ञानान्धकार को दूर करके मतवाद को शान्त कर दिया ॥ ९१ ॥

अवसितिमथ नीत्वा पुस्तकानामयत्ना-

द्वसनवितरणाथैर्लेखकान्मोदयित्वा ।

गुरुचरणसरोजद्वन्द्वमाधाय चित्ते

मुदमलमत लोकालोकगीतप्रशस्तिः ॥६२॥

इस प्रकार थोड़ेही परिश्रम से समस्त ग्रन्थों को पूर्ण कर तथा लेखकों को बख्त बन दे गुरु-चरण-कमलों का ध्यान करके आप बड़े प्रसन्न हुए ॥ ९२ ॥

निखिलमतविवादध्वान्तविध्वंसकारी
 क्व मनुजवपुरेषः श्रीदयानन्ददेवः ।
 क्व च निगमपदानां भाष्यनिर्माणमेतत्
 सकलमिदमवर्यं सच्चिदानन्दकृत्यम् ॥६३॥

कहाँ सम्पूर्ण मतो के नाश करनेवाले मनुष्य-शरीर-धारी ऋषि और
 कहीं वेदों का भाष्य बनाना ! यह सब छीका समस्त जगदाधार ईश्वर की
 प्रतीत होती है ॥ ६३ ॥

प्रभवति परमात्मा यस्य मन्ये सहायः
 सकलमपि स लोके साधयत्येव कार्यम् ।
 इति लघु न मनस्यायाति चेत्तर्हि नूनं
 निरवसितसहायो दृश्यतां देव एकः ॥६४॥

संसार में जिस पुरुष का ईश्वर सहायक होता है वह समस्त कार्यों को
 अनायासही समाप्त करता है । इसमें यदि विश्वास न हो तो महर्षि को ही
 देखिए ॥ ६४ ॥

जगति विदितमेतत्पूर्तिमासे विचारे
 विरमति किल लोकः सर्वएव प्रयासात् ।
 परमिदमिह नैवालोक्यते योगिवर्यः
 पुनरपि समभूद्यद्विजये दत्तचित्तः ॥६५॥

संसार में प्रसिद्ध है कि मनुष्य कार्यों के अन्त में कुछ विश्राम
 लिया करते हैं, परन्तु महर्षिजी में यह बात देखने में नहीं आती, क्योंकि
 अभी तो ग्रन्थों को समाप्त किया और अभी द्विविजय में फिर प्रवृत्त
 होगये ॥ ६५ ॥

क्षणमपि नहि नेयः शून्यभावेन लोकै-
 रनुपमगतिचक्रः कालकल्पोपि यद्वात् ।
 इति विदधति ये ये मानसे निश्चयं ते
 कथमपि न भजन्ते दुःखदारिद्र्यजातम् ॥६६॥

संसार में आकर क्षण भर भी यह अमूल्य समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए । जो लोग ऐसा मानते हैं वे कदापि दुःख नहीं उठाते ॥ ९६ ॥

श्रयति फलमवश्यं मानवो विश्वमध्ये

निजविहितगतीनां कर्मणामप्रयत्नात् ।

इति मनसि विचिन्त्य प्रायशः कार्यजातं

विधिगदितमवश्यं कार्यमेवेति सिद्धम् ॥६७॥

अगत् में अपने किये हुए कर्मों का मनुष्य अवश्य ही फल भोगा करता है, इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वेद-विहित कर्मों का ही पूर्ण रूप से आश्रयण करे ॥ ९७ ॥

न भवति किल चित्ते सज्जनानां विचारो-

यदि भवति स हर्षात्पूर्तिमाप्नोति तूर्यम् ।

इति निगदति चित्ते स्वामिना दिग्जये सा

पुनरपि मतिरारात्संप्रदत्तेति बोध्यम् ॥६८॥

पहले तो सज्जनों के मन में कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होता, और यदि होता भी है तो शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है । मन में यही सोच कर महर्षि ने अपनी चित्त-वृत्ति फिर भी दिग्विजय में लगाई ॥ ९८ ॥

इति श्रीमदसिद्धानन्दशर्मकृतौ सतिषके ध्यानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

ग्रन्थनिर्माणवर्षानो नामाष्टमः सर्गः ।



नवमः सर्गः

अथेश्वरासादितजीवनोद्यमो-

महीश्वराभः स दयासरित्पतिः ।

विभिन्नदेशेषु वसन्नकल्पयत्

महोदयं वैदिकधर्मशासनम् ॥१॥

अब ग्रन्थनिर्माण के अनन्तर उनके यज्ञ का वर्णन नाटकरूप से करने के लिए नवम सर्ग प्रारंभ करते हैं । ईश्वर की प्रार्थना करनेवाले कदवा-सागर महर्षि दयानन्द राजा के समान नाना देशों में निवास करते हुए वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे ॥ १ ॥

जयोत्सवे सर्वदिशां समन्ततः

समुत्थिता दिग्विजयप्रशस्तिका ।

पुरः पुरो नास्यपटीयसी ययौ

गुणानुरागिण्यनुरागवर्धना ॥२॥

सम्पूर्ण दिशाओं के जयोत्सव से उठी हुई समस्त प्रयोगों में कुशल गुणानुरागवाली प्रशस्तिकारूप नष्टी आपके आगे आगे चलने लगी ॥ २ ॥

दिशं समुद्दिश्य स यां स्वमानसे

विचारमारादकरोत्पुरो गता ।

विहायसा तामनुगम्य तद्गता

यशोविभूतिर्विभराम्बभूव ताम् ॥३॥

महर्षि जी अपने मन में जिस दिशा को जाने के छिप तैयारी करते थे उसी दिशा में वह आकाश-मार्ग से जा पहले ही से उसको अपने वश में कर लेती थी, वहाँ पहुँच जाती थी ॥ ३ ॥

चतुर्विंशामन्तरमेकचत्वरं

प्रकल्प्य तन्नायकनाटकोत्सवम् ।

प्रकर्तुकामा जनरञ्जनक्रमं

तथाकरोदाप यथा कृतार्थताम् ॥४॥

चारों दिशाओं के मध्यभाग को एक चत्वर समझकर श्रीद्वयानन्द-विजय नाटक करनेवाली वह कीर्तिरूपिणी नटी मनुष्यों के चित्तों को ऐसे अपने वश में करती थी कि वह बहुत ही शीघ्र कृतार्थता को प्राप्त होगई ॥ ४ ॥

समाहृतान्तःकरणा समन्ततः

समानमेवं प्रविधाय साधनम् ।

समानमानेषु मनाङ्गमनस्विनी

मनोविनोदाय मनः समादधत् ॥५॥

समस्त मनुष्यों के चित्तों को अपने वश में करके वह कीर्ति-नटी उनके चित्त को बहलाने के छिप अपने मन में कुछ ऐसा उपाय सोचने लगी जिसका वर्णन आगे होगा ॥ ५ ॥

वितानमाकाशमयं सतारकं

भुवस्तलं सत्वरमाप्य मण्डपम् ।

न सम्ममौ हर्षवशेन नर्तकी

यदीयकीर्तिञ्जिजगज्जयोत्सवे ॥६॥

जिनकी कीर्ति-नर्तकी तीनों कोकों के अयोत्सव में तारागणरूपी पुष्पों से अलङ्कृत आकाशरूपी वितान तना हुआ देव और नीचे की ओर समस्त मूमण्डल को रंगशाळा समझ लुब्धी के मारे अपने शरीर में नहीं समाती थी ॥ ६ ॥

रवीन्दुदीपप्रभया मनोरमं
 दिनक्षपाकाण्डपटोपशोभितम् ।
 यदन्तरङ्गोपगृहं विलोक्यते
 जगत्रयेद्यापि समस्तकोविदैः ॥७॥

जिस नाटक का सूर्यचन्द्ररूपी प्रदीपों द्वारा झुम्बर दिन रात्रि-रूपी
 दो परदे से ढका हुआ अंतरङ्ग का घर आज भी विद्वानों के मन में विस्मय
 को उत्पन्न कर रहा है ॥ ७ ॥

जसन्ति यत्राग्निरविप्रभञ्जनाः
 करे दधाना निगमत्रयीपटान् ।
 गुणवयीनाटकसूत्रताङ्गताः
 प्रधानमृत्या इव सूचनीयताः ॥८॥

जिसमें अस्त्रगुण, रजोगुण, तमोगुणयुक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, और
 सामवेद को हाथों में छिपे हुए अग्नि, वायु, रवि सम्पूर्ण कार्यों को बतलाने
 के छिपे प्रधान पात्र से प्रतीत हो रहे हैं ॥ ८ ॥

जगाम यत्राद्भुतसूत्रधारता-
 मथर्वणः सर्वपदार्थविस्तरे ।
 विनिर्मिता येन समस्तनाटक-
 प्रयोगसंचितिशेषविभ्रमा ॥९॥

जिसने समस्त पदार्थों में अपना अस्त्र जमा रक्खा है ऐसा भीमाद्
 मथर्ववेद उस नाटक में सूत्रधार बन गया । मछा जिस नाटक में सूत्रधार
 मथर्ववेद हो, उसका वर्णन कोई कर सकता है ? ॥ ९ ॥

गतापि यस्मिन्नवनाटकोत्सवे
 षडङ्गवेशादुपनायिकावली ।

विलोक्य मन्ये जनमालयं गतो

निराकृता सूत्रधरेण चत्वरात् ॥१०॥

जिसे नाटक में छा: अर्कों के वेशों से आई हुई उपनायिकाओं की पंक्ति बहुत से मनुष्यों को देखा ललित हो सूत्रधार के कहने से फिर भी अपनी नाट्यशाळा को ही चली गई ॥ १० ॥

विदूषकत्वं प्रगतोपि यद्गतो-

विभूषकत्वं प्रजगाम सत्वरम् ।

महर्षिसंसूचितशास्त्रविस्तरो-

यतः प्रमाणं परतोस्य भाषितम् ॥११॥

जहाँ पर महर्षियों द्वारा बनाया हुआ छा: शास्त्रों का समूह नास्तिकों की युक्तियों से विदूषक पदवी को पहुँच कर भी वेदानुकूल होने से विभूषण पदवी को प्राप्त होगया ॥ ११ ॥

पुराणभावं प्रगतोपि कञ्चुकी

बभूव किं ब्राह्मणपुस्तकोच्चयः ।

इति प्रहासो नु ममापि विद्यते

नितान्तवार्धक्यवशाद्बलं मते ॥१२॥

शतपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों का समूह अत्यन्त प्राचीन होने से पुराण-पदवी को पहुँच कर भी अत्यन्त शिथिलता से न मालूम कञ्चुकी बना या न बना ! यह हँसी हमें भी आती है ॥ १२ ॥

नियामका यत्र विभान्ति मानव-

प्रदिष्टयोगा नियमा यमा अपि ।

निरीक्षकाणामनिमेषदर्शने

रुचिं दधाना बहुलास्य शोमिताः ॥१३॥

जिसमें देखनेवाले पुरुषों के विषय में अत्यन्त उत्कण्ठा बढ़ाने वाले, अत्यन्त सुन्दर, धर्म-शास्त्रों में कहे हुए यम और नियम नाना उपद्रव के दूर करने के लिए नियामक अर्थात् चपरासी रूप से सुशोभित हो रहे हैं ॥ १३ ॥

इति प्रशस्ते नवरङ्गमण्डपे
समागते चापि समस्तमानवे ।

प्रवक्तुकामा पदविक्रमक्रमं
पुरो दिवीपे नमु तथशोनटी ॥१४॥

इस प्रकार नवीन रंगशाळा के बन जाने पर तथा समस्त मनुष्यों के आने के बाद कुछ करने के लिए उद्यत हुई कीर्तिनटी रंगशाळा में सुशोभित हुई ॥ १४ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्ततेत्यरं-
प्रवर्तिते मन्त्रपदे पटागमम् ।
प्रकल्पयामास समीरणास्ततो-
यजुप्रधानं प्रबभूव नाटकम् ॥१५॥

उस नाटक में पहले ही “हिरण्यगर्भः” इस नापी मन्त्र के पढ़ने के बाद सत्त्वगुणप्रधान परदे के बढ़कने पर धायु ने यजुर्वेदप्रधान नाटक प्रारंभ किया ॥ १५ ॥

क्वचिन्निराकारपरेशवर्याना
जनं समस्तं परमात्मदर्शने ।
तथा नियुक्तं प्रचकार सादरं
यथाप तस्यैव परं निदर्शनम् ॥१६॥

उसमें कहीं पर तो निराकार ईश्वर की वर्णना समस्त जनों को इस प्रकार ध्यान में लगी देती थी जिससे साक्षात् ईश्वर का स्वरूप हृदय में प्रादिर्भाव को प्राप्त हो जाता था ॥ १६ ॥

क्वचित्सुवेदीपरिशोभितस्थले
नितान्तधूमायितसभ्यमण्डला ।

बभूव यज्ञस्य परम्परा परा
यया समस्तं जगदेव शोभितम् ॥१७॥

कहाँ पर वेदि के ऊपर चारों ओर से ऐसी यज्ञ-क्रिया प्रारंभ की जिसके धूम से सारा जगत् सुगन्धित हो गया था ॥ १७ ॥

क्वचित्समाधिप्रविधानसाधिका
जनावली नाटितवत्यलं तथा ।
यथा मुनीशानिव नाट्यमण्डले
विलोकयामास महाशयोत्तमान् ॥१८॥

वह नाटक-पात्र-मण्डली कहीं पर उस तपस्वर्या का अनुकरण करने लगी जिसको देखकर समस्त मनुष्यों की मण्डली मुनीश्वरों के समान उन नाटक-पात्रों को देखकर चकित हो गई ॥ १८ ॥

अथान्तरे तत्र विदूषकायितं
प्रकुर्वती शास्त्रपरम्परा परा ।
विशोभयामास विलासचत्वरं
महाशयैरागदितेव सत्वरम् ॥१९॥

कुछ देर के बाद शास्त्रों की वह परम्परा वहाँ आकर ऐसा विदूषक का अनुकरण करके मनुष्यों को हँसाने लगी जिससे कि सब मनुष्य हँसते हँसते प्रसन्न हो दयानन्द में मग्न हो गये ॥ १९ ॥

अलं हसन्ती जनता यदा पुन-
र्विलोकनेच्छामगमत्पुरोगता ।
विमुद्रिता काण्डपटी ततःपरं
बभूव ऋग्वेदसमुत्थनाटकम् ॥२०॥

बहुत देर तक हँसती हँसती वह सम्यमण्डली जब फिर भी देखने की इच्छा प्रकट करने लगी तब पहला परदा बदल गया। कुछ देर के बाद दूसरा परदा बदलने पर ऋग्वेद का नाटक होने लगा ॥ २० ॥

प्रवर्तिते रङ्गपटानुवर्तने
विशेषपात्री परिवर्तनच्छलात् ।
जगाम नेपथ्यगृहं धृतप्रभा
पुनर्विदीपे नवनाटकोत्थितिः ॥२१॥

दूसरे नाटक से पूर्व अपने वेप के बदलने के लिए प्रधान रूप कुछ नाटक-पात्र नेपथ्य को चले गये। वहाँ से रूप बदल कर आतेही दूसरा नाटक प्रारंभ किया ॥ २१ ॥

क्वचिद्विधानं नियमस्य कुर्वती
समस्तशक्तेः परमेश्वरस्य सा ।
जनानलं चित्रितमिच्छिभावतां
निनाय या विस्मयमाप च स्वयम् ॥२२॥

वह नाटक-पात्रों की पंक्ति पहले ही ईश्वर के नियमों का अनुकरण करती हुई न केवल अन्य पुरुषों को ही प्रत्युत अपने आप भी विस्मित होकर चित्र-
लिखित सी होगई ॥ २२ ॥

क्वचिद्वतूनामभिगम्य वर्णना-
मनल्पसन्दर्शितविभ्रमां पुनः ।
विमुक्तसर्वास्तरणामकल्पय-
ञ्जनावलीमादृतनाटकोत्सवासु ॥२३॥

कहीं परमाना ऋतुषों का विषय छोड़कर नाना प्रकार के अपने व्यवहारों को दर्शाती हुई वह लोगों को इस प्रकार समतुष्ट करती थी कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं ॥ २३ ॥

क्षयाप्रभादर्शितनाटकोद्गमे
क्षयाप्रभावा जनवर्यमण्डली ।

क्षणप्रभावां जगतः समुन्नतिं

क्षणप्रभावैरवदत्पुनःपुनः ॥२४॥

वर्षा-ऋतु-प्रधान नाटक के खेळने पर थोड़े प्रभाववाली मनुष्यों की मण्डली संसार की उत्पत्ति को क्षण-भंगुर समझकर उत्सव के नाना प्रकारों से नाटक-पात्रों को धम्यवाद देने लगी ॥ २४ ॥

समागते शान्तिपटे ततः स्वयं

सुबुद्धिसंसर्गभवे जनावली ।

सुबोधभावं प्रजगाम तादृशं

यथाखिलानन्दमवाप सत्वरम् ॥२५॥

वर्षा ऋतु के अनन्तर शरद ऋतु के प्रस्ताव में सुबुद्धि-अन्य शान्ति पट के अकस्मात् आने पर वह मनुष्य-मण्डली उसी सुबोधभाव को प्राप्त होगई कि मानो अखिलानन्द को अपने आपही पहुँचने लगी ॥ २५ ॥

विद्याय मृत्युं किल विद्यया यदा

समस्तपाली विभराम्बभूव सा ।

विशोकभावं तमवेक्ष्य तद्गता

महाशयाली मुमुवे हवन्तरे ॥२६॥

जब मृत्यु को छोड़ विद्या के द्वारा वह नाटक-पात्री अमर पक्षी का हृदय विश्रुताने लगी तब समस्त विद्वन्मण्डली प्रति विश्रुत हो उसी आनन्द में आप भी विश्रुत हो गई ॥ २६ ॥

पटप्रयोगं प्रविधाय तत्परं

यदा नवीनद्युतिविभ्रमोत्सुका ।

बभूव पाली न बभूव किं तदा

सुनेत्रपात्री मनुजेषु हर्षिता ॥२७॥

उसके बाद परदा गिरने पर वह नाटकपात्री जब नवीन वेषधारण करके रूपान्तर विश्रुताने लगी तब क्या मनुष्यों की नयन-शक्ति प्रसन्न न हुई ? अवश्य हुई ॥ २७ ॥

यदाभवद्दृष्टवधोद्यमे रता
 सृषैव पाली धृतमेघविभ्रमा ।
 तदा जनस्तत्र वभूव को ययौ
 न वीरभावं किञ्च यः समुद्धतः ॥२८॥

परया गिरने के बाद मेघ का रूप धारण करनेवाली वह नाटकपात्री
 जब दृष्ट के बध में तत्पर होरही थी तब कौन सा ऐसा पुरुष था जो वीर
 रस में मग्न न हुआ हो ॥ २८ ॥

विदूषकोपि स्ववचोविभूषितं
 यदान्तरे सूक्तंमवाचयत्स्वयम् ।
 तदा ययौ ह्यास्यमहो रसोद्गता
 समस्तविद्वज्जनभण्डिता नटी ॥२९॥

जब वीच में मनुष्यों को हँसाने के लिय अपनी बाणी से विदूषक भी
 अश्वेद का सूक्त तारस्वर से पढ़ने लगा तब तो विद्वानों के वीच में बैठी
 हुई यशोनदी भी कुछ देर तक हँसती रही ॥ २९ ॥

विभुक्तताम्बूलदत्ता ततः सभा
 विलोक्य भावान्तरवेषधारिताम् ।
 वभूव मग्ना करुणारसार्णवे
 दयामयं प्रार्थितवत्यपि स्फुटम् ॥३०॥

इसी वीच में पान खाने में बसचित्त वह समस्त सभा बूखरे रूप में
 सजे हुए नाटक-पात्रों को जब देखने लगी तब तो सब काम छोड़कर कबला
 रस में भरी हुई ईश्वर की प्रार्थना करने लगी ॥ ३० ॥

अथो निदेशादधिपस्य मानिनी
 यशोमयी कापि नटी जनान्तरे ।

ननर्त मञ्जीरमनोहरस्वना

नवानि वेदस्य पदानि विन्यसन् ॥३१॥

इसके बाद मनोहर वेषवाली, यशोरूपनटी नायक के अनुरोध से नवीन नवीन वेदों के पदों को गाती हुई विद्वानों के बीच में नृत्य करने लगी । अर्थात् अधिकतर यश फैल गया, यह भाव ॥ ३१ ॥

अनन्तरं सापि मनुष्यमण्डली

मुहुर्मुहुर्दर्शितभक्तिसाधना ।

शुभं नटन्तीमधिपस्य नर्तकी-

मवर्धयत्सर्वश एव साहसैः ॥३२॥

कुछ देर के बाद अत्यन्त भक्ति से भरी हुई यह नाना देशगत विद्वानों की सभा, अच्छे प्रकार नटी को देखकर, नाना प्रकार से उसकी प्रशंसा करने को उद्यत हुई ॥ ३२ ॥

प्रवर्तिते रङ्गविधानविस्तरे

पटेपि नीचैः पतिते समन्ततः ।

स सामवेदध्वनिरुत्तरोत्तरो-

बभूव नानालयलास्यशोभितः ॥३३॥

फिर भी नेपथ्य में रङ्ग-विधान होने पर कांडपट के खोलने के साथही नाना स्वर ताळो समेत उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सामवेद का अश्रुतपूर्व गान होने लगा ॥ ३३ ॥

अशेषतौर्यत्रिकदक्षिणे मुदा

पुरः स्थिते पात्रगणे यथा यथा ।

विपश्चिदानी मुदमाप निर्भरा

तथा तथा वृद्धिमवाप साधना ॥३४॥

समस्त कार्यों में चतुर नाटक-पार्श्वों के सामने जाने पर उनके प्रयत्नों से जैसे जैसे विद्वानों की समा प्रसन्न होती थी वैसे ही वैसे समस्त नाटक-साधना दूनी वृद्धि को प्राप्त होगई ॥ ३४ ॥

स्वरे लयं पञ्चममागते बला-
द्विमूर्च्छिते चापि गुणेन मानवे ।
सुभैव मन्ये बुधलोकमण्डली
निवर्तयामास तदीयविस्तृतिम् ॥३५॥

कुछ देर के बाद पञ्चम स्वर के आनन्द जाने पर वह सम्य मण्डली जब मूर्च्छा को प्राप्त हो गई तब उस नाटकी विस्तृति को कम करने के लिये नायक ने अपनी कुछ चेष्टा प्रकट की ॥ ३५ ॥

जने कथञ्चिद्गतवाग्विकल्पने
मुदं वितन्वक्षितरां विदूषकः ।
विभूषयामास समस्तमावरा-
त्तन्तरङ्गं बहिरङ्गमप्यलम् ॥३६॥

नाटक-क्रम के कम होने पर शान्त रस में मग्न हुई समा को देख जब विदूषक ने हास्य रस का प्रस्ताव किया तब अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग के अतिने सम्य मनुष्य थे सबने उस हास्यरस को बढ़ाया, जिससे समस्त परिश्रम दूर होगया ॥ ३६ ॥

शुणोः प्रशस्ते नवनाटकक्रमे
निरीक्षिते केपि महाशयाऽवराः ।
यदा यथेच्छं जगदुस्तदैव सा
नियामकाली समतर्जयद्बलात् ॥३७॥

अति सुन्दर शुभाख्य नाटक देखने के बाद जब कोई महाशय यथेच्छ सम्भाषणादि व्यवहार करने लगे तभी वह व्यवसा के लिये नियत रूप अपराधी उनको फटकार बतलाने के लिये उद्यत होगये ॥ ३७ ॥

मुदं वितन्वन्नलमस्य नर्तकी
 बुधेषु पश्चाद्बुधेष्वपि द्रुतम् ।
 मुहुः प्रसन्नाभवदन्तरे मया
 समस्तमेतत्स्ववशे नियन्त्रितम् ॥३८॥

कुछ देर के बाद वह महर्षिजी की यशोरूप नटी सामान्यता से विद्वानों तथा अधिविद्वानों के बीच में प्रसन्नता फैला कर अपने मन में अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ३८ ॥

प्रधानमृत्या अपि दानमानना-
 तिसांत्वनाभिर्बहुधैव भूषिताः ।
 पुरो निषेदुः किल नायकेक्षण्ये
 निबद्धनेत्राः खलु वेत्रपाणयः ॥३९॥

नाटक के अन्त में प्रधान नाटक-पात्र भी दान-मानों से तृप्त हो महर्षिजी को देखते हुए हाथों में वेद लेकर सामने खड़े हो गये । अर्थात् कुछ विशेष प्रार्थना के लिये उद्यत हुए ॥ ३९ ॥

ससूत्रधारे परमा विदूषके
 बभूव या सा किल केन वर्यताम् ।
 समन्ततः सादरणीयकल्पना
 विकल्पना चापि सरामणीयका ॥४०॥

उस अवसर में सूत्रधार और विदूषक के ऊपर जो शोभा छा रही थी उसका वर्णन अब कौन कर सकता है ॥ ४० ॥

जना अपि ध्वस्तसमस्तकिल्बिषाः
 समीक्ष्य वेदोदितनाटकक्रमम् ।
 महानुभावैरधिपं प्रतुष्टुवु-
 र्वयामयं श्रीपरमेश्वरोपमम् ॥४१॥

उसी समय गद्य हृदयाधिकार जन भी वेदोक्त नाटक-कर्म को देख नाना वाक्यों से महर्षिजी की बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ४१ ॥

जगाद कश्चिद्बहुशो जनान्तरे
श्रुतं न दृष्टं कचिदित्थमद्मु-म् ।
मया निराकारयशोविशोभितं
जगत्रये नाटकमागमप्रभम् ॥४२॥

उसी अवसर में कोई पुरुष तो मनुष्यों के बीच में धारंवार ऐसा कहने लगा कि मैंने ऐसा ईश्वर की प्रभुता को दिखानेवाला सच्चा वेदोक्त नाटक आज तक न सुना, न कहीं देखा ॥ ४२ ॥

महाशयः कोप्यपरोपि सर्वशो-
विलोक्य रम्यं नवकीर्तिताण्डवम् ।
मुहुर्मुहुर्नायकमेव वर्णय-
न्नाप काव्यस्य परम्परां पराम् ॥४३॥

कोई महाशय नाटक की अत्युत्तमता को देख कर महर्षिजी का ही पूर्व-
रूप से वर्णन करने के लिए उद्यत हुए ॥ ४३ ॥

भवे समस्ते भविता न कोप्यन्
समो जनस्ते न बभूव कर्हिचित् ।
पुरापि भाग्येन गतोसि पात्रतां
सुनेत्रयोरथ विधेरनुग्रहात् ॥४४॥

वर्णन का ही वर्णन करते हैं । हे महर्षिजी, आपके समान इस संसार में
न तो कोई मनुष्य आगे उत्पन्न होगा, न कोई पढ़े हुआ । अब भी जो
आपका वर्णन है सो बड़े भाग्योदय से मिला है ॥ ४४ ॥

विलोकनेनैव हरत्यधम्भवा-
न्युगमवं सम्प्रति तन्नवः कथम् ।

भविष्यतीत्यप्यतिमुग्धकल्पना

यतस्त्वमाप्तोसि दृशोः परं पदम् ॥४५॥

आप पहले संचित पाप को तो अपने दर्शनों के साथही नष्ट करते हैं । अब उनका होना सम्भव नहीं है । उनका आगे होना असम्भव है । इसलिये आपका दर्शन तीनों कालों की व्यवस्था में पापों को नष्ट करनेवाला प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥

इति प्रशस्तिर्न समाप्तिमागम-

यदा तदैवेतरवागभिष्टुतिः ।

पुरो हसन्ती कथयाम्बभूव तां

नवीनवाणीघटनाप्रशस्तिकाम् ॥४६॥

जब तक पूर्वोक्त प्रकार से एक मनुष्य की प्रशंसा पूर्ण न हुई तभी दूसरे पुरुष की वाणी ने भी पूर्वोक्त रचना को हटाकर अपना प्रभाव दिखाने का उद्योग किया ॥ ४६ ॥

किमत्र चित्रं यदि शङ्करोद्गमे

बभूव जैनादिमतप्रभञ्जनम् ।

अवर्णनीयो महिमा तु ते विभो

यते दयानन्द वदामि किं परम् ॥४७॥

यदि शंकराचार्यजी के समय में शाक्त, जैन आदि मतों का खण्डन हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य है ? परन्तु हे महर्षिजी, आपकी महिमा तो अवर्णनीय होने से उनसे भी अधिक प्रतीत होती है ॥ ४७ ॥

पुरातनैरार्यजनैरलङ्कृतं

किमेषु लोकेष्ववदानसाधनम् ।

एहे एहे ते महिमा तु वर्ण्यते

जनैरब्जं वेदमतानुयायिभिः ॥४८॥

प्राचीन आर्य पुरुषों ने इस संसार में ऐसा कोई परोपकार का काम न किया, यदि किया भी तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया होगा, परन्तु महर्षिजी, आपकी महिमा को तो वेद के अनुकूल चलनेवाले पुरुष घर घर गया करते हैं ॥ ४८ ॥

कुतस्तवास्मिञ्जगतीतजे जनि-
 र्बभूव नेदं प्रतिबुध्यते मया ।
 अतीतलोकत्रितयो गुणस्तु ते
 विभाति भूमण्डलरत्नवत्परः ॥४९॥

हे महर्षिजी, इस लोक में आपका जन्म किन कारणों से हुआ, यह तो हम नहीं कह सकते, परन्तु इतना कह सकते हैं कि आपके गुण तीनों लोकों से भिन्न और अदर्शनीय हैं ॥ ४९ ॥

गता कथं मे तव मूर्तिरुत्तमा
 वृशोरत्नं वेद्मि न तत्पुराभवम् ।
 किमस्ति पुण्यं किमहोद्युना कृतं
 यते कथं स्याः पथि नैव तन्नवेत् ॥५०॥

जो आपका अब दर्शन हुआ है वह न मालूम प्राक्तन पुण्यों का फल है या अब किये हुए पुण्यों का फल है, परन्तु इतना अनुमान कर सकता हूँ कि जो पुण्य न होता तो आपका दर्शन भी न होता ॥ ५० ॥

न कारणानामनुमोदनं विना
 भवन्ति कार्याणि कथञ्चिदप्यतः ।
 मयानुमानादवगम्यते यते
 पुरातनं पुण्यफलं विचारणैः ॥५१॥

कारणों के बिना कार्यों की उत्पत्ति नहीं हुआ करती, यह न्याय तार्किकों का प्रत्यक्ष फलित है । इसलिये अनुमान किया जाता है कि ज़रूर ही पिछले पुण्यों का फल है ॥ ५१ ॥

मते ममेदं प्रतिभाति सर्वथा
 भुवस्तले वेदमलं विकाशयन् ।
 द्वितीयभानुः परमात्मना मुदा
 विनिर्मितोसीति किमल्ल कृत्रिमम् ॥५२॥

मेरी समझ में तो यह आता है कि परमात्मा ने इस संसार में वेद का पूर्ण रूप से प्रकाश तथा अविद्या-रात्रि को दूर करने के लिए आपको दूसरा सूर्य बना दिया ॥ ५२ ॥

जनिं न यायाद् यदि लोकमण्डले
 भवेत्कथं तर्हि तमिस्रभञ्जनम् ।
 इति ब्रुवत्येव जने जनेतरो-
 निवार्य तं प्रावददित्थमद्भुतम् ॥५३॥

यदि आप इस लोक में जन्म न लेते तो नाना मतरूपी अन्धकार किस तरह दूर होता ? यहाँ तक उस मनुष्य ने अपनी बात आधी भी न कही थी कि इतने में दूसरा मनुष्य आकर यों कहने लगा—॥ ५३ ॥

अलं समस्तैरपि कल्पनाक्रमैः
 कृतं मते मे बहुवादसाधनैः ।
 प्रवर्तितामार्यमतप्रशस्तिकां
 विलोक्य याता सकलान्धकारता ॥५४॥

मेरी समझ में तो और सब कल्पनायें व्यर्थ हैं । बहुत विवादों से भी कुछ प्रयोजन नहीं है । केवल इतना ही कहना उचित है कि महर्षिजी के अलाये हुए एक आर्य-समाज ही से इस भारतवर्ष का ही क्या सारे संसार का समस्त अन्धकार दूर होजायगा ॥ ५४ ॥

न मूर्तिपूजा न पुराणकल्पना
 न तीर्थभक्तिर्न मृतक्रियाकृतिः ।

ममान्तरे दर्शनमाप्य ते विभो
विराजते वेदपथावृतेऽधुना ॥५५॥

हे महर्षिजी, आपका दर्शन पाकर मेरे अंतःकरण में सिधा एक वेद-
मार्ग के न तो मूर्ति-पूजा, न पुराणों का मानना, न जलों में तीर्थ बुद्धि रखना,
न अक्षय्य भण्ड को करना, कुछ भी नहीं रहा ॥ ५५ ॥

हृतोन्धकारः प्रभया विभो त्वया
महाशयानां हृदयाद्विशेषतः ।
निवेशितो देवलकेषु दृश्यते
गतोन्यथा कुत्र विलुप्तदर्शनः ॥५६॥

हे महर्षिजी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपनी प्रभा से महाशयों
के अन्तःकरणों से अधिष्ठाकपी अन्धकार को हटा कर पुजारियों के अन्तः-
करणों में एक दिया, नहीं तो जाता कहाँ ? ॥ ५६ ॥

न यावदित्थं कथनापरो ययौ
विमूकभावं प्रवणो महाशयः ।
महाशयस्तावदनन्यभक्तिमा-
निमं समस्तौदितरेतरेतरः ॥५७॥

इस प्रकार जब तक एक महाशय अपनी बाणी को पूरा न कर पाया
तभी तक अत्यन्त भक्तिवाला बूझा महाशय महर्षिजी की प्रशंसा इस
प्रकार करने लगा—॥ ५७ ॥

कृतः प्रजाक्षेमकृता विभो त्वया
नियोगमागों विधवादयाक्षुना ।
निरस्तनाथादिनिबन्धनस्ततः
परं किमुग्रं तव कीर्तिवर्णनम् ॥५८॥

हे महर्षिजी, प्रजाभो के कल्याण में दृष्टचित्त होकर, विप्रवाचों के ऊपर क्याहृष्टि करके जो आपने काशीनाथ की मर्यादा को तोड़ दिया, यही आपके लिए धन्यवाद है ॥ ५८ ॥

पुराणविज्ञैरनुमोदिताशया

जगत्यत्नं यान्धपरम्परा परा ।

त्वयैव सा वाक्यबलैर्निवारिता

हृदन्तराद्भूतलवासिनां वलात् ॥५९॥

इस संसार के बीच में जो मनुष्यों के अन्तःकरण में पौराणिकों ने अविद्यारूपी अन्धकार रख छोड़ा था उसका हटाना एक आपही का काम था ॥ ५९ ॥

इति ब्रुवत्येव सरस्वतीपती

यशोनटी तस्य पुरः समुत्थिता ।

ललाट वाल्यप्रभयेव वर्धिता

जनान्वशीकर्तुमयत्नसाधना ॥६०॥

कवीश्वरों के ऐसे कहने पर महर्षिजी के सामने लड़ी हुई यशोरूपिणी नदी मनुष्यों को बध में करने के लिए फिर भी दुबारा अपनी प्रबल शक्तियों से नाटक का प्रारम्भ करने लगी ॥ ६० ॥

पुनः प्रवृत्ते नवनाटकोत्सवे

यशः समुत्था दशदिग्विसृत्वरी ।

जनावली दर्शनलालसावशा-

दवाप तन्मध्यमरं प्रधाविनी ॥६१॥

नाटक के दुबारा प्रारम्भ होने पर पहले के समान देखने की अभिलाषा करके धारों तरफ से आई हुई महाशयों की पंक्तियाँ नाट्य-शाला में आकर फिर नाटक का हृद्य देखने लगीं ॥ ६१ ॥

भविष्यति प्रातरियं प्रकल्पना

नवेत्र नेपथ्यविशालमन्दिरे ।

इति श्रुतानन्दकथाः समन्ततो-
न सम्ममुर्हर्षवशेन कोविदाः ॥६२॥

सबेरे यहाँ पर मूर्तिपूजन, आर्य, पुराण, तीर्थों का अष्टनरूप नाटक बोला जायगा। ऐसा भविष्यवाक्य कहने पर वह पण्डितों की मण्डली अपने मन में फूली न समाई। अर्थात् सायंकाल होने पर अगले दिन का प्रस्ताव सुना दिया गया ॥ ६२ ॥

यथोचिते यानविशेषविष्टरे
निविश्य गेहोचितमार्गभूषिताम् ।
भुवं ययौ कृत्यविशेषहेतवे
करस्यवेला धृतनेत्रनर्तना ॥६३॥

प्रस्ताव सुनने के बाद अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ कर वह नाटक देखनेवाली सम्य मण्डली अपने गृह-कार्यों को करने के लिए सायंकाल के समय अपने अपने घरों को चलने लगी ॥ ६३ ॥

गतेषु लोकेषु यथायथं गृहा-
नियं समस्तापि विशेषमण्डली ।
निवर्तयामास दिनैकनाटकं
चकार च प्रार्थनमस्य सत्पतेः ॥६४॥

महाशर्मों के अपने घर जाने पर वह समस्त नाटक-पात्र-मण्डली भी पहले दिन का नाटक पूरा करके महामहिम महर्षिजी की नामा प्रकार से स्तुति करने लगी ॥ ६४ ॥

असावपि ध्वस्तसमस्तविस्तरो-
मनस्यनन्तं परमात्मदर्शनम् ।
चकार योगानुगकल्पनोद्यमैः
समाधिनिर्भूतमजे सुखाश्रितः ॥६५॥

महर्षिजी भी एकान्तस्थल में आनन्द से बैठ कर समस्त कृत्यों को छोड़ते हुए अपने निर्मल अन्तःकरण में योगाभ्यास के वश से सुखपूर्वक अनन्त ईश्वर का दर्शन करने लगे ॥ ६५ ॥

इति विरचितलीलाश्लेषशास्यकीर्ति-


र्ललितललितभावैर्लालयँल्लालनीयान् ।

सकलभुवनमध्ये विभ्रमन्सज्जनानां

कलनमिव विधातुं वायुमार्गं प्रतस्थे ॥६६॥

जब सब लोग घर चले गये तब नाटक-पात्रों के विभ्रम लेने पर, महर्षिजी के योगावस्थित होने पर, वह कीर्तिरूपिणी नदी, संसार में बिलाने लायक महाशयों को अपने सुन्दर भावों से बिलौती हुई, समस्त भारतवर्ष के सज्जन पुरुषों के गिलने के बहाने से, वायुरूप हो आकाश-मार्ग में सब पुरुषों के देखते देखते चली गई ॥ ६६ ॥

इति श्रीमदसिद्धानन्दशर्मकृतौ सतिसके दयानन्दविम्बिजये महाकाव्ये
श्रीगोविन्दसुत नाम नवमः सर्गः ।



दशमः सर्गः

प्रातः समागतवति प्रचुरे दिगन्ता-
ह्लोके पुनः प्रववृते नवनाटकोत्थः ।
सामाजिकोन्नतिमहः प्रबभूव यस्मि-
न्नानन्दएव सकले जगति प्रशस्तः ॥१॥

यस्य नाटकरूप से मूर्तिपूजादि विषयों का उल्लेख करने के लिए दशम सर्ग प्रारम्भ किया जाता है । प्रातःकाल होते ही मनुष्यों के प्रातः पर वह सामाजिक जनों का उत्सव फिर भी प्रारम्भ होगया था जिसके प्रस्ताव देने पर सम्पूर्ण जगत् में एक अद्वितीय आनन्द छागया ॥ १ ॥

नेदं मयापि गदनीयमयं जगत्या-
माश्चर्यमापयति यन्नितरां विद्वच्चून् ।
नानाविधानकरणोचितचारुवेशो-
यस्मात्स्वयं प्रतिविभाति निदानरूपः ॥२॥

यह उत्सव भारतवर्ष में अद्वितीय है—यैसा करने के लिए मुझे कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस विषय में तो सब कामों को छोड़कर एक रूप से देवने में वसन्तित्त मनुष्य-समुदाय ही पूर्वरूप से साक्षि-भूत माना जाता है ॥ २ ॥

लोके तदेव रुचिरं प्रतिभाति शङ्को
 यस्मिन्समस्तमनुजानुमतेर्निदेशात् ।
 भिन्नं किमप्यभिनवं समुदेति वृत्तं
 वीक्षावतामखिलमानसवृत्तिहारि ॥३॥

संसार में वही अरित्र रमणीय माहूम होता है जिसमें लोक-प्रचलित समस्त अरिषों से भिन्न अभिनवता के बश से मनुष्यों की चित्त-वृत्ति को हरने वाला कोई नया कृत्य समस्त सम्य पुत्रों की अनुमति से प्रकट हुआ हो ॥ ३ ॥

एवं विचिन्तयति रङ्गगते मनुष्ये
 यावन्न साधनविधिः प्रबभूव तावत् ।
 प्रादुर्बभूव करुणाब्धिसमः स कोपि
 यस्यागमेन सकलापि सभावतस्थे ॥४॥

रङ्गशाळा के अन्तर्गत मनुष्यों ने जब तक ऐसा विचार पूर्ण न किया तभी तक वह करुणावदणालय महर्षिजी अपने उज्ज्वल रूप से समा में उपस्थित हुए जिनके आने से पहले ही समस्त समा उठ कर जाड़ी होगई ॥ ४ ॥

हैमं समाविशति वेत्रवतां निदेशैः
 सिंहासनं सकलरत्नरुचिप्रदीप्तम् ।
 या श्रीः स्वयं समभवत्सकलेपि रङ्गे
 सा केन वक्तुमपि शक्यतइत्युदीर्यम् ॥५॥

रत्न-अटित उज्ज्वल सिंहासन पर अधिकारियों के निदेश से महर्षिजी के बैठने पर जो शोभा नाट्यशाळा में हुई उसका वर्णन कौन कर सकता है ॥ ५ ॥

एतन्निदेशगतमानववाङ्मिदेशै-
 रध्याश्रितेषु निखिलेष्वपि मानवेषु ।

नानानिबन्धनपरापि सरस्वती सा

चित्तानि मन्त्रपदेष्व दधौ बुधानाम् ॥६॥

रङ्गशाळा में महर्षि के प्रधान जनों के निर्देशों से महाशयों के बैठने पर नाना विषयों में बढने वाली सरस्वती विद्वानों के चित्तों को मन्त्र विषयों की तरफ लगाकर शास्त्रार्थ का प्रस्ताव करने का पूर्णरूप से उद्यत हुई ॥ ६ ॥

मीमांसमानमपि काञ्चिदलं बुधेशं

वैशेषिकाः प्रचुरवादपराः कथञ्चित् ।

किं तत्पुनर्न किल वेति ममापि चित्ते

शङ्कास्ति सत्त्वरजसां विकृतौ विनोदात् ॥७॥

उस रङ्गशाळा में प्रकृति विषय का शास्त्रार्थ छिड़ने पर मीमांसा शास्त्र के जानने वाले एक पण्डित को पदार्थ-विद्या में प्रवीण वैशेषिक शास्त्रों के जानने वालों ने छोड़ा या न छोड़ा इस विषय में मुझे भी कुछ शङ्का प्रतीत होती है ॥ ७ ॥

वेदान्तदर्शनपरैर्विहितं विवादे

जीवेश्वरैक्यकथनं विविधप्रमाणैः ।

नैय्यायिकाः प्रसभमेव विभागभेद-

वैशिष्ट्यतः प्रविलयं गमयाम्बभूवुः ॥८॥

जीव और ईश्वर के विषय में अमेव बतलाने वाले नवीन वेदान्तियों को परस्पर विरोध के जानने वाले नैय्यायिकों ने सूत्रों के प्रमाणाँ द्वारा पछाड़ा, जैसा कि आज तक उनके दिलों में नैय्यायिकों का डर विद्यमान है ॥ ८ ॥

केचित्प्रयोगविधिवादचणाः प्रकामं

नित्योप्यनित्यइति शब्दकृतप्रतिष्ठाः ।

पातञ्जले हृदयवर्तिनि सर्वमेव

जात्वात्मकं निजगदुः किल पुस्तकौघम् ॥९॥

शब्दशास्त्र-प्रवीण कोई वैद्याकरख महर्षि पतञ्जलि-प्रणीत व्याकरण महाभाष्य के इत्यंगम होने पर नैयायिकों के प्रस्तुत किये हुए शब्दों के अनिष्टत्व विषय में शब्दों की नित्यता को पूर्ण रूप से ठहरा कर प्राञ्जलिक कौमुद्यादि ग्रन्थों को जालरूप बतलाने लगे ॥ ९ ॥

एवं विवावमनुकुर्वति सज्जनौघे-

यावन्न निर्णयपणः प्रबभूव तावत् ।

विद्वज्जनाकलनकार्यगता समन्ता-

दाविर्बभूव नभसो नवकीर्तिरारात् ॥१०॥

इस प्रकार नाट्यशास्त्र में छेड़ा हुआ शास्त्र-विषय जब तक पूर्ण भी न हुआ था तभी तक विद्वानों के परिगणन के लिये बली हुई यशोरूप नटी आकाश-भाग से उतर कर महाशयों के सामने नवीन रूप से उपस्थित हो गई ॥ १० ॥

दृष्ट्वा समस्तभुवनाधिगमैरनन्तां

कीर्तिं नटीमिव समस्तशुश्रूवाराम् ।

तौर्यत्रिकोत्सवविधानपराः प्रचक्रुः

सर्वाणि तत्र करणानि जनाः प्रशस्ताः ॥११॥

उस अवसर में समस्त गुणों से उज्वल और सम्पूर्ण भुवनों में व्याप्त होने से अनन्त यशोरूप नटी को सामने खड़ी हुई देखकर समस्त नाटक-पात्र अपनी अपनी क्रियाओं में वृत्तचित्त हो, समस्त साधनों से उद्यत हो गये ॥ ११ ॥

सर्वेपि मध्यविषयं प्रविहाय तूर्णं

भागेषु रङ्गभवनस्य जनाः कथञ्चित् ।

गत्वापि नालऽमतएव विशां निषेदुः

कोशेषु नूनमलभन्त यतः स्थलानि ॥१२॥

रङ्गशास्त्र में जैसे जैसे महाशयों ने मध्यभाग को छोड़ उसके आस पास जाकर बैठना प्रारंभ किया, परन्तु जब वहाँ पर भी स्थान न मिला तब विशाओं के कोनों में बैठने का उद्योग करने लगे ॥ १२ ॥

लोके समस्तविषयानपहाय मूके
वीक्षाप्रतीक्षणपरे विदुषामधीशे ।

प्रादुर्बभूव नवनाटकसूत्रधारः

कोप्यद्भुतो भवनमध्यतलादुदारः ॥१३॥

उस समय में मनुष्यों के मूक दृष्टचित्त होने पर महर्षि के अतुरोध वशा नेपथ्य से निकल कर अति मनोहर वेव वाला सूत्रधार नान्दी कहने के लिए उद्यत होगया । (सूत्रधार नान्दी को पढ़ता है, यह नियम है) ॥ १३ ॥

विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि लोकान्

नूनं परासुव तथाऽऽसुव सर्वदेव ।

यद्भद्रमस्ति सकलं प्रविधेहि तन्नो-

यूथेष्विति प्रतिवदन्विररामं नान्दीम् ॥१४॥

हे परमात्मन्, आप इस लोक में सर्वदा दुष्ट भूतों को दूर करें और जो जगत् के कल्याणकारक सर्व सुखकारी पदार्थ हों उन्हें आप सर्वदा भेजा करें । ऐसी मंत्रार्थ रूप नान्दी को पढ़कर सूत्रधार प्रस्ताव करने लगा ॥ १४ ॥

नान्दीपदे निगदिते विरतेपि पश्चात्

तत्सूत्रधारकथनाग्निखिलं बभूव ।

निःशब्दमस्तिमितमागमनादिशून्यं

यत्साजगाम नवकीर्तिनटी तदीया ॥१५॥

पहले नान्दी मन्त्र को पढ़कर पीछे प्रस्तावना करते हुए सूत्रधार के बचन से वह समस्त समा-मण्डप शब्द-रहित और गमनागमन-शून्य होगया । फिर वहाँ यशोरुपिणी नदी आ गई ॥ १५ ॥

नानानियोगकुशलामनुवीक्ष्य चैनां

सर्वेपि मण्डपगृहागतसन्ध्यलोकाः ।

नैजेन्द्रियानुगमनोमयरङ्गशाला-

मध्यस्थतल्पसुखमन्वगमन्त्रसादैः ॥१६॥

इस यशोरूपिणी नदी को नाना प्रयोगों में चतुर देख मण्डप के अंतर्गत सभ्यगण अपने इन्द्रियों द्वारा अनुगत मनोमय रङ्गशाला में जा जा कर बैठने लगे । अर्थात् एकत्र चित्त होकर सुनने लगे ॥ १६ ॥

मञ्जीरमञ्जुवलयकणितानुरूपं

काञ्चीनिनादविलसद्गुरुमध्यशोभम् ।

हारानुहारि तिलकार्चितरम्यवक्त्रं

तौर्यत्रिकं किमपि तत्समभूदनल्पम् ॥१७॥

अब यशोरूपिणी नदी का रूपकालङ्कार से वर्णन करते हैं । मंजीरों द्वारा सुन्दर कंकण ध्वनियों से मनोहर, कांची शब्दों से अलङ्कृत, हार से अनुहारि, तिलकयुक्त मुख से विभूषित, वह अद्भुत तौर्यत्रिक समस्त भारतवर्ष का विस्मयकारक होगया ॥ १७ ॥

यद्रीक्ष्य भैरवमिता निखिलापि नूनं

सा कापि सभ्यपरिषन्न चकार तत्र ।

वार्ता मुखामुखि यथा लवमात्रतोपि

नेत्राणि भिन्नविषयान्तरमभ्युपेयुः ॥१८॥

जिस छीला को देख आश्चर्य को प्राप्त हुई महाशयों की समा प्रत्यक्ष तो क्या, काना फूँसी में भी अपनी सब बातों को बन्द कर एकरूप से दस-चित्त हो निश्चल होगई ॥ १८ ॥

अत्रान्तरे करगृहीतनवीनवेत्रो-

यः कञ्चुकी निखिलजर्जरबालनेत्रः ।

पालं बभूव सुवृशामखिलस्य जन्तो-

स्तं सा नदी समभिगूह्यत हास्यवेशात् ॥१९॥

इसी अवसर में हाथ में एक नया वेत्र छिप हुए अत्यन्त वृन्नावसा से सफ़ेद पलकोंवाला कञ्चुकी निकल कर धर्मोपदेश देने के छिप प्राया, जिसे देख कर सब लोग अचम्भे में रह गये । अग्निप्राय यह कि शतपथ, गोपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों में विचार होने लगा ॥ १९ ॥

सोपि प्रशस्तपरमात्मनिदेशभावं
तस्यै निवेद्य नवनायकवद्धभावम् ।
लब्धाखिलप्रकरणानुगमः प्रतस्थे
तेनैव मार्गनिवहेन यथागतेन ॥२०॥

वह कञ्चुकी भी नायक के निर्देश से परमात्मा के समस्त भावों को उस नदी से कहकर समस्त विषयों से अपनी बातों को अदुगत देख धीरे धीरे वही पुराने रास्ते से चला गया ॥ २० ॥

मध्ये विदूषकविभूषितमध्यदेशं
तन्नाटकं किमपि कल्पितमावभूव ।
यस्मिन्नितान्तपरिहासविकासवासा-
दाविर्बभूव निखिलापि सभा नवेव ॥२१॥

इसी बीच में विदूषक द्वारा विभूषित मध्यदेश वह अयानन्द-विजय नाटक ऐसा अद्भुत हास्यरस को दिखाने लगा कि जिससे समस्त सभ्यगण फिर भी नवीन से होगये ॥ २१ ॥

एवं बहूनि दिवसानि समस्तापात्री
नानामहैरनुगतानि विधाय हर्षात् ।
लोकं समुद्ररशनाऽऽगतपत्तनोत्थं
विस्मापयन्ननु चकार परात्मभावम् ॥२२॥

इस प्रकार वह नाटकपात्री बहुत दिनों तक नाना प्रकार के उत्सवों से भारतवर्ष के समस्त नगरों से आये हुए महाशयों को विस्मित कर आप आनन्द में मग्न होगई ॥ २२ ॥

काले गते बहुतिथे मनुजार्थनाभि-
 योंगीश्वरोपि किल यामवदद्विरं ताम् ।
 सर्वे विशुद्धहृदयान्तरदीपनाय
 शृण्वन्तु भक्तिभरिताः किमतोन्यदेवम् ॥२३॥

बहुत दिन बीत जाने के बाद समस्त भारतवर्ष के महाशयों की प्रार्थना करने पर महर्षिजी ने भी वेद-मार्ग के अनुकूल जिस अमृत वाणी को कहा वह भी अपने मनों को प्रफुल्लित करने के लिये समस्त सम्यगण सुनें ॥२३॥

श्राद्धं तदेव निगदन्ति महात्मवर्या
 यस्मिन्परोपकरणाय जनोत्तमेषु ।
 सच्छ्रद्धया किमपि वस्तु तदर्थितं वा
 विश्राणयन्ति मनसा वचसापि विज्ञाः ॥२४॥

अब यहाँ से (७२) श्लोक पर्यन्त मृतक-श्राद्ध का खण्डन किया जाता है । इस संसार में महात्मा जन श्राद्ध वसी को कहते हैं जिसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार परोपकार की हृष्टि से अच्छे गुण वाले पुरुषों के लिये कुछ पदार्थ मन या वाणी के द्वारा दिया जाय ॥ २४ ॥

श्रद्धाविहीनमथ ये प्रददत्यनिच्छा-
 विस्फूर्जितप्रतिमभावगताः कथञ्चित् ।
 सर्वं तदर्थगतमर्थफलं न सूते
 शान्ताभिकुण्डहुतवज्जडबुद्धिदत्तम् ॥२५॥

अविद्या के फंदे में पड़े हुए जो पुरुष दूसरों के कहने सुनने से अज्ञा-
 रहित अज्ञ-बुद्धियों को दान देते हैं वह सब राख में हवन करने के समान
 कुछ फल नहीं देता । इस लिये विद्वानों को देना चाहिए । मूर्खों को
 नहीं ॥ २५ ॥

देशानुकूलमथ कालकलानुकूलं
 पात्रे तपोगुणवति प्रतिदानशून्यम् ।

यदीयते बुधजनैरुपकारबुद्ध्या

तच्छ्रद्धमित्यनुवदन्ति विपश्चिदभ्याः ॥२६॥

विद्या और तप से युक्त पात्रों में अच्छे देश तथा काल में जो उपकार की बुद्धि से दान दिया जाता है उसे ही पण्डित जन सच्चा श्राद्ध कहते हैं ॥ २६ ॥

पिण्डादिकं बहुविधाय मनुष्यलोके

ये कुर्वते किमपि वेदमतानभिज्ञाः ।

ते सर्वमेव नरकोद्गमनप्रतीक्षा-

वीक्षापराः फलविहीनतयैव कृत्यम् ॥२७॥

वैदिक धर्म के न जाननेवाले जो पुरुष इस संसार में पिण्डादि बना कर कुकर्म करते हैं वह मानो नरक में जाने के लिए अपने आपही रास्ता ढूँढ़ते हैं ॥ २७ ॥

दत्तं पुरा नु लभते जननेत्रदत्तं

जन्मान्तरे नु लभते किल जीवलोकः ।

मन्ये समस्तकथनेष्विदमस्ति सिद्धं

कुत्रापि नो मिलति दानफलं प्रयाते ॥२८॥

पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों का फल जीव इस जन्म में भोगता है और इस जन्म में किये हुए कर्मों का फल आगे भोगेगा । यह सर्व-शास्त्र-संमत है परन्तु यहाँ का दिया हुआ लोकान्तर में कोई दूसरा कदापि नहीं पा सकता ॥ २८ ॥

जीवेऽमरे वसनवद्वपुरप्यपास्य

बेहान्तरं कृतिवशात्प्रगते न कोपि ।

तत्रास्य बान्धव इति व्यवहार एव

वेविद्यते कथमपि श्वचिदप्यशस्तः ॥२९॥

बल के समान शरीर को भी इस लोक में छोड़कर अमर जीवात्मा के लोकांतर जाने पर उस जीवात्मा का यहाँ के पुरुषों से कुछ बान्धव-व्यवहार ही नहीं रहता है ॥ २९ ॥

कुत्रेदृशं वचनमस्ति बुभुक्षितास्ते

जन्मान्तरेपि गतजन्मगतैः प्रदत्तम् ।

मुक्तान्नपानवसनादिकमादरेण

तृप्यन्ति सर्वमिदमन्न जनैः प्रदिष्टम् ॥३०॥

दूसरे जन्म में भी भूखे प्यासे जीवात्मा पहले जन्म के मनुष्यों के दिये हुए अन्न, जल, भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं—ऐसा वचन किस महर्षि के बनाये हुए पुस्तक में पाया जाता है ? किसी में नहीं ॥ ३० ॥

नव्यानि कर्मवशतो जननानि लब्ध्वा

नव्येषु बान्धवजनेषु करोति सख्यम् ।

नव्यानि तत्र लभते सकलानि मन्ये

वस्तूनि दुग्धजलभोजनभाजनानि ॥३१॥

वह जीवात्मा यहाँ से चल, अपने कर्मों के वश से नवीन जन्म को पा, दूसरे जन्म में नये बान्धवों में प्रीति करलेता है और उस जन्म में समस्त दुग्ध, जल, अन्न, बल, पात्र आदि वस्तुओं को नवीन रूपसे ही पाता है ॥३१॥

प्रेतेतिशब्दकथनादपि तस्य लोकान्-

मन्ये प्रकर्षगमनं कविभिः प्रदिष्टम् ।

तच्चेत्कथं यदि कथंचिदपीह तस्य

सम्बन्धबन्धनफलं मनुजानुविद्धम् ॥३२॥

इस लोक में बिल्कुल सम्बन्ध को हटाकर लोकांतर जाना ही प्रेत शब्द का अर्थ है । यदि उसका यहाँ के लोगों से सम्बन्ध रहा तो प्रेत शब्द का अर्थ कहाँ घटा ? यदि घटा तो उसका यहाँ के बान्धवों से सम्बन्ध नहीं रहता ॥ ३२ ॥

प्रेतः कथं यदि जलादिकवस्तुभोजी
 नोचेत्क्व तर्हि विहितं जलदानकृत्यम् ।
 अन्योन्यदुर्घटनमेतदलङ्करोति
 सम्बन्धभञ्जनमनुग्रहनिग्रहाभ्याम् ॥३३॥

यदि वह जीव यहाँ के दिये हुए पदार्थों का अनुभव करता है तो प्रेत नहीं । यदि प्रेत है तो यहाँ के दिये हुए पदार्थ नहीं भोग सकता यह अन्योन्य दुर्घटना अनुग्रह तथा निग्रह से सम्बन्ध के तोड़ने में अपना जोर लगाती है ॥ ३३ ॥

लोकान्तरं यदि गते मनुजे प्रदत्तं
 तद्बान्धवैरिह जलादिकमेति जन्तुः ।
 देशान्तरं प्रति गते विफलैव तर्हि
 पाथेयबन्धनकृतिर्मनुजैः प्रदिष्टा ॥३४॥

जो मनुष्य के मरने पर उसके बान्धवों से दिया हुआ पदार्थ उसके पास पहुँच जाता है तो देशान्तर को गये हुए पुरुष के छिपे बंधनी आदि पदार्थों को बाँधने की कुछ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ॥ ३४ ॥

पाथेयबन्धनमिति प्रदिशत्यलं नो
 जीवस्य पूर्वपुरुषैः सह सम्प्रयोगः ।
 केनापि कारणवशेन भवत्यलं तत्
 सर्वं नवीनमनुजैरिदमत्र सृष्टम् ॥३५॥

जो इस लोक में देशान्तर को गये हुए पुरुष के साथ बंधनी आदि का सम्बन्ध किया जाता है वह इस बात को पूर्ण रूप से जतकाता है कि मरे हुए पुरुषों का पूर्व पुरुषों से कुछ सम्बन्ध नहीं रहता ॥ ३५ ॥

विद्युत्पथेन यदिवं मनुजैः प्रदिष्टं
 देशान्तरे धनगतागतमेतदत्र ।

लोकान्तरे न तदपि प्रथितं कथञ्चि-

द्रूपान्तरेण न समक्षफलोपभोग्यम् ॥३६॥

जो इस लोक में तार के द्वारा द्रव्य आदि पदार्थ देशान्तर के लिये भेजे जाते हैं वह इसी मर्त्य लोक के लिये है दूसरे लोकों के लिये नहीं। वह भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल कर पाये जाते हैं, उसी रूप से नहीं ॥ ३६ ॥

पौराणिकोदरतडिद्यदि भोज्यजातं

लोकान्तरेपि मनुजेषु वदाति तर्हि ।

आकस्मिकान्यपि कथं न वसूनि मन्ये

तत्रैव विन्यसति मुग्धगुणा जनाली ॥३७॥

यदि आसन्नभोजियों की पेटरूप विजली यहाँ के दिये हुए भोज्य-पदार्थों को तार के समान लोकान्तर को पहुँचा देती है तो उसी विजली के रास्ते से यहाँ के जन, ब्रह्म, पात्र आदि पदार्थों को उसी जगह पर क्यों नहीं पहुँचावाते ॥ ३७ ॥

नैवेश्वरानुमतिभिन्नतया कदापि

तोयाग्निवायुषु द्रुतं तनुते फलानि ।

चेदस्ति तर्हि निगमेषु कथं न मृग्या

सा तस्य सम्मतिरलं बहुभिः प्रमाणैः ॥३८॥

ईश्वरोक्त वेद की विरुद्धता से जो कोई पदार्थ, अग्नि, वायु और जल में फेंका जाता है वह कदापि फलदायक नहीं होता। यदि होता है तो वेद-विरुद्ध काम करने के लिये भी वेद का प्रमाण मिल जाना चाहिए ॥ ३८ ॥

अग्निप्रदत्तघृतमिष्टपदार्थजातं

वेदोदितेन विधिना परमेश्वरेण ।

भूवायुशुद्धिवशतो यदनुप्रदिष्टं

तस्मैतिकाग्निवचनं निगमे विलोक्यम् ॥३९॥

परमेश्वर ने वेद के द्वारा जो हवन वायु की शुद्धि के लिए बतलाया है वह भी शैतिक अग्नि के द्वारा बन सकता है, वैद्युत अग्नि से नहीं। इसलिये अग्नि भी परमात्मा के नियुक्त कार्यों में ही सहायक बन सकता है, औरों में नहीं ॥ ३९ ॥

यागादिकोपि परमेश्वरशासनेन
वेदेन चेदहरहः क्रियते मनुष्यैः ।
सोपि प्रशस्तपरलोकपलोपधायी
नो लभ्यते निगमवर्त्मनि मार्गितेपि ॥४०॥

यह जो यह करने का विधि ईश्वरोंक वेद के द्वारा प्रति दिन किया जाता है वह भी बूझरे जन्म में जाकर फल देने वाला नहीं माना जाता, प्रत्युत पुत्र-पौत्रादि रूप में उसका भी फल यहीं भोगना पड़ता है ॥ ४० ॥

वेदेतरेषुं यदि तद्वचनानि नूनं
ग्रन्थेषु तानि परतो न निसर्गभावात् ।
प्रामाण्यवादपरकाणि मतानि सर्वै-
रस्मान्न तत्कथनमस्ति मतं मतं मे ॥४१॥

जो वेद से भिन्न ग्रन्थ ब्राह्मणादिकों में परलोक-विषयक यह करने का विधान पाया जाता है वह उन ग्रन्थों के परतः प्रमाण से स्वयं प्रमाण के योग्य नहीं माना जाता, प्रत्युत वेद के अनुकूल होने से ही उन ग्रन्थों का प्रमाण मानने योग्य है इसलिये मैं उन ग्रन्थों के प्रमाण को कदापि नहीं मान सकता ॥ ४१ ॥

सर्वे धनञ्जयमुखाः परमेश्वरेण
स्वे स्वे नियोगकरणे नितरां नियुक्ताः ।
भाग्योपलब्धनिजकार्यविधानएव
कार्त्तं नयन्ति कथमप्यपराधभीताः ॥४२॥

खितने अग्नि, वायु, रवि, चन्द्रादि पदार्थ हैं वे सब ईश्वर के आह्वातुसार अपनी अपनी क्रियाओं में लगे हुए भाग्यवश से पाये हुए अपने अपने कामों को करते हैं । ईश्वर की आज्ञा के बिना कोई भी स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकता ॥ ४२ ॥

भानुः स्वकालपरिमाणवशाज्जडोपि
भूगोलमण्डलपरिभ्रमणे नियुक्तः ।
नैर्जैर्मयूखनिचयैः सलिलानि लोका-
ह्योकान्तरं नयति सर्वशः साक्षात् ॥४३॥

जब सूर्य भी प्रत्यक्ष ही सब प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हुआ प्रति दिन पृथिवी का जो गोल मण्डल है उसके आस पास भ्रमण में लगा हुआ अपने नियत समय में किरणों के द्वारा भूगोल से जल के किरणों को भूबलोक में पहुँचाता रहता है ॥ ४३ ॥

नैसर्गिकी यदि रवेर्जलजातमात्रे-
ष्वादानशक्तिरवधानपरास्तिशङ्के ।
दत्तं कराञ्जलिजलं कथमाप्य तुष्टो-
नूनं भविष्यति स दीप्तमयूखभूमिः ॥४४॥

जो सूर्य में स्वभाव से ही जल के खींचने की शक्ति है तो वह शुद्ध में भरकर दिये हुए पानी से किस तरह तृप्त हो सकता है ? कदापि नहीं ॥४४॥

नैवेदशं मिलति वाक्यमपीह वेदे
देयं कराञ्जलिजलं मनुजैः प्रभाते ।
रात्रेर्मुखे च तदहो विफलन्तु तस्मै
तत्तोयदानकरणं जगति प्रदिष्टम् ॥४५॥

प्रातःकाल और सायंकाल सूर्य के उद्देश्य से जल को देना किसी भी वेद-मन्त्र से सिद्ध नहीं होता । इस लिए यह ढंग विफल ही समझना चाहिए ॥ ४५ ॥

कुत्रापि पाकमुपलम्भयता परस्र
 तापं नितान्तमुपयोजयता स्फुटैव ।
 सन्दर्श्यते नियमसङ्गतिरात्मदत्ता
 सूर्येण सर्वभुवनोदरदीपकेन ॥४६॥

इस लोक में प्रकाश करनेवाला सूर्य फलादि वस्तुओं में परिपाक को
 दिखाता हुआ प्रकाश बतला रहा है कि मैं ईश्वर की प्रेरणा से समस्त
 पदार्थों को घटाता बढ़ाता हुआ अपना काम कर रहा हूँ ॥ ४६ ॥

तस्यैव रश्मिषु जलोद्धरणादिशक्ति-
 नाभौ न विद्युति न मानसवह्निभेदे ।
 स्रष्टा चकास्ति तदहो मनुजैर्मुधैव
 सामान्यलोकजठराग्निषु ह्ययतेऽन्नम् ॥४७॥

ईश्वर ने जल आदि पदार्थों के चींचने की शक्तिकेवल सूर्य के ही किरणों
 में दी है। अग्नि, बिजली आदि में नहीं कि जो इस लोक से दूसरे
 लोक में चींच पहुँचा दे। इसलिय सामान्य जनों की पेटरूपी अग्नि में पदार्थ
 बाकना व्यर्थ ही है ॥ ४७ ॥

सामान्यदानपरकं यदि भोजनादि
 सन्दीयते निजफलागमवाञ्छयात्र ।
 तस्मिन्न कोपि विधिरस्ति निषेधको वा
 सर्वत्र विस्तृतिमियं कथना गतैव ॥४८॥

जो भद्र पुरुष अपने लिय सामान्यतया दान की इच्छा से ब्राह्मण-भोजन
 कराते हों तो इसमें न विधि है, न निषेध है, क्योंकि अपना दिया हुआ आपसी
 पाना माना जाता है। वह दान सामान्यतया सबही दीन जनों को देना
 उचित है ॥ ४८ ॥

पञ्चत्वमाप्तवति पञ्चकसंप्रसूते
 पञ्चाग्निसेविनि दशेन्द्रियभावभूते ।

देहे समस्तपरमाणुविशीर्णरूपे

कस्मै प्रदेयमिह सम्प्रति तोयदानम् ॥४६॥

पाँच तत्त्वों से बने हुए पाँच अद्रियों के सेवन करने वाले पाँच ज्ञानेंद्रिय और पाँच कर्मों द्रियों से युक्त मनुष्य-देह के पञ्चत्व होने पर कहिये किसके छिये अन्नदान दिया जाय ? ॥ ४६ ॥

तोयेषु तोयपतनं न फलानुबन्धि

किं वा करिष्यति फलं विफलोद्भिरेकः ।

कोथो भविष्यति गवां गवि योजनेन

भिन्नेषु पञ्चसु नियोजकसूचनाभिः ॥५०॥

यदि अन्न में अन्न गिरा दिया जाय तो क्या फल होगा ? यदि अग्नि को अन्न दिया तो सिवा बुझने के और क्या होगा ? यदि पृथिवी के परमाणुओं को उनसे जोड़ दिया जाय तो अन्न पदार्थ क्या कर सकता है ? इसलिये मरने के बाद अन्न आदि पदार्थों का देना सर्वथा व्यर्थ है ॥ ५० ॥

जीवोऽमरः प्रकृतिबन्धनमाप्य मन्ये

यावन्नु तिष्ठति जडं बहुयोनिभेदैः ।

भूमेस्तत्रे तद्वधि प्रतिभाति देही

मिन्नस्ततो निजफलानि समीहते नु ॥५१॥

अमर जीवात्मा जब जब अन्न रूप प्रकृतियों के बन्धनों को प्राप्त हा जाता है तभी देही कहाया है । उससे मिन्न होकर अपने कर्मों का फल अनुभव करता है ॥ ५१ ॥

अन्वन्तमः प्रतिविशन्ति भवन्ति ये ये

सम्भूतिसंश्रयपरा इति वेदमन्त्रः ।

किं संवत्स्यविरतं न समीक्ष्यते किं

विद्वद्भरैरहरहः क्रियते यदेतत् ॥५२॥

जो जो पुरुष जड़ पदार्थ का सेवन करते हैं वह अन्धतम को प्राप्त होते हैं । यह वेद मन्त्र का अर्थ क्या आप लोगों ने नहीं सुना ? यदि सुना होता तो फिर जड़ देह के उद्देश्य से क्यों जलदान देते हो ? ॥ ५२ ॥

कर्मानुबन्धिनि फले गतचेतनानां
 केषां न सिध्यति गतागततारतम्यम् ।
 तच्चेन्न तर्हि विफलं नु मनुप्रदिष्टं
 लोकान्तरानुगमनं मनुजस्य शक्ये ॥५३॥

फल के कर्मानुरूप होने पर मरे हुए किन पुरुषों का आवागमन सिद्ध नहीं होता ? यदि होता है तो मनुस्मृति में कहे हुए लोकान्तर की प्राप्ति सिद्ध है ॥ ५३ ॥

सूक्ष्माणि कर्मपरिपाकफलानि सूक्ष्मे
 जीवात्मनि प्रतिभवन्तु न मे विषादः ।
 दृश्यानि भोज्यकवलानि कथं प्रयान्ति
 रूपान्तरं प्रतिगतेऽणुनि जीवरूपे ॥५४॥

सूक्ष्मरूप कर्मों के फल सूक्ष्मरूप जीवात्मा के साथ जायें इसमें कुछ आश्चर्य नहीं । क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ के साथ मिटाही करता है । परन्तु मोटे मोटे प्राण सूक्ष्म जीवरूप के साथ किस प्रकार जाते हैं ? यह बड़े आश्चर्य की बात है ॥ ५४ ॥

विद्यातपोनिधिनिभेषु द्रुतं नितान्तं
 विप्राननामिषु सुदुर्गपथान्मनुष्यान् ।
 निस्तारयेदिति वचो मनुना प्रणीतं
 रूपान्तरेण विनियोज्यमितीह भेदः ॥५५॥

जो कि मनुस्मृति में "विद्वानों को देना पापों से छुड़ाता है" ऐसा वचन लिखा है वह यों लगाना चाहिये कि उनको बन, ब्रह्म, अन्नादि देकर विद्या का ग्रहण करना, विद्या होने से ज्ञान, ज्ञान होने से पापों से बचना स्वतः सिद्ध है ॥ ५५ ॥

विद्वद्ब्रजादधिगता बहुभिः प्रयासै-
 विद्येति या जनवरैरनुमोदिताऽऽस्ते ।
 सैवामरत्वमजरत्वमलं तनोति
 निस्तारयत्यपि च दुर्गपथान्मनुष्यान् ॥५६॥

नाना परिश्रमों के द्वारा विद्वानों से ग्रहण की हुई एक विद्या ही मनुष्यों को अजर, अमर बनाकर दुःखों से छुड़ाती है और कोई नहीं ॥ ५६ ॥

विष्टं न वेदविषये ऋषिभिर्न सृष्टं
 दृष्टं न धर्मसदानेष्वपि यत्कथं स्यात् ।
 प्रामाण्यमस्य मनुजैः परिकल्पितस्य
 श्राद्धस्य मन्दमतिमद्भिरलं कृतस्य ॥५७॥

वेद में जिसका नाम नहीं, ऋषियों ने जिसको कहा नहीं, धर्मशास्त्र में जिसको लिखा नहीं, ऐसे ऋद्धजनों के द्वारा चलाये हुए मृतक श्राद्धको किस प्रकार सिद्ध माना जाय ? ॥ ५७ ॥

युक्तिर्न यत्र विषये बुधकल्पितास्ते
 मुक्तिश्च दूरतरमेव यतः परास्ते ।
 तस्मिन्गतं यदि मनो विषये ततः किं
 वेदाविशीलनफलं विफलं समस्तम् ॥५८॥

जिस विषय में विद्वानों की सम्मति नहीं, मुक्ति का पता नहीं, ऐसे मृतक-श्राद्ध में यदि मन लगाता हो तो विद्याभ्यास का होना व्यर्थ ही है ॥ ५८ ॥

विद्याविहीनमतिमन्दमदान्धलोकै-
 रात्मम्भरित्वमुपचर्य मनुष्यलोके ।
 विस्तारितं मिषमिदं प्रभवेत्सुखेन
 यस्मादनल्पजठरानबहोम इत्यम् ॥५९॥

यह जो सूतक श्राद्ध है सो केवल विधाहीन मूर्खों ने दुनिया में पेट भरने का बहाना बनाया है जिससे उदर-पोषण होता रहे ॥ ५९ ॥

नूनं विचारविषयोयमिहास्ति लोके

कर्मानुबन्धनपरः पुनरस्य पितृद्वैः ।

सन्तर्पणापरिकरः कथनानिवन्धो-

नो यौगपद्यमिदमत्र चकास्ति रम्यम् ॥६०॥

यह ज़रा विचार करने की बात है कि कहीं तो यह कहना कि जीवात्मा कर्मों के बन्धनों में फँसा हुआ जन्म लेता है और कहीं फिर चावलों के पिंडों से उसका श्राद्ध तर्पण करना ये दोनों बातें एक साथ नहीं बन सकतीं ॥६०॥

संस्कारविध्यनुमतं नरमेधयज्ञं

कृत्वा न कापि कृतिरेव दिवङ्गतस्य ।

जीवस्य नैगमगतास्ति कुतोत्र लोके

कर्माणि तस्य कलयन्ति जनाः सुमन्दाः ॥६१॥

संस्कारविधि के अनुकूल नरमेधयज्ञ करके मरे हुए शरीर के उद्देश्य से कोई कर्म करना वेद में लिखा ही नहीं है। फिर यह जन क्यों पिण्डादि दिया करते हैं ॥ ६१ ॥

नो जाङ्गलो नरपथो न नदी न तप्ता

सा बालुका न किल वत्सरगस्यमार्गः ।

जीवेऽमरे भवति तत्क्षणालब्धदेहे

सर्वं पुराणमनुजैरिदमत्र सृष्टम् ॥६२॥

अमर जीवात्मा के कर्मानुसार उसी समय में गर्म के शब्द या अंतरिक्ष वायु-मण्डल में जाने पर न कहीं जङ्गल का रास्ता, न कहीं धैतरणी नदी, न कहीं गरम रेत, न कहीं साल भर का रास्ता पड़ता है। ये सब बातें लोगों ने बनायी हैं ॥ ६२ ॥

जीवः शुभाशुभवशेन निजोद्भतेन

नानाफलानुगतजन्मफलानि भुक्त्वा ।

स्वैरेव कर्मपरिपाकफलैरनन्तै-

रात्मानमाविशति कर्मफलानुरूपम् ॥६३॥

जीव अपने किये हुए कर्मों के वश, नाना प्रकार के कर्मों के फलों को भोगकर, अपने अनन्त कर्मों के परिपाक फल से कर्मफल के अनुरूप वेद में प्रविष्ट हो जाता है ॥ ६३ ॥

चिच्छक्तिमानपि जडप्रकृतिप्रसक्तो-

जीवोवकाशवति दुःखमये प्रकोष्ठे ।

मृत्योरनन्तरमवश्यमनुप्रयाति

कर्मानुबन्धपरिपाकवशेन मातुः ॥६४॥

चेतन-शक्तिवाला भी जीव अक्षरूप प्रकृति के बन्धनों में फँसकर एक शरीर छोड़ने के बाद, अपने कर्मों के वश, आकाश के समान, माता के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है ॥ ६४ ॥

तत्रापि वेदमितमासदिनान्तएव

मातुश्चलत्ययमलं जठरे प्रविष्टः ।

निर्गत्य मासि दशमे पुनराप्य लोकं

तेष्वेव रज्यति सुहृज्जनवान्धवेषु ॥६५॥

उस गर्भाशय में भी चार महीने के मांस पिंड में प्रविष्ट हो माता के उदर में खूब फड़फड़ाता है और कर्मों को याद करता है । वहाँ से दश महीने में जन्म लेकर फिर अपने उन्हीं बाँधवों में (जिनमें कि जन्म लिया है) प्रीति-पूर्वक बर्ताव करता है ॥ ६५ ॥

मानुष्यमेति यदि तर्हि एहे तदीये

ये बान्धवाः सपदि ते सुत इत्यवेक्ष्य ।

सर्वामपि प्रतिपदं जनयन्ति तस्य

सेवामहो जगति रीतिरियं प्रसिद्धा ॥६६॥

यदि वह जीव मनुष्य के यहाँ जन्म लेता है तो जिसके जन्म लेता है उसके जितने बान्धव हैं वे पुत्र जान कर उसकी सेवा करने के छिप उद्यत हो जाते हैं । यह संसार में स्पष्ट है ॥ १६ ॥

गोत्वं यदाशु लभते निजकर्मवेगा-

त्तदापि दुग्धजलबालतृणानि भुङ्क्ते ।

शेते वसत्यनुवदत्यनुमोदते वा

तेष्वेव बान्धवजनेषु कृतानुबन्धात् ॥६७॥

यदि निज कर्मों के अनुसार पशुता को प्राप्त होता है तो वहाँ भी दूध, पानी, घास पाया करता है और वहाँ सोता है, बैठता है, बोछता है और प्रसन्न होता है ॥६७॥

एवं पतङ्गकुमिकीटभवेषु नाना-

मार्गेषु तत्तदुपसाधनमूषितेषु ।

जीवो जगत्यनुदिनं जनने मृतौ वा

तिष्ठन्प्रयाति भुवनेषु कृतैः स्वकृत्यैः ॥६८॥

इस प्रकार उन उन सामग्रियों से सुन्दर पतंग, कृमि आदि-अन्य नाना मार्गों में रहता हुआ जीव प्रति दिन संसार में जन्म या मरण-रूप से आधागमन में फँसा हुआ अपने किये हुए कर्मों से नाना लोकों में घूमता रहता है ॥ ६८ ॥

अत्यन्तनीचतरकर्मवशेन लोके

वृक्षाभिधामपि गतिं समवाप्य शङ्के ।

रूपान्तराणि परिवर्तयते समन्ता-

जीवोयमीश्वरफलानुगमैरुपेतः ॥६९॥

अत्यन्त नीच कर्मों के वश से वृक्षरूपता को प्राप्त होकर ईश्वर के दिये हुए अपने कर्मों का फल भोगता हुआ जीव नाना रूपों में घाया आया करता है ॥ ६९ ॥

लोके रथाङ्गपरिवर्तिनि लक्षशोत्र
 जीवो गतागतफलानि समापयन्सन् ।
 मुक्तिं न याति यदि याति तदान्तरिक्षे
 सूक्ष्माणुभिः सह स तिष्ठति वातबद्धः ॥७०॥

रथ-शक के समान चलते फिरते इस संचार में जीव लाखों योनियों में आवागमनों के द्वारा आता जाता हुआ पहले तो मुक्ति को प्राप्त ही नहीं होता और जो होता भी है तो वायु-रूप में संबद्ध होकर अंतरिक्ष के बीच परमाणुओं के साथ रहा करता है ॥ ७० ॥

एवं वदत्यखिलयोगपतौ समस्ता
 विद्वद्भ्यौरुपचितापि सभावतस्थे ।
 विश्रान्तवीचिरधरीकृतसर्वतोया
 वेलेव सागरवरस्य विमूकभावात् ॥७१॥

महर्षिजी के ऐसे कहने पर नाना विद्वानों से भरी हुई वह सार्वभौम समा गम्भीर समुद्र-वेला के समान शान्ति को प्राप्त होगई ॥ ७१ ॥

वेदान्तरे जवनिकापतनाय संस्थे
 विश्रस्य नागदलचर्वणदत्तचेताः ।
 नानादिदृजुजनसंशयनिर्णयाय
 योगी जगाद पुनरप्यपरां गिरं ताम् ॥७२॥

कुछ देर के बाद दूसरे वेद का पर्दा बदलने पर वह महर्षि पान खाने से अपना परिश्रम दूर कर नाना विद्वानों का संशय दूर करने के लिये फिर भी अमृतरूप व्याख्यान देने लगे ॥ ७२ ॥

तीर्थं तदेव निगदन्ति बुधाः प्रशस्तं
 वेदानवाप्य सकलाङ्गपरान्तु यस्मिन् ।

मृत्योर्मुखाच्च्युतिमवाप्य विमुक्तदुःखो-
जीवोमरत्वमुपयाति निरस्तदोषः ॥७३॥

पण्डित जन तीर्थ उसी को कहते हैं जहाँ पर जाकर छः ऋणों सहित चारों वेदों को पढ़कर, निरस्तदोष जीव मृत्यु के डर से छुटकारा पा, अमर पदवी को प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्थान केवल गुबकुळ ही हो सकता है ॥ ७३ ॥

गङ्गादिसङ्गमपयोधिजलेषु यर्हि
तीर्थत्वबुद्धिमाधिगम्य जनोऽमरः स्यात् ।
मन्ये न कोपि भुवनेषु तदानुतिष्ठे-
त्तिष्ठेच्च तर्हि न फलोपगमः समेयात् ॥७४॥

गङ्गा आदि नदियों के संगमों में तथा समुद्रों में जो तीर्थ-बुद्धि से स्नान करके मनुष्य अमर हो जाय तो सारा ही भारतवर्ष अमर पदवी को प्राप्त होना चाहिये। यदि नहीं होता तो उन तीर्थों का माहात्म्य विफल मानना चाहिये ॥ ७४ ॥

गङ्गोति नाम कथनेन जनो यदि स्या-
न्मुक्तः शतैकमितयोजनतोपि मन्ये ।
नाना नदीनदपयोनिधिकीर्तनेन
सर्वेपि मुक्तदुरिताः प्रभवेयुरारात् ॥७५॥

जो मनुष्य एक गङ्गा के नाम छेने से ४०० चार सौ कोस पर बैठे हुए भी मुक्ति को प्राप्त हो जाय तो सारे भारतवर्ष में फैली हुई नर्मदा आदि और नदी तथा घोखमद्र आदि नद और समुद्रों के नाम से तो फिर पृथिवी मनुष्यों से सर्वथा ऋणी होजायी चाहिये ॥ ७५ ॥

तीर्थोपकण्ठगतपत्तनमानवाना-
मेकान्ततः प्रतिगतेऽविफलेऽमरत्वे ।
कुत्राकृतं क्व विकृतं क्व कृतं क्व सत्यं
पापं क्व पुण्यमपि कुत्र शुभाशुभं क्व ॥७६॥

जो तीर्थों का माहात्म्य सच्चा है तो उनके पास पास बसे हुए ग्रामों में रहने वाले मनुष्यों को एक तरफ़ से मुक्ति हो जाने पर सब वस्तियाँ उजाड़ हो जानी चाहिए और फिर अच्छा-दुरा, पाप-गुण्य, करा-धरा, कुछ भी नहीं होना चाहिए ॥ ७६ ॥

कालं यमाप्य किल तीर्थमतिर्जलेषु
लोकैः कृता तदवधेरहृहप्रकामम् ।
दारिद्र्यदुःखभयशोकविमोहयोगाः
प्रादुर्बभूवुरतिमन्दमतिप्रयोगाः ॥७७॥

जब से भारतवर्ष में मनुष्यों ने जल में तीर्थ-बुद्धि की है तभी से नाना मतों का समावेश, दरिद्रता, भय, रोग, शोक, मोह अधिक बढ़ने लगे हैं ॥ ७७ ॥

सत्यानि तातगुरुमातृपदोदकानि
तीर्थानि मूढमतिभिः प्रविहाय लोके ।
कुण्डोदकेषु बहुकोलविलोडितेषु
तीर्थत्वबुद्धिरधुना विहिता ततोदः ॥७८॥

जबसे अज्ञानी मनुष्यों ने सच्चे माता, पिता, गुरु की सेवा छोड़ कर ताँलावों के पानी में तीर्थ-बुद्धि की है तभी से नाना पापों का प्रादुर्भाव हो गया है ॥ ७८ ॥

मिथ्याप्रशस्तियुततीर्थजलोपकरणे
वासानवाप्य सुलभोदरपूरणार्थान् ।
विद्या समस्तसुखदा मनुजैर्विसृष्टा
लब्धा च दीनतरहीनगतिः समन्तात् ॥७९॥

झूठी प्रशंसाओं से युक्त तीर्थों के ऊपर अपना निवास बनाकर लोगों ने अपनी वेद-विद्या को छोड़ और मागने जाने पर कमर बाँधली इसीसे वे प्रति दिन विद्या-हीन, दरिद्र और दुःखी होते जाते हैं ॥ ७९ ॥

मिथ्यैव कल्पितमिदं प्रतिभाति लोके
 तोयेषु तीर्थमननं न बुधैः कदापि ।
 विश्वासबुद्धिमधिगम्य विवेचनीयं
 बोध्यञ्च सर्वनरकोदयगोपुरामम् ॥८०॥

जलों में तीर्थ-बुद्धि की कल्पना मिथ्या ही है । विद्वान् ऐसा नहीं मानते ।
 इसीछिपे चार्य जन इसमें विश्वास न करें और सम्पूर्ण नरकों का दरवाजा
 इसे जान इससे सर्वदा बचे रहें ॥ ८० ॥

अग्निर्वपुषि विमलानि भवन्ति सत्यै-
 श्चेतांसि भूतपदवाच्यमिदं शरीरम् ।
 विद्यातपोबलवशाद्धिपणाविशिष्ट-
 ज्ञानेन शुद्धिमुपयाति न तीर्थतोयैः ॥८१॥

शुद्ध अह से शरीर, सत्य से चित्त, विद्या और तप से भूतात्मा और ज्ञान
 से बुद्धि शुद्ध होती है, तीर्थ अह से नहीं ॥ ८१ ॥

यस्मिन्कृताह्वन एष मनुष्यलोको-
 देवे नियोजितमनाः प्रभवत्यलन्तत् ।
 तीर्थं न तीर्थमिदमस्ति जलैः प्रपूर्णं
 यन्मध्यगाः सुमतयो मरणं लभन्ते ॥८२॥

जिसके बीच में स्नान करके मनुष्य ईश्वर में वृत्त-चित्त होता है बुद्धिमान्
 जन उसी को तीर्थ कहते हैं । जहाँ पर स्नान करते करते आपही डूब जाय
 ऐसे कुण्डों के पानी को तीर्थ नहीं कहते ॥ ८२ ॥

लब्ध्वापि मानवशरीरमिदं प्रशस्तं
 ये मानवा निगममार्गमपास्य लोके ।
 यादृच्छिकान्यभिसरन्ति मतानि तेऽरं
 नाशम्प्रयान्ति किमतःपरमत्र वाच्यम् ॥८३॥

इस संसार में जो हजारों वर्षों के कमाये हुए पुण्यों के बदले में पाये हुए इस मनुष्य-देह को जैसे जैसे पाकर वेदोंक कर्मों को नहीं करते और यथेच्छ नाना मतों का प्रचलन करते हैं वे सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ८३ ॥

एवं निरस्तबहुतीर्थपथः स योगी

लोके पुराणकथनामपि नाशमूलाम् ।

मत्वा तदुन्मुखमपि स्वमनः प्रचक्रे

चक्रे च खण्डनमलं निजवाग्विनोदैः ॥८४॥

इस प्रकार पूर्णरूप से तीर्थों की लीला का सण्डन कर महर्षि ने इस संसार में पुराणों की कथाओं को भी नाश का मूक समझ कर व्याख्यान देते समय उनका सण्डन किया ॥ ८४ ॥

येयं पुराणरचना मनुजैर्नवीना

विख्यापितास्ति भुवने नरकप्रधाना ।

सापीदृशं विषयभावफलं प्रसूते

यत्प्राप्य मानवशरीरमिदं न यायात् ॥८५॥

नरकों में ले जाने वाली यह जो पुराणों की नवीन रचना मनुष्यों ने इस संसार में फैलाई है वह भी ऐसा बुरा फल देती है जिसको प्राप्त हो मनुष्य कदापि मनुष्य-जन्म नहीं पा सकता ॥ ८५ ॥

ऋष्यादिसज्जनमिषेण नवानि तेषु

वाक्यानि वेदविधिभेदपराणि यत्नात् ।

विन्यस्य पूर्वऋषयोपि कलङ्कलिताः

किं नो कृताः कपिलदेवमुखा विमूढैः ॥८६॥

उन पुराणों में यत्नों से वेदों के विशुद्ध अक्षरों को नवीन रूप से रच कर नाना ऋषियों के नामों को कलंकित करने के लिये क्या मूर्खों ने भीड़ा नहीं उठाया है ? ॥ ८६ ॥

वेदान्तदर्शनकरः क्व मुनीश्वरोसौ
 व्यासः क्व भागवतलेखकबोपदेवः ।
 मन्दैरमन्दचरितोपि समं प्रयुक्तो-
 मन्येऽसमानरचनापटुभिः पुराणैः ॥८७॥

वेदान्तदर्शन के बनाने वाले कहीं महर्षि व्यास और कहीं भागवत का बनाने वाला बोपदेव । तथापि अज्ञो ने उन दोनों की रचनाओं में भेद न जानकर बोपदेव की रचना को व्यासजी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया ॥ ८७ ॥

कृष्णं शिवं हरिमुखानपि राजवर्यान्
 मिथ्यावचोभिरभितः परिवेष्टयन्ती ।
 शङ्के परस्परविरोधवशान्नितान्तं
 विश्वं निपातयितुमेव पुराणदीक्षा ॥८८॥

शक्ति, शिव, हरि इनको भी पौराणिकों ने झूठा दोष लगा लगा कर दुनिया में विद्वेष बढ़ाने की गरज से कहीं शिवपुराण, कहीं विष्णुपुराण बना कर तैयार कर दिया ॥ ८८ ॥

वेदोदितं विलयमेव जगाम सर्वं
 पापोदयः प्रतिपदं प्रजगाम वेगम् ।
 नाशं गता ऋषिमुनीशपरम्परा सा
 कालाद्यतः किल नवीनकृतिर्बभूव ॥८९॥

जब से इस भारतवर्ष में नवीन पुराणों का प्रादुर्भाव होने लगा तभी से वेद का प्रचार उठ गया, प्रति दिन पापों का उदय होने लगा, ऋषि-मुनियों की चलाई हुई प्रथा नष्ट हो गई ॥ ८९ ॥

वक्तव्यमस्ति किमतः परमत्र लोके
 वर्णाश्रमादिरचनैव मनुप्रदिष्टा ।

नीता लयं पुनरिदं जगदप्यनन्तम्

सम्प्रापितं नवमतानुगतैः पुराणैः ॥६०॥

इससे अधिक क्या कहना है कि इस संसार में मनुस्मृति में बतलाई हुई वर्णाश्रमों की व्यवस्थाही इन नये पुराणों ने नाश कर दी। भारतवर्ष को भी उच्च पदवी से पाताल में गिरा दिया ॥ ९० ॥

कुत्रापि कंसचरितं क्वचिदप्युपात्तं

रामादिमानवकृतेरनुवर्तनं तत् ।

गोपीविजासकरणं दधिचौर्यलीला

कुत्रापि चीरहरणादिकमप्रशस्तम् ॥६१॥

इन पुराणों में कहीं रामलीला, कहीं कृष्णलीला, वर्णन कर सारे विश्व को बहका दिया। कंस का युद्ध, दही का चुराना, चीरों को लेकर वृक्षों पर चढ़ जाना, यह कृष्ण का माहात्म्य वर्णन कर अच्छा काम नहीं किया ॥ ९१ ॥

एवं समस्तमनुजैर्निजकर्मदीक्षा-

मुक्ता पुराणकथनानुगतिः प्रदिष्टा ।

लोके यतः समभवत्ततएव मन्ये

नाशो मुनीश्वरगिरामतिबुद्धिगम्यः ॥६२॥

जबसे भारतवर्ष में पौराणिक-लीलायें फैलने लगीं तबसे मनुष्य अपने अपने कर्मों को छोड़कर कुकर्मों में लगने लगे और तभी से ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों का पठन-पाठन का क्रम कम हो गया ॥ ९२ ॥

वैधव्यवर्धनपरामपि काश्चिदत्र

लोके नवीनरचनामपरेण पुंसां ।

निर्माय सर्वजगतीतबतो नियोगो-

निर्वासितः प्रतिगतोस्ति विशाम्मुखेषु ॥६३॥

एक काशीनाथ ने वैद्यकी वृद्धि के लिए एक 'शीघ्रबोध' पुस्तक को बनाकर इस देश से नियोग को दूर कर दिया। इसीलिए आज कुछ विषय-घातों की अधिकता होने लगी ॥ ९३ ॥

किं किं ब्रवीमि चरितं नववाक्यभाजां
मिथ्याभिचारवचनैरभिपूरितानाम् ।
वाक्येषु विश्वसनमेव पुराणनाम्नां
नो कार्यमार्यपदवीं प्रगतैर्मनुष्यैः ॥६४॥

पुराणों का चरित्र मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। यही कहना उचित है कि इनके बनाये हुए पुराणों में आर्य पुरुषों को कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए ॥ ९४ ॥

यद्दर्शनादपि मतिर्विमितित्वमेति
चित्तं विकारमुपयाति वचोपि भेदम् ।
सा दूरतः कविजनैरलमाशु ह्येया
सर्वा पुराणचरितानुगता कथापि ॥६५॥

अिनके दर्शनों से मति भ्रष्ट हो जाती है, मन विकार को प्राप्त होजाता है, वाणी मिथ्या दोषग्रस्त हो जाती है, ऐसे पुराणों को बुद्धिमान् जन कदापि न देखें ॥ ९५ ॥

एवं न यावदयमात्मपरः स्ववाचं
पूतिं निनाय कथमप्यपरार्थनाभिः ।
तावत्तदीयनवकीर्तिनटी सभाया-
मागत्य नास्यमकरोन्महनीयवेशा ॥६६॥

इस प्रकार जब तक महर्षिजी ने अपना वक्तव्य भी पूर्णरूप से समाप्त न किया तभी तक मनुष्यों को विग्राम देने के लिए कीर्ति विकसित प्रारम्भ होने लगा ॥ ९६ ॥

दृष्ट्वा समस्तमनुजानयमेकदेवो-
रङ्गान्तरङ्गपरिहासविनासवद्भान् ।

योगक्रियामनुचकार परात्मनिष्ठा-

मन्ते च वाचमुचितां गवितुं समस्थात् ॥६७॥

महर्षिजी भी समस्त सभ्यो को रक्षाला में मग्न देखकर अपनी योग-
क्रिया में तत्पर होगये । तदनन्तर बहुत मनुष्यों की प्रार्थना से कुछ विषय
कहने के लिए फिर उपस्थित होगये ॥ ६७ ॥

वृष्ट्वा मुनिं किमपि वक्तुमुदारभावं

मन्दा वभूव नवनाटकपात्रशोभा ।

भासास्पतौ समुदयं प्रगते क भाति

दीपावली करणकारणभाववद्धा ॥६८॥

महर्षिजी को कुछ कहने के लिए तैयार देख कर समस्त नाटक-पात्रों की
मण्डली मन्द होगई । ठीक है, सूर्य के उदय हो जाने पर कारण-कार्य-भाव
वाली दीपकों की शोभा मन्द होही जाती है ॥ ६८ ॥

अत्रान्तरे विबुधवृन्दमनोविनोदं

कर्तुं पुनर्बुधगुरुः प्रकटीचकार ।

वाचं महाशमपरिपूजनखण्डनोत्थां

भावाभिरामवचनो यमिनां वरिष्ठः ॥६९॥

उसी समय महर्षि विद्वानों का चित्त फिर भी प्रसन्न करने के लिए
मूर्ति-पूजा का सारी विषय लेकर नाना युक्ति और प्रमाणों के द्वारा बण्डन
करने लगे ॥ ६९ ॥

बुद्धं न वेदविषये मुनिभिर्न यत्र

वत्तास्ति सम्मतिरलं विहितं न शास्त्रे ।

पाषाणपूजनमिवं कथमत्र लोके

सम्भूतिमाप्तमिति मे नितरां विषादः ॥१००॥

जो बूँदने पर भी वेदों में नहीं पाया जाता, मुनियों ने जिसमें सम्मति नहीं की, शास्त्रों में जिसका नाम तक नहीं मिलता ऐसा यह पाषाण-पूजन कम से कम ! यह बड़े दुःख का भवसर है ॥ १०० ॥

कुत्रेश्वरः सकलविश्वगतः क्व चेयं
तन्नावना लघुदृषच्छकले प्रवृत्ता ।
मन्येऽनुजैनमतमेव समाश्रितेयं
मन्दैर्महान्धनिरयाभिगमप्रवृत्तिः ॥१०१॥

कहाँ सर्वशक्तिमान् ईश्वर, कहीं छोटे से पत्थर के टुकड़े में उसकी भावना ! मालूम होता है, कि जैन और बौद्ध मत के बावही यह छीला फेंकाई गई है । क्योंकि उनसे पहले इतिहासों में इन बातों का वर्णन नहीं मिलता ॥ १०१ ॥

वेदोपि यं करणवर्जितमेव धत्ते
शास्त्रेपि यस्य जठरागमनं न दिष्टम् ।
तस्येश्वरस्य कथमेकतनौ विकारो-
मृग्यः कपोलपरिकल्पितवाग्विवासैः ॥१०२॥

वेद भी जिसको अरूप बतला रहा है, शास्त्रों में भी जिसका पेट के भीतर आना नहीं लिखा, उस ईश्वर का मनुष्यों की बनाई हुई कपोल-कल्पनाओं से एक शरीर में आना किस प्रकार माना जाय ? ॥ १०२ ॥

यः कारणं सकलसंसृतिसम्भवस्य
वेदेष्वलं विलिखितोस्ति कथं नु तस्य ।
आवाहनं किमुपने परतो विसर्गः
प्राणागमश्च रचितो निगमानभिज्ञैः ॥१०३॥

जो ईश्वर समस्त संसार का वेद में कारण माना गया है, उस ईश्वर का पाषाण की बनाई हुई मूर्ति में आवाहन और विसर्जन तथा प्राण-प्रतिष्ठापन वेद के न जाननेवाले भदानी लोग न मालूम किस तरह करते हैं ? ॥१०६॥

कुत्राश्मनिर्मितमुखादिमयी जडा सा
मूर्तिः क्व शक्तिमहितो जगदेकनाथः ।
मन्वेर्मुधैव रचितेयमहो नवीना
लीला निजोदरमहोदधिपूरणाय ॥१०४॥

कहाँ शालों के द्वारा बनी हुई जड़-पाषाणों की मूर्तियाँ और कहाँ संसार भर का प्रबन्ध करने वाला परमेश्वर ! मेरी सम्मति में तो उद्यम-शून्य भद लोगों ने अपने पेट भरने का यह खेल बना रक्खा है ॥ १०४ ॥

येन स्वसृष्टिसमये सकलेष्टदानि
भूतोयवङ्गिरविचन्द्रनिभानि तानि ।
वस्तूनि विस्तृतिमलं बहु यापितानि
तस्येश्वरस्य मनुजैः क्रियते प्रहासः ॥१०५॥

जिस ईश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि भर में समस्त प्राणियों के लिए सुख देनेवाली हज़ारों चीजें बनाकर पहाड़े ही से तैयार कर दीं, उस ईश्वर की इन लोगों ने कैसी हँसी उड़ाई है ॥ १०५ ॥

शून्यां विधाय विकृतिं परमेश्वरस्य
नैवेद्यदीपकजलादिपदार्थजातम् ।
संस्थाप्यते तदपि दर्शनमात्रमेव
नो वस्तुतो गतधियां धिगिमां प्रवृत्तिम् ॥१०६॥

आज कल के लोगो ने उस सर्वव्यापी परमेश्वर की शून्य कोठरी में एक छोटी सी मूर्ति रखकर उसके सामने दो बत्ताशे, थोड़ा सा पानी रखकर क्या दिव्यगी उड़ाई है ! ॥ १०६ ॥

जनैः पुरा सुगतमूर्तिरलं प्रविष्टा
लोपङ्गते सुगतनाम्नि जने कथञ्चित् ।

पौराणिकैरपि ततो रचिता नराणां

रामादिनामखचिता प्रतिमा जगत्याम् ॥१०७॥

सबसे पहले जैनो ने सुगताचार्य के मरने पर उसकी प्रतिमा बना कर मन्दिरों में रखी थी। उनकी देखादेखी पौराणिकों ने भी रामचन्द्र आदि महात्मा की मूर्तियाँ बना बना कर अपने मन्दिरों में रखीं ॥ १०७ ॥

तेषाम्मते वसनभूषणवर्जिताऽऽस्ते

मूर्तिः परत्रवसनाभरणादिरम्या ।

वेविद्यते जगति या सकलेपि वेगात्

सर्वापि शङ्करपदैरिह नाशितैव ॥१०८॥

जैनो के मत में बस्त्राभूषणो रहित नग्न मूर्ति का स्थापन हुआ करता था। पौराणिकों ने भी उनसे विरुद्ध बस्त्राढंकार सहित युगल मूर्ति को मान लिया। परन्तु जगद्गुरु शंकर स्वामी ने जैनो प्रकार की मूर्तियों का पूर्वरूप से खण्डन किया और शाक्त, पाशुपत, कापालिक आदि मतों का भी अच्छे प्रकार खण्डन किया ॥ १०८ ॥

कुत्रापि कश्चिद्वशेषमितो जगत्यां

जैनो बभूव समये किल शङ्करस्य ।

तेनेदृशी पुनरियं जडता जगत्यां

तेने ततः प्रचलितेयमहोत्रपूजा ॥१०९॥

जब शंकर स्वामी ने राजा सुवम्बा को अपने मत में कर एक ओर से सब जैन-बौद्धों को नामावशेष कर दिया उसी समय कोई दवा-छिपा जैनी बच गया था। उसने फिर भारतवर्ष में अपना ढंग फैलाया जिसकी देखा-देखी पौराणिक भी वैसे ही करने लगे ॥ १०९ ॥

सन्त्यज्यतामतङ्गं विबुधैः प्रकामं

पूजा दृषच्छकलकल्पितमूर्तिभावा ।

भावावलोकनपरा परमेश्वरस्य

चित्ते सदैव भवतान्भवतां सुबुद्धिः ॥११०॥

इसलिय हे विद्वानो, पाषाण के टुकड़ों में तुम ईश्वर-बुद्धि को छोड़ो । ईश्वर तुम्हारे लिय वेद-विषयों के देखने वाली सुबुद्धि को सर्वदा दें । यह महर्षिजी का आशीर्वाद पूर्वार्ध के अंत में जानना ॥ १० ॥

एवं यतौ वदति पुण्यगिरं समस्ता

विद्वत्सभा फलितभाववती बभूव ।

मेघे यथाऽविरतवर्षिणि सा धरित्री

सस्यानुरूपफलिनी भवति प्रसन्ना ॥१११॥

पूर्वकूप से वर्षा करने वाले मेघों के समागम में जैसे पृथिवी प्रफुल्लित होकर नाना प्रकार के फलितों को दिखाती है वैसेही महर्षिजी की असुत-रूपी वाली सुनने पर समस्त विद्वानों की सभा निःसन्देह होकर परमानन्द को प्राप्त होगई ॥ १११ ॥

दृष्ट्वा नटीविलसितं समवाप्य चाज्ञां

योगीश्वरस्य निजयानवरैर्जगाम ।

नानाभुवस्तलगतानि पुराणि हर्षा-

देषा सभान्तरजनावनिरादरेण ॥११२॥

महर्षिजी के व्याख्यान के अनन्तर रङ्ग-मण्डप के अन्तर्गत समस्त विद्वानों की मण्डली थोड़ी सी देर तक यशोरूपिणी नटी का धिक्कास देकर योगीश्वर से आजा पाकर, आदरपूर्वक भारतवर्ष के अन्तर्गत अनेक नगरों को यथोचित यानों में बैठ बैठ कर चढ़ने लगी ॥ ११२ ॥

लोकं गते नवनटीयमलं प्रयाता

चन्द्रोपकण्ठमितरापि ययौ यथेच्छम् ।

पात्री विगङ्गनगतानि शुभस्थलानि

गायन्यशोस्य परमं परितः प्रसादात् ॥११३॥

विद्वानों के जाने पर यशोरूपिणी नदी भी चन्द्रलोक को चली गई। कीर्ति के शुक्लत्व होने से चन्द्रलोक में समावेश होना उचित है। वेदरूप नाटक-पानी भी विशाचों के अन्तर्गत नाना शुभ स्थलों को अपनी अपनी इच्छा के अनुकूल आनन्दपूर्वक चली गई। समस्त भारतवर्ष में वेदों का प्रकाश हो गया, यह अभिप्राय है ॥ ११३ ॥

योगीश्वरोपि जयवद्धमनाः प्रकामं

मत्वा जगत्रयमिदं भवनं जयस्य ।


हर्षेण वर्षितुमशेषजनावलोक्यं

मेघत्वमाप निगमोदितधर्ममध्यम् ॥११४॥

विजय में दस-चित्त योगीश्वर भी तीनों लोकों को जय का स्थान समझ कर समस्त सृष्टियों के देने वाले धर्मरूप जल के धराने की इच्छा से मेघ के समान माननीय बन गये ॥ ११४ ॥

इति श्रीमदक्षिप्तानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्दविम्बिजये महाकाव्ये-

ऽवैदिक-मत-निराकरणो नाम दशमः सर्गः ।





एकादशः सर्गः

अथ स्वविद्याविषयोत्सुको यति-
दिगन्तरेषु प्रविसारयन्प्रभाम् ।
मुहुर्दिदीपे तिमिरं विदारयन्
दिनोदये भानुरिवातिदुःसहः ॥१॥

इसके अनन्तर वेद-विद्या के प्रचार में मन लगानेवाले समस्त विद्वानों में प्रकाश फैलानेवाले, बंधकार के मिटानेवाले, उदयकाळ के सूर्यरूप स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रकाश करने लगे ॥ १ ॥

यथायथं फल्गुपुरे विनिर्मितं
समस्तवेदोदितपुस्तकोच्चयम् ।
विमुद्गयिष्यन्प्रययौ स काशिकां
निजप्रतापैरधरीकृतामपि ॥२॥

प्रद्वेषावाद् में बनाये हुए अपने ग्रन्थों को छपाने के छिपे अपने बड़ से अनेक बार परास्त की हुई काशी को छाप फिर भी पधारें ॥२॥

स कम्पिनीशाय समर्प्य पुस्तका-
न्यगावरं जौनपुरं दिनत्रयम् ।

विरम्य तत्राप्युपदिश्य निर्ययौ

पुरीमयोध्यामति हर्षनिर्भरः ॥३॥

वहाँ—छाजरस कंपनी के मैनेजर को—अपनी पुस्तकें देकर आप जौनपुर पहुँचे और तीन दिन वहाँ ठहर कर उपदेशों द्वारा समाज स्थापित करके वहाँ से दयानन्दपूर्वक अयोध्या को चले गये ॥ ३ ॥

निरुध्य तीरे सरयूनदीगते

गतिं निजामेष विशेषदीप्तिमान् ।

तथा प्रचक्रे रघुनाथखण्डनं

यथा न कोप्यत्र चकार निर्मयः ॥४॥

अयोध्या पहुँच कर सरयू नदी के तट पर आपने अपने ठहरने का प्रबन्ध किया और निर्मय होकर अवतारवाद का ऐसा खण्डन किया जैसा कि आज तक वहाँ पर किसी ने नहीं किया था ॥ ४ ॥

किमस्ति रामे परमात्मलक्षणं

विलक्षणं किं प्रतिभाति लक्ष्मणे ।

अजस्य सूनावपि किं मुनीश्वरो-

विवासितो येन मतेऽङ्गबुद्धिना ॥५॥

अब उसी को दर्शाते हैं—रामचन्द्रजी में परमात्मा का कौनसा लक्षण घटता है ? कोई नहीं । लक्ष्मण में औरों से क्या विलक्षणता है ? कुछ भी नहीं । हाथी समझकर जिसने रात्रि में अक्षय ऋषि के एकछोते पुत्र को मारहाला ऐसे अज के पुत्र दशरथ में भी क्या विशेषता थी ? कुछ नहीं ॥५॥

न कर्मभोगो विलयं प्रयात्यलं

सहस्ररामैरपि कैकवर्णना ।

विनिर्मितं यत्परमात्मना स्वके

ललाटवेशे तदहो विलोक्यताम् ॥६॥

जो परमात्मा ने हमको कर्मों का भोग दिया है वह एक रामचन्द्र के नाम से क्या, हजारों रामचन्द्रों के नाम लेने से भी नहीं मिट सकता । इसलिये कर्मों के अनुकूल फल भोगते हुए अच्छे मार्ग में प्रवृत्त हो ॥ ६ ॥

शरीरमेतन्न पुनर्भवादृशां

भविष्यतीति प्रविचार्य मे मनः ।

भवादृशेष्वेव जनेषु सर्वदा

निजोपदेशैः प्रकरोति सम्मदम् ॥७॥

यह मनुष्य शरीर आप लोगों को फिर दुबारा सहज नहीं मिलेगा । ऐसा विचार कर मैं आप लोगों में उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ, और मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ७ ॥

इतिप्रकारैः कतिचिद्दिनान्ययं

विरम्य योगी सरयूनदीतटे ।

जगाम लोकैरनुमोदितस्ततो-

विलक्षणं लक्ष्मणपत्तनं क्रमात् ॥८॥

इस प्रकार कुछ दिन सरयू नदी के तट पर आप उपदेश देते रहे । फिर बहुत से मनुष्यों के बुझाने पर आप यहाँ से लक्ष्मणौ चले गये ॥ ८ ॥

विधाय ततोत्तममन्दिरे स्थितिं

महोपदेशानपि चोत्तमोत्तमान् ।

मुदैव मेने विजयं जनोद्गतं

स योगिवर्यो नुतपादपङ्कजः ॥९॥

यहाँ पर आप रायबहादुर विक्रमसिंह की कोठी में ठहरे और बराबर उपदेशों द्वारा अनेक पुरुषों को वैदिक धर्म में प्रवृत्त देख कर अत्यन्त संतुष्ट हुए ॥ ९ ॥

समागतैरात्मसमीपमावरान्

महाशयैः साकमयं यतीश्वरः ।

समाधिवाग्भिर्विनयन्विशङ्कितां

निनाय कालं कमपीह नीतिगः ॥१०॥

छाछा मजळाळ आदि कई महाशय आप से धार्मिक विषय पर बात-
चीत करते थे और अपने सन्देह निवारण किया करते थे ॥ १० ॥

विदेशवर्णागमवाञ्छया मुनि-

विदेशवासोत्सुकचित्तकल्पनैः ।

विनीय कालं विनयैर्नयैरलं

जगाम तस्मादपि पत्तनादरम् ॥११॥

ढोगों के कहने सुनने से यहाँ पर आपने कई भाषाओं में लिखना आरम्भ
कर दिया था । वह इसलिये कि यदि इस देश से बाहर जाने का काम पड़े
तो ये भाषायेँ काम आवें ॥ ११ ॥

पुरान्तरे विश्रममाप्य योगिना

कृता तथा सा महती जनस्थितिः ।

महोपदेशैरघुनापि सा यथा

विवर्धते चन्द्रकलेव नित्यशः ॥१२॥

कुछ दिनों के बाद स्वामीजी लखनौ से शाहजहाँपुर चले गये और वहाँ
आकर उपदेशों के प्रभाव से बड़ा भारी समाज स्थापन किया ॥ १२ ॥

निशम्य तज्जैल्यशोविजृम्भितं

बुधाः समेता इह दर्शनोत्सुकाः ।

न सम्ममुर्हर्षवशेन योगिनां-

निदर्शनं किं न करोति मङ्गलम् ॥१३॥

आपके यश को सुनकर वहाँ पर शहर उधर के बहुत से पण्डित आकर
आपका दर्शन किया करते थे, क्योंकि योगियों का दर्शन क्या क्या मङ्गल
वहाँ करता ? ॥ १३ ॥

पुनर्बरेलीत्याभिधे पुरान्तरे
 धनप्रगोप्तुर्नववाटिकामितः ।
 कृतार्थयन्दर्शनभाषणोत्सुका-
 नयं प्रतस्थे नगरान्तरं जनान् ॥१४॥

वहाँ से फिर आप बरेली चले गये और वहाँ पर कज़ांची लक्ष्मीनारायण की कोठी में, जो कि बगीचे के भीतर थी, निवास किया। सायही उपदेशों द्वारा दर्शन एवं भाषण के लिये आये हुए श्रद्धालुओं को कृतार्थ करते रहे ॥ १४ ॥

स कर्णवासे निजपूर्वमानवै-
 रत्नं वृतोनल्पदिनानि संवसन् ।
 समं समन्तावभिवर्द्धितोत्सवं
 ययौ हरिप्रस्थमनन्तकीर्तिदम् ॥१५॥

वहाँ से थककर आप कुछ दिन कर्णवास छोड़े और पहले भिडे हुए डाकुर लोगों से मिलकर दिङ्गी-बरवार में, जो कि सन् १८७७ ई० को हुआ था, उपदेश देने के लिये पहुँचे ॥ १५ ॥

समागते पूर्वत एव निर्मिते
 यथायथं वाडिमवाटिकोदरे ।
 विरम्य रम्ये पटमण्डपे यति-
 स्ततान सर्वात्मतयैव सद्यशः ॥१६॥

आपके आने से पहले ही दिङ्गी में शेरमठ के अनासनाग में कई सज्जनों ने आपके उतरने के लिये शामियाने और डेरे लगा दिये थे। उन्हीं में आपने जाकर विश्राम किया और अपना काम आरम्भ किया ॥ १६ ॥

निजं समुद्देश्यमिदं समभ्यधा-
 वयं महात्मा नितरां भुवस्तले ।

महाशयान्वैदिकधर्मवृद्धये

समागतोहं पुरमेतदादरात् ॥१७॥

आपको न जानते हुए कई पुरुषों ने आपके पास आकर दरबार में आने का कारण पूँछा । आपने उसके उत्तर में यही कहा कि मैं यहाँ पर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए आया हूँ ॥ १७ ॥

यथा समस्ते भुवने विजृम्भतां

स वैदिको धर्मपथः सदातनः ।

तथा भवद्भिः क्रियतामसंशयं

जयो भविष्यत्याखिलेपि भूतले ॥१८॥

समस्त भारतवर्ष में जिस प्रकार शीघ्र ही सनातन वैदिक धर्म की प्रवृत्ति होसके ऐसा आप भी प्रयत्न करें । अवश्य ही आप लोगों का जय होगा ॥ १८ ॥

इति ब्रुवत्येव यतौ महाशयाः

परस्पराभाषणजातलालसाः ।

प्रचकुरेतत्कथनं फलोदयो-

यथाऽऽशु नूनं प्रबभूव सर्वशः ॥१९॥

आपके ऐसे वचन सुनकर वहाँ पर आये हुए समस्त महाशयों ने वैदिक धर्म के प्रचारार्थ ऐसा उद्योग किया, जिसका परिणाम शीघ्र ही निकल आया ॥ १९ ॥

अयं च योगी बहुसज्जनावृतं

निजं महं वीक्ष्य महोपदेशनैः ।

सपाण्डितं वेदमतप्रचारणं

चकार कारुण्यरसोर्मिहर्षितः ॥२०॥

आपने भी अपने उत्सव को अनेक सज्जन एवं पण्डितों से मद्य हुआ देखकर आनन्दपूर्वक वैदिक-धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया ॥२०॥

समागतः कोपि विगन्तरादरं
विभिन्नभाषाकथनो जनेतरः ।
परं समाभाष्य जनेतरव्यपा-
दयं ययौ हर्षमनन्तभावदम् ॥२१॥

एक दिन एक ईरान के मौलवी, जो केवल फ़ारसी बोल सकते थे, आप के पास आये । आपने भी एक कायस्थ के द्वारा उनसे बात चीत की । अन्तर वह प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गये ॥ २१ ॥

प्रसङ्गतो जाम्बवतीपुरेश्वर-
स्तथा च काश्मीरमुवो महेश्वरः ।
महोदयस्यास्य विलोकनेच्छया
निजानुजं दूतकृतावयोजयत् ॥२२॥

कुछ दिनों के बाद महाराजा अंबू और महाराजा कश्मीर ने आपके वर्धन के छिप आपके पास प्रति शीघ्र बाबू नीलाचरजी को भेज दिया ॥२२॥

स चापि धीमच्चरणाब्जयोरत्नं
प्रणम्य नीचैःकृतमौलिमण्डलः ।
बभाण वाचं निजवृत्तभूषितां
यथाकथञ्चिद्बहुहर्षगद्गदः ॥२३॥

वे भी तुरन्तही आपके समीप जाकर, धिर झुकाकर प्रणाम करके अत्यन्त हर्ष से गद्गद हो, पूँछने पर वे कहने लगे ॥ २३ ॥

विद्वत्त्वस्ते मम पूर्वजाः प्रभो
नितान्तमाहूतिकृते समाविशन् ।

इमं जनं तद्गदनीयमुत्तरं
किमस्य कर्तव्यमिहास्ति मादृशाम् ॥२४॥

महाराज ! मेरे पूर्वजों ने आपके वर्धनों की झालसा से आपके समीप मुझको सूचना के लिए भेजा है । इसलिये कहिये, अथ उनसे जाकर मैं क्या कहूँ ? ॥ २४ ॥

इति प्रसन्नाक्षरमौक्तिकाङ्कितानां
निशम्य वाचं सदयो यतीश्वरः ।
तदुत्तरे स्वीकृतिबोधिकां गिरं
जगाद तस्मै स जगाम तत्परम् ॥२५॥

इस प्रकार विनय से भरी हुई उसकी वाणी को सुनकर दया के सागर स्वामीजी उनसे कहने लगे कि अच्छा मैं उनसे अवश्य मिलूँगा । इतना कहने पर वे प्रति शीघ्र ही छोट गये ॥ २५ ॥

अथान्तरे तत्र गणेशशास्त्रिणा
विरोधभावं गदता महीश्वरे ।
निवेशितो मन्दिरभञ्जनोदयो-
यतो न सङ्गः प्रबभूव योगिनाम् ॥२६॥

इसी बीच मैं गणेशशास्त्री ने महाराज से मिलकर आपसे न मिलने के लिए इतना आग्रह किया कि जिससे महाराज रणधीरसिंहजी न मिल सके ॥ २६ ॥

परन्तु पश्चान्नितरां विधेर्वशा-
द्बभूव सामाजिकधार्मिकोदये ।
विधर्मिणां तत्र गणेशसूरिणां
पराजयः कोपि समस्तहर्षदः ॥२७॥

परन्तु जब सन् १८९२ ई० में वर्तमान महाराजा प्रतापसिंहजी के सामने धर्मसमाज के साथ पौराणिकों का शास्त्रार्थ हुआ तब गणेश शास्त्री हार गये ॥ २७ ॥

अनन्तरं तत्र यतीश्वराज्ञया
सङ्कुकराधीशवरो महाशयान् ।
निमन्त्रयामास विचारहेतवे
समाजकृत्यस्य यथोचितव्ययैः ॥२८॥

इसके अनन्तर स्वामीजी की आज्ञा से महाराजा कुङ्कर ने अपने कर्च से समस्त राजाओं को एकत्र कर विचार के छिप प्रस्ताव किया ॥ २८ ॥

निजापराधं समयानुपस्थितौ
निवेद्य सर्वाननुयोज्य साधने ।
जगाम पश्चात्प्रवभूव पत्तनं
महाशयानां परमं विचारणम् ॥२९॥

परन्तु किसी आवश्यक कार्य के लक्ष महाराजा स्वयं न ठहर सके । समा का यथोचित प्रबन्ध करके, स्वामीजी से क्षमा माँग कर, चले गये । उनके चले जाने पर समस्त महाशय समा में उपस्थित हुए ॥२९॥

उपस्थिते सर्वमहाशयव्रजे
यतिर्नियोगादुपगम्य तां सभाम् ।
जगाव सर्वानपि दन्तकान्तिभि-
र्विवर्धयञ्चन्द्रिकयेव सादरम् ॥३०॥

जब महाशयों के एकत्र होने पर स्वामीजी भी उपस्थित हुए और अपने मुख की प्रभा से समस्त समा को प्रकाशित कर अति मधुर वाणी से बोले ॥ ३० ॥

उपस्थितोर्यं समयोस्ति धार्मिकाः
परस्परं मैश्रमलं विभाव्यताम् ।

विसृज्यतां भिन्नमतानुवर्तनं
प्रवर्धतां वेदमतानुवर्धनम् ॥३१॥

हे धार्मिक जनो ! बहुत दिनों के बाद यह समय उपस्थित हुआ है । इसलिये परस्पर मित्रता से धर्ताव कीजिये । अनेक मतों को छोड़कर एक वैदिक मार्ग लीजिये । एक भाषा, एक लिपि, एक भोजन और एक ही इष्टदेव मानिये ॥ ३१ ॥

न यावदस्मिञ्जगतीतलेऽखिले
नवीननानामतवादकल्पनाः ।
विनाशमेष्यन्ति नु तावदागता
भविष्यति श्रीः कथमेकदेशगा ॥३२॥

जब तक इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के मत-मतांतरों का अच्छे प्रकार नाश न होगा तब तक आई हुई लक्ष्मी कदापि निश्चल न हो सकेगी ॥ ३२ ॥

विज्ञोक्यतां वेदचतुष्टयी परा
निवार्यतामन्धपरम्पराऽपरा ।
निवेश्यतां धर्मपथे मतिः स्थिरा
न काप्यतो मे कथनाप्यलं परा ॥३३॥

इसलिये चारों वेदों का पठन-पाठन चारम्भ कीजिये, बहुत दिनों से चली हुई अंधपरम्परा को हटाइए, धर्म में अपनी सचि लगाइए, बस यही मेरा कथन है ॥ ३३ ॥

इति ब्रुवत्येव यतीश्वरे सभा
विसर्जिताभूत्परमात्मवर्णनैः ।
निवारिता यत्र नितान्तमुद्धता
मदादिपानाशनवृत्तिरादरात् ॥३४॥

स्वामीजी के इस कथन को सुनकर सभा में आये हुए समस्त जनों ने मध-भांस का परिस्वाग किया और उनके कथन का अनुमोदन किया। अंत में मङ्गल-पाठ होकर सभा विसर्जित हुई ॥ ३४ ॥

समाप्तिमाप्ते जनतामहोत्सवे
 दयामयो निर्मितभाष्यसूचनाम् ।
 वितीर्य विज्ञेषु निजम्परिश्रमं
 मुदैव मेने फलितं कृपावशात् ॥३५॥

सभा के विसर्जन होने पर स्वामीजी ने वेद-भाष्य के विद्यापन और आर्यसमाज के छपे हुए नियम वितरित किये और मुख्य मुख्य महाशयों को स्वरचित पुस्तकें भी दीं ॥ ३५ ॥

अनन्तरं पश्चिमदिग्भवैर्जनै-
 निर्मन्त्रितोयं यमिनामधीश्वरः ।
 सदुत्तरैरापरितोष्य सत्वरं
 मतिं प्रचक्रे गमनाय कुलचित् ॥३६॥

दरबार के समाप्त होने पर पंजाब के कई महाशयों ने आपको पंजाब में अग्रगण्य कर्जे के छिप निमन्त्रित किया। आपने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार की ॥ ३६ ॥

स सूर्यकुण्डोपगते महाऽऽलये
 कृताधिवासो महतामधीश्वरः ।
 समस्तपौराणिकमेघमण्डलीं
 विदारयन्वैदिकसूर्यवद्भौ ॥३७॥

१६ जनवरी सन् १८७७ ई० को स्वामीजी दिल्ली से प्रस्थित होकर मेरठ पहुँचे और सूर्यकुण्ड पर लिखी महतामधिंद की कोठी में ठहरे ॥ ३७ ॥

पुरान्तरं प्राप्य ततः स पण्डिता-
 नरं विवादेऽधरतां नयज्जनान् ।

निबोधयामास विधिं विधेरलं-

निमन्त्रितोभूत्ततएव केनचित् ॥३८॥

कुछ दिन वहाँ विश्राम करके फ़रवरी के आरम्भ में आप सहरनपुर पहुँचे और पहुँचते ही कुछ ग्रन्थ लिखते रहे और साथही धर्मोपदेश भी करते रहे ॥ ३८ ॥

निमन्त्रितस्थानगतो समुत्सुकै-

र्महाशयैरुच्चपदे निवेशितः ।

स योगिराजो जनतामहोत्सवं

जगाम जैत्रं यशएव वर्धयन् ॥३९॥

इन्हीं दिनों में प्रसिद्ध चाँदापुर के मेले के मैनेजर ने आपको निमन्त्रित किया और सहरनपुर के कई प्रतिष्ठित पुरुषों के कहने से आपने जाना स्वीकार किया ॥ ३९ ॥

समन्ततस्तत्र पुराणपण्डिता-

नयं विचारे निजवाग्विपत्रिभिः ।

निरुत्तरानेव चकार सत्वरं

यदुत्तरं तद्यशएव विस्तृतम् ॥४०॥

वहाँ जाने पर अंबहटा-निवासी खंडीप्रसाद आदि अनेक पण्डितों ने आपसे धर्म-सम्बन्धी प्रश्न किये, जिनका उत्तर आपने बड़ी उत्तमता के साथ दिया ॥ ४० ॥

नवीननानामतविज्ञमण्डिते

नितान्तरस्ये जनतामहोत्सवे ।

निवेशितात्मा स दयामयो बभौ

दिनोदये पङ्कजबोधको यथा ॥४१॥

अनेक मतों के पण्डितों से सुशोभित उस चाँदापुर के मेले में आप इस प्रकार शोभा को प्राप्त हुए जिस प्रकार दिन निकलने पर सूर्य शोभा को प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥

कृते विचारस्य कृते महोत्सवे
जनेन केनापि तथाकृतं कृतम् ।
यथा समस्ते भुवनेपि तद्गता
विजृम्भते कीर्तिसुधांशुचन्द्रिका ॥४२॥

१५ मार्च सन् १८७७ ई० को मुंशी प्यारेलाळजी रॉस शाहजहाँपुर ने अनेक मतों की छानबीन के लिये एक ऐसा प्रबन्ध किया जैसा आज तक किसी ने न किया हो ॥ ४२ ॥

प्रजानियन्तुः सविधे निजार्थनां
निवेद्य तत्सूचितराजपूरुषैः ।
समं प्रबन्धं प्रविधाय सर्वशो-
निमन्त्रिताः सर्वमतानुवर्तिनः ॥४३॥

जिले के अधीश फलेकुर साहब को इच्छा देकर, उनके दिये हुए कर्मचारियों के द्वारा प्रबन्ध कर अनेक मतानुयायियों को आपने निमन्त्रण दे दिया ॥ ४३ ॥

हुतं समागत्य समन्ततो जनाः
प्रचक्रुरत्यन्तविचारकल्पनाम् ।
परं यतीशस्तिबशो यथायथं
विभञ्जयामास नवीनतर्कणैः ॥४४॥

निमन्त्रण देने के साथ समस्त पण्डित एकत्र होकर अनेक प्रकार के विचारों को प्रस्तुत करते थे जिनको स्वामीजी अपने तर्कों से छिन्न भिन्न करते रहे ॥ ४४ ॥

इहाभवथः सकलोपि विस्तरः
स पुस्तकाकारतया विमुद्रितः ।

प्रलभ्यतेऽजन्मपुरे विलोक्यतां

विलोकनीयोस्ति यतोस्य सम्भवः ॥४५॥

इस मेढे में जो संवाद हुआ वह अक्षरशः अजमेर में छपकर पुस्तकाकार होगया है। उसको वही से मंगाकर समस्त सज्जन पढ़ें; पुस्तक देखने योग्य है ॥ ४५ ॥

निरीक्ष्य यं दुर्धरयुक्तिगर्वितं

सहस्रशोऽवैदिकमार्गगामिनः ।

समाजमेवाययुराशु के बुधा

न सत्यमार्गाश्रयणं प्रकुर्वते ॥४६॥

अनेक युक्तियों से मण्डित संवाद को पढ़ कर हजारों पौराणिक जन आर्यसमाज में आकर प्रविष्ट हुए क्योंकि सत्य का ही अवलम्बन जगत् में बलवान् होता है ॥ ४६ ॥

यथा समक्षे यमिनोस्य सत्वरं

निरुत्तराः सर्वमतानुवर्तिनः ।

समं बभूवुः सहसैव सर्वश-

स्तदस्ति लोके सकले प्रतिष्ठितम् ॥४७॥

जिस प्रकार अनेक मतों के मानने वाले जन स्वामीजी के सामने आकर शीघ्र ही निरुत्तर होते थे वह सब जगत् में विदित ही है ॥ ४७ ॥

न दत्तमासीद्विबुधैः सदुत्तरं

न दास्यते कोपि जनो यथा मुनिः ।

स्फुटं ददौ सर्वमतप्रभञ्जनं

समुत्तरं सत्वरमेव वेगवान् ॥४८॥

अनेक अवैदिक मतों को छिन्नमिन्न करने वाला जैसा उत्तर प्रति शीघ्र स्वामीजी ने दिया ऐसा न किसी ने पहले दिया और न कोई आगे देगा ॥ ४८ ॥

न यावनाः केपि जना यतीश्वरं
 न सर्वथा तेपि मसीहमानिनः ।
 विभञ्जनायै कृतवाक्परिश्रमं
 समोदरे रोद्धुमुदारतां ययुः ॥४६॥

जिस समय स्वामीजी अपनी युक्तियों से जपहन करना प्रारम्भ करते थे उस समय उनको न कोई मौलवी रोक सकता था, न कोई पादरी रोक सकता था ॥ ४६ ॥

अनन्तरं पूर्तिमिते महोत्सवे
 यतित्वधर्मेपि जयश्रियाष्टतः ।
 प्रयाणमाकल्पयदुत्तरोत्तरं
 पुरान्तरं प्रत्यनुवर्तिभिः समम् ॥४७॥

मेळा चाँदापुर के समाप्त होने पर विजय-रक्षी से सुशोभित स्वामीजी महाराज ३१ मार्च सन् १८७७ ई० को कई भद्र जनों के साथ लुधियाना पहुँचे ॥ ४७ ॥

महोपदेशैस्तिमिराणि नाशयन्
 पुराणभाजां हृदयादयं यतिः ।
 महोन्नते विश्रममाप्य मन्दिरे
 निवारयामास मतान्तराञ्जनान् ॥४८॥

वहाँ पर सबसे उत्तम एक कोठी में उनके ठहरने का प्रबन्ध किया गया । वहीमें स्वामीजी ठहरे और प्रति दिन व्याख्यानों द्वारा प्रचार करने लगे ॥ ४८ ॥

निशम्य यन्नाम समस्तकोविदाः
 प्रतिक्षणं वैदिकमार्गसेवकाः ।

विवर्धयामासुरिवार्य्यमण्डलं

न कस्य वेदानुमता भवेन्मतिः ॥५२॥

थेड़े ही दिनों में आप के जाने की खबर दूर दूर तक फैल गई जिससे अनेक पुरुष धर्मा आ आ कर व्याख्यान सुनते हुए समाज में प्रविष्ट होने लगे ॥ ५२ ॥

अथैकदा खिस्तमतप्रचारकः

स कोपि वेरीत्यभिधो महाशयः ।

महामतेराश्रममाप्य सादरं

प्रसङ्गतः प्रावददित्यमुद्घुरम् ॥५३॥

एक दिन पादरी वेरी साहब आपसे मिलने के लिय आपके आश्रम पर आये और बात चीत के प्रसङ्ग में आपसे यों पूँछने लगे—॥ ५३ ॥

यदस्ति कृष्णस्य चरित्रमुद्घृतं

पुराणपद्येषु यतीन्द्र तन्मते ।

न सर्वथाऽऽयाति वदस्व सूत्रं

क योगिराजः क च जारनायकः ॥५४॥

श्रीकृष्णजी के विषय में जो कुछ भागवत में लिखा हुआ है उसे पढ़कर बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती कि वे महात्मा थे ॥ ५४ ॥

इति ब्रुवत्येव मसीहमार्गगे

मुनिर्बभाषे व्यभिचारकल्पनम् ।

न योगिवर्ये परिदृश्यते मया

यदस्ति तन्मूर्खजनैः प्रकल्पितम् ॥५५॥

इस तरह पूँछने पर आपने उत्तर दिया कि श्रीकृष्णजी में किसी प्रकार का दोष मेरे विस्त में नहीं जँचता । जो कुछ कलङ्क लगाया है वह मूर्खों की कल्पना है ॥ ५५ ॥

परं भवद्ग्रन्थविलोकनान्मया
विचार्यते यत्तदतीव विस्मितम् ।
विभाति लोकेपि समस्तमानवै-
रदृष्टमेतत्प्रतिभाति वर्णनम् ॥५६॥

परन्तु आपकी बाण्डिका के देखने से जो कुछ सुझे अनुभव हुआ है वह सर्वथा ही असङ्गत एवं लोक-विषय सा प्रतीत होता है ॥ ५६ ॥

कपोनरूपः परमेश्वरः कथं
कुमारिकाया अजनिष्ट स्वात्पतन् ।
प्रविश्य गर्भाशयमाशु ते मते
नितान्तमेतत्परिकल्पितं जनैः ॥५७॥

परमेश्वर का आत्मा कपोतर के रूप में आकाश से उतरा और मरियम के गर्भाशय में प्रविष्ट होगया । फिर कुमारी (अविवाहिता) होने पर भी मरियम के पेट से ईसा हुए । यह सर्वथा ही कपोल-कल्पित बात है ॥ ५७ ॥

इति ब्रुवत्येव यतीश्वरे स्फुटं
निरुत्तरत्वादधरीकृताननः ।
स वेरिनामा समवाप्य चाशिषं
जगाम मृत्यैरनुमोदितो पृष्टम् ॥५८॥

इतना कहने पर ही पादरी साहब चुप हो गये । कुछ जवाब न दे सके । अतः मैं आपसे आज्ञा माँगकर नौकरों के अनुरोध से बँगले को चले गये ॥ ५८ ॥

अनन्तरं देवमतप्रवर्धनं
विधास्यमाने यमिनांवरेऽपरे ।
निरुत्तरास्तेपि पुराणपण्डिता.
निजानि वेशमान्यवलोकयञ्जवात् ॥५९॥

स्वामीजी भी प्रति दिन व्याख्यानों द्वारा वैदिक धर्म का इस तरह प्रचार करते थे जिस प्रकार आज तक किसी ने न किया हो। साथ ही पौराणिकों से शास्त्रार्थ भी करते थे जिसमें निरुत्तर हो पौराणिक लोग परास्त हो जाते थे ॥ ५९ ॥

प्रभातएवाप्य मुनेरलङ्कृतं

निवासमेको निजगाद कोविदः ।

मुखावलोकान्तव पापकल्पना

विवर्धते मे हृदये यथायथम् ॥६०॥

एक दिन प्रातःकाल ही अयोध्याप्रसाद नामक एक पण्डित आपके खान पर आकर कहने लगा कि आपका मुख देखने से हमको पाप होता है ॥ ६० ॥

इति ब्रुवाणं तमयं समब्रवी-

न्नितस्वदेशो मम दृश्यतां त्वया ।

समीक्षणान्यां परिपीयतां वचो-

मनोरमं कर्णयुगेन सादरम् ॥६१॥

स्वामीजी ने इसके उत्तर में कहा कि यदि आपको मेरे मुख के दर्शन से पाप लगता है तो आप व्याख्यान के समय मेरे पीछे की तरफ बैठकर देखा कीजिए, पर साथ ही कानों से व्याख्यान सुनते रहिए ॥ ६१ ॥

विलज्जितस्तद्वचनश्रुतेः परं

पुराणविज्ञो निजमालयं ययौ ।

यतीश्वरोपि प्रतिवर्धयन्निजं

मतं समस्थापयदत्र निर्भयः ॥६२॥

आपका ऐसा उत्तर सुनकर वह लज्जित होकर अपने घर को चला गया। स्वामीजी भी वैदिक-धर्म का महत्त्व प्रति दिन सबको सुनाते रहे ॥ ६२ ॥

मुहुर्मुहुस्तानभिसूचयन्बुधान्

न वीक्षयामास कमप्यलं यदा ।

मतानुवादावार्थमुपस्थितं तदा

विराममागावतिशङ्करो यतिः ॥६३॥

व्याख्यान के अन्त में स्वामीजी प्रति दिन मनुष्यों को सूचित करते थे कि यदि किसी को कुछ प्रष्टव्य हो, या किसी को मेरे कथन में संदेह हो, तो वह निर्भाङ्क होकर प्रकट करे, तुरन्त उत्तर दिया जायगा । परन्तु कोई सामने नहीं आता था ॥ ६३ ॥

वितीर्णमस्य प्रसमीक्ष्य सद्बलं

न कोपि चूकारमपि व्यकल्पयत् ।

क्व सम्मुखाभाषणकल्पनाविकं

विकल्पनं चापि महामुनेर्गिरास् ॥६४॥

जब आपका विद्यापन शास्त्रार्थ के लिय निकलता था तब कोई शूँ तक नहीं करता था । सामने आकर उत्तर देना तो अहाँ तहाँ रहा ॥ ६४ ॥

निशम्य गौडं कमपि द्विजं यति-

विभिन्नधर्मे गमनार्थमुद्यतम् ।

निवारयामास निजेन तेजसा

जगाम चास्मात्परतो बवस्थितिस् ॥६५॥

इसी छुधियाने में एक पण्डित देवीदत्तजी, जो कि गौड़ ब्राह्मण थे, ईसाई होने को तैयार थे, परन्तु उनके भाव्य से स्वामीजी मिल गये । उनके उपदेशों से वे ईसाई होने से बच गये । अन्त में १९ पण्डित सन् १८७७ ई० को आप यहाँ से छाहीर पधारे ॥ ६५ ॥

अवाप्य बाष्पीयपथेन तत्पुरं

वृत्तो जनैः स्वागतकर्मचारिभिः ।

स रत्नचन्द्रोदयवाटिकोदरे

निवासमाकल्पयदुन्नतेः करम् ॥६६॥

आपके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर हरसुखराय आदि कई प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे। उतरने के साथ ही बड़े सम्मान से आपको रत्नचन्द्र के बाग में ठहराया ॥ ६६ ॥

बुधास्तु तत्रैव सहस्रशो मुदा

निवारयन्तो हृदयोत्थितास्तदा ।

समस्तशङ्काः परमां मुदं ययु-

र्न को निजार्थानुपलभ्य मोदते ॥६७॥

हजारों मनुष्य यहाँ पर आपके मनोहर उपदेश सुनने और अपने संशय निवृत्त करने के लिए आते थे और अत्यन्त प्रसन्न होते थे ॥ ६७ ॥

अथैकदा तत्र सुखेन वक्तृता-

मलं ददाने यमिनामधीश्वरे ।

बभूव लक्षैकमिता जनावली

वचःप्रभावादरमार्य्यपक्षगा ॥६८॥

एक दिन आपने "वैदिक धर्म हमको क्या क्या सिखाता है" इस विषय पर एक बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान दिया जिसमें अनुमान एक लक्ष से अधिक दर्शकों की भीड़ एकत्रित हुई ॥ ६८ ॥

किमस्ति रूपं निगमस्य तत्र किं

विवर्णितञ्चेति निबोधनोद्यता ।

विवर्णिता तेन तथा गिरान्तति-

र्यथा न केनापि पुरा विवर्णिता ॥६९॥

कुछ दिनों के बाद आपने "वेद का क्या स्वरूप है ? उसमें किस बात का वर्णन है ?" इस विषय को प्रस्तुत कर बड़ा अनुपम व्याख्यान दिया ॥ ६९ ॥

परन्तु पौराणिकपक्षखण्डनं
 प्रकुर्वता तेन न केवला सभा ।
 निजस्थितिश्चापि विपर्ययोन्मुखी
 प्रकल्पिता पापजनानुकोपनैः ॥७०॥

वहाँ के पौराणिक आपके व्याख्यानों से असंतुष्ट होकर और तो कुछ न कर सके परन्तु उन्होंने दीवान रत्नचन्द्र को बहुत कुछ मञ्जुकाया, जिसका परियाम यह हुआ कि स्वामीजी इस स्थान का परिवर्तन कर डाकड़ रहीमर्षा की कोठी में चले गये ॥ ७० ॥

स्थलान्तरे संवसता दयालुना
 विहाय भीर्तिं निजवक्तृताधलात् ।
 सहस्रशो वेदमतप्रचारणे
 नियोजिताः परिडितमण्डिता जनाः ॥७१॥

यहाँ आकर आपने निर्मय होकर और भी ज़ोर के साथ कार्य करना आरम्भ किया जिसमें सहस्रों पुरुष आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए ॥ ७१ ॥

न कोपि तस्मिन्विषये बुधोऽभव-
 न्मुहूर्तमात्रं किल यो महर्षिभिः ।
 समं समाभाषणमप्यहोमदा-
 द्विरामराणां प्रथयेदशङ्कितः ॥७२॥

उस समय समस्त पंजाब में एक भी पौराणिक पण्डित इस योग्यता का न था जो स्वामीजी के साथ दो बटे भी संस्कृत में बात कर सके ॥ ७२ ॥

तथापि पौराणिकलोकमण्डली
 कुशब्दवादानवदद्यतः स्वयम् ।
 पराजिताभूदिति निश्चयः पुरे
 ततान वृद्धेष्वपि हर्षसूचनाम् ॥७३॥

तो भी पौराणिक लोगों ने अपने कुवाच्य शब्द कहने बन्द न किये जिससे समस्त शहर में उनकी हार मानी गई ॥ ७३ ॥

दिनेषु तेष्वेव जगाद कोपि तं
 यतीश्वरं मन्दमतिर्भवेदरम् ।
 स मित्रभावः सकलेपि ते यते
 यदि प्रकुर्या न हि मूर्तिखण्डनम् ॥७४॥

इन्हीं दिनों शहर में धार्मिक हलचल देखकर एक दिन पण्डित मनफूल ने आपसे कहा कि यदि आप मूर्तिपूजा का खण्डन छोड़ दें तो सब आपसे मित्रता करने लगे और विरोध शांत हो जाय ॥ ७४ ॥

इति प्रगल्भं मनुजैरुदीरितं
 निशम्य योगी तमुवाच सत्वरम् ।
 न वेदनिर्देशमपास्य मे मति-
 निर्देशमिच्छत्यधुना भवादृशाम् ॥७५॥

इसके उत्तर में आपने कहा कि मैं मनुष्यों के प्रसन्न रहने के लिए उस ईश्वर की आज्ञा का, जो कि वेदों में लिखी हुई है, कदापि उल्लंघन न करूँगा । मनुष्य प्रसन्न रहे या अप्रसन्न रहे ॥ ७५ ॥

विभिन्नधर्माथ तदैव योगिनं
 समेत्य वाङ्मः प्रगदन्स्वशङ्कनाः ।
 यथोचितं प्राप्य सवुत्तरं मुदा
 जगाम पश्चात्प्रणमन्यथागतम् ॥७६॥

एक दिन एक बंगाली पादरी ने आपके सामने आकर वेद और यह विषय में कुछ प्रश्न किये जिनका यथोचित उत्तर आपने दिया और वह प्रसन्न होकर चला गया ॥ ७६ ॥

बुधेतरः कोपि तदार्यतां गतः
 पुनर्निजैरप्यववासितो ययौ ।

निजामलं पाप-पुराणमण्डलीं

क बुर्जनैर्वञ्चित एति सत्यताम् ॥७७॥ .

एक मातृवृत्तजी पण्डित थे जो कि स्वामीजी के पास आकर मूर्तिपूजा का कमी कमी सम्भन भी करते थे परन्तु एक दिन कई पौराणिक पण्डितों ने मिलकर उन्हें घमकाया, जिससे वे ज्यों के ज्यों रह गये ॥ ७७ ॥

अथाग्निहोत्री निगमोदिते विधौ

विकल्पमानः किल कोपि योगिना ।

वितर्जितः प्राप गृहं विजजितो-

न पक्षपातो हृदयेषु योगिनाम् ॥७८॥

एक शिवनारायण अग्निहोत्री आपके पास प्रायः आया करते थे । एक दिन बिना खोजे-समझे वे आपकी बातों में एकदम बैठे जिस पर आपने उनको खूब ही फटकार बतलाई ॥ ७८ ॥

विभिन्नतायामपि देशवासिनां

न वैमनस्यन्तिरयाम्बभूव किम् ।

महोपदेशो मुनिराजदर्शितः

क दीपदीप्तौ तिमिरव्यवस्थितिः ॥७९॥

आपके पास अनेक प्रकार के मत-मतांतरों के मानने वाले बड़े बड़े महाशय आया करते थे, परन्तु आपके उपदेशों को सुन वे सबके सब प्रीतिपूर्वक एकसा बर्ताव करने को तैयार हुए । दीपक के प्रकाश होने पर अन्धकार का क्या काम ? ॥ ७९ ॥

अनन्तरं तत्र महानलस्कृतः

स कोपि सामाजिकमन्दिरोदयः ।

ततान मोदं यमिनां हृदन्तरे

नितान्तमार्यङ्करणः प्रभाववान् ॥८०॥

एक दिन बहुत से आर्य महाशयों ने मिलकर यह प्रस्ताव उठाया कि जैसे मुम्बई और पूना आदि शहरों में आर्यसमाज स्थापित हो गये हैं वैसे ही यहाँ लाहौर में भी स्थापित होने चाहिये । विचार होने पर प्रस्ताव पास हुआ ॥ ८० ॥

विनिर्मिते वैदिकधर्ममन्दिरे

प्रवर्तिते चार्यमतप्रचारणे ।

बभूव यो यो नियमोदयो बुधैः

स दृश्यतां पद्यविशेषसुन्दरः ॥८१॥

कुछ दिनों के बाद, जब कि समाज का मन्दिर स्थापित हो गया और अच्छे प्रकार प्रचार भी होगया तब आपने समाज के दस नियम बनाये जो कि निम्नलिखित पद्यों द्वारा वर्णन किये जाते हैं—॥ ८१ ॥

(१) यदत्र लोके निगमादि तत्कृपा-

वशात्पदार्थान्तरमप्यशेषतः ।

प्रमीयते तस्य निदानमुत्तमं

महाशयैरीश्वरष्व बुध्यताम् ॥८२॥

“सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है ” [१] सत्य विद्या से यहाँ पर वेद-विद्या से अभिप्राय है जो कि ईश्वरोंक होने से सर्वांश में सत्य है । पदार्थ शब्द का अर्थ कार्य अगत् है और आदि मूल के अर्थ मुख्य निमित्त कारण के हैं । सांख्य-वर्णन में मूल शब्द कारण के अर्थों में ही आया है, जैसे कि मूल का मूल नहीं होता ॥ ८२ ॥

(२) स सच्चिदानन्दमयो निराकृतिः

समेधितश्चाथ समस्तशक्तिभिः ।

प्रगीयते वेदचतुष्टयैरपि

प्रकामतो न्यायमयीति यत्कथा ॥८३॥

यह ईश्वर, जो कि पहले नियम के द्वारा बतलाया गया है सद्रूप, चिद्रूप तथा आनन्दरूप है, निराकार—आकार-रहित—है, * सर्वशक्तिमान्—समस्त शक्तियों का भंडार है, चारों वेद जिसको न्यायकारी—न्याय के समु-
कूल काम करनेवाला बतला रहे हैं ॥ ८३ ॥

दयालुता यस्य गुणैः प्रतीयते

विजन्मतानन्तपदेपि यं गते ।

यएव यातः किल निर्विकारता-

मनादिताञ्चापि वदन्ति यद्गताम् ॥८४॥

जिसके गुणों से दयालुता स्वयं प्रतीत होती है तथा जिसको अजन्मा—
जन्म-रहित एवं अनन्त—अपार कहते हैं, जो निर्विकार—विकार-शून्य और
अनादि है। सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुच्छास में आपने न्यायकारी और दयालु
इन दोनों शब्दों को पर्याय-वाचक बतलाया है और यह भी बतलाया है कि
ईश्वर किसी के भी अपराध को क्षमा नहीं करता । ८४ ॥

न विद्यते येन समो जगत्त्रये

समस्तमेतत्किल येन धार्यते ।

यथायथं व्यापकतामुपागतो-

य एव सर्वान्तरधिष्ठितो महान् ॥८५॥

जिस ईश्वर के समान तीनों लोकों में और कोई नहीं है, तथा जो ईश्वर
समस्त विश्व के धारण करने से सर्वाधार कहाता है और परमायु से लेकर
परार्थ मात्र में व्यापक होने से सर्वव्यापक एवं अन्तर्यामी होने से सर्वान्त-
र्यामी कहाता है ॥ ८५ ॥

वदन्ति यं विश्वतलेऽजरं तथा-

ऽमरं पुनश्चाप्यभयं विपश्चितः ।

* सत्यार्थप्रकाश के ७ वें समुच्छास में सर्वशक्तिमान् का अर्थ यह बताया है कि
जो अपने काम करने में किसी के अधीन न हो ।

निसर्गतो नित्यपवित्रनामनी

यमादराहोषयतः परस्परम् ॥८६॥

जिस ईश्वर को विद्वान् लोग जयमन्त्र-रहित होने से अजर, अमर, निर्मय होने से अमय, नित्य और पवित्र इन नामों से प्रति दिन कहा करते हैं ॥ ८६ ॥

समुच्यंते यः परतः कवीश्वरैः

समस्तसृष्टेरपि कर्तृताङ्गतः ।

उपासनीयः परमो महाशयैः

स एव सर्वैरपि वेदमार्गैः ॥८७॥

जिस ईश्वर को समस्त सृष्टि के कर्ता होने से विद्वज्जन सृष्टिकर्ता कहते हैं उसी परमात्मा की सब महाशयों को उपासना करनी योग्य है ॥ ८७ ॥ [२]

(शुष्मम्)

(३) समस्तसत्याश्रितविद्यया युतः

स वेदएवास्ति निरस्तदूषणः ।

भवन्ति यस्याध्ययनेन भूतले

विशारदाः शारदयापि सेविताः ॥८८॥

स एव नित्यं पठनीय आदरा-

त्स पाठनीयश्च समस्तमानवैः ।

विहाय सर्वं श्रवणीय उत्तमो-

यथायथं श्रावणमस्य तन्यताम् ॥८९॥

दोषों से रहित, गुणों से पूरित इस जगत् में एक 'वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है' जिसके अध्ययन से मूर्ख भी चतुर हो जाने हैं । इस-लिय और सब पुस्तकों को छोड़कर आदर से 'उसीका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ [३]

(४) समुद्यतैर्भाव्यमज्ञं परिग्रहे

सदैव सत्यस्य तथा विसर्जने ।

महोदयैर्वेदपथप्रवर्तकै-

रसत्यवाचां किमतोधिकं वचः ॥६०॥

वैदिक मार्ग में चलने वाले पुरुषों को 'सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए, ॥ ६० ॥ [४]

(५) समस्तकृत्यानि विचार्य्य सत्यता-

मसत्यताञ्चाप्यनुसारतो जनैः ।

सदैव धर्मस्य यथायथं पथि

क्रमेण कार्याणि महेश्वरोदिते ॥६१॥

आर्य पुरुषों को हर समय 'सब काम धर्मानुसार चर्चात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये' ॥ ६१ ॥ [५]

(६) प्रधानमुद्देश्यमिदं विमृश्यतां

समस्तभावैरुपकारकल्पनम् ।

भवस्य शारीरिकवैविकोदया-

त्पराऽथ सामाजिकधार्मिकोन्नतिः ॥६२॥

हर प्रकार से 'संसार का उपकार करना आर्य समाज का प्रधान उद्देश्य है चर्चात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना' ॥ ६२ ॥ [६]

(७) समं समस्तैरपि मानवैः सदा

परस्परं प्रेम परम्पराश्रितम् ।

१ महेश्वरोदिते-वैदिके यथि समर्पितपदैरर्प्यरिति भावः । २ मवन्ति क्त्वा
जलिभिति मयः उदारस्वस्य ।

विधाय धर्मानुसृतेश्च चिन्तनं

प्रवर्तनीयं जगतीह सर्वशः ॥६३॥

प्रत्येक पुरुष को हर समय हर प्रकार 'सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मा-
नुसार यथाशैल्य वर्तना चाहिए' ॥ ९३ ॥ [७]

(८) विनाशनीया सकलैरविद्यता

विवर्धनीयाऽथ सुविद्यता परा ।

सदार्यपत्रे निजनामलेखनं

विधाय वेदोदितकार्यकर्तृभिः ॥६४॥

आर्यधर्म के स्वीकार-पत्र में अपना नाम लिख कर प्रत्येक पुरुष को
'अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि-करनी चाहिए' ॥ ९४ ॥ [८]

(९) अवाप्य नैर्जी महतीं समुन्नतिं

न तुष्टिमिच्छेत्सकलस्य चोन्नतौ ।

निजामपीच्छेत्परितुष्टिमादरा-

त्समाजधर्मानुगतो जनव्रजः ॥६५॥

समाज में प्रविष्ट होकर जन-समूह 'अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहे
किन्तु सब की उन्नति में ही अपनी भी उन्नति समझे' ॥ ९५ ॥ [९]

(युष्मम्)

(१०) जनैः समस्तैः परिहाय सर्वथा

विरोधभावं नियमेषु सर्वदा ।

हितेषु सामाजिकसार्वदेशिके-

ष्वनं पराधीनतयैव वर्तताम् ॥६६॥

तथा विभिन्नेषु परस्परं सदा

हितप्रदेषु प्रविचार्य्य गौरवम् ।

स्वतन्त्रभावैर्नियमेषु वर्तता-

मयं प्रधानो नियमो विलोक्यताम् ॥६७॥

सब मनुष्यों को सर्वथा विरोध छोड़कर सामाजिक सर्वहितकारी नियम पाठने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ [१०]

इति प्रशस्ते नियमव्रजे तदा

दयामयेनैव निदर्शिते सभा ।

मुदः कलामाप परां जगद्भ्रये

न को जनो मार्गमवाप्य मोदते ॥६८॥

इस प्रकार स्वामीजी के द्वारा नियमों के निश्चित होने पर समस्त समाज प्रति प्रसन्न हुई और तदनुकूल कार्य करने के छिप उद्यत हुई ॥ ६८ ॥

विभिन्नदेशेष्वधिवेशनोदयै-

स्तथा च सामाजिकमन्दिरोद्गमैः ।

नितान्तमन्तःकरणे प्रहर्षितो -

बभूव योगी श्रुतिमार्गविस्तरात् ॥६९॥

भिन्न भिन्न स्थानों में साप्ताहिक अधिवेशनों के होने से तथा नगर नगर में समाज-मन्दिरों के बन जाने से स्वामीजी प्रति प्रसन्न हुए ॥ ६९ ॥

अथैकदा तत्रभवैर्महाशयैः

प्रधानतायै विनिवेदितो मुनिः ।

गुरुत्वमूलोत्खननोचिताम्बला-

दुदीर्य मूकीकृतवान्गिरं जनान् ॥१००॥

एक दिन वहाँ के कई पुरुषों ने आपके पास आकर कहा कि आप समाज के गुरु या आचार्य बनें । उन्होंने उल्टर दिया कि ऐसा करने से यह

भी एक पन्थ बन जायगा । मुझे यह पन्थ नहीं बनाना है । मैं तो शुद्धपन की जड़ काटता हूँ न कि शुद्ध बनता हूँ । इसलिये समाज का शुद्ध केवल वही ईश्वर हो सकता है और कोई नहीं ॥ १०० ॥

पुनर्जनैर्भक्तिरयेण कल्पितां

सहायतामीश्वरपादयोर्न्यसन् ।

दधार योगी हृठतो यथायथं

स सेवकत्वं सकलार्थ्यधर्मिणाम् ॥१०१॥

फिर कई महाशयों ने आपसे प्रार्थना की कि यदि आप इसके आचार्य नहीं बनते तो परम सहायक तो बनिए । ऐसा सुनकर आप कहने लगे कि यदि आप मुझे परम सहायक मानेंगे तो परमेश्वर को क्या मानेंगे ? अंत में कई पुरुषों के आग्रह करने पर आपने सेवक होना स्वीकार कर लिया ॥१०१॥

अतः परं तन्नगरोपकरणतां

पुरीषु यातासु दिनानि कानिचित् ।

निनाय योगी पुनराप सत्वरं

पुरं लवेनारचितं यथायथम् ॥१०२॥

इसके पश्चात् स्वामीजी कुछ दिन के छिपे लाहौर के पास पास के नगरों में प्रचार के छिपे गये । फिर छोटकर लाहौर ही आ गये ॥ १०२ ॥

दिनेषु गच्छत्सु स वार्षिकोत्सवो-

महोदयैर्ब्राह्ममतानुगैः कृतः ।

बभूव तदापि यतिर्ययौ मुदा

जनैः समस्तैरभिवेष्टितो निजैः ॥१०३॥

कुछ दिनों के बाद २१ अक्तूबर सन् १८७७ ई० को बड़े समारोह के साथ लाहौर में ब्रह्म-समाज का उत्सव हुआ जिसमें वहाँ समाजी महाशयों के साथ आपसी प्यारे ॥ १०३ ॥

निवृत्य तस्मान्निजमार्गगामिभि-
 निमन्त्रितो न प्रजगाम तैः कृते ।
 तदन्तरङ्गे पुनरेत्य वाटिकां
 चकार तद्यावनवाक्यखण्डनम् ॥१०४॥

यहाँ से छोटते समय आर्यसमाज की अंतरंग समा में आने के लिए आपको निमन्त्रित किया गया । आपने कहा कि मैं उसका समासदू नहीं हूँ इस लिए मुझे उसमें सम्मति देने का अधिकार नहीं है इतना कहकर नवान नवाजिदा अलीश्रा के बाग़ में जाकर आपने मुहम्मदी मत का खण्डन करना प्रारम्भ किया ॥ १०४ ॥

ततः परं कौश्विदयं बहुस्थितौ
 निमन्त्रितस्तानवदद्यथात्र मे ।
 विभाति सावश्यकता तथा न किं
 पुरेषु सर्वेषु विचार्यतामिदम् ॥१०५॥

तदन्तर एक महाशय ने लाहौर में अधिक समय तक रहने की आपसे प्रार्थना की जिसके उत्तर में आपने कहा कि जैसी मेरी यहाँ पर आवश्यकता है वही प्रकार समस्त भारतवर्ष में है इसलिये यहाँ अधिक नहीं रहूँगा ॥ १०५ ॥

इति ब्रुवत्येव यतीश्वरे मुदा
 तदा समा सा शिथिलीचकार ताम् ।
 विचारणामाप वियोगशोकतां
 न के जनाः सज्जनदर्शनोत्सुकाः ॥१०६॥

आपके इतना कहने पर सब मनुष्यों के मन में वियोग का शोक उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो बहुत दिन तक आपके रहने की आशा कर रक्की थी वह भी शिथिल हो गई ॥ १०६ ॥

प्रमुदितजनलोकं तत्प्रतापप्रभावे-

रभवदहह दैवादेकतस्तत्पुरन्नु ।

शिथिलितनिजकृत्यं शून्यमेकत्र देशे

समभवदतिवेगाद्देवदेवस्य शोकैः ॥१०७॥

जिस नगर में स्वामीजी जाने को उद्यत होते थे उस नगर के सहस्रों मनुष्यों का एक भाग आपके जाने से पूर्व ही हर्ष को प्राप्त होता था और जिस नगर से स्वामीजी आते थे उस नगर का एक भाग पहुँचाने के लिए आये हुए सहस्रों मनुष्यों के शोक से शून्य सा प्रतीत होता था ॥ १०७ ॥

इति भीमवसिष्ठानन्दशर्मकृतौ सतिशके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

सप्तपुरगमनं नामैकादशः सर्गः ।



द्वादशः सर्गः

अथ तस्मादवसरतो-

ऽमृतसरसि पुरे समेत्य योगी सः ।

रामारामसमीपे

कृतवान् विश्रामहेतवे वासम् ॥१॥

काहीर से प्रस्थित होकर स्वामीजी ५ जुलाई सन् १८७७ ई० को अमृत-सर पहुँचे और रामबाग के पास एक कोठी में ठहरे ॥ १ ॥

नानकगुरुमतदीक्षा

यत्र समीक्षावशेन तेनापि ।

अभिवीक्षितेति मन्ये

यस्मात्सा तेन खण्डिता नितराम् ॥२॥

यहाँ पर चाते ही आपने गुरुनानक के पुस्तकों का पर्यालोचन करना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि उनके मत का अच्छे प्रकार अण्डन कर सके ॥ २ ॥

एतस्यागमनात्प्रा-

गेतद्वासाय सज्जनैः क्रीतम् ।

यवभूदभिनवभवनं

तस्य कथं केन तुल्यता क्रियताम् ॥३॥

आपके जाने से पहले ही आपके निवास के लिए जो कोठी सब्जनों ने यहाँ पर खरीदी थी उसकी समता किसके साथ करें ॥ ३ ॥

गमनानन्तरमेव-

प्रथिता नगरेऽस्य सा यशोविततिः ।

यामभिवीक्ष्य समस्ता

ध्वस्तेवाभूत्पुराणजनतात्र ॥४॥

आपके पहुँचते ही सारे शहर में आपके जाने की खर्चा फैल गई जिस को सुनकर पौराणिक लोग मन में घबराने लगे ॥ ४ ॥

वीक्ष्योत्साहं तस्मिन्

नगरे व्याख्यानवर्धनामेषः ।

चक्रे बहुशङ्काना-

मुत्तरदानेपि सत्वरं भावम् ॥५॥

आपने लोगों का उत्साह देखकर कोठी में ही उपदेश देना आरम्भ कर दिया और साथही आप प्रत्येक जिज्ञासु के संदेह भी मिटाते रहे ॥ ५ ॥

मुख्यास्तन्नगरस्था

बहिर्भवाश्चापि वक्तृतां तस्य ।

आकर्णयितुमुदारा-

माययुरानन्ददायिनीं हर्षात् ॥६॥

आपके असूतमय व्याख्यानों को श्रवण करने के लिए प्रति दिन शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लोग तथा अन्यान्य बाहर के पुरुष भी आया करते थे ॥ ६ ॥

पौराणिकविबुधाबी

मुहूर्तमात्रं न तस्य शक्ताभूत् ।

पुरतः संस्कृतगदने

शास्त्रार्थः केन तन्यतां तत्र ॥७॥

यद्यपि पौराणिक लोग शहर में कोलाहल मचाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करते थे तथापि आपके समक्ष आकर दो घण्टे संस्कृत में भाषण करने के लिए कोई भी न निकला ॥ ७ ॥

बहवः पण्डितवर्याः

पक्षं नैजं विहाय तत्पक्षम् ।

सत्त्वरमादरभावा-

दादृतवन्तो निरस्तदोषत्वात् ॥८॥

बहुत से सत्यवादी पण्डित अपने पक्ष को झूठा समझ कर वैदिक सिद्धान्तों को मानने और आपको देवधत् समझने लगे ॥ ८ ॥

यद्यपि बहवो धूर्ताः

समयं तस्य व्यनाशयन्वादैः ।

परमादरमतिरेष-

स्तानपि सम्बोध्य सद्गुणानकरोत् ॥९॥

यहाँ के कुछ लोग कमी कमी किसी कोरे पण्डित को कुछ सिखाकर आपका समय नष्ट करने को भेजा करते थे, परन्तु आप उसको भी संतुष्ट करने थे ॥ ९ ॥

बहवस्तत्र मनुष्याः

स्थापितवन्तः समाजमार्याणाम् ।

यस्य विशेषाख्यानं

पत्रेष्व्वासीद्विमुद्रितं बहुषु ॥१०॥

मनुष्यों के अधिक उत्साह से १२ अगस्त सन् १८७७ ई० को यहाँ पर भी आर्यसमाज स्थापित हो गया जिसका विज्ञापन बहुत से पत्रों में दिया गया ॥ १० ॥

विज्ञापनदलदानैः

सूचितवृत्तापि पापमनुजाली ।

चूंकृतिमपि न हि चक्रे

का वार्ता तत्र भिन्नवादानाम् ॥११॥

आपने यहाँ पर सबको विज्ञापन दिया कि यदि किसी को मुझसे शास्त्रार्थ करना हो, या मेरे कथन पर आक्षेप करना हो, तो मैं सर्वदा उद्यत हूँ । परन्तु किसीने चूँ तक नहीं की, शास्त्रार्थ तो जहाँ तहाँ रहा ॥ ११ ॥

आर्य्यमहाशयमनुजै-

र्य्यदा नितान्तं विलज्जिता मन्दाः ।

शरणं ययुरतिवेगा-

त्तदा मनागेव रामदत्ताख्यम् ॥१२॥

जब सामाजिक लोगों ने पौराणिक पण्डितों को लज्जित करना प्रारम्भ कर दिया तब लाचार होकर उन्होंने पण्डित रामदत्त की शरण ली ॥ १२ ॥

सत्यपरः स बुधेशो-

निषिध्य सर्वानवञ्चितस्तैस्तैः ।

प्राप कृते भजनानां

पुरं हरेराशु तीरगं नद्याः ॥१३॥

पण्डित रामदत्तजी सत्यवक्ता थे । उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुझमें स्वामीजी के समक्ष जाने की शक्ति नहीं है । उस पर भी जब वे न माने तब आप हरद्वार चले गये ॥ १३ ॥

अवददथैको देवं

विहाय मूर्तेः प्रमञ्जनां जगति ।

विचरेद्यदि किल तर्हि

प्रशंसना ते परा भवेत्सकले ॥१४॥

एक दिन पण्डित बिहारीदास ने, जो कि पसिस्टेंट कमिश्नर थे, आप से आकर कहा कि यदि आप मूर्ति-पूजा का अण्डन छोड़ दें तो आपकी बड़ी प्रशंसा हो ॥ १४ ॥

इत्थं निगदितवन्तं

काञ्चिन्मनुजं जगाद योगीन्द्रः ।

मास्त्वथवास्तु यशो मे

न वेदबाह्यं मतेस्ति मे रक्ष्यम् ॥१४॥

आपने उनको उत्तर दिया कि चाहे मेरी प्रशंसा हो अथवा न हो, परन्तु मैं वेद-विरुद्ध बातों का अण्डन कदापि न छोड़ूँगा ॥ १५ ॥

वेदोदितशुभमार्गे

नितरां गमनं ममास्ति कर्तव्यम् ।

मनुजानामपि तस्मिन्

नियन्त्रणं नाम तत्परं कृत्यम् ॥१६॥

वेदों की आज्ञा पर स्वयं चलना मेरा पहला काम है तथा दूसरे पुरुषों को उस पर चलाना मेरा दूसरा काम है । इसके अतिरिक्त मेरा कोई कामही नहीं है ॥ १६ ॥

एवं कथयति देवे

विवर्णतामाप पूर्वपक्षस्थः ।

आपदनन्तं मोदं

सार्यसमाजप्रतिष्ठिता जनता ॥१७॥

आपके ऐसा कहने पर उल्लित होकर वे तो अपने घर को चले गये और सार्यसमाज के पुरुष अलग्ग आनन्द को प्राप्त हुए ॥ १७ ॥

एकस्मिन्नथ दिवसे

स्थूणतरः कोपि मानवो देवम् ।

द्रष्टुं सविधमुपागा-

द्वेष्टितमभितो यथायथं विबुधैः ॥१८॥

एक दिन आप बगीचे में कई सज्जनों के साथ बैठे बात कर रहे थे कि अचानक सरदार हरचरणदास आपसे मिलने को आ गये ॥ १८ ॥

दृष्ट्वा तमथ स योगी

विचारयामास मानसे लोके ।

कामुपकृतिमिह चक्रे

योयं शक्तो न गन्तुमप्याशु ॥१९॥

आपने उनकी मुट्ठी देखकर कहा कि जो पुरुष इस क्रम अपने बल से नहीं चल सकता उसने संसार का क्या उपकार किया ? ॥ १९ ॥

मीमांसयति तदेत्थं

कश्चिद्राजप्रधानभावस्थः ।

धार्मिकविषयविचारं

कृत्वा तेन प्रसन्नतामागात् ॥२०॥

इतने ही में मिस्टर परकमसन साहब कमिश्नर, अद्वैतसर, आपसे मिलने के लिए आये और धार्मिक विषय पर कुछ बात चीत कर प्रसन्न हो लौट गये ॥ २० ॥

तत्पुरतटगतनगरे

नगरे गत्वा स योगिनामीशः ।

वैदिकमतबहुदीक्षां

वत्वा वत्वा पुनस्तदेवापत् ॥२१॥

स्वामीजी भी अमृतसर के पास के शहरों में धार्मिक धर्म का उपदेश देने चले जाया करते थे, फिर छोटकर अमृतसर ही में आकर ठहरते थे ॥ २१ ॥

आगत्य द्विः स्वामी

भगवत्सिंहस्य वाटिकामध्ये ।

निवसन्नेजोदेश्यै-

रापूरयदाशु सर्वतो नगरम् ॥२२॥

एक बार स्वामीजी उपदेश देने के लिए बहुत दूर चले गये थे । बुधवार १५ मई सन् १८७७ ई० को अमृतसर में पधारें और सरदार भगवानसिंह के बगीचे में आकर अपना कार्य करने लगे ॥ २२ ॥

व्याख्यानानि महर्षेः

श्रोतुं सर्वेपि तद्गता मनुजाः ।

रात्रिदिवमनुवक्तं

नेत्राण्यस्मिन्निवेशयामासुः ॥२३॥

आपके व्याख्यानों को सुनने के लिए अमृतसर के सब लोग आपके मुख की ओर हृष्टि लगाये थे ॥ २३ ॥

एकस्मिन्नथ दिवसे

भगवत्सिंहानुजो यथेच्छं यत् ।

कथयामास तदर्थं

नितान्तमेवान्वभञ्जयद्देवः ॥२४॥

एक दिन सरदार भगवानसिंह के छोटे भाई गागरमल्लजी आपके पास आकर कुछ प्रसंगतसी बातें कहने लगे जिनका आपने खूब जपण किया ॥ २४ ॥

अन्ये तत्कथनानुग-

कथना यद्यन्निवेद्यामासुः ।

सर्वं तत्किल तिलशो-

निवारयामास नैगमैर्मन्त्रैः ॥२५॥

गागरमछी की हॉ में हॉ मिलाने वाले और भी जो कुछ कहते थे स्वामीजी ने उनका भी बीच बीच में वेद-मन्त्रों का प्रमाण दे दे कर खूब खण्डन किया ॥ २५ ॥

प्रथिते निजपरगदने

घटिकायन्त्रं पुरो निवेश्यारम् ।

नियतैर्विपलविशेषैः

सर्वानेवाकरोदलं मृकान् ॥२६॥

सरदार दयालुसिंहजी आपसे कुछ बात करना चाहते थे । आपने अपने और उनके बीच में घड़ी रख कर नियत समय में उनको भी निरुत्तर कर दिया ॥ २६ ॥

दिवसान्तरगतकाले

वेदप्रामाण्यमाननेऽनिच्छान् ।

मूढानाग्रहबद्धा-

ज्ञानावाक्यैरतर्जयद्देवः ॥२७॥

एक दिन कुछ पुरुषों ने आपके पास आकर आग्रह से कहा कि हम वेदों का प्रमाण नहीं मानते । उनको आपने अच्छे प्रकार फटकारा ॥ २७ ॥

आकर्णितगमनेच्छाः

केचिद्भूर्ता नवीनमायाभिः ।

लोकानावञ्चयितुं

विज्ञापनदानमादराच्चक्रुः ॥२८॥

कुछ दिनों के बाद, जब स्वामीजी जाने को थे तब पौराणिकों ने बाळ बळकर प्रसिद्ध कर दिया कि हम स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हैं ॥ २८ ॥

तानप्यार्यसमाजे

नियताः सभ्या यथोत्तरादानैः ।

नितरां वाचंयमता-

मनयन्सत्यस्य किं जयो न स्यात् ॥२९॥

आर्यसमाज के प्रधान ने इस पर विज्ञापन दिया कि स्वामीजी शास्त्रार्थ के लिए सर्वदा तैयार हैं । चाहेप । परन्तु किसीने उत्तर तक नहीं दिया ॥ २९ ॥

सामाजिकजनवर्यैः

प्रार्थयमानो यथायथं योगी ।

अल्पाह्वानि निवासितुं

स्वीकृतिमाराधकार वादाय ॥३०॥

शास्त्रार्थ की सम्भावना देख कर समाज के कुछ पुरुषों ने शैर भी बोड़े से दिन यहीं पर रहने की प्रार्थना की । स्वामीजी ने शास्त्रार्थ के नाम से स्वीकार करली ॥ ३० ॥

नियते पुनरपि दिवसे

नियतेर्योगात्समस्तनगरस्थाः ।

सर्वे सज्जनसिंहाः

सादरमाजग्मुर्मुत्तमैर्यानिः ॥३१॥

कुछ समय के बाद यह नियत हुआ कि सरदार भगवानसिंह के मकान में शास्त्रार्थ होगा । नियत समय पर बड़ा सदास पुरुष दर्शनार्थ पकत्र हो गये ॥ ३१ ॥

परमेतस्य समक्षे

वक्तुं शक्तो बभूव नो कश्चित् ।

पौराणिकमतवादी

वादावादौ तु जग्मतुर्दूरम् ॥३२॥

जब शास्त्रार्थ का नियत समय आगया उस समय आपके समक्ष एक भी पण्डित न आया, शास्त्रार्थ करना न करना तो जहाँ तहाँ रहा ॥ ३२ ॥

अस्मिन्नेवावसरे

धूर्तैः पाषाणवर्षणा यैर्यैः ।

प्रकृता सर्वे ते ते

राज्ञो दूतैर्नियन्त्रिताः पार्श्वैः ॥३३॥

कुछ धूर्त पुरुषों ने आपके ऊपर ईंट और पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये थे परन्तु उन सब को पुलिस के सिपाहियों ने अपने दण्ड-पाश से बाँध डिया ॥ ३३ ॥

एकः स्वामिद्वितैषी

कश्चिन्मनुजो जगाद तं देवम् ।

भगवन्नव्य भवन्तं

रात्रौ दुष्टाः प्रपीडयिष्यन्ति ॥३४॥

एक दिन आपके एक मित्र ने आपको सूचना दी कि आप सिक्कों का खण्डन करते हैं, इसलिये आज रात को सब सिक्क लोग आपको मारने के लिये आवेंगे ॥ ३४ ॥

तस्मादेतन्नवनं

विसृज्य नव्ये नियम्यतां वासः ।

नो चेद्राजनियोग-

स्थिता जनाः सर्वतो योज्याः ॥३५॥

इसलिय याता इस मकान को छोड़कर किसी दूसरे मकान में जाकर रहिय या आज सब रात के लिय चारों घोर पुलिस का पहरा बिठका दीजिय ॥ ३५ ॥

एवं गदनपरं तं
नानायोगैर्निबोधयन्प्राप्तौ ।
शिष्टानपि निजमनुजान्
दूरे कृत्वाऽद्वितीय एवास्थात् ॥३६॥

यह सुन स्वामीजी उससे बोले कि जो कुछ होगा देखा जायगा । तुम चिन्ता मत करो । इतना कह कर उन्होंने और मनुष्यों को भी जो आपके पास रहते थे, रात को बाहर भेज दिया ॥ ३६ ॥

यो जगतामनुयन्ता
यस्याज्ञायां मया मनो वत्तम् ।
ईश्वरएव स देहं
रक्षितुमीष्टे ममेत्यनं यत्नः ॥३७॥

और कहने लगे कि जो ईश्वर सब जगत् का रक्षक है और जिसकी आज्ञा-पालन करने के लिय मैं नियम किया है वही मेरे शरीर की रक्षा करेगा और कोई नहीं ॥ ३७ ॥

निश्चित्यैवं शयितं
योगिनमेनं न कोपि तद्रात्रौ ।
तिमिरोधेपि बबाधे
सर्वत्रैवास्ति रक्षिता देवः ॥३८॥

इतना कहकर आप और भी कुछ मैदान में लीये और संघकार भी रात्रि भर रहा परन्तु कुछ भी न हुआ । क्यों हो, जब कि ईश्वर सर्वत्र रक्षक और नियमान्तक है ॥ ३८ ॥

योगान्यासपरायण-
मेनं प्रातर्निरीक्ष्य मित्राणि ।

मित्रोदय इव चित्ते

मोदस्यान्तं न सर्वथा लम्भन् ॥३९॥

प्रातःकाल उठते ही आपको योगाभ्यास में बैठा देव कर समस्त आर्य-
गण इतने प्रसन्न हुए जिसका वर्णन करना मेरी शक्तिसे सर्वथा बाहर
है ॥ ३९ ॥

ये मनुजा इह पूर्वं

समागमादस्य पत्तने मार्गे ।

मन्त्रोच्चारणमपि न हि

चक्रुस्तेऽलं पठन्ति गायत्रीम् ॥४०॥

ओ पुरुष आपके पधारने से पहले सर्व साधारण के समस्त वेद मन्त्र
भी नहीं पढ़ा करते थे वे आपके प्रताप से आज सर्वत्र गायत्री मन्त्र सुनाने
लगे ॥ ४० ॥

एवं निगदति मनुज-

व्राते योगी जगाद तान्सर्वान् ।

जीविष्ये यदि लोके

सर्वान्वेदं निबोधयिष्यामि ॥४१॥

यह सुनकर स्वामीजी उनसे कहने लगे कि यदि मेरा शरीर कुछ दिन
तक जीवित रहा तो मैं मनुष्यमात्र के छिपे वेद पढ़ने का प्रबन्ध करूँगा ॥४१॥

धूर्तेरिह बहुलोकै-

र्यस्मादेषः प्रगोपितो वेदः ।

तस्मादेव जगत्यां

मनुजा मूढाः समाभवन्सर्वे ॥४२॥

अबसे पौराणिक लोगों ने सर्व साधारण तक वेद पहुँचाना बन्द कर
दिया तभी से भारतवर्ष में समस्त पुरुष मूर्ख होने लगे और वेद भी छुप्तप्राय
होने लगे ॥४२॥

निगदत्येवं देवे

सार्यसमाजोपसङ्गता जनता ।

वर्षसहस्रमितावधि-

कालं जीवेति सर्वथावोचत् ॥४३॥

आपके इस प्रकार कहने पर समस्त सार्यजन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मन् ! आपका यद्यपि विस्तृत कीर्त्तिय और आपको दीर्घजीवी बनाइय ॥ ४३ ॥

प्रथमागमनावसरे

चत्वारिंशन्नवीनब्दात्रास्ते ।

अज्ञानोपहतज्ञा

नष्टं धर्मं प्रहीतुमातिष्ठन् ॥४४॥

जब आप पहले पहल आपे थे उस समय चाहीस हिन्दू विद्यार्थी अपने धर्म से विमुक्त होकर ईसाई होने के छिय सर्वथा तैयार थे और उद्यम कर रहे थे ॥ ४४ ॥

दैववशेन तदैव

स्वामी तानाप्य बोधयन्धर्मम् ।

वारितवस्थुपथोस्ता-

नार्ये मार्गे निवेशयामास ॥४५॥

परन्तु दैववश आप यहाँ पर विद्यमान थे । आपने उनके वैदिक धर्म का उपदेश देकर ईसाई होने से बचा कर वैदिक धर्म का अनुगामी बना लिया ॥ ४५ ॥

गतवति बहुतिथकाले

विभिन्नधर्मा जगाद योगीन्द्रम् ।

यद्येकत्र सपीति-

भवेदवश्यं तदाशु नौ प्रीतिः ॥४६॥

कुछ दिनों के बाद एक पादरी साहब ने आपसे कहा कि यदि आप हमारे साथ बैठकर एक साथ मेज़ पर खाना खावें तो हम में और आप में बड़ा प्रेम बढ़े ॥ ४६ ॥

कथयति कथमपि तस्मिन्

द्विरुद्धधर्मप्रवर्तके देवः ।

एकासनाऽशनेष्वपि-

तेषु विरोधं निवेद्य तुष्टोभूत् ॥४७॥

पादरी के इतना कहने पर आपने कहा कि यदि एक साथ भोजन करने से ही प्रेम बढ़े तो ईसाइयों में जो द्वेष सह भोजन होने पर भी पाया जाता है वह क्यों मिटे ? ॥ ४७ ॥

कालिकातानगरात्तै-

राहूतः कोपि पादरीत्याख्यः ।

नामश्रवणभयादिव

दयानिधेरत्र नागतो मन्ये ॥४८॥

यह सुन पादरी ड्रुप होगये और घबराकर आपसे शास्त्रार्थ के छिप उन्होंने एक बंगाली पादरी को कलकत्ते से बुलाया परन्तु वह माना स्वीकार करके भी आपके सामने नहीं आया ॥ ४८ ॥

एवं निखिलमतस्थैः

सत्रा वादे समेत्य जयपक्षम् ।

सानन्दो यतिवर्यो-

जगाम तस्मान्निवीननगराणि ॥४९॥

इस प्रकार अनेक मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ में विजय पाकर आप अति प्रसन्न हुए और यहाँ से किसी दूसरे शहर को जाने के छिप तैयार हुए ॥४९॥

आकर्ण्यगमनोत्थं

महोत्सवं भिन्नपत्तनान्तरजाः ।

मनुजाः स्वागतकरणे

नगरादर्वाकूसमुद्यतास्तस्युः ॥५०॥

अमृतसर से चलकर १२ अगस्त सन् १८७७ ई० को आप गुल्वासपुर पहुँचे । आपके स्वागत के लिए शहर के बारह ज़िले के प्रतिष्ठित रईस तथा राजकर्मचारी पहुँच गये थे ॥ ५० ॥

आयुर्वेदविदांवर-

एको मनुजः प्रबन्धकर्तृत्वम् ।

अध्यारोप्य स्वस्मिन्

नानायोगैश्चकार तत्सेवाः ॥५१॥

डाक्टर विहारीलाळजी ने आपके आतिथ्य का जितना कुछ भार था सब अपने ऊपर ले लिया और अनेक प्रकार से आपकी सेवा की ॥ ५१ ॥

गत्वेवैष महात्मा

वैदिकधर्मप्रचारमातेने ।

निगमोदितशुभवाक्यै-

मूर्तेः पूजामभञ्जयत्पापाम् ॥५२॥

आपने भी पहुँचते ही धर्मोपदेश करना प्रारम्भ कर दिया और साथ ही वैदिक-ग्रन्थों द्वारा मूर्ति-पूजा का बड़े जोर शोर से सफ़्फन किया ॥ ५२ ॥

आकर्णितशुभवादाः

केचिन्मनुजा विरोधभावेन ।

नाम्ना गणेशदासं

विद्वदेशीयमाययुः शरणात् ॥५३॥

आपके व्याख्यानो को सुन कर कुछ मनुष्यों ने विरोध-भाव से गणेशगिरि नामक एक थोड़े पड़े हुए साधु को आपसे शास्त्रार्थ के लिए बहुत उफ-साया ॥ ५३ ॥

सूचितशास्त्रविवादो-

गणेशदासो निवार्य्य तान्सर्वान् ।

स्वामिनमेवाश्रन्ते

शरणं लोकैरनुद्भुतः प्रापत् ॥५४॥

परन्तु उन्होने आपका विथाबल देखकर पौराणिकों को फटकारा । जब वे बहुत कुछ सिर होगये तब गणेशगिरि ने भी अन्त में स्वामीजी की ही शरण ली ॥ ५४ ॥

वृष्ट्वा तन्मतमध्ये

समाविशन्तं गणेशदासमपि ।

पौराणिकजनमध्ये

महान्विषादः समूर्ध्वनः समभूत् ॥५५॥

जब कि गणेशगिरि भी स्वामीजी के मत में होगये तब तो पौराणिकों में बड़ी हलचल मची और शोक के मारे बहुत से पौराणिक मूर्छित भी होगये ॥ ५५ ॥

दिवसानन्तरमेतै-

दौलतरामस्तथापरोप्येकः ।

शास्त्रार्थाय नियुक्तो-

जगाम मार्गे सकम्पनामापत् ॥५६॥

दूसरे दिन पौराणिकों ने पण्डित लक्ष्मीधर और पण्डित दौलतराम को दीनामगर से बुलवाया, परन्तु ये दोनों पण्डित भी शास्त्रार्थ के नाम से कांपने लगे ॥ ५६ ॥

नष्टा वागप्यनयो-

दृष्ट्वा देवस्य भारतीवेगम् ।

अतएवाशु ततस्तौ

विनिर्गतावेव भाषणस्थानात् ॥५७॥

जब कि स्वामीजी की शक्तता सुनकर दोनों के दोनों मूक रह गये तब वे श्रंत में कुछ मन में बड़बड़ाते हुए समा से चले गये ॥ ५७ ॥

अतिरमणीयैः कथनै-

र्ष्यानिघेरस्य पत्तने तस्मिन् ।

सत्वरमेव मनुष्यै-

रार्यसमाजो निवेशितः सम्यक् ॥५८॥

स्वामीजी के कृपातार व्याख्यानो से यहाँ पर भी २४ अगस्त सन् १८७७ ई० को आर्यसमाज स्थापित होगया और अग्रजल उसके अधिकारी चुने गये ॥ ५८ ॥

विहिते सज्जनवर्यै-

रार्यसमाजे महामुनिर्मुदितः ।

नगरान्तरजनशुद्ध्यै

मनसापूर्वं पुनर्ययौ वपुषा ॥५९॥

अपने समस्त आर्यसमाज को स्थापित देकर स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ से १३ दिसम्बर सन् १८७७ ई० को जलन्धर शहर पधारे ॥ ५९ ॥

भवने तत्र विशाले

सुचेतसिंहस्य संवसन्योगी ।

वैदिकधर्मसमीक्षा-

विषये व्याख्यानमावरादावात् ॥६०॥

यहाँ पर कुर्बँ सुचेतसिंह की कोठी पर आपके डहरने का प्रबंध किया गया और आपकी हजेरी में ही व्याख्यानों का प्रबंध होने लगा ॥ ६० ॥

भवनस्यातिलघुत्वा-

ज्जनताधिक्याच्च योगिनामीशः ।

विक्रमसिंहविनिर्मित-

भवने गत्वा खवकृतां तेने ॥६१॥

जब मनुष्यो की भीड़ अधिक होने लगी और स्थान का संकोच होने लगा तब दूसरे दिन कुर्बं विक्रमसिंह के मकान पर व्याख्यान का प्रबंध किया गया ॥ ६१ ॥

मासादधिकैर्दशभि-

र्दिवसैर्योगी पुरेत्र निवसन्सन् ।

वैदिकधर्मविचारं

क्रमशः सर्वत्र पूरयामास ॥६२॥

यहाँ पर स्वामीजी ने लगातार चालीस दिन तक चालीस व्याख्यान देकर गली गली में वैदिक धर्म का प्रचार अच्छी तरह कर दिया ॥ ६२ ॥

अभ्यर्णस्थपुरस्थाः

श्रोतुं व्याख्यानमस्य देवर्षेः ।

सत्वरमु त्वरमाणा-

धावं धावं समभ्ययुर्मनुजाः ॥६३॥

अलंघर के पास पास के नगरों के पुरुष आपके व्याख्यानों को सुनने के लिए बड़े प्रेम से दौड़कर आया करते थे ॥ ६३ ॥

बहुविधविद्वत्पूर्ये

समाजमध्ये दयामयो योगी ।

वैदिकमन्त्रविशेषैः

सम्यक् श्राद्धं विमर्दयामास ॥६४॥

एक दिन आपने अनेक विद्वानों से भरे हुए व्याख्यान-भवन में वेद मंत्रों के प्रमाण दे दे कर इस प्रकार आद्य का खण्डन किया कि सब देवों के देवता ही रह गये ॥ ६४ ॥

अस्मिन्नेवावसरे

बहवो मूर्तेः प्रपूजका मनुजाः ।

अखिलं त्यक्त्वा जालं

शरणं प्रापुर्दयानिधेश्वरणम् ॥६५॥

इसी अवसर में बहुत से मूर्तिपूजक पौराणिक लोग अपनी अपनी पूजा छोड़ कर आपके समीप आये और वैदिक धर्म के सन्धे अनुगामी बन गये ॥ ६५ ॥

सकलैरपि किल विज्ञैः

सत्यं देवस्य भाषणं मत्वा ।

निजनिजसम्प्रतिदानै-

वैदिकमार्गो विभूषितः परमः ॥६६॥

बहुत से पण्डितों ने भी आपके व्याख्यानो को सुन कर पौराणिक धर्म को तिलाञ्जलि दे दी और वे अपनी अपनी समस्तियों से वैदिक धर्म को ही पुष्ट करने लगे ॥ ६६ ॥

धर्मत्तमाजबुधा अपि

गलितां वृत्तिं विलोक्य मन्दानाम् ।

शरणं वैदिकधर्मं

मत्वा नूनं समाजमेवापुः ॥६७॥

धर्मसभा से छोटे मोटे पण्डितों ने भी मूर्तियों की जीविका छूटती देख कर अन्त में वैदिक धर्म का ही आश्रय लिया और वे समाज में प्रविष्ट हुए ॥ ६७ ॥

गतवति दिवससमूहे

राज्याधीशेन रामदत्तेन ।

पौराणिकजनपक्षं

धृत्वाप्यस्यैव पक्ष आदरितः ॥६८॥

कुछ दिनों के बाद आनरेरी मजिस्ट्रेट पण्डित रामदत्त ने आन्ध्र का पक्ष लिया था परन्तु सिद्ध न करने पर अन्त में स्वामीजी का ही पक्ष स्वीकार किया ॥ ६८ ॥

यवनैरपि किल योगी

सत्रावादं विधाय बहुवारम् ।

मन्दं तन्मतवादं

निर्बलतायां निरुध्य जयमापत् ॥६९॥

मौलवी अहमदखुसेन के साथ एक दिन कुरान के विषय में स्वामीजी का विचार हुआ परन्तु निष्पक्ष होकर मौलवी साहब स्वामीजी से हार मान गये और उन्होने शास्त्रार्थ छपा दिया ॥ ६९ ॥

एवं प्रशमितवादः

सर्वमतज्ञो दयामयोऽवादः ।

विन्यस्यार्यसमाजं

तस्मिन्नगरे पुरान्तरं प्राप ॥७०॥

इस प्रकार समस्त मतों के पण्डितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर आपने समाज स्थापित कराया और अन्त में यहाँ से बचने की प्रबल इच्छा प्रकट की ॥ ७० ॥

तत्र विहारीलाला-

मिधजनभवने विरम्य योगीन्द्रः ।

वैदिकधर्मप्रधनं

क्रमशः सर्वत्र पूरयामास ॥७१॥

२६ अक्टूबर सन् १८७७ ई० को आप यहाँ से प्रीरोज़पुर की छावनी में पधारे । यहाँ लाला विहारीलाल की कोठी में ठहर कर वैदिक-धर्म का प्रचार करने लगे ॥ ७१ ॥

पौराणिकजनशङ्काः

क्रमशो बम्भज्य सूत्तरैरेषः ।

सकलानपि पुरमनुजा-

स्निदर्शयामास वेदसिद्धान्तम् ॥७२॥

यहाँ पर समस्त पौराणिकों ने मिलकर कुछ प्रश्न बनाये जिन का उत्तर स्वामीजी ने नंबर धार दे दिया । फिर कोई शंका करने को नहीं आया ॥७२॥

वाचंयमपदवीस्थे

पुराणलोकेतिदुर्दशामासे ।

आर्येतरमनुजाना-

मनार्यशब्देन साभवद्भूतिः ॥७३॥

जब यहाँ के समस्त पौराणिक मूक हो गये और इनकी बुद्धिशा आरम्भ हुई तब सब नगर के पुरुष इनको अनार्य (पोप) शब्द से पुकारने लगे ॥७३॥

मन्दिरपूजक एकः

पप्रच्छारं दयानिधिं देवात् ।

शब्दस्यास्य निरुक्तिं

पूजारीति प्रसिद्धिमाप्तस्य ॥७४॥

एक दिन यहाँ के बड़े मन्दिर के पुजारी आपके पास आकर पूछने लगे कि यह जो संसार में पुजारी शब्द प्रचलित हो रहा है इसका क्या अर्थ है? ॥ ७४ ॥

पूजाया अरिरित्थं

समासमस्मिन्विधाय षष्ठीस्थम् ।

पूजनशत्रुभवार्थं

प्रबोधयामास सूत्तरैर्देवः ॥७५॥

आपने उत्तर दिया कि यह शब्द वास्तव में पुजारी नहीं है किन्तु 'पूजारि' है जिसका अर्थ (पूजाया अरिः पूजारिः) इस पद्यी समास से पूजा का शत्रु होता है ॥ ७५ ॥

श्रुत्वा गतवति पूजन-

शत्रौ रोषाद्यथागतं तस्मिन् ।

पुनरपि वैदिकधर्मं

प्रधानभावेन भूषयामास ॥७६॥

इतना झुन कर पुजारी रघुनाथजी क्रोध में भर गये और शीघ्र ही उठ कर चल दिये । आपने भी उनके जाने के बाद व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया ॥ ७६ ॥

व्याख्यानावसितौ किल

शङ्काऽनुज्ञामलं ददानेस्मिन् ।

विद्वदनुत्थितिभावा-

देको धूर्तः पपाठ दोहृडिकाम् ॥७७॥

एक दिन नियमानुसार व्याख्यान देने के बाद आपने कहा कि यदि किसी को कुछ शंका करनी हो तो करे । जब कोई न उठा तब एक धूर्त उठ कर दोहा पढ़ने लगा जो कि इस प्रकार है "कर खेळ चौगान मैदान में" ॥ ७७ ॥

तामयमात्मपरायां-

पुरतः शीघ्रं विभज्य वैयर्थ्यम् ।

यावत्तं बोधितवाँ-

स्तावन्मूकत्वमागमद्रावी ॥७८॥

आपने उसको सुन कर सबके सामने अर्थ करना प्रारम्भ कर दिया जिसको सुन कर वह लाल पीला हो गया और उठ कर चल दिया ॥ ७८ ॥

अवसितमेवं प्राप्ते

सद्ब्याख्याने निवेशिते चालम् ।

आर्य्यसमाजे तस्मा-

द्वन्तुं चक्रे पुरान्तरं स्वेच्छाम् ॥७९॥

इस प्रकार लगातार वैदिक धर्म के प्रचार से जब यहाँ पर समाज स्थापित हुआ तब आप यहाँ से चलने को उद्यत हुए ॥ ७९ ॥

आप्य पुरं नवलोकं

भवने विश्रम्य वैश्यवर्य्यस्य ।

विज्ञापनदलयोगैः

सर्वा रथ्या विभूषिताश्चक्रे ॥८०॥

७ नवम्बर सन् १८७७ ई० को यहाँ से आप रावलपिंडी पधारे और यहाँ पर सेठ जामनजी की कोठी में ठहर कर आपने सर्वत्र व्याख्यान के विज्ञापन लगावा दिये ॥ ८० ॥

मासद्वयमनुवसता

पुराणग्रन्थप्रभञ्जनां दधता ।

वैदिकधर्मादीनां

किं किं न कृतं दुरत्ययं कृत्यम् ॥८१॥

लगातार दो महीने रह कर यहाँ पर आपने वैदिक धर्म का प्रचार और पौराणिक मत का अच्छे प्रकार लण्डन किया ॥८१॥

खण्डनमारभमाणे

यतिनामीशे विभिन्नमतवादी ।

कश्चित्परिषदि मौढ्या-

देनं तारस्वरेण समवोचत् ॥८२॥

जब ईसाई मत के सण्डन का अघसर आया तब एक पादरी ने सभा में उठ कर बड़े जोर से कहा कि सुनिप महाराज, सुनिप ! ॥ ८२ ॥

वचनैरिञ्जीलस्थै-

लूताभिख्यस्य मर्त्यभेदस्य ।

यत्क्रियते बहुखण्डन-

मेतत्सर्वं न विद्यते तस्मिन् ॥८३॥

आप जो ईजील के प्रमाण से हज़रत ख़त के विषय में कुछ कह रहे हैं वह नितांत असत्य है । ईजील में ऐसा कहीं नहीं लिखा है ॥ ८३ ॥

निगदत्येवं मनुजे

तन्मूर्खत्वं प्रदर्श्य तद्ग्रन्थे ।

तद्गतवाक्यविशेषै-

मौनव्रतितामदादरं देवः ॥८४॥

स्वामीजी ने यह सुन कर उनसे कहा कि मालूम होता है आपने ईजील नहीं देखा । देखिए । यह क्या लिखा है । इतना कह कर ईजील का पुस्तक सब के सामने खोल कर दिखा दिया । पादरीजी लज्जित और चुप हो गये ॥ ८४ ॥

उत्तरदानपरं तं

निरीक्ष्य नानामतानुगैः सार्धम् ।

पौराणिकमतविज्ञाः

सर्वे दोषानलम्भयन्देवे ॥८५॥

पौराणिक लोगों ने जब आपको ईसाइयों के साथ बातचीत करते देखा तब वे आपको भी ईसाई समझ कर आपके लिए आक्षेप करने लगे ॥ ८५ ॥

यीशुमतप्रथनार्थं

समागतोर्यं पुरेऽत्र तन्नूनम् ।

भवनाद्वरीक्रियता-

मित्थं तद्देहनायकं जगदुः ॥८६॥

शहर में जाकर यह फैलाया कि यह स्वामी छिपा हुआ ईसाई है ।
जब उनकी कुछ न चली तब मकान वाले को जाकर मड़काया ॥ ८६ ॥

अर्वागेव तदायं

कथनात्तस्याऽऽप्य तत्परं भवनम् ।

द्वैगुण्ये न पुनस्ता-

न्पुराणभाजो विभङ्गयाश्चक्रे ॥८७॥

आप पहलेही से उस मकान को छोड़ कर सुजानसिंह की कोठी में जा
ठहरे । फिर आपने पौराणिकों की पहले से भी कृती कवर की ॥ ८७ ॥

तस्मिन्नेवावसरे

कनखलवासी निरक्षरः साधुः ।

संवादाय नियुक्तो-

लोकैर्नापहयामयं भीतः ॥८८॥

इसी अवसर में कनखल की गद्दी के महंत साधु सुसंपतगिरि आये हुए
थे । लोगों ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया परन्तु वे आपके सामने
नहीं आये ॥ ८८ ॥

काश्मीराधिपतेरिह

विनयाबद्धं निमन्त्रणापसम् ।

आगतमभिवीक्ष्याऽरं

गमनानिच्छां निवेशयामास ॥८९॥

यहीं पर आपके पास महाराज काश्मीर ने आपको अपनी रियासत में बुलाने के लिए निमन्त्रण पत्र भेजा जो कि आपने स्वीकार नहीं किया ॥ ८९ ॥

राजा चेज्जडमूर्तीः

कूपे नैजेन हस्तयुगलेन ।

विनिपातयेत्तदानीं

मेलनजन्यः समापतेद्धर्षः ॥६०॥

आपने कहा कि यदि महाराज काश्मीर अपने दोनों हाथों से मूर्तियाँ कूप में डाल दें तो मुझसे मिलना हो सकता है । अन्यथा नहीं ॥ ९० ॥

काहं खण्डनपक्षो-

मण्डनपक्षः क मानवाधीशः ।

उभयोरपि वैपक्ष्याद्

द्रोहादितरत्किमस्ति सत्कृत्यम् ॥६१॥

कहाँ तो मूर्तिपूजा का सर्वथा अण्डन करनेवाला मैं और कहाँ प्रति दिन मूर्तिपूजा करनेवाले महाराज काश्मीर ! दोनों पुरुषों के परस्पर विरुद्ध कार्य होने पर केवल द्वेष के और कुछ नहीं हो सकता ॥ ९१ ॥

यद्यपि सत्यपराणां

विजयः सर्वत्र पूर्वतो याति ।

तदाप प्रथितमिहास्ते

हेतोरल्पस्य नो महान्यत्नः ॥६२॥

यद्यपि सत्य का सर्वत्र जय हुआ करता है यह बात प्रसिद्ध है तथापि थोड़ी सी बात के लिए बहुत सा परिश्रम उठाना नीति के विरुद्ध है ॥ ९२ ॥

एवं प्रवदति देवे

राज्ञो दूता निर्जं पुरं जग्मुः ।

देवोपि प्रतिवादै-

सूकीकृतवान्समस्तपौरायान् ॥६३॥

इस प्रकार आपके कहने पर महाराज काशीर के यहाँ से आये हुए दूत आपके लौट गये। आप भी पौरायिकों को अच्छे प्रकार शिक्षा देते रहे ॥ ९३ ॥

अथ कश्चिज्जनपालः

कल्पितरुद्राक्षधारण्यजानः ।

गौरीशङ्करमानी

द्रष्टुं देवं समभ्यगाद्दूरात् ॥६४॥

कुछ दिनों के बाद महाराज राघवसिंह, जो कि अपने शरीर पर बहुत से अस्त्र के दाने लाद कर अपने को गौरीशंकर मानते थे, आपके पास आये ॥ ९४ ॥

दृष्ट्वाऽऽयातं चित्तिपं

योगी मत्वाऽतिभारवाहाभम् ।

दयया तं समवोचद्

विसर्जयेमं महामरं दूरम् ॥६५॥

आपने उनसे कहा कि यह वृक्ष के फल हैं। इनके भारब करने से केवल मार सहना है और कुछ फल नहीं। आप इनको उतार दीजिए ॥९५॥

प्रदिशत्येवं देवे

नानायुक्तिप्रमाणमन्त्रौघैः ।

सर्वाण्यपि किल राजा

दूरं विक्षेप काष्ठजातानि ॥६६॥

युक्तिपूर्वक आपके इतना कहने पर राजा ने उन सबको उतार उतार कर फेंक दिया और परमात्मा का मुख्य नाम श्रीशंकर प्रह्व कर दिया ॥९६॥

उत्तारितवद्भुभारं

यतीश्वरं सोथ मानवाधीशः ।

नानाविधवसुदानैः

संपूज्यारं जगाम निजदेशम् ॥६७॥

आपके उपदेशों से जब महाराजा हलके होगये तब आपको अपना गुरु मान घोर आपका पूजन कर आप अपने देश को चले गये ॥ ९७ ॥

गतवत्यथ बहुकाले

पुराणविज्ञः स कोपि दौरात्म्यात् ।

लिखितप्रश्ननिबद्धं

यतये पत्रं समभ्यदादारात् ॥६८॥

महाराज के जाने के बाद एक पौराणिक पण्डित ने आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आपको एक पत्र लिख कर दिया ॥ ९८ ॥

दृष्ट्वा तद्वल्लमेषः

श्रीमान्वद्भुशो विविच्य चाशुद्धीः ।

कथयामास तमज्ञं

लेखाशुद्धिर्निवार्यतां पूर्वम् ॥६९॥

आपने उस पत्र को देखा कर कहा कि पहले आप अपने पत्र की असुद्धियाँ दूर करें जो कि हर एक पंक्ति में विद्यमान हैं ॥ ९९ ॥

साधारणदललेखो-

यस्य न बुद्धौ विभाति वद्भुदोषः ।

वारं कथं करिष्यति

मया सहायं विमृश्यतामेतत् ॥१००॥

साधारण पत्र का लिखना भी जिस पुरुष को नहीं आता वह शास्त्रार्थ करने के लिए पत्र भेज रहा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। ॥ १०० ॥

शक्तो यदि बहु वक्तुं
समक्षमागत्य संवदेत्तर्हि ।
नोचेत्किमिति मुधैव
स्वामपकीर्तिं जगत्त्रये तनुते ॥१०१॥

यदि कुछ बोलने की शक्ति हो तो सामने आकर कुछ कहिए। यदि न हो तो व्यर्थ अपनी निन्दा आप क्यों फटाते हो? झुपही रहा कीर्तिए ॥१०१॥

इत्थं कथनपरेस्मिन्
यमिनामीशे न कोपि तत्रागात् ।
दर्शनमपि किल दातुं
वक्तुं श्रोतुं तु का कथान्येषाम् ॥१०२॥

इतना आपके कहने पर कोई पौराणिक आपके पास दर्शन देने तक नहीं आया, शास्त्रार्थ करने न करने की तो बात ही अलग रही ॥ १०२ ॥

दृष्ट्वा तत्र मनुष्यै-
रार्यसमाजं निवेशितं योगी ।
मुदितमना बहुरस्यं
पुरान्तरस्थं जगाम मनुजौघम् ॥१०३॥

यहाँ पर भी कई सज्जनों के उत्साह से आर्यसमाज को स्थापित देख कर स्वामीजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने यहाँ से जाने की इच्छा प्रकट की ॥ १०३ ॥

गच्छन्दूरगदेशं
मार्गे योगी निवासकामनया ।

बाष्पीयोद्गमनीय-

स्थाने यानादवातरन्मध्ये ॥१०४॥

यहाँ से गुजरात के लिए जाने हुए स्वामीजी ३१ दिसम्बर, सन् १८७७ ई० को कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर उतर पड़े ॥ १०४ ॥

किञ्चित्कालस्य कृते

विभ्रमदेषः स योगिनामीशः ।

विस्तृतदेशपरत्वाद्

दूरतरं दिक्षु सत्वरं गतवान् ॥१०५॥

उतर कर थोड़ी देर के लिए भ्रमण करते हुए आप मैदान को साफ़ देखा कर चढ़ते चढ़ते बढ़ी दूर तक बातों ही बातों में निकल गये ॥ १०५ ॥

लक्ष्मीप्रसादनाम्ना

प्रसङ्गवशतः समागतेनायम् ।

पूर्वजमैत्रीहेतोः

प्रार्थितश्चासीदिनत्रयं वस्तुम् ॥१०६॥

यहाँ के रिहाइ के मास्टर लक्ष्मीप्रसाद ने पहले लखनौ के परिचय के कारण आपसे कुछ दिन रहने की प्रार्थना की जिसको आपने स्वीकार किया ॥ १०६ ॥

तत्र विशाले भवने

व्याख्यानानां पदे पदे दानात् ।

सर्वानपि तन्मनुजान्

वैदिकधर्मे नियोजयामास ॥१०७॥

यहाँ पर गवर्नमेन्ट हाई स्कूल में व्याख्यान होने के कारण बहुत आपका नाम दूर तक फैल गया और बहुत से जन आर्यसमाज में प्रविष्ट हो गये ॥ १०७ ॥

एकः कोपि विपत्नी

लिखितप्रश्नः पुरोस्य यद्वक्तुम् ।

प्रारम्भं प्रतिचक्रे

कम्पामापत्प्रकामतस्तावत् ॥१०८॥

एक दिन एक पादरी साहब कुछ घर से प्रश्न लिख लाये थे परन्तु जब आपके सामने सभा में आकर खड़े हुए तब कांपने लगे । उनसे बोला नहीं गया ॥ १०८ ॥

अन्ते निर्जितवादी

स कोप्यपत्नीयमाणनिजपत्नः ।

नामं नामं गतवा-

न्नैजं गेहं कथञ्चिदानघ्नः ॥१०९॥

अंत में आपके प्रताप के सामने वे हार मान गये और आपके लिए प्रणाम करते हुए लज्जित हो अपने घर को चले गये ॥ १०९ ॥

यतिवर्यस्य वचोभि-

स्तत्पुरण्वार्य्यमन्दिरं तस्मिन् ।

समभूदतिवद्दुशालं

विशालमारादहर्निशं करणैः ॥११०॥

आपके प्रभावशाली उपदेशों के प्रभाव से यहाँ पर भी आपके सामने ही आर्यसमाज स्थापित हो गया और समाज-मन्दिर बनने लगा ॥ ११० ॥

दूरीकृतनिजपत्नाः

सत्यपराः केपि यावनास्तत्र ।

तन्मतमाविविशुस्ते

बुद्धिमतां का कथास्ति विबुधानाम् ॥१११॥

यहाँ के कई बुद्धिमान् सत्यप्राही मुसलमानों ने भी आपकी बड़ी प्रशंसा की और बड़े उत्साह के साथ आपका पक्ष स्वीकार किया ॥ १११ ॥

येषु दिनेष्वयमासी-

सेष्वेव दिनेषु तत्परः कोपि ।

तत्रागतवान्योगी

भेलमनद्यास्तटेषु विश्रान्तः ॥११२॥

जिन दिनों आप यहाँ पर विद्यमान थे उन्हीं दिनों झेलम नदी के किनारे पर एक वृद्ध योगी भी आकर निवास करते रहे ॥ ११२ ॥

संस्कृतभाषणपरया

गिरा स योगी दयानिधेः पक्षम् ।

बहुशः स्तावं स्तावं

रम्या वार्ताश्चकार मित्रत्वात् ॥११३॥

आपके साथ उनकी प्रायः संस्कृत में बातचीत होती थी और वह आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे । उनके मन्त्रणों में आपसे कुछ भेद नहीं था ॥११३॥

स्थापितनिजमतचर्चः

स योगिराजस्ततोपि विजयित्वात् ।

अनुमत इतरमुनीशै-

गुर्जरदेशं जगाम यानेन ॥११४॥

इस प्रकार यहाँ वैदिक धर्म का उपदेश कर आप १३ जनवरी सन् १८७७ ई० को यहाँ से अनेक मनुष्यों के बुलाने पर गुजरात पधारे ॥११४॥

गत्वा तत्र महात्मा

विष्णोर्दासेन सत्कृतातिथ्यः ।

भूपतिपाठनभवने

नितरां व्याख्यानमादरादादात् ॥११५॥

यहाँ पर डाकूर विष्णुदास ने आपके आतिथ्य का भार अपने ऊपर ले लिया और गवर्नमेन्ट स्कूल में आपके व्याख्यानों का प्रबन्ध हो गया ॥ ११५ ॥

आनन्देन वदाने

व्याख्यानानां परम्परामस्मिन् ।

बहवः सज्जनवर्याः

पक्षे तस्यैव सङ्गता आसन् ॥११६॥

आनन्दपूर्वक लगातार आपके कई व्याख्यान होने के पश्चात् बहुतों से सज्जन आर्यसमाज में प्रविष्ट हो गये ॥ ११६ ॥

एतस्मिन्नथ काले

पुराणविज्ञौ गतप्रभौ कौचित् ।

मनुजौ देवसभाया-

मागत्यारं व्यतिष्ठतामारात् ॥११७॥

इसी अवसर में गोस्वामी विष्णुदास और दीक्षानाकराय इन दो पण्डितों ने प्रतिष्ठा के काम में आकर कुछ छेड़ छाड़ आरम्भ की ॥ ११७ ॥

सञ्चितबहुविधपुस्तक-

मेजनलब्धानि कानिचित्ताभ्याम् ।

वचनानि तत्र काले

सत्वरमागत्य दर्शितान्यस्मै ॥११८॥

कुछ संस्कृत के शब्दों को अनेक पुस्तकों से जोड़ जाड़ कर एक पत्र में लिखा और समा में आकर बड़े अकड़ के साथ बैठ गये ॥ ११८ ॥

वेदानामेतानि

द्रष्टव्यानि त्वया दलानीत्यस् ।

थावत्तौ नावदतां

तावद्योगी जगाद तावारात् ॥११६॥

और कहने लगे कि यह वेदों की भुक्तियाँ हैं । स्वामीजी ने उनका माव जान लिया और दोनों पण्डितों से कहा—॥ ११९ ॥

वेदचतुष्टयमेत-

द्विद्यत एवात्र दर्श्यतां मन्त्रः ।

सत्वरमेव किमर्थं

विलम्ब्यते वाक्यविस्तरो मास्तु ॥१२०॥

चारों वेदों की मंत्र-संहिता ये मौजूद हैं । इनमें से जिस वेद की ये भुक्तियाँ हो निकालिय । इतना कहने पर वे दोनों झुप होकर चलदिये ॥१२०॥

एवं निगदति देवे

नैजे वेदे प्रदर्शनावाचौ ।

द्वावपि तौ हृतकान्ती

वितर्जितौ गेहमापतुर्देवात् ॥१२१॥

बलते बलते मनुष्यों से कहने लगे कि ये भुक्तियाँ हमारे लिये वेदों में मौजूद हैं । छपे हुए वेदों में नहीं हैं । इतना सुनने पर आपने उनको और भी फटकाया ॥ १२१ ॥

मूर्खाविति मनुजेशै-

विज्ञाते सर्वभावतो योगी ।

वैदिकधर्मसमीक्षा-

रक्षणाविषये प्रवक्तृतामतनोत् ॥१२२॥

उपस्थित सभ्यों ने वहाँ पर उनकी घाल देख कर दोनों को ब्रह्म बत-
लाया । स्वामीजी भी उनके जाने पर वैदिक धर्म के विषय में कुछ कहने
लगे ॥ १२२ ॥

एकस्मिन्नथ दिवसे

पुराणभाजां सुदुर्वशामीक्ष्य ।

परिषद्येव यतीशं

जगाद कश्चिद्विपत्तिग्यां पत्नी ॥१२३॥

एक दिन पौराणिक पण्डितों की दुर्वशा देख कर मिस्टर बोकेमन साहब
सभा में आकर स्वामीजी से यों कहने लगे—॥ १२३ ॥

बलरहितानामेषां

हस्तादाच्छिद्य मन्दभावानासु ।

गमनोचितजघुयष्टि

प्रदीयते किं सहायभावार्यसु ॥१२४॥

आप इन विद्यारे बलहीन पौराणिकों के हाथ से, जो डेकने की
मूर्तिपूजा रूप लफड़ों है, छीन कर उसके बदले में क्या देते हैं ? ॥ १२४ ॥

आभयतीत्यं मनुजे

जगाद योगी तमावरावेवसु ।

सिद्धाब्जनपरिवेषां

एवामि वर्ति प्रवीतबहुवेशासु ॥१२५॥

आपने उत्तर दिया कि मैं इनको उसके बदले में सिद्धाब्जन की एक
बड़ी बत्ती, जो कि समस्त सुबनों को प्रकाशित करती है, देने को उद्यत
हूँ ॥ १२५ ॥

यस्याः किञ्च परिवेषै-

रज्ञानान्धां नराः सुनेत्रत्वम् ।

प्राप्य निरस्तसहायाः

स्वयं चलन्ति प्रकाशमार्गेण ॥१२६॥

जिसके प्रमा-मण्डल में आकर अज्ञान से अन्धे पुरुष विशाल नेत्र हो कर किसी दूसरे सहाय की अपेक्षा नहीं रखते और स्वयं प्रकाश में चलते हैं ॥ १२६ ॥

अजरामरवदहृदिव-

मनुगतयोगा निसर्गतो मन्दाम् ।

पौराणिकजनवृत्ति

विसृज्य मुक्ता भवन्ति दोषेभ्यः ॥१२७॥

और योगाभ्यास के प्रभाव से अपने को अमर और अजर मान कर स्वभाव ही से निकृष्ट वृत्ति को छोड़कर दोषों से मुक्त हो जाते हैं ॥ १२७ ॥

एवं निगदति रम्यं

यमिनांवय्ये निरस्तवाग्वक्ता ।

तन्मूकत्वमवाप-

द्यन्नावाप्तं जनेन केनापि ॥१२८॥

आपके इतना कहने पर उन पादरी साहब ने, जो कि पौराणिकों के पक्ष-पाती थे, ऐसी चुप्पी खाधी जैसी किसी ने भी न खाधी है ॥ १२८ ॥

गायत्रीमन्त्रार्थ

कथयति देवेऽथ कोपि सद्यवनः ।

यतिवरमेनमगादीत्

सम्मत्यर्थं निरस्तानिजपक्षः ॥१२९॥

एक दिन समा में आप गायत्री मंत्र का अर्थ करके सबको सुना रहे थे कि मौलवी मुहम्मद अली आपसे निष्पक्ष होकर संमति के लिए पूँछने लगे ॥ १२९ ॥

यद्ययमेव महात्मन्

गायत्र्याः सार्वदौशिको भावः ।

तर्ह्यस्मज्जपकरणे

का हानिर्नेति तं मुनिः स्ववदत् ॥१३०॥

महाराज । यदि गायत्री का यही अर्थ है तो हम भी इसका जप किया करें । क्या हानि है ? स्वामीजी ने कहा कुछ हानि नहीं । आप शौक से किया करें ॥ १३० ॥

दिवसे चैकस्मिन्नथ

केचिद् धूर्ताः समेत्य योगीन्द्रम् ।

पप्रच्छुर्वद विद्वन्

विज्ञस्त्वं वाऽनभिज्ञ इति तूर्याम् ॥१३१॥

एक दिन कुछ बाल्बाक लोगों ने आपस में झगडा करके, स्वामीजी के पास जाकर, यह प्रश्न किया कि " आप जानी हैं या अनजानी ? " ॥ १३१ ॥

तेषामाशय एषः

कापटिकानां यदायमात्मानम् ।

ज्ञानीति प्रगदिष्यति

साहृङ्कारीति तद्वदिष्यामः ॥१३२॥

इस प्रश्न से उनका अभिप्राय यह था कि यदि स्वामीजी अपने को जानी बतलावेंगे तो हम उनको अभिमानी प्रकट करेंगे ॥ १३२ ॥

यदि निगदिष्यति योगी

नाहं ज्ञानी तदा वयं सर्वे ।

उपदेशानधिकारं

तस्मिन्नारोप्य निर्धृताः स्याम ॥१३३॥

यदि स्वामीजी अपने को अज्ञानी बतलावेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि आपको उपदेश देने का अधिकार नहीं ॥ १३३ ॥

एवं तेषामाशय-

भाराद्बुध्वोभयप्रधानार्थम् ।

महितं सूत्तरमादाद्

दयामयोयं महर्षिणामीशः ॥१३४॥

इस प्रकार दोनों प्रश्नों में उनका आशय समझ कर अपने को सर्वथा बचाने के लिए आपने इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १३४ ॥

बह्वस्ते किल विषया

येष्वनभिज्ञोस्मि जीवभावत्वात् ।

बह्वस्तेऽपि जगत्यां

विज्ञो येष्वस्मि शास्त्रदर्शित्वात् ॥१३५॥

बहुत से विषय इस प्रकार के हैं जिनमें जीवात्मा होने से मैं अज्ञानी हूँ और बहुत से विषय ऐसे हैं जिन को मैं शास्त्रों के द्वारा जानता हूँ ॥ १३५ ॥

एवं कथयति देवे

मूकाः सर्वेपि मन्दकर्माणः ।

सत्वरमेव यथेच्छं

यथागतं जग्मुरानमन्तस्तम् ॥१३६॥

ऐसा उत्तर सुनकर वे सब चालाक लोग धूर्तों के नीचे उँगली दबाने लगे और आपको प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले गये ॥ १३६ ॥

अत्रान्तरेति धूर्ताः

केचित्तस्योपरीष्टकाखण्डान् ।

वर्षन्तो नरपतिना

कारागारे निवेशिताः सम्यक् ॥१३७॥

इसके अनन्तर कुछ धूर्तों ने आपस में सलाह करके आपके ऊपर ईंट और पत्थर फेंकने आरम्भ किये, पर वे राजदण्ड से वृण्वित हुए ॥ १३७ ॥

अवशिष्टा अपि ये ये

गुप्ता धूर्ताः पुरेत्र ते सर्वे ।

राजिकशासनदक्षै-

र्धावं धावं प्रधाविता देशात् ॥१३८॥

कुछ धूर्त लोग जो इधर उधर छिप कर घात देना करते थे उनको भी पुलिस के कर्मचारियों ने भगा दिया ॥ १३८ ॥

एवं निरवसितानां

दुष्टजनानामभावतस्तत्र ।

सकलोप्यार्यजनौघो-

द्वियुयोत्साहैरकल्पयद्गोष्ठीम् ॥१३९॥

इस प्रकार जब सब दुष्ट लोग पकड़ कर इधर उधर मँडे गये तब सामाजिकों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया ॥ १३९ ॥

संस्थाप्यात्र समाजं

योगी थातः पुरान्तरं यस्मिन् ।

गमनानन्तरमेव

प्राभवद्वारात्प्रवृत्ता हर्षैः ॥१४०॥

स्वामीजी भी यहाँ पर समाज स्थापित करके २ फरवरी सन् १८७७ ई० को बड़ीराबाद पहुँचे और चाते ही समनबुद्ध पर उधर कर धूमधाम से वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे ॥ १४० ॥

पौराणिकविदुषामपि

जगाम नाशं यदा बलं बुद्धेः ।

असमाप्तेपि तदा ते

तद्व्याख्याने द्रुतं ययुर्दूरम् ॥१४१॥

पौराणिक पण्डितों का जब बुद्धि का कुल बल न चल सका तब झुँभला कर आपके भाषे व्याख्यान से ही उठ कर चल दिये ॥ १४१ ॥

अन्यानपि निजवशगा-

नुत्थाप्योत्थ्याप्य मध्यतो मूर्खाः ।

अनयन्मनुजसमूहा-

नेतर्कि नाम योग्यताकृत्यम् ॥१४२॥

जहाँ तक उनका बस चल सका वहाँ तक वे आस पास बैठे हुए गौर मनुष्यों को भी समा से उठा कर बाहर ले जाने लगे ॥ १४२ ॥

एकस्तौरतिधूर्तैः

पुराणपक्षावलम्बिभिर्मिच्छुः ।

मन्दः स्वामिसमक्षे

शास्त्रार्थाय प्रकल्पितः समभूत् ॥१४३॥

एक दिन उन्होंने एक मिष्ठुक, जो मूर्ख होने के सिवा पागल भी था, आपके सामने लाकर शास्त्रार्थ के लिए खड़ा किया ॥ १४३ ॥

मात्सर्येण सभायां

द्रुटिते वेत्रोपविद्धपर्यङ्के ।

संस्थाप्य स प्रसिद्धिं

नीतः सर्वत्र शास्त्रवादाय ॥१४४॥

गौर बिना किसी के कहे सुने ही समा में एक टूटी सी कुर्ची पर ला कर उसे बिठलाया गौर शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध किया ॥ १४४ ॥

दिवसत्रयमपि तं ते
 सङ्गे शास्त्रार्थकारिणं मत्वा ।
 कानिचिदध्याप्य पुरः
 संस्कृतवाक्यानि नीतवन्तस्तत् ॥१४५॥

इस प्रकार वे तीन दिन तक उच्च पौराणिक को दो बार संस्कृत के शब्द
 रटवा कर अपने छात्र समा में छाते रहे ॥ १४५ ॥

दृष्ट्वेदं बहु तेषां
 स्वामी वाक्यैरतर्जयन्मौढ्यम् ।
 निरवासयदपि तस्मा-
 न्नवनाद्यस्मिन्बभूव संवादः ॥१४६॥

जब स्वामीजी ने उनकी यह शूद्रता देखी तब एक दिन उनको शून्य
 फटकारा और समा से बाहर निकलवा दिया ॥ १४६ ॥

इत्थं बहुभिरहोमि-
 स्तत्राप्यच्छं विधाय योगीन्द्रः ।
 आर्य्यसमाजं गतवा-
 न्म्रे तस्मान्निमन्त्रितो लोकैः ॥१४७॥

बहुत दिनों के बाद इस प्रकार यहाँ पर भी समाज स्थापित
 करके ७ फरवरी सन् १८७८ ई० को यहाँ से चाप गुजरानवाले में
 पहुँचे ॥ १४७ ॥

गत्वा तत्र विशाले
 भवने विश्रम्य योगिनामीशः ।
 वैदिकधर्मव्याख्या-
 मारभताख्यातिनाशिनीमुग्रासु ॥१४८॥

पहुँचने के साथ ही एक बड़े मकान में ठहर कर आपने बड़ी धूमधाम के साथ वैदिक धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया ॥ १४८ ॥

गमनानन्तरमस्य

प्रतिष्ठिताः केपि निर्गता दूरम् ।

पौराणिकबुधवर्याः

कस्य न भीतिर्भयाय नो महताम् ॥१४९॥

आपके पधारते ही दो चार नगर के प्रसिद्ध पौराणिक पण्डित अपना अपना घर छोड़ कर बाहर चले गये । उर ऐसा ही होता है ॥ १४९ ॥

यद्यत्र स्थास्याम-

स्तर्हि विवादाय योजयिष्यन्ति ।

मनुजाः केपि तदस्मा-

द्भ्रमनं श्रेयो न चात्र संवासः ॥१५०॥

उन पौराणिक पण्डितों ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि हम यहाँ पर रहेंगे तो शहर के मनुष्य शास्त्रार्थ के लिए आवश्य ही कहेंगे और हम में इतना सामर्थ्य नहीं जो स्वामीजी से शास्त्रार्थ करें ॥ १५० ॥

इति निश्चित्य गतेषु

प्रातर्दूरं पुराणविज्ञेषु ।

ईशमतानुगमनुजाः

कर्णाकर्णि प्रवादमाचक्रुः ॥१५१॥

अपने मन में ऐसा निश्चय कर वे सधेरे ही चले गये और ईसाइयों ने स्वामीजी के साथ छेड़ छानु करनी आरम्भ कर दी ॥ १५१ ॥

तद्ब्याख्यानावसरे

सर्वे संवीक्ष्य वक्तृतां तस्य ।

भीता इव चकिता इव

नितरां चित्तेषु विस्मयं प्रापुः ॥१५२॥

जिस समय स्वामीजी व्याख्यानों में ईसाई-मत का अच्छी तरह बखान कर रहे थे उस समय सब ईसाई लोग डर जाते थे और ड्रप रहते थे ॥ १५२ ॥

सामर्थ्यं न समक्षे

यदा प्रवक्तुं विजोकितां तस्य ।

देवर्षेरहृह तदा

गिरिजाभवने निमन्त्रितः श्रीमान् ॥१५३॥

जब ईसाइयों ने आपके सामने अपनी बोलने की ताकत न देखी तब आपको गिरजाघर में आने का निमन्त्रण दिया ॥ १५३ ॥

नियतं किल दिवसैकक-

माराकृत्वा दिनस्य पश्चाद्धै ।

युगमितवादनसमयं

नियतं चक्रुः समक्षवादाय ॥१५४॥

और एक दिन नियत कर दिया जिसमें दुपहर के बाद जाना निश्चय हो गया और बार बजे का समय भी ठीक कर दिया गया ॥ १५४ ॥

एवं कृतसमया अपि

खण्डितसन्धा विपक्षिणस्तेऽरम् ।

गिरिजानामकभवने

समयात्पूर्वं समागताः सर्वे ॥१५५॥

इस प्रकार समय और दिन के नियत होने पर भी ईसाइयों ने अपनी प्रतिष्ठा भङ्ग करके बार पाँच घण्टे पहले ही गिरजे में आकर अपना काम आरम्भ कर दिया ॥ १५५ ॥

अनुगतछात्रजनौघा-

नस्मिन् भवने निवेश्य ते लोकाः ।

कञ्चिद्यतिवरसविधे

नेजं दूतं विसर्जयामासुः ॥१५६॥

अपने मिशन स्कूल के कुछ लड़कों को एकत्र करके उन्होंने स्वामीजी को बुलाने के लिए अपना एक नौकर भेज दिया ॥ १५६ ॥

गत्वा सोपि यतीशं

निवेदयामास देवदेवेश !

मद्द्वारा ते मनुजाः

समाह्वयन्ति प्रकामतो युष्मान् ॥१५७॥

वह नौकर स्वामीजी के समीप तुरन्त जाकर कहने लगा कि हे महात्मन्! आपको सब लोग गिरजाघर में बुलाते हैं। पधारिय ॥ १५७ ॥

इत्थं श्रुतमधुवादः

समयादर्वाक्समागतन्दूतम् ।

संवीक्ष्य काञ्चयन्त्रं

तमादरादेव निर्बभाषेऽरम् ॥१५८॥

स्वामीजी ने नौकर की यह बात सुन कर अपनी बड़ी देवी जिसमें अभी बारह भी नहीं बजे थे। वे देव कर नौकर से बोले ॥ १५८ ॥

नायं नो गतिसमयो-

यामादूर्ध्वं समागमिष्यामः ।

निश्चितसमयात्पूर्वं

नियमवतां नैव सङ्गमो भाव्यः ॥१५९॥

यह मेरे जाने का समय नहीं है। मैं ठीक चार बजे के समय उपस्थित हूँगा। समय निश्चित होने पर समय से पहले जाना ठीक नहीं है ॥ १५९ ॥

एवं कृतपणवन्धे

यमिनामीशे जगाम दूतः सः ।

श्रीमानपि निजकृत्ये

समाससञ्ज प्रसङ्गतः प्राप्ते ॥१६०॥

इस प्रकार आपके कहने पर वह उनका नौकर चला गया और स्वामीजी भी अपने लिखने लिखाने के काम में लग गये ॥ १६० ॥

कपटोद्गतमतभेदे

नूनं जाते समन्ततः सर्वे ।

नागरिका अपि लोकाः

सभां निजामाशु कल्पयामासुः ॥१६१॥

जब नगर के लोगों ने यह बात सुनी तब ईसाइयों पर सब नगर के पुरुष आक्षेप करने लगे और ठीक उसी दिन उसी समय पर एक बड़े भारी मकान में स्वामीजी के व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया ॥ १६१ ॥

गमनादवरोध्यैनं

स्वामिनमग्रे निजोत्सवारम्भे ।

तानभिमन्त्र्य समस्ता-

नारम्भश्चक्रुत्सवस्यालम् ॥१६२॥

और गिरजाघर के जाने से स्वामीजी को रोक कर अपने यहाँ बुलाया और ईसाइयों को भी सूचना दी कि यदि शास्त्रार्थ करना हो तो इस समय यहाँ पर आकर कर लें ॥ १६२ ॥

सर्वत एव निरुद्धे

भवने योगी निरस्तपरवादः ।

ईशमतप्रतिखण्डन-

मादरतोयं यथायथं चक्रे ॥१६३॥

चारों ओर से सब ठीक प्रबन्ध होने पर स्वामीजी का व्याख्यान ठीक चार बजे आरम्भ हुआ जिसमें ईसाईमत के धुरें उड़ा दिये गये ॥ १६३ ॥

दत्तप्रतिपदसूचन-

पत्रा अपि ते यदात्र नाजग्मुः ।

आरामेण तदानीं

योगी चक्रे प्रकामतः सर्वम् ॥१६४॥

सूचना देने पर भी जब वे ईसाई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आये तब स्वामीजी आनन्दपूर्वक अपने कार्य में लग गये ॥ १६४ ॥

ध्वस्तसमस्तविवादः

स्वामी तत्रार्यमन्दिरं पश्यन् ।

सत्वरमेव ततोपि

प्रापल्लाहौरपत्तनं दृष्टम् ॥१६५॥

इस प्रकार अनेक मत मतांतरों के झगड़ों को नष्ट कर स्वामीजी यहाँ पर भी आर्यसमाज एवं आर्यमंदिर स्थापित कर यहाँ से पूर्व परिचित पञ्जाब के प्रसिद्ध लाहौर शहर को चले गये ॥ १६५ ॥

तत्र महाशयवर्यै-

नितरामुत्साहसन्ततिः कापि ।

तत्पुनरागमनेन

व्यवर्धिताभूत्समन्ततो नगरे ॥१६६॥

आपके दुबारा आने से यहाँ के पुरुषों के मन में वह आनन्द का समुद्र उमड़ने लगा जिस का वर्णन करना भी अशक्य सा प्रतीत होता है ॥१६६॥

देवोपि प्रतिपालित-

वचनः सर्वैर्यथायथं योगात् ।

सङ्गममाप्य नितान्तं

मुमुदे लोकैरभिष्टुतो बहुशः ॥१६७॥

स्वामीजी भी अपनी प्रतिष्ठा पूर्ण करने पर, जो कि उन्होंने पहले जाने के समय यहाँ फिर दुबारा आने की थी, पूर्व परिचित मनुष्यों से मिलकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ १६७ ॥

पञ्चनदान्तरदेशे

यस्मिन्यस्मिन्यदा कृतं कृत्यम् ।

आर्य्यमहाशयवर्य्या-

स्तत्तत्सर्वं निबोधयामास ॥१६८॥

पञ्जाब के जिन जिन नगरों में जितने जितने दिन जो जो आपने काम किया वह सबका सब आप यहाँ के आर्यों को बतलाते रहे ॥ १६८ ॥

अवशिष्टेषु विभागे

वैदिकधर्मप्रचारकामोयम् ।

परमात्मानमनन्तं

मन्त्रैस्तुष्टाव नैगमैर्भूयः ॥१६९॥

प्रचार से बचे हुए नगरों में भी प्रचार की इच्छा रखनेवाले ऋषि वैदिक मंत्रों से परमात्मा की स्तुति करने लगे जिससे यह भी मनोरथ पूर्णरूप से फलित हो जावे ॥ १६९ ॥

इति प्रथितशासनो यतिवरः समारोहणै-

र्दिशं वरुणलाञ्छनां समभिजित्य वेदोदितम् ।

मतं शिवमनल्पया प्रतिभयाऽत्र संवेशयन्

मुदा परमया युतो जगदधीशमेवास्मरत् ॥१७०॥

इस प्रकार प्रस्तुत कामनावाले, स्वामी दयानन्द सरस्वती जी, पञ्जाब के पौराणिकों को परास्त कर, वहाँ वैदिक धर्म का अपनी शक्ति से यथोचित प्रचार करते हुए, अपने मन में अति प्रसन्न हुए । जिस के बल से इस बड़े भारी कार्य में सफलता प्राप्त हुई, उस जगदीश्वर का आप अनेक प्रकार से स्मरण करने लगे ॥ १७० ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

पश्चिमदिग्विजयो नाम द्वादशः सर्गः ।



त्रयोदशः सर्गः

अथेप्सितन्धर्ममतप्रचारणं
प्रकर्तुकामो मुनिवृन्दनायकः ।
नवीनभावेन नवे नवे पुरे
नवं नवं प्रारभतार्यशासनम् ॥१॥

जो वैदिक धर्म का प्रचार आपके लिए अत्यन्त अभीष्ट था उसके लिए फिर भी उद्यत होकर आप नवीन नवीन नगरों में (जिनमें कि समाज स्थापन करना था) नवीन नवीन भावों को लेकर, नवीन नवीन रूप से प्रचार करने लगे ॥ १ ॥

वशात्प्रसङ्गस्य नवीनपत्तनं
समेत्य लोकैरनिरीक्षितप्रभः ।
स योगिवर्योऽथ चकार सादरं
बलेन वेदोक्तमतप्रकाशनम् ॥२॥

प्रसङ्गवश लाहौर से प्रस्थित होकर आप अकस्मात् १२ मार्च सन् १८७८ ई० को मुलतान पहुँचे और एक अनुपम उद्यान (बगीचे) में ठहर कर बड़े जोर के साथ वैदिक सिद्धांतों का प्रकाश (प्रचार) करने लगे ॥ २ ॥

दिनेषु येष्वेव जगाम तत्पुरं
तदैव योगेन स होलिकोत्सवः ।

समेधितोभूत्सहसैव सज्जनै-

रसज्जनैश्चापि विशेषमञ्जुलः ॥३॥

जिन दिनों श्री १०८ स्वामीजी मुलतान पधारे थे उन दिनों वहाँ हाली का उत्सव मनाया जा रहा था । उसको देखने के लिए आस पास के शहरों के रहनेवाले सहस्रों भले बुरे मनुष्य बड़े उत्सव के साथ एकत्रित होते थे ॥३॥

महोत्सवस्यागमनेन मानवाः

सहस्रशस्तत्कथनानुवर्तिनः ।

महं समभ्येत्य महान्तमादरा-

दवर्धयन्नार्यमहामहोत्सवम् ॥४॥

जिस मकान में आपका व्याख्यान हुआ करता था वह उस प्रान्त में एक अद्वितीय था इस लिए सहस्रों नर-नारी, जो कि वैदिक धर्म के जिज्ञासु थे, आपके पास आया करते थे और आपके कथन से उत्सव को बढ़ाते रहते थे ॥ ४ ॥

नितान्तभक्तिप्रवणीकृतात्मभि-

र्महाशयैरार्यमहामहोत्सवे ।

विवर्धिते तत्र बभूव कोप्यलं

पुराणविज्ञेषु निरादरोदयः ॥५॥

अत्यन्त भक्ति के साथ जिन्होंने अपना आत्मा तक अर्पण कर दिया ऐसे महाशयों के असीम साहस और उत्साह से जब यहाँ पर वैदिक धर्म की चर्चा पूर्णरूप से फैली उस समय पौराणिक पण्डितों का भले प्रकार निरादर होने लगा ॥ ५ ॥

पदे पदे वैदिकधर्मचारिभि-

नियन्त्रिताः पापकथानुवर्तिनः ।

यथाकथञ्चित्परिकल्प्य साहसं

जगुर्यशो देववरस्य दुस्तरम् ॥६॥

वैदिक धर्म के सच्चे प्रचारकों ने जब पौराणिक पण्डितों को पद पद पर रोक दिया और कुछ भी उनकी बात न चलने दी तब अन्त में हार मान कर सब स्वामीजी के ही शरण आये और आपका ही यश गाने लगे ॥ ६ ॥

इमे गतास्तेनुवदन्ति दुर्जनाः

क सागताऽवैदिककार्यकारिणी ।

सभेति सर्वत्र निरस्तयन्त्रणा

महाशयाली परमामगान्मुदम् ॥७॥

पौराणिक लोग वे चले जा रहे हैं, कुछ आपस में बातें सी कर रहे हैं, इनको यहाँ बुलाओ, आज इनकी सनातन-धर्म-सभा कहाँ चली गई? इस प्रकार अपने साहस से पंजाब के सामाजिक जन पौराणिक मण्डली की हसी उड़ा कर मगन होने लगे ॥ ७ ॥

यथायथं धार्मिकशासनस्थितौ

लयं गते चाप्यधमानुवर्तने ।

दयामयोपि प्रतिवर्धयन्सभां

जगाद विस्पष्टमिदं महाशयान् ॥८॥

जब यहाँ पर अच्छे प्रकार आर्यसमाज का काम चलने लगा और साथही पौराणिकमण्डली का प्रपंच नष्ट हो गया तब यहाँ के पुरुषों का उत्साह बढ़ाने के लिए ऋषि दयानन्द उनसे इस प्रकार कहने को उद्यत हुए जो निम्न लिखित है—॥ ८ ॥

वदन्तु के केऽत्र जना दुराशया

विनाशयन्ति प्रथितं सदागमम् ।

नवैरहो मन्दमतप्रचारणै-

विनाशयाम्यद्य सुखेन तन्मतम् ॥६॥

इस नगर के उन पुरुषों को सूचना देदो जिनके मन का भाव बुरा हो तथा जो वैदिक मार्ग का नाश करते हैं, जिन्होंने मनमाना मत स्वीकार किया हो, आज मैं अच्छे प्रकार उनकी पोल खोलूँगा ॥ ९ ॥

इति स्वदन्तद्विजराजकान्तिभि-

निवारितान्तःकरणाघसञ्चया ।

सभा समाभाषत सूनुतां गिरं

महामुनेरस्य पुरो निषेदुषी ॥१०॥

इस प्रकार मुक्ता-मणि-प्रभ दाँतों की चमक से नष्ट किया है मनुष्यों के हृदय देश में धरा हुआ पाप जिन्होंने ऐसे श्री १०८ स्वामीजी के समक्ष बैठे हुए समस्त महोदय आपसे यह बात कहने लगे कि—॥ १० ॥

वदन्ति यान्गोकुलपत्तनस्थिते-

रनुग्रहात्केवलगोपतीनलम् ।

तएव रस्येत्र पुरे स्वकल्पनां

प्रकाशयन्तो विचरन्ति निर्भयाः ॥११॥

गोकुल नामक ग्राम में अधिकतर रहने से जिनका नाम गोकुलस्थ पड़ गया है वही इस नगर में अधिकतर अपनी कल्पना का प्रचार करते फिरते हैं ॥ ११ ॥

तएव देवेन विवादपद्धतौ

नियन्त्रणीया इति मञ्जुवादिनी ।

जनावली तन्मुखपद्मवीक्षण-

मवर्धयल्लोचनपङ्कजोद्गमैः ॥१२॥

कृपा करके आप इनका ही यहाँ पर खण्डन कीजिए और शास्त्रार्थ में बुला कर हराइए। इतना कह कर सब सभा के महोदय अपने कमल के समान नेत्रों से आपका मुखारविन्द देखते रहे ॥ १२ ॥

स गोकुलस्थानभिवीक्ष्य निर्भया-
नवाच्यमेषां मनुजेतरैरलम् ।

विभञ्जयामास रहस्यमद्भुतं
वलेन योगी किल वैष्णवोद्गतम् ॥१३॥

आपने भी जब उनको वास्तव में उद्धत और निर्भय देखा, साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि मेरे बराबर इनकी पोल खोलने को कोई तैयार न होगा तब इनकी गुप्त लीला का आपने खण्डन करना आरम्भ कर दिया ॥ १३ ॥

निशम्य गोस्वामिमतप्रभञ्जनां
मुनीश्वरेणागदितामितस्ततः ।

निवासिनोभ्यर्णपुरस्थिता जनाः
प्रचक्रिरे वादविवादकल्पनाम् ॥१४॥

जब मनुष्यों के कानों तक इनका वल्लभ मत खण्डन पहुँच चुका और साथ ही समस्त साधारण पुरुष भी जब इनके भेदों से परिचित हो गये तब इस शहर में तथा इसके समीपस्थ नगरों में एक साथ बड़ी हलचल मचने लगी ॥ १४ ॥

विभञ्जितं वीक्ष्य रहस्यमागमैः
स्वकं प्ररुष्टाः प्रतिकूलभावनाः ।

प्रचक्रिरे यत्किल तत्र केवलं
मुधान्तरायो मनुजागमोभवत् ॥१५॥

अपनी पोल खुली हुई देखकर वैष्णवों ने स्वामीजी को बहुत बड़ी हानि पहुँचाने का उद्योग किया, पर ईश्वर की कृपा से उनका मनोरथ सफल न हुआ ॥ १५ ॥

अनन्तरं तैऽतिरुषा समेधिताः
 सभान्तरे शङ्खविशेषनिस्वनैः ।
 स्वकं प्रभुत्वं रभसाददर्शय-
 ज्जयेतिवादैश्च समं जनाधमाः ॥१६॥

एक दिन जब कि स्वामीजी व्याख्यान दे रहे थे सब बल्लभकुली रूष्ट हो कर बहुत से चेलों को अपने साथ ले शंख, घड़ियाल बजाते हुए बिना किसी की इजाजत सभा में आकर बैठ गये और जय जयकार मचाने लगे ॥ १६ ॥

पुनः समुद्गरुडतया विनैव तत्
 सभापतेः प्राप्य निदेशकल्पनम् ।
 प्रसह्य केषाञ्चिदिहापि पीठिकाः
 स्वयं निषेदुः किल तासु गर्विताः ॥१७॥

दूसरे दिन फिर भी बड़ी उद्वंडता के साथ बिनाही सभापति की आज्ञा के कुछ पुरुषों की कुर्सियाँ खाली देखकर उन पर बैठ गये और बड़े अभिमान से बड़ बड़ करने लगे । वे व्याख्यान में विघ्न करना चाहते थे ॥ १७ ॥

निरीक्ष्य तेषामतिधौर्त्यमीदृशं
 पुनः प्रवृत्ते यमिनामपीश्वरे ।
 न कापि साऽजायत कल्पनाऽपरा
 यथोचितत्वादनुवक्तृतागिराम् ॥१८॥

जब स्वामीजी ने इनका यहाँ तक बढ़ा चढ़ा साहस देखा कि वे सभा में भी आकर उपद्रव मचाने को उद्यत हैं तब दुबारा इनके मत का खण्डन करना आरम्भ किया जो निम्नलिखित है ॥ १८ ॥

विधाय वेशं नवयोषितामिमे
 तथैव चालङ्कृतिवस्त्रधारणम् ।

वदन्ति वाचं मिलिताः परस्परं

तदीयभावानुगतां सखीमुखाः ॥१६॥

सखीभाव को प्राप्त होकर ये लोग मूँछ मुड़ा कर स्त्रियों के कपड़े, जेवर आदि पहनकर हर महीने में स्त्री वेष धारण करके बातें भी स्त्रियों के सी ही करते हैं जैसे “ परी परी भेना, मैं आज ना खाऊँगी, मेरी चुनरिया लहप । मैं तो मा के यहाँ जाऊँगी, वहाँ सोऊँगी ” इत्यादि ॥ १९ ॥

भवन्ति मन्दाः प्रतिमासमागताः

रजस्वलत्वं युवतीसमाननाः ।

निमज्ज्य वस्त्राण्यथ गौरिकाविले-

जले पुनः पूर्ववदेव वेषगाः ॥२०॥

जब इनका रजस्वला होने का दिन आता है उस दिन गेरू का पानी अपने ऊपर गेर कर कहते हैं कि “ हम रजस्वला हो गईं ” और एक कोठरी में जाकर चार दिन तक रहते हैं फिर पाँचवें दिन न्हा धो कर पुरुष बन अपना आडंबर फैला देते हैं ॥ २० ॥

ललाटदेशे तिलकं करे पटी

जपानुरूपा विषयेषु मानसम् ।

महामहाडम्बरमम्बरेक्षणा

भवत्यमीषां जनवञ्चनात्मनाम् ॥२१॥

माथे पर तिलक, और हाथ में माला और गोमुखी, ऊपर को दृष्टि, यह पूजा का आडम्बर मात्र है । यह सब भोले भाले लोगों को बहकाना है ॥ २१ ॥

इति प्रकामं प्रतिदर्शितेऽधमे

रहस्यमार्गे गुरुणा सभापि सा ।

समन्ततः पोलमवेक्ष्य तन्मते

सहस्ततालं जयशब्दमब्रवीत् ॥२२॥

इस प्रकार जब आपने इनके घर का रहस्य सबको बतला दिया तब समस्त सभा में बैठे हुए मनुष्य इनको हँसने लगे और अपने पक्ष का जय देखकर करतलध्वनिपूर्वक स्वामी जी के कथन की स्वीकृति-सूचना देने लगे ॥ २२ ॥

अवेक्ष्य गोस्वामिमुखानि सज्जना-
स्तदैव रक्तानि समस्तसाधनैः ।

प्रबन्धमेतादृशमादधुः परं

यथा न शङ्कासमभूद्विपक्षिणाम् ॥२३॥

सभा में बैठे हुए गोकुलियों का क्रोध आने से लाल मुँह देखकर उपस्थित आर्यमहाशयों ने ऐसा प्रबन्ध किया कि वे कुछ उपद्रव न मचा सके और जो उपद्रव उन्होंने पहले सभा में आकर किया था उसका व्याख्यान द्वारा उत्तर भी यथोचित दिया गया ॥ २३ ॥

भयेन भीताः परतो दयानिधे-

रिमे सुमन्दा अपि मन्दकान्तयः ।

स्वकीयवक्त्रेषु निवेश्य मूर्च्छनां

जवेन याताः स्वगृहाणि विस्मिताः ॥२४॥

स्वामीजी से भय खा कर फिर इन गोकुलियों से भी कुछ न बन सका, इनके मन के हींसले मन में ही लीन हो गये, वे न कुछ कर सके, न धर सके । अन्त में अपना सा मुँह लेकर जैसे आप वैसे ही लौट कर चले गये । स्वामी जी का विजय हुआ ॥ २४ ॥

अहो नवीना यमिनोस्य खण्डना

विखण्डितानाशु विधाय दुर्जनान् ।

सभान्तरङ्गान्निरवासयत्स्वयं

किमस्ति साध्यं न वशीकृतात्मनाम् ॥२५॥

धन्य है स्वामी जी की उस कथनशक्ति को जो क्षण भर में विपक्षियों का मन भङ्ग करके, बिना किसी प्रयत्न के, सभा से उनको उठा देती है और उनकी सारी शक्ति को स्तम्भित कर देती है । ठीक है, बलवान् आत्माओं को क्या असाध्य है ? कुछ नहीं ॥ २५ ॥

गतेषु विद्याविनयादिशत्रुषु

क्रमेण गोस्वामिषु सा सभापि ताम् ।

दयामयस्य प्रतिभां पदे पदे

समस्तभावैः प्रसशंस हर्षिता ॥२६॥

उन विद्या विनयादि गुणों से हीन गोस्वामियों के चले जाने पर उपस्थित आर्य महाशयों की पंक्ति एकस्वर से आपका जय जयकार करने लगी और पद पद में आपकी बुद्धि की प्रशंसा करती हुई अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ २६ ॥

अनन्तरं तत्र पुरे निमन्त्रितः

स पारसीकैरतिमान्यतो ययौ ।

ददौ च तत्रापि विशेषवक्तृतां

यथा समस्ताऽभवदार्यमार्गगां ॥२७॥

मुलतान शहर से छावनी कुछ फासिले पर बस रही है—यहाँ पर अधिकतर पारसीक रहते हैं। इन्होंने एक दिन खास तौर पर निमन्त्रण देकर आपको बुलाया और व्याख्यान कराया। अन्त में उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको विदा किया ॥ २७ ॥

सभां विधायाशु विदेशवासिनां

प्रभावतो धर्मपथेऽनुरागिणीम् ।

मुनिः प्रसङ्गात्पुनराप्य तत्पुरं

विभञ्जयामास नवीनकल्पनाः ॥२८॥

आपने यहाँ पर भी व्याख्यान के प्रभाव से एक सुजन-समिति स्थापित की। अन्त में छावनी से फिर मुलतान शहर पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार के शाक्त, पाशुपत, क्षपणक, कापालिक, वैष्णव, गणपत, वाल्लभ, रामानुज, निम्बार्क, जैन, बौद्ध, चार्वाक, मौहंमद, पेशव, शाङ्कर, आदि मतों का क्रमशः खण्डन किया ॥ २८ ॥

निशम्य तद्व्याकृतिवादविप्लवं
 बुधा महान्तो दशनैर्निजाङ्गुलीः ।
 पदे पदे तस्य पुरोऽदशन्गता
 निरस्तशङ्काश्च पुनर्ययुर्गृहम् ॥२९॥

आपके व्याख्यानों में आये हुए बहुत से पण्डित आपकी व्याकरण की योग्यता देख कर दाँतों के बीच में अँगुली दबाते थे और अनेक प्रकार की शङ्काओं का उत्तर प्राप्त कर आपका गुणगान करते हुए अपने अपने घरों को जाया करते थे ॥ २९ ॥

अशेषलोकानुगता जना धृतिं
 प्रवृत्ताचत्वरमेत्य नित्यशः ।
 निजं निजं संशयमुत्तरोत्तरं
 निवारयन्तो विभराम्बभूविरै ॥३०॥

आपके व्याख्यान के समय अनेक संप्रदायों के मानने वाले असंख्य पुरुष अपना अपना संदेह निवृत्त करने के लिए "व्याख्यान-चत्वर" पर आकर बैठते थे और निवृत्त-संदेह होकर धैर्य का धारण किया करते थे ॥ ३० ॥

बहूनि दृष्ट्वाथ बभूव नास्तिको-
 जनेतरो यः स दिनत्रयं मुनिम् ।
 मुदा समाभाष्य विशुद्धचेतसा
 बृहप्रतिज्ञोऽभवदास्तिकोत्तमः ॥३१॥

राय सागरमलजी जो कि चौदह सौ पुस्तक पढ़ कर नास्तिक हो गये थे उन दिनों यहाँ पर आये हुए थे । आपसे तीन दिन बात होने पर उन्होंने शुद्ध मन से नास्तिकता छोड़ आस्तिकता धारण की और वैदिक धर्म के मानने-वाले बने ॥ ३१ ॥

मुनेर्गिरां कापि विभाति सा प्रभा
 नियन्त्रणे या बहुनास्तिकानपि ।

नियोजयन्ती निगमोदिते विधौ

विवर्धयत्यार्यसमाजमण्डलम् ॥३२॥

आपकी वाणी में यह गुण खास तौर पर रहा करता था कि कैसा भी नास्तिक क्यों न हो आपकी प्रबल युक्तियों के सामने शिर ही झुका देता था और हार मानकर उसको वैदिक (आर्य) धर्म का शरण लेना ही पड़ता था ॥ ३२ ॥

कुतो न सा स्याद्यमिनां वचःसु सा

प्रभावशक्तिर्वहु यैर्गुहागृहे ।

समाधिमास्थाय नवीनकल्पना

समेधितासीत्पुरएव सर्वतः ॥३३॥

क्यों न हो ! आपकी वाणी में यह प्रभाव अवश्य होना ही चाहिए था जिन्होंने कि पर्वत की कन्दराओं में अनेक प्रकार के योग-साधनों द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा पहले ही से समस्त शक्तियों का मुक्ताविला करना विचारा था ॥ ३३ ॥

(सांप्रतमनेकशक्तिसंपन्नस्यास्य महर्षेः प्रभावादेकशक्तिमतां जड़देवानां शक्तिनिष्पतनं वर्णयन्नाह)

कृतं यदारभ्य गुहोदरोमुना

सुदुश्चरं योगसमाधिवर्धनम् ।

विनाशभूयं ततएव सर्वथा

जगाम तत्तद्भृतमत्र तद्वलम् ॥३४॥

जबसे आपने एकांत में पर्वतों की गुफा में बैठ कर अपना योगबल (१) बढ़ाया तबसे झूठे देवताओं की शक्तियाँ घटने लगीं अर्थात् ज्यों ज्यों आपकी शक्ति बढ़ी त्यों त्यों उनकी शक्ति घटी । अन्त में आप अनेक शक्तिमान् हुए और वे सर्वथा शक्तिरहित हुए ॥ ३४ ॥

(१) योगी के लिए वास्तव में इतना सामर्थ्य हो जाता है । देखो-पातञ्जल-योगदर्शन ।

भयान्मुनेरस्य निरस्तशक्तिका

बभूव शक्तिः प्रबभूव कुण्ठितम् ।

शतक्रतोर्वज्रमगाददर्शनं

सुदर्शनं दुर्दशया रमापतेः ॥३५॥

पहले तो आपके भय से (मनमानी) शक्ति की शक्ति अशक्त होकर नाम मात्र शेष रह गई फिर (मनमाने) इन्द्र की वह वज्रधारा कुण्ठित होकर अर्थात् मुड़कर नष्ट हुई और क्या कहें चक्रपाणि का सुदर्शन चक्र भी चक्र में पड़कर अदर्शन भाव को प्राप्त हो गया ॥ ३५ ॥

विहाय शूलं बहुशूलतापितो-

जगाम शूली यददर्शनं ततः ।

पराजितो भूतलमाविशच्छुचा

त्रिशूलमस्यातिबलेन योगिना ॥३६॥

अनेक वाक्शूलों से मूर्च्छित होकर जबसे त्रिशूली आपके समक्ष शूल छोड़ मैदान से भागे तब से अभागा त्रिशूल शूलव्यथा से पीड़ित होकर यशो-वशिष्ट हो गया । अर्थात् त्रिशूली का शूल भी शूल में पड़ कर अपना प्रभाव छोड़ गया ॥ ३६ ॥

गृहीतदण्डे यमिनामधीश्वरे

निरस्तदण्डे च भयेन तत्पतौ ।

भयाकुलाः सत्वरमुत्तरा ययु-

र्दिशः कुवेराग्निजलाधिपादयः ॥३७॥

जिस समय आपको दण्ड धारण करता देख दण्डधर अपने दण्ड को झण्डित सा जान आपको दण्डवत् करके चला गया तब से कुवेर (कुशरीर) कुवेर, जड़ाधिप जलाधिप, हताश हुताश बगलें भांंकने लगे और इतस्ततः शीघ्र ही छिप गये ॥ ३७ ॥

गतेषु देशान्तरमस्य योगिनो-

भयेन मुख्येषु बलादिषु द्रुतम् ।

न पन्नगास्त्रं न सुपर्णदैवतं

न वायवीयं प्रवभूव शक्तिमत् ॥३८॥

जब कि आपके समक्ष बड़े बड़े मिथ्याकल्पित देवताओं का ही मान-भंजन हो गया और वह इधर उधर भागने लगे तब पन्नगास्त्र, गारुडास्त्र, वायव्यास्त्र का तो नाम ही क्या लिया जावे। अर्थात् आपकी दुस्तर योग-शक्ति के समक्ष इन्द्र का ऐन्द्रास्त्र, विष्णु का वैष्णवास्त्र, पशुपति का पाशुप-तास्त्र, काल का कालास्त्र, पाशी का पाशास्त्र, कुबेर का कौबेरास्त्र, अग्नि का आग्नेयास्त्र, मदन का मोहनास्त्र और भी कल्पित देवता और उनके अस्त्र आपके समक्ष कान्तिहीन हो गये अर्थात् न चल सके ॥ ३८ ॥

निरस्तनानाविधशक्तिसञ्चया

क योगशक्तिः क मृषाकृतात्मनाम् ।

वलं मुधाकल्पितशक्तिसञ्चयं

तथापि बालैरधुनापि मन्यते ॥३९॥

अनेक शक्तियों की दमन करने वाली कहीं योगशक्ति, कहीं कल्पित देवताओं की मिथ्या शक्ति। ये दोनों कदापि तुल्यता को प्राप्त नहीं हो सकतीं पर तोभी लोक इन देवताओं की शक्ति को ही मानते चले जाते हैं। शोक ॥ ३९ ॥

करोति यांऽऽकाशगतिं वशीकृता-

णिमादिसिद्धीरपि या ददाति सा ।

मनुष्यभावान्तरमाकरोति चे-

त्किमत्र चित्रं गुणैव तादृशः ॥४०॥

वश में आई हुई योगसिद्धि आकाशगमन तक देकर अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व इन आठ सिद्धियों को देती है। वह यदि मनुष्य का मनोभाव पलट दे तो आश्चर्य ही क्या है? उसमें तो ऐसा गुण ही है ॥ ४० ॥

जड़ो जड़त्वेन वशीकरोति चेद्
गुणान्तराधानवशाज्जडानपि ।

कथं न कुर्यात्स्ववशेऽतिचेतना
सचेतनान्योगकृतिः प्रजासृजः ॥४१॥

सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त आदि जड़ मणिगण जब अपने प्रभाव से अग्नि जैसे प्रबल जड़ पदार्थों की शक्ति को (जकड़) देता है, तब चेतन योगसिद्धि चेतना रखते हुए मनुष्यों को क्यों कर वश में न करेगी ? अवश्य ही करेगी ॥४१॥

दिनान्तरे श्रावयता स्ववकृतां
महात्मना तेन सुताकरग्रहे ।
स विक्रयो दर्शितएव सर्वथा
प्रगृह्यते यत्र पणोन तद्धनम् ॥४२॥

एक दिन यहाँ पर व्याख्यान देते हुए श्रीस्वामीजी ने कहा कि जो लोग अपनी लड़कियाँ बेचते हैं अर्थात् कुछ द्रव्य लेकर उनका विवाह करते हैं उन कन्याओं और वेश्याओं में कुछ भेद नहीं रहता ॥ ४२ ॥

न कन्यकोद्राहपणेन गृह्यतां
धनं मनुष्यैरिति वादिनि प्रजा ।
मुनौ सनाथेव बभूव सर्वश-
श्रकार चाऽस्यानुमतेन तां कृतिम् ॥४३॥

मनुष्यों को चाहिए कि कभी कन्या के ऊपर द्रव्य न ले । यदि वे लेते हैं तो महा पाप करते हैं । स्वयं पैदा की हुई कन्या का द्रव्य लेकर विवाह करना अपना मांस स्वयं काट कर बेचना है । इतना आपके कहने पर सब पुरुष ठीक है ठीक है ऐसा कहने लगे और निश्चय करने लगे कि हम कदापि ऐसा न करेंगे और न ऐसा करने देंगे ॥ ४३ ॥

जगत्यलं या वितनोति गोत्रतां
विवर्धते यत्करणेन तत्कुलम् ।

स्वलोभतः सैव सुता धनेन चे-

त्प्रदीयतेऽतः किमिहास्ति पातकम् ॥४४॥

जिस कन्या के संबन्ध से संसार में गोत्र (वंश) चलता है तथा जिसके सम्बन्ध होने पर कुल की वृद्धि होती है वही कन्या यदि लोभ के वश बेची जाय तो इससे अधिक और क्या पाप होगा ? ॥ ४४ ॥

मनुप्रदिष्टानि विवाहसिद्धये

सदा विधेयानि सतानि सज्जनैः ।

विलोकयित्वा निजशक्तिसञ्चयं

तथैव कार्याणि यथा भवेच्छिवम् ॥४५॥

मनुष्यों को चाहिए कि अपनी शक्तियों को देख कर मनुस्मृति के बतलाये हुए ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन चार विवाहों में से कोई विवाह करें जिससे अपने वंश का कल्याण हो और किसी प्रकार का कष्ट भी न उठाना पड़े ॥ ४५ ॥

यथा विधानं मनुना प्रदर्शितं

तथा भवेच्चेदिह पाणिपीडनम् ।

न कोपि दुःखी जगतीतले जनो-

न चाल्पजीवी न दरिद्रदारितः ॥४६॥

जिस प्रकार ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन चार विवाहों का विधान मनु ने बतलाया है, ऐसा संसार में प्रवृत्त हो जाय तो कोई भी जन जगत् में दुःख न भोगे और न कोई दरिद्र के दारुण कष्ट को उठावे ॥ ४६ ॥

स्वयं समाहूय वरं गुणोत्तरं

समर्चितामुत्तमवस्त्रभूषणैः ।

सुतां प्रदद्याद्युवतीमनिन्दितां

वराय यूने विधिरेष सुन्दरः ॥४७॥

सबसे उत्तम विधान तो यह है कि पिता स्वयं अपनी युवती पुत्री के लिए योग्य, सदाचारी, ब्रह्मचारी, युवा वर को गुण-कर्मानुसार देख कर और उसको घर में निमन्त्रित कर यथाशक्ति अलंकृत कन्या का उसको दान दे दे ॥ ४७ ॥

न दानजं पुण्यमवाप्यते जनैः

प्रदीयते यत्र धनेन कन्यका ।

भवेत्कुतः पत्युरपीह तत्सुखं

विराजते यत्र पण्येन सा वधूः ॥४८॥

जहाँ पर धन लेकर कन्या दी जाती है वहाँ दाता के लिए कुछ भी पुण्य नहीं होता । क्योंकि विक्रय में पुण्य होना असम्भव है । उस धनकीत वधू को प्राप्त होकर पति भी कदापि सुख को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥

समागमो वारवधूनिभो यदा

भवत्यलं नायकनायिकाऽऽगमे ।

कुतस्तदा रूपवती बलान्विता

गुणान्विता चापि भवेत्सुतोद्गतिः ॥४९॥

स्त्री एवं पुरुष का जहाँ पर वेश्या और जार जैसा समागम हुआ करता हो वहाँ पर रूपवती, बलवती, गुणवती और धनवती संतान कहाँ हो सकती है ? कदापि नहीं । और न उनमें प्रेम हो सकता है । भला वेश्या के पुत्रों में प्रीति कहाँ ? ॥ ४९ ॥

भवन्ति पुत्रा गुणिनो यशस्विनो-

बलान्विता रूपविनिन्दितस्मराः ।

मनुप्रदिष्टेषु चतुर्षु भूतले

कृतेषु कन्याकरपीडनेष्वलम् ॥५०॥

मनुप्रोक्त ब्राह्मादि चार विवाहों से संसार में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे आयुष्मान, यशस्वी, तेजस्वी, ब्रह्मवर्चस्वी, गुणवान्, बलवान्, अति सुन्दर, लोकमान्य और सभाओं में आदर योग्य (सभ्य) होते हैं ॥ ५० ॥

यदर्थमस्मिन्क्रियते भुवस्तले
 विवाहकृत्यं सुतवंशहेतवे ।
 स एव चेन्नश्यति किं पुनस्तदा
 फलं विवाहेन वदन्तु कोविदाः ॥५१॥

जिस प्रयोजन के लिए संसार में विवाह किया जाता है वह अपने वंश का स्थापन और गुणवान् सन्तान का होना है । यदि वे दोनों विवाह से नष्ट होते हों तो ऐसे विवाहों के करने से फल ही क्या ? कुछ नहीं ॥ ५१ ॥

समस्तमेतन्मनुजैर्भुवस्तले
 विधीयते लोभवशेन किल्बिषम् ।
 विनाशनीयस्ततएष साधनै-
 रसंशयं पश्यत नान्यथा गतिः ॥५२॥

यह जो कुछ जगत् में पाप किया जाता है सब लोभ के वश में आकर किया जाता है । इसलिए इस लोभ के नाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । नहीं तो किसी प्रकार से भी सद्गति नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥

वशे समागत्य जनोस्य भूतले
 वदत्यवश्यं वचनं मृषा स्वयम् ।
 ददादि कन्यामपिचापणस्थित-
 प्रधानपश्चादिवदेव दृश्यते ॥५३॥

इसी के वश में आकर मनुष्य जगत् में झूठ बोलने को उद्यत हो जाता है । इसी के वश में पढ़कर अपनी आत्मजा (पुत्री) को बाजार में आये हुए पशुओं के समान बेच देता है । उसीसे अपनी सद्गति को नष्ट कर देता है ॥ ५३ ॥

भवन्ति लोभान्मनुजाः क्रुधावृताः
 स्मरातुरा मोहमुपागता अपि ।

प्रयान्ति नाशं बहुनिन्दनामिताः

किमस्ति पापं यदनेन नादृतम् ॥५४॥

इसी के वश में आकर क्रोध में फँस जाता है, इसी से कामदेव का वशीभूत होजाता है, इसीसे मोह को प्राप्त होकर अपयश का भागी बन नाश को प्राप्त होजाता है । इसके वश में पड़कर मनुष्य कौनसा पाप नहीं करता ? ॥ ५४ ॥

इति प्रकामं विनिवार्य कन्यका-

विवाहकृत्ये धनपण्यविस्तरम् ।

यथोचितैरुत्तरवीचिविस्तरै-

र्गतान्धकारामकरोदिमां सभाम् ॥५५॥

इस प्रकार अत्यन्त बलपूर्वक कन्या-विक्रय का निवारण करके उपस्थित जनों की शंकाओं को दूर करते हुए आपने समस्त सभा को अन्धकार से बचाया और पुण्य का भागी बनाया ॥ ५५ ॥

प्रसङ्गतो मांसनिषेधसूचकं

वचो वदत्यत्र मुनौ मनोरमम् ।

मुदैव काश्मीरत एक आगतो-

बुधः समाभाषत तद्विनिश्चयम् ॥५६॥

प्रसंग से फिर एक दिन एक कश्मीर का पण्डित आपके पास आकर मांस-भक्षण के विषय में कुछ प्रश्न कर रहा था, जिसका उत्तर आपने निम्न लिखित दिया और उस उत्तर से वह पण्डित निरुत्तर होगया और आपका पक्ष मान गया ॥ ५६ ॥

न विद्यते वैदिककर्मसु क्वचि-

द्विधानभीदकू पशुभारणोचितम् ।

विधेर्विधाने विहितात्मभिः स्वयं

विचार्य वाच्यं पदविग्रहक्रमम् ॥५७॥

आपने कहा कि वेद में कहीं भी हिंसा का विधान नहीं पाया जाता फिर वैदिक कार्यों में उसका विधान क्यों कर माना जावे। इस बात को वेद के विषय में विचार करने वाले स्वयं देखें और [अध्वर] पद के विग्रह पर ध्यान दें ॥ ५७ ॥

यमध्वरं हिंसनदोषवर्जितं
वदन्ति पूर्वे मुनयः स्वपुस्तके ।
वलादनादृत्य कथं भुवस्तले
विधीयते तानिदमद्य हिंसनम् ॥५८॥

“आग्नेयं यज्ञमध्वरम्” [ऋ० १ मं० १ सू० ४ मं०] इस मंत्र में यज्ञ को हिंसा से रहित बतलाया गया है जिसका प्रमाण और निर्वचन [अध्वरं-हिंसा धर्मादिदोषरहितं ध्वरतिर्हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधो निपातः] निरुक्त १।८ में इस प्रकार दिया है ॥ ५८ ॥

बहून्पशून्पाहि वदत्यदो यजु-
श्चतुष्पदे शं द्विपदेपि याचते ।
न मार्यतामेकशफो भुवस्तले
न चोर्णवानित्यपि किं न भाषते ॥५९॥

‘यजमानस्य पशून्पाहि’ यजु० अ० मं० १ ‘शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे’ अ० ३६ मं० ८ ‘माहिंसीरेकशफं पशुम्’ अ० १३ मं० ४८ ‘इममूर्णायुं वरुणस्य नाभिं...माहिंसीः’ अ० १३ मं० ५० इत्यादि मंत्रों से वेदों में सब पशुओं की रक्षा करना पाया जाता है ॥ ५९ ॥

घृतं दुहानामदितिं जनाय ता-
मसंशयं पालयताशु गामिति ।
प्रतिक्षणं रक्षणदक्षमक्षरं
वदन्न वेदः किमहो विलोक्यते ॥६०॥

‘घृतं दुहानामदितिं जनयाग्रेमाहिंसीः’ यजु० अ० १३ मं० ४९ इस मंत्र में घृत के देनेवाली, रक्षा करने के योग्य गौ को मत मारो। यह विधान कितनी स्पष्ट रीति से वेद में गोरक्षा का विधान बतला रहा है ॥ ६० ॥

यदुच्यते यज्ञविधौ विनाशितः
 प्रयाति नूनं पशुरुत्तमां गतिम् ।
 कथं न तातात्मजबन्धुभानिनी-
 विनाशनं तत्र विधीयते जनैः ॥६१॥

यदि कहे कि यज्ञ में मरा हुआ जीव उत्तम गति को (अर्थात् स्वर्ग को) पाता है तो सबसे प्रथम अपने पिता, पुत्र, भाई, स्त्री आदि को मार कर स्वर्ग क्यों नहीं पहुँचाते? इनका स्वर्ग जाना किसको अभीष्ट नहीं है? ॥ ६१ ॥

भवन्मते नास्ति किमुत्तमां गतिम्
 हतोध्वरे लब्धुमसंशयं पिता ।
 यदस्ति योग्यः किमलं विलम्ब्यते
 भवादृशैरद्य तदीयसद्गतौ ॥६२॥

आपके मत में क्या आपका पिता सद्गति के योग्य नहीं है? यदि स्वर्ग में जाने योग्य है तो फिर आप उसके लिए क्यों विलम्ब करते हैं? शीघ्र ही उसको उत्तम गति प्रदान कीजिए ॥ ६२ ॥

कुलेषु ये ये मरणाय केवलं
 गृहेषु वा ये जनकादयः स्थिताः ।
 क्रमेण सर्वेपि सुतैर्महाध्वरे
 निपातनीयाः किमिहावधीरणम् ॥६३॥

जो जो पुरुष केवल मरने की ही प्रतीक्षा (इंतज़ारी) कर रहे हैं ऐसे पुरुष जो कुछ अपने अपने घरों में हों या वंश में हों सुपुत्रों को चाहिए कि सबको एकत्र कर उनको मार दे ताकि सबके सब उत्तम लोक को प्राप्त हो जावें ॥ ६३ ॥

स्वभावदीनान्परिपाल्य भोजनैः

पशून्पुरस्तात्सुतवत्स्वयं पुनः ।

प्रतार्य देवादिमिषेण भुञ्जते

जनाः पिशाचा इव धिङ्ग्राधमान् ॥६४॥

विचारे गरीब, स्वभाव से दीन जो पशु हैं उनको पहले से पाल कर पुत्र के समान उनको बढ़ा कर फिर उनको धोखा देकर किसी मनमाने देवता के समक्ष ले जाकर अपने उदर भरने के लिए मारना ! हाय ऐसे पुरुषों को धिक्कार है ! ॥ ६४ ॥

अभक्षणं यस्य वदत्यहो विधिः

स धर्मशास्त्रेण कथं विधीयते ।

विहिंसकैरित्यनुमीयते कृतो-

विरुद्धेषः पशुमारणक्रमः ॥६५॥

जिस बात के लिए वेद अनुज्ञा (इजाजत) नहीं देता ऐसी बातों का स्मृतियों में आना स्पष्ट रीति से बतला रहा है कि यह सब विषय मांसाहारी पुरुषों ने रखदिया है नहीं तो वेद में यह विषय क्यों न आता ॥ ६५ ॥

भवत्यलं पापसमूह एकतो-

विधेरनुज्ञा परतो विनाश्यते ।

विधीयते यैरिह मांसभक्षणं

मनुष्यजन्मापि समेत्य राक्षसैः ॥६६॥

जो पुरुष जन्म लेकर तामसी भोजन करने को उद्यत होते हैं अर्थात् मांस खाते हैं वे एक ओर तो जीवहत्या का पाप अपने ऊपर लेते हैं और दूसरी ओर वैदिक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये दो पाप एक साथ करते हैं ॥ ६६ ॥

विशेषतः स्वात्मसुखस्य नाशनं

विधीयतेऽनेन न चेद्विनिश्चयः ।

परीक्ष्यतां कोऽहं विलम्बनक्रमः

क्रमेण सर्वं स्वतएव सेत्स्यति ॥६७॥

इसलिए मांस खाना सब तरह से पाप है और शरीर एवं आत्मा दोनों के लिए हानिप्रद है। खास कर आत्मा के लिए। यदि इसमें कुछ संदेह हो तो परीक्षा (इम्तिहान) कर लीजिए, विलम्ब का कुछ काम नहीं ॥ ६७ ॥

इति प्रमादाद्विनिवार्यं कोविदं

निसर्गतः शास्त्रगुणेष्वकोविदम् ।

दयामयस्तं कतिचिदिनैरहो-

निबोधयामास सुयोगसाधनम् ॥६८॥

इस प्रकार शास्त्र-विषयों में अप्रवीण किन्तु लोकप्रवीण काश्मीरी पण्डित को हर प्रकार से समझा कर आपने कुछ दिनों के बाद योग-मार्ग का साधन बतलाया जिसका वह सेवन करता रहा ॥ ६८ ॥

दिनेषु गच्छत्सु हृदन्तरे यदा

महान्प्रकाशः प्रबभूव योगतः ।

तदाऽऽप्यविश्वासमसौ विमोहितः

पपात योगीश्वरपादयोरयम् ॥६९॥

सेवन करते करते कुछ दिनों में उसके आत्मा में एक प्रकार का ऐसा प्रकाश होने लगा जैसा कि आजतक कभी न हुआ हो। उसका अनुभव कर काश्मीरी पण्डित आपके चरणों में गिर गया और आप में अधिक भ्रष्टावान् होगया ॥ ६९ ॥

दिनान्तरेऽर्द्धोऽभिमतसाधनात्पुनः

स योगमार्गादधिगत्य तत्पदम् ।

वियोगमापत्यरतोस्य मानसे

न सस्वभूवात्मिकदर्शनोत्सवः ॥७०॥

अस विधान को श्रीस्वामीजी ने बतलाया अभी वह पूर्ण न होने पाया था कि बीच में वह प्रकाश जो कि पहले दीखने लगा था बन्द होगया । अब तो वह कश्मीरी बहुत घबराया और उसका कारण विचारने लगा ॥७०॥

स कारणान्वेषणतो निजात्मजं

विलोक्य मांसादनकारणं शुचा ।

निवार्य भूयोपि जगाम योगिनां

समीपमेवात्मनिरीक्षणादरः ॥७१॥

विचारते विचारते एक विश्वस्त रीति पर उसको यह मालूम होगया कि मेरे पुत्र ने मुझ को फिर गुप्त रीति से मांस खिलाकर इस आनन्द से वञ्चित कर दिया । उसने पुत्र को मारा और फटकारा । अन्त में वह फिर स्वामीजी के शरण आया ॥ ७१ ॥

दयामयत्वात्पुनरप्ययं मुनि-

र्विधिं निबोध्याशु चतुर्थमाश्रमम् ।

प्रदाय गेहान्निरवासयत्तथा

कृतार्थतामस्य चकार जन्मनः ॥७२॥

स्वामीजी ने दया करके उसको फिर ऐसा विधान बतलाया कि उसका आत्मा फिर शुद्ध होगया । अन्त में उसको चतुर्थाश्रम का उपदेश देकर घर से उसको बाहर किया और उसका मनुष्यजन्म सफल किया ॥ ७२ ॥

अनन्तरं कोपि बुधो यतीश्वरं

जगाद तत्सम्भतिवाञ्छया तथा ।

बुधोऽबुधोवा भवतां मतेऽधुना

स मोक्षमूलेत्यभिधो विदेशजः ॥७३॥

कुछ दिनों के अनन्तर पण्डित कृष्णनारायण शर्मा ने आपके पास आकर पूँछा कि आपके मत में प्रोफेसर म्येक्समूलर (मेक्समूलर) जो वेदों के ज्ञाता और भाष्यकार माने जाते हैं, किस प्रकार के हैं ? ज्ञाता हैं वा नहीं ? ॥ ७३ ॥

इति द्विजातौ मुखचापलङ्गते

लिलोकवन्द्यः समुवाच तं यतिः ।

बुधत्वलेशोपि न तत्र विद्यते-

ऽधुनातु विद्यार्थिपदेपि संशयः ॥७४॥

पण्डितजी की मन्शा समझकर स्वामीजी ने तुरन्त उत्तर दिया कि अभी प्रोफेसर म्येक्समूलर वेदविद्या में विद्यार्थी हैं । जितनी विद्या आज कल उनमें है उतनी वेद पढ़ने का केवल अधिकार मात्रही बतला रही है ॥ ७४ ॥

न यावदारान्निजबुद्धिविस्तरै-

रसंशयं सायणभाष्यविस्तरम् ।

महीधराद्यैश्च कृतं जहाति नो

न तावदेषो निगमार्थकोविदः ॥७५॥

जब तक अपने आत्मिक बुद्धिवल से सायण और महीधर आदि भाष्यों का सहारा नहीं छोड़ेंगे अर्थात् उनके ही पग पर पग रखते जायँगे तब तक उनमें वेद का पांडित्य नहीं आसकता ॥ ७५ ॥

इति प्रशस्तं यमिनामधीश्वरे

वदत्यशङ्कं स बुधोपि निर्भयः ।

निजानुमत्या पुनरुक्तिमापय-

त्तमेव भावं यमुवाच योगिराट् ॥७६॥

इस प्रकार जब पण्डितजी से स्वामीजी ने कहा तब तो पण्डितजी भी निर्भय होकर कहने लगे कि वास्तव में आपका कथन सर्वांश में सत्य है । वैदिक विषय अति गहन है । उसका विचार करना सहज नहीं है ॥ ७६ ॥

पुनर्मुदा पृच्छति मानवेतरे
 सहैकदेशे जलपानभोजने ।
 निषेधयित्वा स मुनीश्वरः परं
 जगाम तस्मान्नगरं जयोचितम् ॥७७॥

एक महोदय ने आपसे आकर पूछा कि एक आसन पर सबके साथ खाना खाने या पानी पीने में क्या दोष है ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि किसी को भी इस प्रकार भोजन करने या जल पीने का अधिकार शास्त्र नहीं बतलाता ॥ ७७ ॥

स तत्र गत्वा निजकार्यमद्भुतं
 प्रसार्य सर्वानपि बुद्धिमत्तमान् ।
 विनोदयामास निजोक्तिसूचनै-
 र्जवेन विद्यार्थिगणानपि क्रमात् ॥७८॥

इस प्रकार यहाँ के पुरुषों को नष्ट-संशय बनाकर कई प्रतिष्ठित सज्जनों के अनुरोध से २५ जौलाई सन् १८७८ ई० को आप हड़की पहुँचे और जाँते ही अपना कार्य आरम्भ कर वहाँ के बुद्धिमान् विद्यार्थियों को भी शिक्षा देते रहे ॥ ७८ ॥

विचारशीला यवना अपि द्रुतं
 निशम्य देवं समुपागतं मुदा ।
 दिदृक्षया तद्वचनानुकर्णन-
 प्रवाञ्छया चापि तमभ्यवेष्टयन् ॥७९॥

बहुत से विचारशील मुसलमान भी आपको यहाँ पर आये हुए जान कर आपके दर्शन एवं व्याख्यान सुनने की अभिलाषा से आपके पास आया करते थे ॥ ७९ ॥

समाप्तिमाप्तेऽमृतरूपवाक्क्रमे

यथेष्टशङ्काकरणाय सूचनाम् ।

मुहुर्दाने न शशाक कोप्यहो-

पुरोस्य कर्तुं विबुधोपि शङ्कनाम् ॥८०॥

व्याख्यान के अनन्तर आप सबको सूचित किया करते थे कि यदि किसी को कुछ पूछना अथवा आक्षेप करना या शास्त्रार्थ करना हो तो वह इस समय कर सकता है । परन्तु कोई भी खड़ा नहीं होता था ॥ ८० ॥

महानयं शोक इहास्ति विस्तृतो-

विदेशजाताः किल धर्ममार्गणम् ।

प्रकुर्वते देशनिवासिनो जनाः

सुखेन निद्रामधिगम्य शेरते ॥८१॥

एक दिन आपने यहाँ पर कहा कि बड़े शोक की बात है कि अन्य देश के रहने वाले हमारे धर्म की खोज में लगे हुए हैं और हम आर्यसन्तान कहलाकर ऐसे सोये हैं कि कुछ खबर नहीं । हम लकीर के फकीर बने हुए हैं ॥ ८१ ॥

इति प्रकामं कथनापरे यतौ

पुरोदरस्थैरतिमन्दमानवैः ।

स कोपि पौराणिकपरिडतः कृते

विवादकृत्यस्य निवेशितो हठात् ॥८२॥

आपके इतना कहने पर यहाँ के कुछ मूढ़ पुरुषों ने एक नारायणदत्त को, जो किसी स्कूल का अध्यापक था, आपसे मूर्ति-पूजा पर शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत कुछ उकसाया ॥ ८२ ॥

स मूर्तिपूजाभनवाप्य सर्वथा

निवारितां वेदचतुष्टयादपि ।

न वादकृत्यस्य कृते तमभ्यगा-

न्मुनीश्वरं कुत्र जयोस्ति शङ्किनाम् ॥८३॥

परन्तु पण्डितजी ने जब वेदों में उसका विधान नहीं पाया तब साफ़ कह दिया कि वेदों में मूर्तिपूजा नहीं लिखी इसलिए इसके सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वामीजी के समक्ष नहीं जाऊँगा ॥ ८३ ॥

निरीक्ष्य विद्यार्थिगणप्रगल्भतां

निजानुवादिषु तथा रुचिं पराम् ।

मुनिः समालोचनकारिणीं गिरं

प्रवर्तयामास मुदानुमोदितः ॥८४॥

एक दिन स्वामीजी ने यहाँ के इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों का उत्साह और रुचि देख परिचामीय फिलास्फरों (तत्त्ववेत्ताओं) के कलिपत सिद्धांत विषयक समालोचना की; विशेषतः डार्विन की थ्यूरी का खण्डन किया ॥८४॥

न युक्तिरेषा जननादनुश्रुता

न विश्रुता चापि निरर्गला गिराम् ।

प्रवक्तृता यास्ति मुनीश्वरे परा

महानयं कोपि महाशयोत्तमः ॥८५॥

आपका कथन ऐसा युक्तियुक्त और सारगर्भित था कि बहुत से अंग्रेजी के विद्वान् चकित हो गये और कहने लगे कि ऐसी प्रबल और अकाट्य युक्तिर्या न हमने कहीं पर आजतक सुनी और न देखी ॥ ८५ ॥

इति प्रशस्ताक्षरगुम्फितां गिरं

निशम्य नांनामतवादभञ्जनाम् ।

प्रकर्तुकामः स चकार खण्डनां

विदेशविद्वत्कृतकिंगिरां पुरः ॥८६॥

जब आपने यहाँ के लोगों से अपने कथन की अपूर्वता सुनी तब अनेक मतों के खण्डन के लिए (जो कि १६ वें सर्ग में वर्णन किया जायगा) तयार होकर 'इवोल्यूशन-हन्टर-लेथत्रिज' आदि ध्यूरियों का आपने फिर खण्डन किया ॥ ८६ ॥

पुनः प्रसङ्गेन समीक्ष्य छात्रका-

ञ्जगाद केयं भवतां विचारणा ।

विभात्यलं पश्चिमलोकनिर्मितौ

निवेशितं शिल्पविलासकौशलम् ॥८७॥

खण्डन की परंपरा में एक दिन कालिजं के उच्च श्रेणी के छात्रों से आपने फिर कहा कि आपलोग सायंस और फ़िलासफ़ी का आविष्कार केवल पाश्चात्य विद्वानों से मानकर संस्कृत-विद्या की निन्दा करते हैं । यह विचार ठीक नहीं ॥ ८७ ॥

ददास्यनुज्ञामहमद्य सर्वथा

पदार्थविद्याविषये विधीयताम् ।

मुदा भवद्भिर्निजसंशयस्थले

निवेश्यतामाशु समुत्तरस्थितिः ॥८८॥

आज मैं आप लोगों को बहुत खुशी के साथ इजाज़त देता हूँ कि आप लोग किसी साइन्स के सिद्धांत विषय में मुझ से प्रश्न करें । मैं प्रामाणिक संस्कृत-पुस्तकों के प्रमाणों से शाब्दिक अर्थ कर अभी आप का इतमीनान कर दूँगा ॥ ८८ ॥

वृथा भवद्भिः क्रियते विनिन्दना

स्वदेशभाजां विदुषामनल्पिका ।

मयाप्यनुश्रूयतएव या न ते

पदार्थविद्यामविदुर्बुधा इति ॥८९॥

आप लोगों की यह बड़ी भूल है कि इस देश के विद्वान् और फिलास्फरों को जंगली मान उनकी निन्दा करते हो कि वह कुछ नहीं जानते थे । मैं कहूँगा कि जिन बातों को न्यूटन और शोपनहार आज लिख रहे हैं वे बातें उन्होंने कितनेही वर्ष पहले लिखदी थीं ॥ ८९ ॥

इहाऽऽप्य लोकैर्जनिमात्मिकोन्नतौ

वयः समस्तं विनियोज्य सोन्नतिः ।

प्रदर्शिता या न विलोक्यते मया

विदेशविज्ञेषु कथञ्चिदप्यलम् ॥६०॥

जिस प्रकार यहाँ के विद्वानों ने प्रत्येक प्रकार की विद्या और उसकी क्रिया में अपनी सारी आयु बितादी और आत्मिक एवं प्राकृतिक उन्नति में सर्वोच्च पद पाया इस प्रकार किसी भी विदेशी विद्वान् ने उसमें परिश्रम नहीं किया ॥ ९० ॥

इति श्रुताभाषणकल्पनापराः

समेत्य सर्वे पृथिवीपरिभ्रमम् ।

रवेश्च तोयादिपदार्थकर्षणं

समभ्यपृच्छन्कथमेतदुच्यताम् ॥६१॥

इतना सुनकर कुछ विद्यार्थियों ने आपसे सूर्य और पृथिवी का भ्रमण और आकर्षण, तत्त्वों की व्यवस्था, पवन, मेघ, रसायन, नक्षत्र, वनस्पति आदि विद्याओं के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न किये ॥ ९१ ॥

असावपि प्रश्नपरम्परागतं

निबोधयन्भावमयत्नतस्तदा ।

विशेषयुक्तिप्रतियोजनोज्ज्वलं

चकार सर्वानपि नष्टसंशयान् ॥६२॥

आपने भी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संस्कृत पद्यों का अर्थ कर उनको सम-भाया । जब वे उत्तर पाकर संतुष्ट हुए तब आपने उनसे कहा कि ये बातें

यहाँ के विद्वानों से छिपी नहीं हैं। संस्कृत का प्रचार न होने से नई सी प्रतीत होती हैं। ज्यों ज्यों संस्कृत और वेद-विद्या का प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों आँखें खुलेंगी और प्राचीन रत्न मिलते जायँगे ॥ ९२ ॥

बभाण चैयं न गतास्ति कुत्रचित्
 पदार्थविद्या विदुषां मनोगृहान् ।
 परन्तु विद्याविलयाददृश्यतां
 गतास्ति सर्वात्मतयैव सापि न ॥६३॥

यह जो पदार्थ विद्या आजकल यहाँ से उठ कर देशान्तरों में चली गई है यहाँ पर नहीं रही। इसका कारण केवल यही है कि उसमें कोई प्रयत्न नहीं करता ॥ ९३ ॥

यथा यथा शास्त्रपरम्परा परा
 विवृद्धिमेषत्यधुना भुवस्तले ।
 तथा तथा सा सकलापि सत्कला
 पुनः समायास्यति सर्वसाधनैः ॥६४॥

इस भारतवर्ष में जितनाही जितना वेद, शास्त्र और अंगों की पढ़ाई में प्रयत्न बढ़ेगा उतना उतनाही वह उन्नतिमार्ग फिर सामने आकर पूर्ववत् उपस्थित होगा ॥ ९४ ॥

इति प्रसन्नां गिरमादरादिव
 प्रभाषमाणे यमिनामधीश्वरे ।
 मुदैव छात्रेषु बभूव सर्वथा
 शिवार्यसामाजिकधर्मविस्तृतिः ॥६५॥

इस प्रकार आपकी बातों को सुन कर कालेज के सब छात्र विस्मित हो गये और वैदिक धर्म की ओर ध्यान देकर विशेष रूप से संस्कृत पढ़ने लगे ॥ ९५ ॥

अथैकदा तत्र मुनेर्गिरां ततिं
निपीयमाना जनता विपक्षिणाम् ।
निजस्य धर्माभिधपुस्तकस्य ता-
मपश्यदेकान्ततया विभञ्जनाम् ॥६६॥

एक दिन स्वामीजी का व्याख्यान सुनने के लिए [करनल मानसल साहब
कमान अफिसर रुड़की और कतान स्टुवर्ट साहब क्वार्टरमाएर रुड़की]
पधारे थे । इस समय स्वामीजी इंजील की समालोचना कर रहे थे ॥ ९६ ॥

परस्पराभाषणतो विविच्य तां
प्रवृत्तामस्य मुनेः पुरोगता ।
प्रवर्तयामास विचारकल्पनां
विदेशजन्या नृपतेर्जनावली ॥६७॥

दोनों साहब आपस में बातें करते हुए ध्यान देकर आपका भाषण सुनते
रहे और अंत में आपसे दोनों ने वार्तालाप करना आरम्भ कर दिया ॥ ९७ ॥

बहोः प्रवृत्ता समयादियं तदा-
विचारशैली परतो दिनान्तताम् ।
समेत्य दीपावलिदीप्तिदीपिता
पुनर्जजृम्भेऽथ निशेव कल्पनैः ॥६८॥

बहुत देर तक आपके साथ वार्तालाप करते करते सूर्यास्त हो गया ।
बीच में लालटेन बालने के लिए अघसर दिया गया । प्रकाश होने पर फिर
संवाद आरम्भ हुआ ॥ ९८ ॥

परं समाक्षेपसमुत्तरैरयं
यदाऽऽशुभूकानकरोद्यतीश्वरः ।
तदा द्वितीयं दिवसं नियम्य ते
ययुः समासेन वचो निपीय ते ॥६९॥

परन्तु स्वामीजी ने जब बड़ी शांति के साथ उत्तर देना आरम्भ किया तब दोनों निरुत्तर हो गये और दूसरा दिन नियत करके मकान को चले गये ॥ ९९ ॥

पुनर्द्वितीये दिवसेनिरीक्ष्यतां
जनावलिं भिन्नमतानुवर्तिनीम् ।
जयश्रिया वारितयापि सादरं
निरीक्षितोभूदयमेव सत्पतिः ॥१००॥

दूसरे दिन केवल कप्तान साहब ही पधारे । करनेल साहब नहीं आये । अंत में आपने उनकी दुबारा समालोचना करके विजय प्राप्त किया ॥१००॥

दिनान्तरे ते यवना अपि द्रुतं
विधाय पत्रव्यवहारमन्यतः ।
समीक्ष्य साम्यं न कथञ्चिदेकतो-
विमूकतामेव यथायथं ययुः ॥१०१॥

कुछ दिनों के अनन्तर यहाँ पर मौलवी मुहम्मद कासिम से शास्त्रार्थ के लिए कुछ पत्रव्यवहार होता रहा परन्तु वह निष्फल ही रहा ॥ १०१ ॥

प्रसङ्गतस्तत्र दिनान्तरे कृतं
प्रदर्शयामास नवीनपुस्तकम् ।
बुधेश्वरं यत्र समीक्ष्यकारिता
व्यलेखि विज्ञैरपि नूतनोदयात् ॥१०२॥

एक दिन एक पौराणिक पण्डित ने स्वयं बनाया हुआ एक व्याकरण का पुस्तक जो कि काशी में भी हो आया था और प्रतिष्ठित भी हो गया था आपको दिखाया ॥ १०२ ॥

बुधेश्वरस्तत्प्रसमीक्ष्य सत्वरं
विचार्य चाशुद्धिततीस्तमादरात् ।

जगाद पूर्वं परिपठ्यतां क्वचित्
तदा विधेयो रचनापरिश्रमः ॥१०३॥

आपने उस पुस्तक में सैकड़ों अशुद्धियाँ निकाल कर बनाने वाले से कहा कि आप कुछ दिन कहीं पर जाकर विद्याध्ययन करें तब पुस्तक बनावे ॥ १०३ ॥

न यावदार्षेषु जनः परिश्रमं
करोति शास्त्रेषु न तावदुत्तमम् ।
निबद्धुमीष्टे नवकल्पनोदयं
ततोष्टकं भाष्यमदश्च पठ्यताम् ॥१०४॥

जब तक अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि ग्रन्थों में परिश्रम नहीं करता तब तक पुरुष ग्रन्थ नहीं बना सकता । इस लिए उसको पढ़िए ॥१०४॥

इति ब्रुवाणे यमिनामधीश्वरे
निजानुरूपं स मुखं हिया दधत् ।
जगाम गेहं परतो जनैरियं
प्रपूरिता सर्वजनेषु कल्पना ॥१०५॥

इतना आपके कहने पर वह ग्रन्थकारजी महाराज अपना सा मुँह लेकर अपने घर को चले गये । स्वामीजी अपने कार्य में लग गये ॥ १०५ ॥

विरक्तवेषः किल सक्तुभोजनः
समागतोस्त्यत्र स योगिना समम् ।
विवादमुग्रं प्रकरिष्यतीत्यलं
परं न कोप्यस्य पुरो जनोऽगमत् ॥१०६॥

इन्हीं दिनों यहाँ पर एक सतुआ बाबा आये हुए थे । लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया कि वे आपसे शास्त्रार्थ करेंगे । परन्तु बहुत कुछ कहने पर भी वे सामने न आये ॥ १०६ ॥

समाप्तिमारात्प्रगते समन्ततः

समस्तवादे यमिनामधीश्वरः ।

समाजगेहं प्रविधाय सादरं

जगाम तस्मादपि पत्तनात्परम् ॥१०७॥

अन्त में सब विवादों को समाप्त कर आप यहाँ २० अगस्त को समाज स्थापित कर २१ अगस्त सन् १८७८ ई० को यहाँ से चल कर २२ अगस्त को अलीगढ़ आये ॥ १०७ ॥

अवाप्य तत्पत्तनमादरादयं

निरन्तराख्यानपरम्परायि तैः ।

समस्तमेवात्मवशं समानयत्

पुरान्तरस्थं जनमार्यमार्गगम् ॥१०८॥

अलीगढ़ में आते ही आपने पेशा व्याख्यानों का सिलसिला जारी किया कि प्रति दिन सहस्रों मनुष्य आया करते थे और आर्यसामाजिक बनते जाते थे ॥ १०८ ॥

पुरोदरस्थाः सुजनाः प्रतिष्ठिताः

सुशिक्षिताः सर्वशण्व सत्वरम् ।

महद्भिरुत्साहपरम्परोदयैः

समाययुः सत्वरमुत्वरा इव ॥१०९॥

अलीगढ़ के समस्त प्रतिष्ठित रईस और सभ्य जन अपने सब कामों को छोड़कर बड़े चाव के साथ आपका व्याख्यान सुनने को उद्यत रहा करते थे ॥ १०९ ॥

निजेषु सर्वेषु मतेषु सादरं

प्रकामतः प्राक्तनसांप्रदायिकम् ।

असंशयं संशयनाशनोद्यमं

प्रचक्रिरे वेदमतानुवर्तनैः ॥११०॥

नियत समय पर आकर प्रत्येक मत और संप्रदाय के पुरुष अपने अपने मत की आपके समक्ष शंका किया करते थे और उत्तर पाकर तृप्त होजाते थे ॥ ११० ॥

महोपदेशाय विनिश्चिते दिने

सहस्रशः परिडितमानवा नवाः ।

समागता दूरतरादपि ध्रुवं

न रम्यवाञ्छा विदधाति विश्रमम् ॥१११॥

एक दिन आपने कई सहस्र पुरुषों में व्याख्यान दिया ; बड़े जोर शोर के साथ मत-मतांतरों का झण्डन किया । इस दिन के सभापति मौलवी-फरीउद्दीन साहब सब जज अलीगढ़ थे और मनुष्य भी दूर दूर तक के आये हुए थे ॥ १११ ॥

बुधावथ द्वौ मिलनाय योगिनां

समागतौ तावपि जातदर्शनौ ।

गतौ परस्तादयमप्यतो ययौ

विधाय तत्रार्यसमाजमन्दिरम् ॥११२॥

इन्हीं दिनों पण्डित श्यामजीकृष्णवर्मा और मिष्टर हरिश्चन्द्रचिन्तामणि आपको यहाँ सुनकर मुम्बई से आये और आपसे बात चीत करके फिर मुम्बई चले गये । आपभी यहाँ समाज स्थापित कर मेरठ जाने को तैयार थे ॥ ११२ ॥

पुरान्तरे पत्तनतो बहिर्गते

विरम्य रम्ये भवने यतीश्वरः ।

अकल्पयद्वैदिकधर्मकल्पनां

निजोपदेशैरतिदुस्तरोत्तरैः ॥११३॥

अलीगढ़ से प्रस्थित होकर २६ अगस्त सन् १८७८ ई० को आप मेरठ पहुँचे और शहर से बाहर एक कोठी में ठहरकर आपने उपदेश देना आरम्भ किया ॥ ११३ ॥

समागमात्पूर्वतएव विस्तृते

तदागमस्याभ्युदये समन्ततः ।

पुरोदरात्सा जनता समागमत्

तदीक्षणायोत्तरवीक्षणाय च ॥११४॥

आपके आने से पहले ही आपका यश सर्वत्र फैल गया । इसलिए नगर और बाहर के सब लोग आपके दर्शन एवं व्याख्यान सुनने के लिए आते थे ॥ ११४ ॥

नवीनविज्ञापनदानसूचना

विशेषतः सर्वजनेषु विस्तृता ।

जनानहोऽयोजयदुत्तमोत्तमान्

विशङ्कनायामिह शङ्कनार्थिनः ॥११५॥

जब आपने विज्ञापनों द्वारा मनुष्यों को सूचित किया कि प्रत्येक को शास्त्रार्थ और शंका करने का अधिकार है । तब तो शहर के पौराणिकों में खलबली मच गई और आंदोलन होना आरम्भ हुआ ॥ ११५ ॥

समागते धर्मसमाजतो दले

मुनेः समीपे बहुशङ्कनाङ्किते ।

यथोचितामुत्तरकल्पनामयं

चकार सद्रक्तयैव सर्वशः ॥११६॥

धर्म-सभा मेरठ की ओर से किसी पुरुष ने कुछ शंकाएँ लिख कर आपके पास भेज दीं जिनका उत्तर व्याख्यान में आपने युक्ति और प्रमाण सहित दिया ॥ ११६ ॥

य एवमन्ये बहुशः प्रतिष्ठितैः
 समाजमध्ये विषयाः समीक्षिताः ।
 तएव तैः प्रश्नदलेपि योजिताः
 पुराणतीर्थादिविवेचनामयाः ॥११७॥

प्रश्न वही थे जो प्रायः अनेक पौराणिकों की ओर से हुआ करते हैं ।
 जैसे मूर्तिपूजा, मृतकश्राद्ध, जलमय तीर्थ और कल्पित पुराणों का मानना
 आदि आदि । इनसे अतिरिक्त कोई नवीन प्रश्न उस पत्र में न था ॥ ११७ ॥

समासतः प्रश्नचतुष्टयी यदा
 समाप्तिमापद्यवनैरलन्तदा ।
 विलिख्य पत्रे कतिचित्स्वसंशया-
 न्निवेदितं योगिपदेषु तद्वलम् ॥११८॥

जब पौराणिकों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया तब एक मौलवी ने
 जिनका उर्दू का इमला तक ठीक न था, एक पत्र आपके पास भेजा जिसमें
 कुछ प्रश्न, कुरान की बाबत उन्होंने किये थे ॥ ११८ ॥

विलक्षणास्तन्नियमा बभूविरे
 निरर्थिका यत्कथनात्र दृश्यते ।
 तथापि योगी समदात्सदुत्तरं
 यथा न कोप्यत्र पुनः समागतः ॥११९॥

इस मौलवी के पत्र में जो शास्त्रार्थ के नियम थे वे बहुत विलक्षण थे ।
 बहुत आप्रह इस बात पर था कि शास्त्रार्थ मौखिक हो । यद्यपि यह पत्र
 सभ्यता से बाहर था तथापि इसका उत्तर स्वामीजी ने लिख कर भिजवा
 दिया ॥ ११९ ॥

पुनः प्रसङ्गाद्वलमस्य सन्निधौ
 पुराणभाजां बहुसज्जनोद्यमैः ।

समागतं यत्र न कस्यचिद्भ्रता-

शुभाक्षराली समभूदऽभिख्यया ॥१२०॥

इसी प्रकार फिर दुबारा कुछ पौराणिकों ने सलाह कर कई रईसों की ओर से एक पत्र भिजवाया जिसमें शास्त्रार्थ की अभिलाषा प्रकट की, परन्तु उस पर हस्ताक्षर किसी के नहीं थे। यह कार्य अपनी प्रसिद्धि और धोखा देने के लिए किया गया था ॥ १२० ॥

निबोधितं योगिवरेण विस्तरै-

रिदं समस्ते नगरे प्रतिष्ठितम् ।

न विद्यते धर्मसमाजकिन्दले

भयेन नामैव जनस्य कस्यचित् ॥१२१॥

आपने अपने व्याख्यान के पश्चात् उस पत्र की सारी पोल खोलदी और सबके सामने कहा कि इस पत्र के ऊपर शास्त्रार्थ के भय से किसी ने हस्ताक्षर तक नहीं किये। इसलिए यह पत्र उत्तर देने योग्य नहीं है ॥ १२१ ॥

विना प्रबन्धं नियमोदयं विना

विनापि मध्यस्थजनं कथं भवेत् ।

तदुत्तराऽऽदानपरम्परा यतो-

विरुद्धमेतत्प्रतिभाति लोकतः ॥१२२॥

बिना किसी प्रबन्ध के, बिना नियमों के, बिना किसी मध्यस्थ के, इस पत्र का उत्तर देना लोक-नियम से विरुद्ध प्रतीत होता है। इसलिए यदि शास्त्रार्थ करना हो तो सब प्रबन्ध कर, लाला किशनलाल रईस के हस्ताक्षर सहित पत्र भेजे ॥ १२२ ॥

इति प्रशस्ते वचने पुरः स्थितै-

निजानुमत्या द्विगुणीकृतेऽमुदा ।

मुखानि मन्दानि बभूवुरादरात्

पुराणभाजां विदुषामसंशयम् ॥१२३॥

इस प्रकार आपके कहने पर उपस्थित जनों ने भी जब अनुमति दी तब तो पौराणिकों के मुख फीके पड़ गये और सब होंसला ढीला पड़ गया ॥१२३॥

महोपदेशश्रवणाय सङ्गतै-

र्विभिन्नधर्मव्यवसायिभिः समम् ।

बभूव नो भाषणकल्पना यतो-

विनिर्जितास्ते पुरएव योगिभिः ॥१२४॥

आपके व्याख्यान सुनने के लिए बहुत से ईसाई भी आया करते थे । परन्तु उन्होंने न कुछ विवाद किया और न शास्त्रार्थ ही का नाम लिया, क्यों कि वे पहले ही से आपका बल जानते थे और आपके फटकारे हुए थे ॥ १२४ ॥

समन्ततः शान्तिमुपागते पुरे

मते च सम्यक्सुजनेष्वधिष्ठिते ।

विधाय तत्रापि समाजमन्दिरं

प्रयाणमस्मादकरोत्पुराद्यतिः ॥१२५॥

जब चारों ओर शान्ति का प्रकाश दीखने लगा तब आपने यहाँ पर २९ सितंबर सन् १८७८ ई० को अपने समक्ष समाज स्थापित किया और यहाँ से देहली जाने का इरादा प्रकट किया ॥ १२५ ॥

शुभं हरिप्रस्थमवाप्य सत्वरं

विरम्य सह्यालमुकुन्दनिर्मिते ।

यथोचितं प्रावददार्यमन्दिरे

निजं समुद्देश्यमयं मुनीश्वरः ॥१२६॥

१ अक्टूबर सन् १८७८ ई० को आप मेरठ से दिल्ली पधारे और लाला बालमुकुन्द के वाग में ठहर कर शाहजी के छत्ते में आपने नंबर वार व्याख्यान देना आरम्भ किया और अपना उद्देश्य सबको समझाया ॥ १२६ ॥

जनैरथाकार्य बहुश्रुतैरलं

प्रवक्तृतामस्य यतेरनन्तरम् ।

महद्विशालं हवनादिसिद्धये

विनिर्मितं वैदिकधर्ममन्दिरम् ॥१२७॥

आपके उपदेशों को सुनकर यहाँ के पुरुष अति प्रसन्न हुए और कुछ दिनों के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति में यहाँ भी समाज स्थापित होगया ॥१२७॥

पुनर्हरिप्रस्थपुरान्निमन्त्रणा-

वशेन योगी तदवाप पत्तनम् ।

विराजते यत्र तदीयकल्पना

समस्तलोकोदयमूलकारणा ॥१२८॥

इतने ही में आपके पास अजमेर से निमन्त्रण आगया । इसलिए यहाँ से चलकर आप ८ नवंबर सन् १८७८ ई० को अजमेर पहुँचे जहाँ कि आपका बड़ा भारी कीर्तिस्तंभ वैदिक यन्त्रालय आदि अनेक प्रकार की संस्थाओं से अलंकृत है ॥ १२८ ॥

प्रतिष्ठितास्तन्नगरस्थसज्जनाः

प्रबन्धमेकान्तमितस्ततः शिवम् ।

तडित्पथावाप्तमुनीश्वरागम-

प्रधानवृत्ता द्रुतमेव चक्रिरे ॥१२९॥

आपके आने से पहले ही यहाँ के प्रतिष्ठित रईसों ने आपका तार पढ़कर आपके ठहरने के लिए सब प्रकार का प्रबन्ध कर लिया था और इस प्रतीक्षा में रहे कि स्वामीजी रेल से कब उतरें और हम कब उनका दर्शन करें ॥ १२९ ॥

विधाय तत्स्वागतमस्य ते तदा
धनञ्जयप्रेरितवाहनस्थले ।

यथागतं तद्गतकृत्यबन्धने

समाहिताएव बभूवुरादरात् ॥१३०॥

इतने ही में रेल से आपका उतरने का समय उपस्थित हुआ । सहस्रों स्वागत कर्मचारी उपस्थित हुए । बड़े समारोह के साथ वे आपको लेगये । वे लोग आपकी सेवा में हर समय उपस्थित रहा करते थे ॥ १३० ॥

तत्र प्रदाय बहुशो निजधर्मवृद्ध्यै

संस्थाप्य वैदिकमतान्यपि विस्तरेण ।


व्याख्यानमादृतजनः स महात्मवर्यो-

विश्रान्तिमाप कतिचिद्विवसानि हर्षात् ॥१३१॥

आपने भी वहाँ पर जाकर आर्य मत की पुष्टि के लिए व्याख्यान दिये और वैदिक-धर्म का हरप्रकार से विस्तार किया और कुछ दिन यहीं पर विश्राम का भी इरादा करके आप योगाभ्यास में तत्पर हुए । जब कि स्वामीजी ने हीं यहाँ पर विश्राम लिया तब सर्ग ने भी यहीं विश्राम करना उचित समझा । इसलिए विश्राम प्राप्त कर, संसार का उपकार करना क्योंकर हो ? यह विचार करने का आरम्भ कर दिया ॥ १३१ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

समाजकल्पनं नाम त्रयोदशः सर्गः ।



चतुर्दशः सर्गः

अथ पुष्करयात्रायै कृतोद्योगो महामतिः ।
जयाम सत्वरं तत्र जनता यत्र साभवत् ॥१॥

कुछ समय बीतने पर आपने अजमेर से पुष्कर जाने का मनोरथ प्रकट किया । वहाँ कार्तिक शुक्ला पौर्णमासी को एक बड़ा भारी मेला हुआ करता है । मनोरथ होते ही सज्जनों ने सब प्रबंध कर दिया और श्रीमान् जी पुष्कर पधारे ॥ १ ॥

गत्वैव विततारासौ विज्ञापनमनुत्तमम् ।
सत्यासत्यविवेकाय जनताजनजातके ॥२॥

जाने के अनन्तर ही आपने एक विज्ञापन वितीर्ण कराया जिसमें यह लिखा था कि जिस किसी को सत्यासत्य का निर्णय करना हो वह हमारे पास आवे ॥ २ ॥

बहवः साधवो मान्याः कोविदाश्च मुनीश्वरम् ।
संशयच्छेदनार्थाय समाययुरितस्ततः ॥३॥

विज्ञापन पत्र के बँट जाने पर बहुत से साधु-संन्यासी और पण्डित आपके समीप आने लगे और अपना अपना संदेह निवृत्त करके चले जाते थे ॥ ३ ॥

असावपि यथायोग्यसमुत्तरगतव्यथान् ।
सर्वानेव मनुष्यौघान्बोधयामास सत्पथम् ॥४॥

आप भी आये हुए सज्जन महाशयों को अनेक प्रश्नों का उचित उत्तर देकर उनको संतुष्ट कर देने थे और उनके लिए वैदिक-धर्म का उपदेश देते रहते थे ॥ ४ ॥

पुष्कराभ्यर्णसंवासवासिनः केपि साधवः ।

वाममार्गमहत्त्वेन जनान्मूढानवञ्चयन् ॥५॥

पुष्कर के पास एक गाँव में कुछ वाममार्गी साधु रहा करते थे । वे कहा करते थे कि हमारे कालीतंत्र में बड़ी भारी शक्ति है जो चाहें सो कर दें । इस अवसर पर मनुष्यों ने उन साधुओं से कहा कि यदि कुछ शक्ति है तो स्वामीजी के समक्ष चलिए ॥ ५ ॥

परमस्य मुनेरग्रे तेप्यवैदिकमार्गगाः ।

निजमार्गविपर्यासाद्गतास्तां शोचनीयताम् ॥६॥

परन्तु उनमें इतना दम कहाँ था कि वे आपके समक्ष आते और अपना पक्ष सिद्ध करते । निदान वे चुप हो गये । परन्तु भेद उनका सारा खुल गया ॥ ६ ॥

समाप्ते जनताकाले ततः पुनरयं मुनिः ।

अजतुन्दमुपागत्य नित्यशो वक्तृतामदात् ॥७॥

मेले की समाप्ति होने पर आप वहाँ से फिर अजमेर पधारे । वहाँ आप वैदिक धर्म के महत्त्व पर कई दिन तक क्रमशः व्याख्यान देते रहे ॥ ७ ॥

महत्त्वं वेदमार्गस्य दर्शयन्नथ भञ्जयन् ।

पुराणजालमीमांसामार्यधर्ममवर्धयत् ॥८॥

वैदिक मार्ग का महत्त्व और अनेक कल्पित मनमाने मतों का लघुत्व इस वार आपने इस प्रकार दिखलाया कि बहुत से लोग सचेत होकर वैदिक धर्म के प्रेमी बन गये ॥ ८ ॥

अजतुन्दगताः सर्वे सज्जना यवना अपि ।

मतमस्य महामान्यमादरादभ्ययुः शिवम् ॥९॥

आपके व्याख्यानों में, अजमेर के जितने कुछ शिक्षित और प्रतिष्ठित पुरुष थे वे सब, जाया करते थे। वे सब आपके द्वारा उपदिष्ट वैदिक धर्म को मानने लगे ॥ ९ ॥

समाचारदलेष्वस्य विजयध्वनिरुत्थिता ।

मूर्छयामास चेतांसि वेदमार्गविरोधिनाम् ॥१०॥

यहाँ पर एक समाचार पत्र छपता था जिसका नाम राजपूताना गुजट था। इसमें आपका जो विजयनाद छपता था उसे देख कर वैदिक धर्म के विरोधी मूर्छित हो गये ॥ १० ॥

आमन्त्रणवशादस्मात्पुरादयमतन्द्रितः ।

पुरान्तरमभिप्रेत्य वैदिकं मार्गमातनोत् ॥११॥

निमन्त्रण आने पर यहाँ से आप नसीराबाद की छावनी जो कि अजमेर के पास ही है पधारे। वहाँ जाते ही आप वैदिक-धर्म का प्रचार करने लगे ॥ ११ ॥

बहवो दुर्जनास्तत्र विघ्नारम्भाय संस्थिताः ।

राजशासनभीत्यैव निरूपाया वभूविरे ॥१२॥

यद्यपि बहुत से विचारहीन लोगों ने यहाँ पर कुछ उपद्रव मचाने का उपाय सोचा था, परन्तु राजकर्मचारियों की सावधानी से वे कुछ न कर सके ॥ १२ ॥

प्रभावशालिनीं तत्र वक्तृतामादरादयम् ।

बहूनि दिवसान्यादाद्वेदधर्मवशंवदः ॥१३॥

वैदिक धर्म के वशंवद श्रीस्वामीजी महाराज यहाँ पर कई दिनों तक अपने ऐसे उत्तम व्याख्यान, जो बुद्धिमानों के लिए वशीकरण मन्त्र थे, देते रहे ॥ १३ ॥

मसीहमतगास्तस्य वक्तृतामुत्तरोत्तम् ।

पिवन्तो न विवादाय शक्ताः किल समाभवन् ॥१४॥

कई ईसाई भी यहाँ पर आपके व्याख्यान सुनने के लिए लगातार आया करते थे । परन्तु उन्होंने किसी प्रकार की छेड़ छाड़ नहीं की । वे चुपचाप सुनते रहे ॥ १४ ॥

समाजकल्पनामत्र विनिवेश्य महामतिः ।

पत्तनान्तरमापेदे जयपत्तनसंज्ञितम् ॥१५॥

यहाँ पर समाज का आरम्भ कर आप यहाँ से १४ दिसम्बर सन् १८७८ ई० को जयपुर पधारे, जो कि आपने पहले भी अपने पदार्पण से पवित्र किया था ॥ १५ ॥

मन्त्रिणा कृतसत्कारः स महात्मा निरन्तरम् ।

वैदिकानेव विषयानबोधयदहर्निशम् ॥१६॥

यहाँ पर दीवान फ़तहसिंह ने आपका आतिथ्य किया और कई दिनों तक यहाँ भी लगातार आपने वैदिक धर्म के प्रचारार्थ उपदेश दिये ॥ १६ ॥

दर्शनेच्छायुतोप्यस्य राजा वञ्चकवञ्चितः ।

दर्शनं नाप देवस्य दुर्लभः सज्जनागमः ॥१७॥

यहाँ के महाराज आपके दर्शनों की उत्कट अभिलाषा रखते थे परन्तु मूर्खों ने उनको न मिलने दिया । यदि मिलने देते तो फिर आप कहाँ रहते ॥ १७ ॥

तथापि मन्त्रिसत्कारविशेषवशतो जनाः ।

तन्मतं समुपाजग्मुर्जलधिं निम्नगा इव ॥१८॥

तो भी दीवान साहब के कारण यहाँ पर आर्यसमाज का बहुत अच्छा प्रचार हुआ और कई पुरुषों के हृदय में वैदिक धर्म का अंकुर उत्पन्न हो गया ॥ १८ ॥

निवेश्य मतमत्रापि धर्ममार्गप्रवर्तकम् ।

पत्तनान्तरमुद्दिश्य ययौ मतिमतांवरः ॥१९॥

समाज का काम यहाँ पर आप अच्छे प्रकार प्रवृत्त कर, रईस युधिष्ठिर-सिंह जी के द्वारा निमन्त्रित हो, यहाँ से रिवाड़ी पधारे जो कि अलवर और देहली के ठीक बीच में है ॥ १९ ॥

तडित्पथसमायातसमागमनसूचनाः ।

बहवः सज्जनास्तस्य स्वागताय ययुर्दुतम् ॥२०॥

आपके आने का समाचार पहले ही तार के द्वारा रिवाड़ी भिजवा दिया था । उस समाचार को पाकर रिवाड़ी के सज्जन आपके स्वागत के लिए रेल पर आये और आपको शहर में ले गये ॥ २० ॥

समागत्यारमत्वापि योगिना धर्मवर्धना ।

भञ्जनान्यमतानां च युगपत्किं न कल्पिता ॥२१॥

आपने भी यहाँ पर आकर वैदिक धर्म का प्रचार और अवैदिक मतों का खण्डन एक ही साथ इस प्रकार किया कि सब पुरुष विस्मित हो गये ॥२१॥

एकादशमितैरत्र सूपदेशैरयस्सुनिः ।

पौराणिकमतानान्तु मूलच्छेदमकल्पयत् ॥२२॥

लगातार आपके यहाँ पर ग्यारह व्याख्यान होने से पौराणिक मतों की तो मानों जड़ ही कट चुकी थी । कोई भी पौराणिक सामने फटका तक नहीं ॥ २२ ॥

अनेकमतगैरत्र श्रुतखण्डनमण्डनैः ।

न कृता कापि सम्भाषा विभाषा क्व दुरर्थिनाम् ॥२३॥

यहाँ पर अन्यमतवादी भी आपका भाषण सुनने रोज़ आया करते थे और कुछ पूँछा भी करते थे परन्तु शास्त्रार्थ का इन्होंने नाम तक नहीं लिया ॥२३॥

दूरतोप्यस्य सम्भाषासमाकर्णनलालसैः ।

गृहस्थैर्निजमित्राणि समाहूतानि सर्वशः ॥२४॥

यहाँ के गृहस्थों ने आपका व्याख्यान सुनने के लिए दूर दूर से अपने इष्ट मित्र और संबंधी बुला लिये थे और आपका व्याख्यान उनको सुनवाया ॥ २४ ॥

निजप्रतापवशतः समाजसामितिं शिवाम् ।

विधाय तत्र मुमुदे यतिरादृतसज्जनः ॥२५॥

अपने व्याख्यानों के प्रभाव से यहाँ पर भी आर्यसमाज का सिलसिला आपने जारी कर दिया और कई प्रतिष्ठित सज्जनों को उसमें संमिलित किया ॥ २५ ॥

हरिप्रस्थामितो गत्वा कार्यान्तरवशादयम् ।

दिनलयं च विश्रस्य पत्तनान्तरमाप्तवान् ॥२६॥

अंत में यहाँ से आप ९ जनवरी सन् १८७९ ई० को रवाना होकर देहली पधारे और केवल तीन व्याख्यान देकर यहाँ से मेरठ को पधारे ॥२६॥

रमयामास तत्रापि पत्रसम्बद्धभाषणैः ।

स मुनिर्मनुजानन्ते हरद्वारमितो ययौ ॥२७॥

यहाँ आकर आपने पत्र द्वारा कुछ पुरुषों से संभाषण करना आरम्भ कर दिया परन्तु वे पुरुष निरुत्तर हो गये । अंत में यहाँ से आप हरद्वार को पधारे ॥ २७ ॥

तत्र कुम्भजनौघेपि कृतव्याख्यानविस्तरः ।

स महात्मा निवासाय पत्तनान्तरमागमत् ॥२८॥

यहाँ पर आपने कुम्भ के मेले पर लगातार प्रचार किया और अंत में कुछ विश्राम लेने के लिए आप यहाँ से देहरादून को प्रस्थित हुए जो कि पर्वत पर बसा हुआ है ॥ २८ ॥

कृपारामधृतोद्योगप्रबन्धविहितागमे ।

निवासे समुपागत्य विश्राममयमाप्तवान् ॥२९॥

वहाँ पर पण्डित कृपारामजी ने आपके लिए सब प्रकार का उचित प्रबंध पहले ही से कर रक्खा था । वहाँ जाकर आप आनन्दपूर्वक विश्राम करने लगे ॥ २९ ॥

अस्वास्थ्येपि शरीरस्य धर्मचर्चामहर्दिवम् ।
प्रततान महायोगी कस्य निर्वृतिरुन्नतौ ॥३०॥

यद्यपि यहाँ जिस समय आप पधारे थे उस समय आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तथापि आप वैदिक-धर्म का प्रचार करते ही रहे । धन्य है ! धन्य है ॥ ३० ॥

श्रुतभिन्नमतावद्धजनदत्तधनव्ययः ।
स महात्मा कृपाराममेकान्ते पर्यबोधयत् ॥३१॥

कुछ दिन व्यतीत होने पर आपको यह मालूम हो गया कि मेरे लिए कृपारामजी ने और मतावलम्बियों से भी धन एकत्र किया है । इसलिये एक दिन एकांत में उनसे कहा ॥ ३१ ॥

ब्राह्मं समाजमाप्तानां जनानां मत्कृते धनम् ।
भवता न ग्रहीतव्यं यतस्ते भिन्नधर्मिणः ॥३२॥

जो पुरुष वैदिक-धर्म को छोड़ कर अन्य मतों में प्रविष्ट हो गये हैं उनका द्रव्य मेरे खर्च के लिए न लिया कीजिए । वास्तव में यह बात धर्म-शास्त्र के अनुकूल है ॥ ३२ ॥

इदानीं तु सहायत्वं प्रगताः शत्रुभावताम् ।
पुनर्यास्यन्ति भिन्नत्वान्मतवादस्य ते जनाः ॥३३॥

इस समय तो वह ब्रह्मसमाजी आपके मित्र बन रहे हैं और आप उन से चन्दा भी वसूल करते हैं परन्तु जब उनके मत का खण्डन होगा तब वे आपके शत्रु हो जायेंगे ॥ ३३ ॥

इति प्रोक्तवति स्वामिवर्ये स निजसद्धनैः ।
समारभत शुश्रूषामादरादनुचारिवत् ॥३४॥

इस प्रकार श्रीस्वामीजी के कहने पर पण्डित कृपारामजी मान गये और कहने लगे कि मैं ही श्रीमानों की सेवा के लिए सर्वदा उपस्थित हूँ और क्या करूँगे ॥ ३४ ॥

एकस्मिन्दिवसेऽधर्मदीक्षां प्रतिवदत्यरम् ।

बहवो भिन्नधर्मस्था विदेशीयाः समभ्ययुः ॥३५॥

एक दिन आपने व्याख्यान देना आरम्भ किया । विषय कुरान और इंजील की समालोचना था । कई अंग्रेज और पादरी श्रोता बन कर वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने व्याख्यान सुना ॥ ३५ ॥

निरीक्ष्य भिन्नमतगाँस्तत्तन्मतनिराकृतौ ।

अदाद्यमतिप्रहो वक्तृतामतिसुन्दरीम् ॥३६॥

जब आपने अनेक मतमतांतरेों के प्रचारक जन अपने व्याख्यान में आते देखे तब तो क्रमशः समस्त मतों का आपने खण्डन करना आरम्भ कर दिया ॥ ३६ ॥

यमाकर्ण्य बहुक्रोधमागतान्भिन्नधार्मिकान् ।

भिन्नशासनगाएव बोधयामासुरुद्धतान् ॥३७॥

जिसको सुन पादरियों को बड़ा जोश आया और वे पादरी आपे से बाहर हो गये । यहाँ तक कि नियम-विरुद्ध सभा के अन्दर व्याख्यान में बोलने भी लगे ॥ ३७ ॥

क्व शान्तचित्तता वक्तुः क्व च रोषो भवादृशाम् ।

युज्यते न मतेऽस्माकं रोष इत्यब्रुवन्परे ॥३८॥

जब पादरी ने इस प्रकार का बर्ताव किया तब एक अंग्रेज अफसर ने पादरी को फटकारा और कहा कि कहाँ स्वामीजी की शांति और कहाँ आपका क्रोध ! आप ऐसा न करें ॥ ३८ ॥

इति श्रुतवचोभारा भारा इव भुवो द्रुतम् ।

मध्ये सभं समुत्थाय गता भिन्नमतानुगाः ॥३९॥

इस प्रकार जब एक बुद्धिमान् अंग्रेज ने पादरियों को फटकारा तब वे सभा के बीच में से उठ कर चले गये और बुरा भला कहने लगे ॥ ३९ ॥

पृष्टा अपि मुनीशेन पुनरागमनाय ते ।

नाब्रुवन्किमपि ध्वस्तबुद्धयो रोषसङ्कुलाः ॥४०॥

जब पादरी चलने लगे तब स्वामीजी ने बड़ी नम्रता से पूँछा कि क्या आप कल भी पधारेगे? वे इसका कुछ उत्तर न देकर ही वहाँ से चले गये ॥ ४० ॥

समाप्ते वक्तृतोद्देश्ये गौरवर्णेः समं यतिः ।

धर्मोद्देश्यमुपाश्रित्य संवादमकरोत्परम् ॥४१॥

जब व्याख्यान-विषय समाप्त हुआ तब स्वामीजी ने अंग्रेज अफसरों से बहुत देर तक धर्म के विषय में बातचीत की कि जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४१ ॥

दिनान्तरमुपागत्य वक्तृताविषये मुनिः ।

ब्राह्मसामाजिकानान्तु सर्वथा खण्डनं व्यधात् ॥४२॥

कुछ समय बीतने पर स्वामीजी ने फिर व्याख्यान देना आरम्भ किया जिसमें ब्रह्म-समाजियों का अच्छे प्रकार युक्ति एवं प्रमाणों से खण्डन किया ॥ ४२ ॥

सर्वे ब्राह्मसमाजस्था यद्यपीश्वरमानिनः ।

तथापि वेदवैरुध्यात्खण्डनीया इमे मया ॥४३॥

आपने कहा कि यद्यपि ये लोग ईश्वर को मानते हैं तथापि वेद के विरुद्ध पक्ष को स्थापित करते हैं इसलिए मैं इनका खण्डन करता हूँ ॥ ४३ ॥

श्रुत्वा निजमतस्यालं भञ्जनामद्भुतोपमाम् ।

ब्राह्मसामाजिकाः सर्वे वैरुध्यमुपचक्रिरे ॥४४॥

ब्रह्मसमाजियों ने जब यह सुना कि स्वामीजी महाराज ने हमारे मत का तिलशः खण्डन कर दिया तब वे बहुत विगड़े और विरोध करने लगे ॥४४॥

दिनेष्वेतेषु केनापि मिथ्याभाषणकारिणा ।

कर्थितं सर्वलोकानां मध्यएव महाहठात् ॥४५॥

इन्हीं दिनों में किसी मिथ्यावादी पुरुष ने समस्त सभा के बीच में बड़े जोर के साथ कहा कि आप लोग आज अपनी रक्षा का इंतज़ाम जितना हो सके करले ॥ ४५ ॥

रात्रौ मुनिगृहं दग्धुं मानवास्तस्य सन्निधौ ।
गमिष्यन्ति तथान्यच्च करिष्यन्तीति पापिना ॥४६॥

आज की रात को बहुत से लोग स्वामीजी के बँगले पर जायेंगे और बँगले में आग लगायेंगे और भी कुछ न कुछ उपद्रव मचावेंगे ॥ ४६ ॥

परमेतद्वचस्तस्य परमेश्वरलीलया ।
अनुक्तमिव सम्भूतं यशोजातमवर्द्धयत् ॥४७॥

परन्तु यह उसका कहना सर्वथा मिथ्या हुआ, कोई भी पुरुष उस दिन बँगले पर नहीं आया और न किसी ने आग लगाई । आपका प्रभाव ही ऐसा था ॥ ४७ ॥

पश्चान्मुनिजनस्यास्य गमनात्तत्र विस्तृतम् ।
वभूवार्यसमाजस्य मन्दिरं निर्गतोपमम् ॥४८॥

स्वामीजी के चले जाने के बाद देहरादून में भी २९ जून सन् १८७८ ई० को आर्यसमाज स्थापित होगया । जो आज तक वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और आगे को भी होगा ॥ ४८ ॥

असावपि ततो गत्वा पुरान्तरमवस्थितिम् ।
दिनद्वयमितां चक्रे तत्र पश्चात्ततो ययौ ॥४९॥

आप भी यहाँ से १ मई सन् १८७९ ई० को रवाना होकर सहारनपुर पधारे और दो दिन यहाँ पर ठहर कर यहाँ से भी फिर आप मेरठ चले गये ॥ ४९ ॥

विश्रस्य नगरे तस्मादपरे पक्षतोधिकम् ।
मार्गस्थं पुरमुद्दिश्य ततोपि प्रययौ शनैः ॥५०॥

यहाँ पर कुछ विश्राम लेकर २५ मई को आप मेरठ से भी विदा हुए और बीच में आये हुए अलीगढ़ के लिए आप प्रस्थित हुए ॥ ५० ॥

(युग्मम्)

दिनानि कतिचित्तत्र यथायथमसौ मुनिः ।

समवस्थाय नितरां गमने मतिमादधौ ॥५१॥

शरीरास्वस्थताहेतोरत्र मासमसौ यतिः ।

पुनरारोग्यवाप्त्वा मुरादावादमभ्यगात् ॥५२॥

अलीगढ़ में भी कुछ दिन ठहर कर आप यहाँ से छलेसर को पधारे और वहाँ शरीर अस्वस्थ हो जाने के कारण एक मास तक रहे और अंत में मुरादावाद को पधारे ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥

पूर्वमागत्य भूपस्य जयकृष्णस्य धीमतः ।

भवने दत्तवान्योगी कतिचिद्वक्तृताः शुभाः ॥५३॥

पहली बार जब आप सन् १८७६ ई० में यहाँ पधारे थे उस समय राजा जयकृष्णदासजी के यहाँ उतरे थे और उनके यहाँ ही कई व्याख्यान भी आपने दिये थे ॥ ५३ ॥

प्रसिद्धिवशतस्तेषु दिनेष्वेव विदेशजैः ।

साकमस्य यत्तेर्वादः समभूदतिमानदः ॥५४॥

प्रसिद्धि के कारण उन दिनों में पादरियों से शास्त्रार्थ भी छिड़ गया था । विषय सृष्टि की उत्पत्ति का था । बहुत से लोग दूर दूर से इसको देखने आये थे ॥ ५४ ॥

सृष्ट्युत्पत्तिक्रमे ते यं नियमं प्रावदञ्जनाः ।

तमेव निशितैर्वाक्यैः खण्डयामास योगिराट् ॥५५॥

पादरी लोग सृष्टि को बने पाँच सहस्र वर्ष बतलाते थे । आपने कई विद्वानों की साक्षी देकर उनके मंतव्य का तिलशः खण्डन किया ॥ ५५ ॥

द्विवारमपि तस्यैव जयकृष्णस्य वेदमनि ।

पूर्ववद्वैदिकं धर्मं वर्धयामास सर्वशः ॥५६॥

अब की दूसरी बार भी आकर आप जयकृष्णदास की कोठी में ही ठहरे और पहले के समान वैदिक धर्म का जोर के साथ प्रचार किया ॥५६॥

दिनान्तरे पुरेशस्य प्रार्थनावशतो मुनिः ।

सेनानिवेशमध्यस्थभवने वक्तृतामदात् ॥५७॥

एक दिन मुरादाबाद के कलकूर साहब की प्रार्थना पर आपने छावनी की एक विशाल कोठी में व्याख्यान देना स्वीकार किया और उधर सब प्रबंध हो गया ॥ ५७ ॥

राजनीतिं समुद्दिश्य प्रस्तुतो वाक्यविस्तरः ।

समस्तपुरलोकानां मनांसि पुरतोऽहरत् ॥५८॥

आज का व्याख्यान सुनने के लिए दूर दूर से रईस एकत्रित हुए और सभ्यों की उपस्थिति होने पर “ राजनीति ” विषय पर आपने व्याख्यान देना आरम्भ किया ॥ ५८ ॥

अन्योन्याश्रयभावेन प्रजाभूपव्यवस्थितिम् ।

वदता तेन का युक्तिर्नादृता रीतिवर्णने ॥५९॥

वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से आपने इस व्याख्यान में राजा और प्रजा का ऐसा अन्योन्याश्रय अधिकार और सम्बन्ध बतलाया कि सब दंग रह गये ॥ ५९ ॥

वेदादिसत्यशास्त्राणामन्तरे सर्वमस्त्यलम् ।

दृश्यते नैव मालिन्यान्मनसामिह वर्तनम् ॥६०॥

व्याख्यान के अंत में आपने यह भी कह दिया था कि ये सब बातें वेद और आपर् ग्रन्थों में विद्यमान हैं परन्तु मनुष्य उसे देखते नहीं । देखें तो पता लगे ॥ ६० ॥

इति वादिनि योगीन्द्रे समाजस्थे च मानवे ।

नगराधीशभावस्थः स्वामिनं बहूपूजयत् ॥६१॥

इतना आपके कहने पर श्रोतागण और कलकूर साहब अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने आपका सत्कार किया । चलते समय कलकूर साहब ने कहा कि यदि आप जैसे महात्मा कुछ दिन पहले होते तो सन् १८५७ ई० का उपद्रव कभी न होता ॥ ६१ ॥

स्वीकृत्य तत्कृतां पूजामसौ योगिजनेश्वरः ।
समाजमन्दिरं तत्र विधाय प्रययावितः ॥६२॥

स्वामीजी के समक्ष ही यहाँ पर हवनोत्तर विधिपूर्वक समाज स्थापित हो गया और आप यहाँ से मत्स्यदेशांतर्गत वदायूँ के लिए प्रस्थित हुए ॥ ६२ ॥

तदागमनतः पूर्वमेव कल्पितमुत्तमैः ।
समाजमन्दिरं योगी निरीक्ष्य मुदितोऽभवत् ॥६३॥

यहाँ पर आपके आने से पहले ही १८७९ ई० को समाज स्थापित हो चुका था । आप आकर उसके समारोह को देख अति प्रसन्न हुए ॥ ६३ ॥

रम्ये गङ्गाप्रसादस्य भवने मुनिराडयम् ।
वक्तृतावेशतो यूनां मनांसि वशमानयत् ॥६४॥

पहला व्याख्यान आपका यहाँ पर महाशय गङ्गाप्रसादजी के दीवानखाने में हुआ जिसमें आपने अपनी मधुर वक्तृता से जनों के मनो को मुग्ध कर दिया ॥ ६४ ॥

चतुष्कपथविन्यस्तकरादानार्थके गृहे ।
ददता तेन तत्रापि न रीतिः परिवर्जिता ॥६५॥

दूसरा आपका व्याख्यान चुंगी की कोठी में हुआ जिसमें कई सहस्र मनुष्यों की उपस्थिति हुई और एक साथ आपकी धूम मच गई ॥ ६५ ॥

प्रतिपक्षिषु सर्वेषु पक्षतामागतेष्वरम् ।
पुराणयवनाद्यानां सपक्षमतनोद्यतिः ॥६६॥

जब आपने समस्त प्रतिपक्षियों को अपने पक्ष में आता देखा तब पुराण और यवनों के सिद्धांत का आपने खण्डन करना आरम्भ कर दिया ॥ ६६ ॥

समागमनवाञ्छोपि यावनः कोपि कोविदः ।
भयादेव निजार्थस्य मूकतामवराभितः ॥६७॥

यहाँ के मुसलमानों ने आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए मुहम्मद क़ासिम मौलवी को बुलवाया परन्तु वह आपके समक्ष आने को उद्यत नहीं हुआ ॥ ६७ ॥

रामप्रसादनाम्नाऽव मनुजेन यथोचिताः ।

कृताः पुराणविषये शङ्कनास्तिलशोऽकरोत् ॥६८॥

पण्डित रामप्रसादजी ने आकर कुछ आपके समक्ष प्रश्न किये जिनका उचित उत्तर पाकर अंत में पण्डितजी चुप ही हो गये, कुछ भी न बोल सके ॥ ६८ ॥

इतः पुरान्तरं पश्चात्प्रसङ्गवशतो मुनिः ।

समाजमन्दिरे पूर्वनिर्मिते वक्तृतामदात् ॥६९॥

अंत में १४ अगस्त सन् १८७९ ई० को स्वामीजी यहाँ से बरेली गये । वहाँ समाज स्थापित हो ही चुका था । उसी में ठहर कर आपने अपने कार्य का आरम्भ कर दिया और प्रचार आरम्भ हुआ ॥ ६९ ॥

राजकीयपदाध्यक्षा वहवस्तत्र सज्जनाः ।

योगिराजवचः श्रुत्वा परामापन्मुदः कलाम् ॥७०॥

आपके व्याख्यानों में शहर के बड़े बड़े रईस और राजकर्मचारी तथा ज़िले के प्रधान शासक कलकूर साहब और भी उनके शासक गण आया करते थे ॥ ७० ॥

दिनान्तरमुपागत्य विपत्ती कोपि योगिनम् ।

जगाद मनुजश्रेष्ठमादरादेव वेगवान् ॥७१॥

कुछ दिनों के अनन्तर बरेली के प्रसिद्ध पादरी स्काट साहब आपके समीप उपस्थित हुए और अत्यन्त सभ्यता के साथ मधुर वचनों से आपसे पूछने लगे ॥ ७१ ॥

यदेतद्भवतां पक्षे पुनरागमनं मतम् ।

तदेतत्कथमाभाति जीवस्य गतदेहिनः ॥७२॥

यह जो आपके मत में आवागमन का सिलसिला अर्थात् जीव मरने के बाद फिर जन्म लेता है, यह सिद्धांत किस प्रकार से माना जावे और क्यों कर माना जावे ? ॥ ७२ ॥

अवतारो मनुष्याणां सम्भवत्यथवा मते ।

भवतामीश्वरस्यापि योग्यमत्रोच्यतां वचः ॥७३॥

और अवतार जो प्रकट हुआ करता है वह आपके मत में जीवात्मा का होता है अथवा उस परमेश्वर का ? यह विषय आपके सिद्धांत में किस प्रकार माना जाता है ? ॥ ७३ ॥

क्रियते वा न वा पक्षे भवतां पापकर्मणाम् ।

ईश्वरेण क्षमा देव ब्रूहि प्रश्नत्रयोत्तरम् ॥७४॥

कृपा करके यह भी बतलाइए कि किये हुए पापों को जीवात्मा भोग ही लेता है या ईश्वर उनको क्षमा कर देता है ? आपका इसमें मंतव्य क्या है ? ॥ ७४ ॥

इति वादिनमेकान्तं विपक्षिणमयं यतिः ।

समीक्ष्य समदात्तेषां प्रश्नानामुत्तरं शिवम् ॥७५॥

इस प्रकार पादरी स्काट साहब के तीन प्रश्न हुए उनको सुन कर स्वामीजी अति प्रसन्न हुए और क्रमशः उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उद्यत हुए ॥ ७५ ॥

जीवस्य तात्त्विके रूपे गमनागमने स्वयम् ।

भवतश्चेतनावत्त्वाच्चञ्चलत्वाच्च तद्गतेः ॥७६॥

उन्होंने कहा—जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें आना और जाना यह स्वाभाविक धर्म से संबन्ध है क्योंकि जीव का चैतन और चञ्चल होने से ॥ ७६ ॥

अजरामरभावस्थो जीवो नोत्पद्यते यदि ।

त्वमेव वद तथाति क चायं विषयान्तरे ॥७७॥

यह अजर अमर जीवात्मा यदि आवागमन के चक्र में नहीं आता तो एक शरीर छोड़ने पर कहाँ जाता है ? यह आपभी नहीं बतला सकते ॥७७॥

बद्धस्येकान्ततो मुक्तिर्मुक्तस्येकान्ततो मते ।
बन्धोस्माकं वरीवर्ति सर्वशास्त्रानुकम्पितः ॥७८॥

जो किसी प्रकार के बँधन में बँधा हुआ है उसका किसी न किसी समय में छूटना आवश्यक है और जो छूटा हुआ है उसका बन्धन भी अवश्य ही होना है ॥ ७८ ॥

विहाय जीर्णवस्त्राणि यथा देही नवं नवम् ।
वसनं समुपादत्ते जीवस्तद्वद्रुपुर्नवम् ॥७९॥

जिस प्रकार एक पुरुष पुराने कपड़ों को उतार कर नये कपड़े पहन लेता है इसी प्रकार जीव भी पुराने शरीरों को छोड़ नये शरीरों को धारण करता जाता है ॥ ७९ ॥

यथा नवीनवस्त्रेषु मनुजस्य सदा रुचिः ।
एवं नवीनदेहेषु सदा जीवात्मनो रुचिः ॥८०॥

जिस प्रकार मनुष्य सर्वदा नवीन वस्त्रों के धारण करने में अभिलाषा करता है इसी प्रकार जीव भी सर्वदा नवीन शरीर धारण करने को उद्यत रहा करता है ॥ ८० ॥

बद्धो यथेहते मुक्तिं मुक्तोप्येवं स्वयेच्छया ।
बन्धनं प्रार्थयत्येवं पारम्पर्यक्रमः स्थिरः ॥८१॥

बद्ध जीवात्मा जिस प्रकार छूटने के लिए प्रयत्न करता है इसी प्रकार मुक्त जीवात्मा बंधन में आने के लिए प्रयत्न करता है यह उसका स्वाभाविक गुण है ॥ ८१ ॥

दृश्यते बहुधा लोके नैकवस्तुनि तत्परम् ।
मानसं मनुजस्यात्र न सुखे नासुखे दृढम् ॥८२॥

बहुधा देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव एक सा नहीं रहता । वह सुख से भी उकताता है और दुःख से भी । एक पदार्थ में इसकी रुचि एक सी कदापि नहीं रहती ॥ ८२ ॥

अवतारोपि जीवस्य ससृभवत्यनपायिनः ।

न कथञ्चन पक्षे मे परमेश्वरससृभवः ॥८३॥

अवतार भी कर्मों के द्वारा जीवों का हो सकता है, ईश्वर का नहीं । मुक्त जीव अथवा बद्ध जीव जन्म-मरण के चक्र में आते हैं । विशेष “ दशावतार-खण्डन काव्य ” में देखो ॥ ८३ ॥

अकाय इति यं वेदः कथयत्यनिशं पुनः ।

स कथं कायवानत्वावतरत्यद्भुतं महत् ॥८४॥

जिस ईश्वर को वेद अकाय, अव्रण, अस्नाविर आदि विशेषणों से पुकारता है उस ईश्वर का देहधारी होना कब संभव है ? कभी नहीं ॥८४॥

समस्तशक्तिमानीशो यद्येकान्तनुमाश्रयेत् ।

कः समस्तमिदं विश्वं पश्चादात्मवशं नयेत् ॥८५॥

और भी देखिए, वह समस्त शक्तिमान् ईश्वर यदि एक शरीर के अंदर आकर बैठ जावे तो समस्त संसार का भरण, पोषण, और पालन कौन करे ॥ ८५ ॥

न कर्मबन्धनं तत्र न क्लेशकलनं मतम् ।

न विपाकाशयावासस्तस्य शास्त्रेषु कल्पितः ॥८६॥

न उस ईश्वर में किसी प्रकार का कर्मों का बन्धन है, न किसी प्रकार का उसको क्लेश होता है और न कभी वह गर्भाशय में आकर प्रविष्ट होता है । यही शास्त्रों का सिद्धांत है ॥ ८६ ॥

अणोरणीयान्महतो महीयानपि यः प्रभुः ।

निर्दिश्यते समस्ताभिः श्रुतिभिः स कथं भवेत् ॥८७॥

जिस ईश्वर को अणु से अणु और विभु से विभु माना है और ऐसा ही जिसका श्रुतियों ने प्रतिपादन भी किया है वह किसी भी प्रकार से जन्म नहीं ले सकता ॥ ८७ ॥

नास्मन्मते कृतं कर्म शुभं वाप्यशुभं क्वचित् ।
क्षन्तुमर्हति जीवस्य परमात्मा फलप्रदः ॥८८॥

जो कुछ जीव ने कर्म किया है चाहे शुभ हो या अशुभ हो उसका उसको अवश्य फल भोगना पड़ेगा । परमात्मा क्षमा नहीं करेगा ॥ ८८ ॥

शुभेन शुभमाप्नोति कर्मणा फलमात्मवान् ।
अशुभेनाशुभं तत्र विपर्ययासो न विद्यते ॥८९॥

जीवात्मा शुभ कर्मों से अच्छा फल पाता है और बुरे कर्मों से बुरा फल पाता है । इसमें किसी प्रकार का अदल बदल नहीं है । स्वयं किया हुआ स्वयं ही भोगना पड़ता है ॥ ८९ ॥

क्षन्तुमर्हति चेज्जीवं पापेभ्यः परमेश्वरः ।
फलदत्वं कथं तस्य कर्मबन्धश्च देहिनाम् ॥९०॥

यदि ईश्वर जीवों को किये हुए पापों से बचा दे अर्थात् उनके पापों को क्षमा कर दे तो पहले तो ईश्वर फलदाता क्यों माना जावे और जगत् को कर्मानुबन्धि क्यों कहा जावे ? ॥ ९० ॥

इति वादिनि योगीन्द्रे वेदशास्त्रयुतं वचः ।
स विपत्ती गतक्लेशो वाचंयम इवाभवत् ॥९१॥

इस प्रकार वेद और शास्त्रों के सिद्धांतों से पदे पदे संबद्ध और युक्ति-युक्त अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पादरी स्काट साहब तृप्त हो अंत में चुप हो गये ॥ ९१ ॥

लेखनक्रमवद्धेत्र विवादे शङ्कनोत्तरे ।
तथाभूतां यथा तत्र सन्देहो नाभवत्पुनः ॥९२॥

जिस समय बरेली में यह शास्त्रार्थ हुआ उस समय दोनों पक्ष के लेखक मौजूद थे जो अक्षरशः (एक एक अक्षर) लिखते रहे । इसलिए किसी प्रकार की शंका नहीं रही ॥ ९२ ॥

धर्मपुस्तकमध्यस्थानिमान्वीक्ष्य निरुत्तरः ।

विषयान्गतवानेव स नत्वा मुनिसत्तमम् ॥६३॥

जिस समय प्रश्नोत्तर समाप्त हुए और साथ ही बाइबिल के पन्ने उलट पुलट कर पादरी स्काट भी चुप हो गये उस समय मनुष्य चकित हो गये और पादरी साहब स्वामीजी को प्रणाम करके चल दिये ॥ ९३ ॥

प्रशान्ते नितरां तत्र प्रतिपक्षजनागमे ।

योगिराडपि दूरस्थं पत्तनं प्रत्यगादरम् ॥६४॥

जब यहाँ पर कोई भी प्रतिपक्षी सामने न आया तब श्रीस्वामीजी भी यहाँ से शाहजहाँपुर को पधारे और ४ सितम्बर सन् १८७९ ई० को शाहजहाँपुर पहुँच गये ॥ ९४ ॥

विज्ञापनदलादानादानमानवपूरिते ।

नगरे तत्र देवस्य कीर्तिः कां न कृतिं व्यधात् ॥६५॥

पहुँचने के साथ ही आर्यसमाज की ओर से विज्ञापन दिये गये जिनको देख कर सहस्रों पुरुष आपके दर्शनार्थ आने लगे और सर्वत्र आपकी कीर्ति फैल गई ॥ ९५ ॥

तदागमनतः पूर्वमेव पौराणिका जनाः ।

पुरान्तरमभिप्रेत्य गुहालीना इवावभुः ॥६६॥

आपके पधारने से यहाँ के सांप्रदायिकों में बड़ो खलबली मची और पौराणिक तो यहाँ से भाग कर दूसरे शहरों में जा छिपे और उनके तो छक्के ही छूट गये ॥ ९६ ॥

केचिदङ्गदनामानं पौराणिकजनं जवात् ।

समानेतुमितो यातास्तत्पुरं भयवेपिताः ॥६७॥

कुछ पौराणिक आपस में सलाह करके यहाँ से अंगदराम को, जो कि पीलीभीत के स्कूल में अध्यापक थे, लिवाने गये ताकि कुछ लोग धोखा खा जायँ ॥ ९७ ॥

अङ्गदेनाङ्गदः पूर्वं पराजित इति प्रथा ।

पुरे तत्राभवद्यत्र महात्मा समतिष्ठत ॥६८॥

अङ्गद शास्त्री ने अङ्गद पण्डित को परास्त किया यह जो बात पहले कही गई थी वह शाहजहाँपुर और पीलीभीत में सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई थी ॥ ९८ ॥

भीतः स्वामिवचोवाणैरङ्गदो नापतत्पुरम् ।

पत्रमात्रविनोदेन वञ्चयामास तान्नरान् ॥६९॥

स्वामी जी के भय से पीलीभीत वाले अङ्गद ने शाहजहाँपुर आना स्वीकार नहीं किया, केवल एक दो पत्र लिख कर भोले पौराणिकों को बहका लिया ॥ ९९ ॥

अनागमनतस्तस्य सत्वरं तत्पुरस्थया ।

समालिङ्गितएवाभूद्विजयोद्गतया श्रिया ॥१००॥

अङ्गद के न आने पर पौराणिक दल सर्वथा मलिन-मुख हो गया और श्रीस्वामीजी महाराज विजय-लक्ष्मी को प्राप्त हो कर प्रसन्न-वदन हो गये ॥ १०० ॥

समाजमन्दिरं तत्र निरीक्ष्य यतिसत्तमः ।

गमनाय मनश्चक्रे ततोपि नगरान्तरे ॥१०१॥

अन्त में समाज का मन्दिर, जोकि पहले ही से था, देख कर आप यहाँ से लखनौ पधारे, जोकि सिलसिले में लगा हुआ था और बड़ा शहर था ॥ १०१ ॥

अनिर्जितमतस्थानां मनुजानां पुरोदरे ।

कला वृद्धिमवाप्ताभून्निर्जितानान्तु मन्दताम् ॥१०२॥

जिनको स्वामीजी ने वैदिक धर्म का प्रेमी जान अनुगृहीत किया उनकी मुखशोभा बढ़ने लगी और जिनको अवैदिक जान अनुग्रह का पात्र नहीं बनाया वे मन्द हो गये ॥ १०२ ॥

सप्तकं तत्र विश्रम्य दिवसानां महात्मना ।

समाजस्थापनां कृत्वा गमने मतिरादृता ॥१०३॥

१८ सितम्बर सन् १८७९ ईसवी को आप लखनौ पहुँच गये और एक सप्ताह तक आपने यहाँ पर विश्राम किया । अन्त में कानपुर होते हुए आप फ़र्हखाबाद पधारे ॥ १०३ ॥

पुरान्तरसभिप्रेत्य मुनिना सा प्रकल्पिता ।

वक्तृता यामुपाकर्ण्य हर्षशोकावलङ्कृतौ ॥१०४॥

यहाँ आकर आपने लगातार इस प्रकार व्याख्यान देना आरम्भ किया जिससे मनुष्यों में एक साथ हर्ष और शोक प्रादुर्भूत हो गया ॥ १०४ ॥

मित्रकल्पेषु मुनिना हर्षसंहतिराहिता ।

शत्रुकल्पेषु विन्यस्ता दीप्तशोकव्यवस्थितिः ॥१०५॥

जो पुरुष वैदिक धर्म के प्रमी थे उनके चित्त में तो आनन्द-समुद्र उमड़ने लगा और जो उसके विमुख थे उनमें शोक सा छाया हुआ था ॥ १०५ ॥

पौराणिकजनैस्तत्र कृतापि बहु धूर्तता ।

न चचाल मुनेरग्रे निरस्तकलिकर्मणः ॥१०६॥

पौराणिकों ने अबकी बार भी अपनी चाल चलने के लिए कोई कसर नहीं रक्खी, परन्तु उनकी कोई चाल न चल सकी ॥ १०६ ॥

प्रश्नानपि यथायोग्यं पौराणिकजनैः कृतान् ।

भञ्जयामास सहसा दूरीकृतमतक्रमः ॥१०७॥

बहुत से पौराणिकों ने अनेक प्रकार की शङ्कायें भी आप के समक्ष प्रस्तुत कीं जिनका उत्तर आपने खण्डनमण्डनपूर्वक खूब दिया ॥ १०७ ॥

भिन्नपक्षाश्रयी कोपि धर्मसामाजिकं बलम् ।

दर्शयित्वापि पक्षस्य निर्बलत्वादधोऽभवत् ॥१०८॥

यहाँ पर एक ब्राह्मण ने, जोकि वी० ए० था, स्वामीजी के विरुद्ध एक सभा स्थापित की। परन्तु पक्ष के निर्बल होने से वह आप भी निर्बल हो गया ॥ १०८ ॥

निर्जितो विदुषां यूथैस्तर्जितो गृहमानवैः ।

त्रिशङ्कुपदवीमेव भूषयामास मध्यगः ॥१०९॥

इधर उस ब्राह्मण को विद्वानों ने लताड़ा, उधर घर के मनुष्यों ने विचारे को आड़े हाथों लिया; अब वह त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटकता रह गया ॥ १०९ ॥

वहिरार्यमताविष्टैर्गृहे धर्ममतानुगैः ।

कृता का दुर्दशा तस्य न रोषावेशसङ्कुलैः ॥११०॥

बाहर तो आर्यसामाजिकों ने कोई दुर्दशा बाकी न छोड़ी और घर में धर्मसमाजियों ने उसका निरादर किया। क्या खूब ॥ ११० ॥

विधाय तत्र सहसा समाजं सकलेष्टदम् ।

मुमुदे यमिनामीशः कृतकार्यतया वृतः ॥१११॥

समस्त वांछित फलों के देने वाले वैदिक वृक्ष का आधार जो आर्य-समाज है उसको अपने समक्ष बढ़ता देख कर स्वामीजी मन में अति प्रसन्न हुए ॥ १११ ॥

गमने कृतसंवाञ्छस्ततोथ स यतीश्वरः ।

प्रवक्तुं धर्मकृत्याणि पत्तनान्तरमाप्तवान् ॥११२॥

अंत में यहाँ से रवाना हो कर कानपुर और इलाहाबाद होते हुए २३ अक्टूबर सन् १८७९ ई० को आप मिरजापुर पहुँच गये ॥ ११२ ॥

शरीरास्वास्थ्यभावेपि निजकार्यपरो मुनिः ।

प्रययौ कतिचिन्नीत्वा दिवसानि पुरान्तरम् ॥११३॥

यद्यपि आपका शरीर अति परिश्रम के कारण खिन्न था तथापि आपने यहाँ आकर अपने कार्य में कुछ विलम्ब न किया ॥ ११३ ॥

नियमानुसृतिं कृत्वा कृतसंवादकल्पनः ।

स महात्मा निजोद्देश्यैर्वैदिकं धर्ममातनोत् ॥११४॥

यहाँ से विदा हो कर आपने ३० अक्टूबर को दानापुर पहुँच कर नियमानुसार वैदिक धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया ॥ ११४ ॥

विपक्षधर्मवन्तोपि सत्यमार्गपरायणाः ।

समभूवन्निदं चित्रं विस्मितामकरोत्पुरीम् ॥११५॥

आपके यहाँ पर पधारने से विपक्षी जन भी वैदिक धर्म के अनुकूल बन गये । यह आश्चर्य समस्त नगर को अचम्भे में ले आया ॥ ११५ ॥

पौराणिकजनैस्तत्र चतुर्भुजपदाभिधः ।

समाहूतोपि वादाय पराभवमवाप्तवान् ॥११६॥

यहाँ के पौराणिकों ने आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए बाहर से पण्डित चतुर्भुज को बुलाया परन्तु वे आपके समक्ष आने को उद्यत नहीं हुए ॥ ११६ ॥

योग्यताभावतस्तस्मिन्गते जाते च मन्दिरे ।

समाजस्य गतौ चक्रे मतिं मतिमतांवरः ॥११७॥

योग्यता न होने के कारण पण्डित के न आने और समाज स्थापना होने पर आप यहाँ से चलने को उद्यत हुए और लौट कर लखनौ पधारे ॥ ११७ ॥

पुरान्तरमुपागत्य कतिचिद्विस्नान्ययम् ।

विश्रम्यागतलोकानां संशयच्छेदमातनोत् ॥११८॥

५ मई सन् १८७९ ई० को आप लखनौ पहुँच गये और आगत महाशयों का स्वागत कर उनके संशयों की निवृत्ति करते रहे ॥ ११८ ॥

निवेश्य वचसामत्र प्रभावं भावपूरितम् ।

गमनाय कृतोत्साहो बभूवाथ ययावितः ॥११९॥

अंत में यहाँ पर अपने व्याख्यानोँ द्वारा वैदिक धर्म का गौरव बढ़ा कर यहाँ से सातवीं बार आप फ़र्हखाबाद पधारे ॥ ११९ ॥

गत्वा तत्र महायोगी कल्पयित्वा तथासनम् ।
वाहिनीमध्यमागत्य वक्तृतामुत्तमामदात् ॥१२०॥

२० मई सन् १८८० ई० को फ़र्हखाबाद पहुँच और विश्राम लेकर उपदेश देना आरम्भ किया और छावनी फ़तहगढ़ में भी आपने उपदेश दिया ॥ १२० ॥

विदेशगेन केनापि योगसाधननिश्चये ।
कृतवादः समाधानं निषेधमयमावदत् ॥१२१॥

आपका उपदेश सुनकर एक दिन ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट ने आपसे कुछ योग-विषय में प्रश्न किये थे जिनका उत्तर आपने यथोचित दिया ॥ १२१ ॥

मद्यमांसपरा लोका योगमार्गव्यवस्थितौ ।
न शक्नुवन्ति संस्थातुमेतल्लोके प्रतिष्ठितम् ॥१२२॥

आपने कहा कि मद्य और मांस के सेवन करने वाले पुरुष योगाभ्यास में कदापि स्थिर नहीं हो सकते । यह बात संसार में प्रसिद्ध है ॥ १२२ ॥

इति वादिनि योगीन्द्रे तत्र याते च तत्परम् ।
समाजकल्पना साभूत्पत्तने विस्तृतिर्गिराम् ॥१२३॥

आपके इतना कहने पर प्रश्नकर्ता निरुत्तर हुए और समाज स्थापित हुआ । आप भी यहाँ से मैनपुरी पधारे और वहाँ जाते ही आपने व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया ॥ १२३ ॥

उपदेशसमुद्देश्यात्तत्र गौरानना जनाः ।
यवनाश्चापि योगीन्द्रं परितः पर्यवेष्टयन् ॥१२४॥

आपका उपदेश सुनने के लिए कलकृत साहब और सिविल सर्जन आदि कई अंग्रेज और प्रतिष्ठित मुसलमान लोग भी आया करते थे ॥ १२४ ॥

अहो मुनिरयं योगी न श्रुतो न च वीक्षितः ।
समोनेनेति सभ्याली तमलं सर्वतोवदत् ॥१२५॥

और व्याख्यानों के अंत में खड़े हो कर आपको धन्यवाद दिया करते थे और कहा करते थे कि आप जैसे योगी हमने आज तक कहीं नहीं देखे ॥१२५॥

अन्तिमे दिवसे दत्त्वा वक्तृतां वीक्ष्य चादरात् ।
समाजमन्दिरं तस्मादाप तत्परपत्तनम् ॥१२६॥

अन्तिम दिवस में आप व्याख्यान देकर चलने को उद्यत हुए और ८ जुलाई को मेरठ पहुँच गये और शहर से बाहर एक कोठी में ठहरे ॥१२६॥

तत्र गत्वैव देवेन कृते व्याख्यानविस्तरे ।
समस्तापि पुरी तस्य मुखा लोकनमातनोत् ॥१२७॥

आपने जाने के साथ ही अपना काम आरम्भ कर दिया और व्याख्यान देना आरम्भ किया जिसको सुनकर सब शहर के लोग मुहँ ताकते रह गये ॥ १२७ ॥

परमस्य भयावेगात्पौराणिकजनाधमाः ।
विपरीतकृतौ नैजं समयं निन्युरागतम् ॥१२८॥

पौराणिक पण्डितों को जब कुछ और न सूझा और जब वे स्वामीजी से डर गये तब उन्होंने एक कथक्कड़ को बहकाया और वह बहक गया ॥ १२८ ॥

व्याख्यानभवनाभ्यर्णगतकाथिकगायनैः ।
व्याख्यानश्रुतिभङ्गाय कल्पिता तैर्मुधा कृतिः ॥१२९॥

स्वामीजी के व्याख्यान-भवन के समीप ही वह प्रति दिन उपदेश के समय रामायण गाया करता था कि कोई आपका भाषण सुन न सके ॥१२९॥

परमत्रापि विषये लज्जिता एव तेऽधमाः ।
निजानि भवनान्येव गताः किं स्यादतःपरम् ॥१३०॥

परन्तु इस विषय में भी उनको लज्जित होना पड़ा । हार भक मार कर वे अपने अपने घर जा बैठे । स्वामीजी के कार्य में कोई विक्षेप न हुआ ॥१३०॥

एतस्मिन्नेव समये रमा या पूर्वसूचिता ।

पत्रालापैः समागत्य देवादध्ययनं व्यधात् ॥१३१॥

इन्हीं दिनों में पण्डिता रमाबाई (जिसका पत्रालाप आपसे पूर्व हो चुका था) यहाँ आई और आपसे संस्कृत पढ़ती रही ॥ १३१ ॥

व्याख्यानकल्पनां श्रुत्वा दत्त्वा चापि यथोचिताम् ।

पुस्तकादानमानाभ्यां योगी तां मुदितां व्यधात् ॥१३२॥

रमाबाई ने यहाँ पर चार पाँच व्याख्यान भी दिये और स्वामीजी के कई व्याख्यान सुने । विदा होते समय स्वामीजी ने स्वरचित पुस्तकें दीं और वह प्रसन्न हो चली गई । इसका विशेष वृत्तांत मेरे बनाये हुए “रमामहर्षिसंवाद” नामक काव्य में पढ़िए ॥ १३२ ॥

गतायां किल देशं स्वं रमायां मुनिराडसौ ।

थियोसोफीकलाख्यायाः सभायाः प्रेक्षणं व्यधात् १३३

रमा के चले जाने पर स्वामीजी ने थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्यों की समालोचना की और उनको खूब विचारा ॥ १३३ ॥

पत्रालापादिकं कृत्वानल्पविज्ञानवानयम् ।

आमन्त्रणवशात्तस्मात्पुरान्तरमुपागमत् ॥१३४॥

इस सभा के साथ मैं आपका बहुत सा पत्रालाप भी होता रहा । अंत में कई प्रतिष्ठित जनों के बुलाने पर आप यहाँ से मुजफ्फरनगर गये ॥१३४॥

निहालचन्द्रदेवस्य भवने कृतसंस्थितिः ।

स कृतां मनुजैः श्राद्धे शङ्कनां समपूरयत् ॥१३५॥

१५ सितम्बर सन् १८८० ई० को पहुँच कर रायबहादुर निहालचन्द्र की कोठी में ठहरे । उन दिनों श्राद्ध के दिन थे इसलिए रायबहादुरजी ने आपसे उसी विषय में प्रश्न किये जिनका उत्तर इस प्रकार था—॥ १३५ ॥

न मृते मानवे दत्तं जीवद्भिः सलिलादिकम् ।

प्राप्नोति नितरां तस्माद् व्यर्था तद्दानकल्पना ॥१३६॥

इस शरीर से जीवात्मा के निकल जाने पर जो उसके नाम से जल आदि पदार्थ दिया जाता है वह सबका सब निष्फल हो जाता है ॥ १३६ ॥

शुभाशुभं निजं कर्म स्वात्मनैव सह स्थितम् ।
भवतीति विनिश्चित्य न श्राद्धं फलदं मृते ॥१३७॥

अपना किया हुआ कर्म अपने साथ ही रहता है और अपने कोही फल देता है इसलिए मरे हुए के नाम पर देना सर्वथा निष्फल है ॥ १३७ ॥

एवं वादिनि देवेशे सकला जनता तदा ।
मुदायुताऽभवत्किं न फलं सूते सदा गतिः ॥१३८॥

इस प्रकार आपके उत्तर देने पर सब लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । सज्जनों का समागम किस किस आनन्द का कारण नहीं होता ? ॥ १३८ ॥

नगरस्था वहिस्थाश्च बुधाः प्रश्नपरायणाः ।
समुत्तराणि सम्प्राप्य विशङ्काइव सम्बभुः ॥१३९॥

बहुत से जन नगर से और बाहर से आपके पास शंका करने के लिए आते थे परन्तु उत्तर सुन कर शंकारहित हो जाते थे ॥ १३९ ॥

रुष्टमप्ययमात्मीयैर्जनमालापनैः स्वकैः ।
बोधयामास कान्येषां कथा तत्र शुभात्मनाम् १४०॥

आपके व्याख्यान में यदि कोई भगड़ा भी करता था तो उसको आप संतोष-जनक उत्तर देते थे और भड़के हुए को शांत कर दिया करते थे ॥ १४० ॥

प्रमाणपूर्वकाभाषविनोदैरस्य सन्निधौ ।
न संशयो मनुष्याणां समभूद्दृदयान्तरे ॥१४१॥

आपका उत्तर इस प्रकार प्रमाणों के साथ होता था कि उसमें कोई किसी प्रकार का संदेह ही बाकी नहीं रहता था ॥ १४१ ॥

निवृत्तिमागते तस्मिन्पुरे सम्भाषणादिभिः ।

पुरान्तरमुपागम्य विज्ञापनदलान्यदात् ॥१४२॥

जब इस नगर में मनुष्यों की सब शंकायें संभाषणों द्वारा निवृत्त हो गईं तब आप ७ अक्टूबर सन् १८८० ई० को यहाँ से देहरादून पधारे और जाने के साथ ही आपने विज्ञापन बँटवा दिये ॥ १४२ ॥

तस्य प्रदानमात्रेण सज्जनाः सौख्यनिर्भराः ।

दुराग्रहपरा लोका मनस्येव लयं गताः ॥१४३॥

विज्ञापन देने से जिज्ञासु जन तो आनन्दित हुए और दुराग्रही अभिमानो मन में कुढ़ने लगे और विवश हुए ॥ १४३ ॥

पौराणिकजनास्तद्व्यवनाश्च यथायथम् ।

कृत्वापि वादविस्तारं पराजयमवाप्नुवन् ॥१४४॥

यहाँ के पौराणिक और यवन लोग कुछ शास्त्रार्थ के लिए छेड़छाड़ करते रहे, परन्तु अन्त में उनकी वह सब छेड़छाड़ निष्फल हो गई। कोई न बोला ॥ १४४ ॥

दूरदेशस्थितेनापि निजख्यातिवशादरम् ।

स्वामिना सह संवादं कृत्वापि न कृतं यशः ॥१४५॥

एक ईसाई ने भी यहाँ पर अपनी प्रशंसा के लिए स्वामीजी से कुछ प्रश्न किये परन्तु वे भी अन्त में ठहर न सके इसलिए वहाँ उनकी निन्दा हुई ॥ १४५ ॥

धावमानमिमं दृष्ट्वा सभामध्यान्महाशयाः ।

सहस्ततालमट्टाट्टहासमेवाशु चक्रिरे ॥१४६॥

जिस समय स्वामीजी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरम्भ किया उस समय आप सभा से उठ कर चल दिये, इस लिए मनुष्य हँस पड़े ॥ १४६ ॥

दिनानि कतिचित्तत्र विश्रम्य यमिनांवरः ।

पुरान्तरमुपागत्य वैदिकं धर्ममभ्यधात् ॥१४७॥

अंत में कुछ दिन स्वामीजी यहाँ पर ठहर कर फिर मेरठ पधारे और आते ही वैदिक धर्म का उपदेश देने लगे ॥ १४७ ॥

दिनत्रयमिहास्थाय यमिना तेन सत्वरम् ।
सर्वमेव पुरं धर्ममार्गं संवेशितं वलात् ॥१४८॥

तीन दिन लगातार मेरठ में उपदेश देकर नगर के समस्त सभ्यजनों को आपने वैदिक मार्ग में लगाया ॥ १४८ ॥

प्रसङ्गवशतो गत्वा पुरान्तरमयं यतिः ।
वेदसूर्यप्रकाशेन मतध्वान्तं न्यवारयत् ॥१४९॥

२५ नवम्बर सन् १८८० ई० को आप यहाँ से आगरे पधारे और वैदिक सूर्य के प्रकाश से मतरूप अन्धकार को मिटाने लगे ॥ १४९ ॥

पौराणिकजनास्तत्र दोषारोपणवाञ्छया ।
मुनेरुपरि दोषेण स्वयमेवावृता वभुः ॥१५०॥

पौराणिकों ने आपके विषय में अनेक प्रकार की गप्पें उड़ाईं परन्तु उन दोषों ने उलटा उन्हीं को घेर लिया ॥ १५० ॥

स्वरुपरि यो धूलिं निक्षिपत्यज्ञतावशात् ।
सएव रजसा तेन धूसरत्वं प्रयात्यलम् ॥१५१॥

यह दृष्टांत यहाँ पर ठीक घटता है कि सूर्य के ऊपर जो धूल गेरना चाहता है वह उस धूल से स्वयं मलिन हो जाता है ॥ १५१ ॥

परोपकारिणां यद्वल्लोके भवति तद्यशः ।
परापकारिणां तद्वन्निरादृतिरिति स्थितम् ॥१५२॥

जिस प्रकार इस जगत् में परोपकारी पुरुषों की कीर्ति होती है इसी प्रकार ठगों की निन्दा भी हुआ करती है ॥ १५२ ॥

देवेन वेदवाक्यैस्तैः सर्वेषां हृदयोदरात् ।
बहुकालजमालस्यं दूरमेव कृतं वलात् ॥१५३॥

यहाँ पर स्वामीजी ने अपने उपदेशों से मनुष्यों के हृदयों में जमे हुए आग्रह और आलस्य को दूर निकाल कर फेंक दिया ॥ १५३ ॥

दशामेतामलं वीक्ष्य पौराणिकजनव्रजे ।

या स्थिता सापि नष्टैव जीवनाशा भयोदयात् ॥१५४॥

स्वामीजी के उद्यम और उत्साह की दशा देख कर पौराणिकों की रही सही आशा भी टूट गई । जीविका बिना जीवन कहाँ ? ॥ १५४ ॥

रूमन्देशागतः कश्चिद्विपत्नी भिन्नधर्मवान् ।

यथायथं समागत्य धर्मचर्चामलं व्यधात् ॥१५५॥

एक दिन रोमन कैथलिक ईसाइयों के लाल पादरी से आप मिले और उन्होंने जो कुछ अपना मन्तव्य था स्वामीजी को सब सुना दिया ॥ १५५ ॥

योगिराडपि संवादकल्पने धृतविस्तरः ।

निग्रहस्थानमायातं प्रतिवादिनमभ्यधात् ॥१५६॥

स्वामीजी ने भी उनकी सब बात सुन कर उनका प्रतिवाद करना आरम्भ किया और निग्रह-स्थान में आये हुए उन पादरी साहब से कहा ॥ १५६ ॥

इटलीदेशजो यर्हि भूत्वा प्रतिनिधिः प्रभोः ।

पोपदेवो भवच्छङ्काश्छिनत्तीति मतं मया ॥१५७॥

यदि इटली के रहनेवाले पोप ईश्वर के प्रतिनिधि (स्थानापन्न) हैं यह आपका मत है तो उसमें यह दोष है ॥ १५७ ॥

परं तद्गतशङ्कानां मनुजत्वात्समुत्तरम् ।

को ददाति समाधत्तेऽनुमन्ता चास्ति को वद ॥१५८॥

पोप जी मनुष्य हैं; मनुष्य में भ्रांति होना संभव है । पोपजी की शंकाओं का उत्तर देनेवाला आपके यहाँ कौन है ? ॥ १५८ ॥

१ पोपशब्दोयमिटलीदेशवासिभिर्धर्माचार्यपदे निवेश्यते, भारतवर्षीयैश्च वञ्चकापरपर्यायोयं शब्दो मन्यन्ते, मयापि स्वकृतावव्युत्पन्नं प्रातिपादिकं मत्वा वञ्चकार्थक एवायं मूर्खपौराणिकेषु तत्र तत्र निवेशित इति दिक् ।

इति प्रवदति प्राज्ञे लाटनामा स मानवः ।

वाचंयम इति प्रातिपदिकं सफलं व्यधात् ॥१५६॥

आपके इस कथन पर लाल पादरी जी चुप हो गये और “ वाचंयम ” शब्द को संसार में चरितार्थ कर दिखलाया ॥ १५९ ॥

देवानामुपदेशस्य प्रभावेनातिसत्वरम् ।

समाजमन्दिरं तत्र समभूदतिशोभनम् ॥१६०॥

आपके उपदेशों के प्रभाव से यहाँ पर २६ दिसम्बर सन् १८८० ई० को आर्यसमाज स्थापित हो गया और आनन्द होने लगा ॥ १६० ॥

पौराणिकजनैस्तत्र निर्बलत्वाच्चतुर्भुजः ।

विवादाय समाहूतोऽभवदत्यन्तमानवान् ॥१६१॥

पौराणिकों ने समाज स्थापित देखकर आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए अत्यन्त अभिमानी पण्डित चतुर्भुज को बुलाया ॥ १६१ ॥

परमेष निजां वीक्ष्य दुर्दशां पूर्वतो मतेः ।

न जगाम यतीशस्य समक्षमपि लज्जितः ॥१६२॥

परन्तु पण्डित चतुर्भुज अपनी दुर्दशा होने के भय से आपके समक्ष ही नहीं आये, शास्त्रार्थ तो जहाँ तहाँ रहा ॥ १६२ ॥

गमने कृतसन्नाहो देवदेवस्ततोप्यलम् ।

जगाम भरताभिख्यं पुरं भूपनिमन्त्रणात् ॥१६३॥

यहाँ से आप १० मार्च सन् १८८० ई० को राजा के बुलाने पर रियासत भरतपुर (जो कि आगरे के पास ही है) पधारे ॥ १६३ ॥

जयध्वनिसमाबद्धैर्मनुजैरयमात्मवान् ।

विशाले भवने तत्र रक्षितोभूदलङ्कृते ॥१६४॥

यहाँ के पुरुषों ने बड़े हर्ष के साथ आपका स्वागत किया और बड़ी कोठी में आपके ठहरने का प्रबंध किया गया ॥ १६४ ॥

राजा जनसहस्रेण सहितोस्य महामतेः ।

पूजामिह तथा चक्रे यथा देवस्य सञ्जयः ॥१६५॥

यहाँ के राजा ने सहस्रों नर-नारियों समेत आपका दर्शन एवं विभो-
चित सामग्री से पूजन भी एक साथ किया ॥ १६५ ॥

असावपि शुभाशंसामयैर्वैदिककल्पनैः ।

राजानं तोषयामास धर्ममार्गपरायणैः ॥१६६॥

आपने भी वैदिक धर्म की दीक्षा देने वाले राजाओं के द्वारा संसार में
होने वाले कार्य राजा को उपदेश द्वारा बतलाये ॥ १६६ ॥

एवं दिनत्रयं तत्र विश्रम्य यमिनांवरः ।

जयपत्तनमागत्य प्रारेभे धर्मवक्तृताम् ॥१६७॥

इस प्रकार उपदेश देते हुए स्वामीजी तीन दिन यहाँ ठहर कर यहाँ से
जयपुर पधारे । वहाँ जाते ही आपने व्याख्यान देना आरम्भ किया ॥१६७॥

नानाकविवरैस्तत्र कृष्णभट्टादिभिर्मुनिः ।

नवैर्निजपदैर्भूयो भूयः स्तुतिपथीकृतः ॥१६८॥

यहाँ के कृष्ण भट्ट आदि कई कवियों ने नवीन श्लोक बना कर आपकी
बड़ी प्रशंसा की और आपका मान किया ॥ १६८ ॥

बहुवादसमावेशभयात्पौराणिकव्रजे ।

नगरान्तरमायाते मुनिर्जयमवाप्तवान् ॥१६९॥

यहाँ के पौराणिकों को यह भय हुआ कि कभी शास्त्रार्थ न छिड़
जाय । इसलिए वे पलायित होने लगे । आपका जय तो स्वयं सिद्ध ही
था ॥ १६९ ॥

ततो जतुन्दमागत्य सत्वरं यमिनांवरः ।

निजव्याख्यानसम्भारैर्दुर्जनानां क्षयं व्यधात् ॥१७०॥

अंत में यहाँ से आप ५ मई सन् १८८१ ई० को अजमेर पधारे और जाने के साथ ही आपने व्याख्यान देना आरम्भ किया जिससे दुर्भावों का नाश हो गया ॥ १७० ॥

गतेषु दिवसेष्वत्र विदुषां वेदपाठिनाम् ।

गृहाणि तृणवद्धानि भस्मसादभवन्क्षणात् ॥१७१॥

कुछ दिनों के बाद यहाँ के कुछ वेदपाठी पण्डितों के फूस के मकान अग्नि से जल गये थे और वह अत्यन्त दखिनी थे ॥ १७१ ॥

दरिद्रत्वादयं तेषां निजैरेव धनव्ययैः ।

छादयामास गेहानि धर्मकार्यमिति ब्रुवन् ॥१७२॥

इस लिए आपने अपनी तरफ से उनके मकान बनवा दिये थे और कहा कि यह धर्म का कार्य है, सबको करना चाहिए ॥ १७२ ॥

पेशोरदेशजस्तत्र लेखरामाभिधः सुधीः ।

समागत्य स्वशङ्कानां विलये मोदमाप्तवान् ॥१७३॥

इन्हीं दिनों पण्डित लेखरामजी पेशावर से आये हुए थे और आपसे अपनी शंकाओं का निवारण कर प्रसन्न हो चले गये ॥ १७३ ॥

बहुधा भागरामाख्यः कोपि राजपदाग्रणीः ।

देवराजस्य वक्तृत्वे प्रबन्धं पूर्णमादधात् ॥१७४॥

अजमेर के जज रायबहादुर पण्डित भागरामजी प्रायः आपके व्याख्यानों का पूर्ण रूप से प्रबन्ध किया करते थे ॥ १७४ ॥

प्रबन्धकल्पने तद्वच्छ्रवणे च निवेशितः ।

स सहात्मोभयानन्दमापदत्यन्तहर्षवान् ॥१७५॥

और व्याख्यान के दिन आरम्भ से लेकर अंत तक आपका व्याख्यान पूर्णरूप से सुन कर आनन्दित होते थे ॥ १७५ ॥

क्रियैका द्वयर्थसम्भूतिकारिकेति पतञ्जलेः ।

कथनं तेन कार्तार्थ्यं नीतमत्र न संशयः ॥१७६॥

एक क्रिया दो अर्थों की देने वाली होती है यह कहावत जज भागरामजी ने संसार में सफल करके सबको दिखादी ॥ १७६ ॥

एवं निवासमाकुर्वन्नजतुन्दपुरे मुनिः ।

निमन्त्रणागमे तस्मान्मसूदापत्तनं ययौ ॥१७७॥

स्वामीजी भी इस प्रकार यहाँ पर उपदेश देकर निमन्त्रण आने पर २३ जून सन् १८८१ ई० को मसूदा पधारे ॥ १७७ ॥

तत्र राज्ञा कृतातिथ्यः स मुनिर्वाटिकोदरे ।

यथाक्रमं स्थितो धर्मं बोधयामास मानवान् ॥१७८॥

जाने के साथही मसूदाधीश राजा बहादुरसिंहजी ने स्वयं आपका स्वागत कर एक रमणीय उद्यान (बगीचे) में आपको ठहराया । स्वामीजी ने भी लगातार व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया ॥ १७८ ॥

मण्डले निखिले राज्ञस्तदागममहोत्सवः ।

समभूद्बुद्धिमद्वय्यमण्डले सोक्ततां दधत् ॥१७९॥

बुद्धिमानों के हृदय में उत्कण्ठा को बढ़ाता हुआ आपके आने का समाचार समस्त राजधानी के अन्दर एक साथ फैल गया ॥ १७९ ॥

बुधवर्यास्तु देवस्य दर्शनादेव हर्षिताः ।

परं भिन्नमतज्ञास्तु विवादमपि चक्रिरे ॥१८०॥

इस रियासत में जितने बुद्धिमान् थे वे तो आपके दर्शन से ही आनन्दित हुए परन्तु अन्य मत के लोगों से विवाद भी हुआ ॥ १८० ॥

यदा वैदिकधर्मस्य प्रस्तुता मुनिना ततिः ।

तदा ते पुस्तकाभावाद्भावं धावं यथुर्दिशः ॥१८१॥

परन्तु जिस समय स्वामीजी ने वैदिक सिद्धांतों द्वारा उनके सिद्धांत का खण्डन किया तब उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे मत की पुस्तकें नहीं । इतना कह वे भाग गये ॥ १८१ ॥

दुराचारपरास्तत्र केपि पूर्वत आगताम् ।
रीतिमस्य मतारम्भात्तत्यजुर्निरयोन्मुखीम् ॥१८२॥

इस रियासत में कुछ पुरुष ऐसे थे जो मुसलमानों की बादशाही में जबरदस्ती मुसलमान बनाये हुए लोगों को अपनी कन्या देते थे परन्तु आपने उनको इस काम से हटाया ॥ १८२ ॥

[साम्प्रतं तामेव वर्णयति]

शासने यावने पूर्वमत्र देशे प्रतिष्ठिते ।
बहवो मनुजास्तेषां बलाद्यवनतामयुः ॥१८३॥

अब उसी को दर्शाते हैं—जो हिन्दू भाई मुसलमानों की अमलदारी में मुसलमान बनाये गये उन से कुछ लोग सम्बन्ध रखते हैं ॥ १८३ ॥

ते गते समये तेषां पृथक्त्वाद्यवनात्मनाम् ।
पुत्रिकाऽऽदानमुत्सृज्य दानमन्वारभन्त तत् ॥१८४॥

वह सम्बन्ध यह था कि अपनी लड़की उन नये मुसलमानों को देते तो थे परन्तु उनकी लड़की आप नहीं लेते थे ॥ १८४ ॥

मुनिना ते यथायोग्यवचनैर्विनिवारिताः ।
न तेभ्यः पुनरात्मीयां पुत्रिकामदुरुन्नताः ॥१८५॥

स्वामीजी ने उनको समझा कर इस बुरे काम से हटाया और आर्य जाति का महत्त्व उनको दिखलाया ॥ १८५ ॥

लक्षशः पुत्रिकास्तेन योगिना रक्षिता बलात् ।
परमात्ममयं देवं तुष्टुवुर्मनसा स्मरन् ॥१८६॥

उस समय से आज तक लाखों लड़कियाँ मुसलमान होने से बच गईं जो कि ईश्वर को ध्यान में लाकर धन्यवाद देती होंगी ॥ १८६ ॥

बहूनि यज्ञकर्माणि तन्वानः स महामनाः ।
फलमेषां यथायोग्यं वर्णयामास सर्वशः ॥१८७॥

इस रियासत में हवन का लाभ बताकर आपने कई बड़े बड़े यज्ञ कराये और धूमधाम से वैदिक धर्म का प्रचार किया ॥ १८७ ॥

समीपगतदेशेषु वक्तृताभिरयं तमः ।

निवार्य्य पुनरत्रैव सूर्यवद्युतिमान्वभौ ॥१८८॥

इस रियासत के आस पास वसे हुए नगरों में भी आप उपदेश देने जाते थे और फिर यहीं आकर विराजमान होते थे ॥ १८८ ॥

विशेषवक्तृतादानाभावेपि मुनिराडयम् ।

पक्षमेकमिह स्थित्वा धर्ममार्गमवर्धयत् ॥१८९॥

यद्यपि दुबारा २१ सितम्बर सन् १८८१ ई० को आकर १५ दिन आप यहाँ ठहरे थे परन्तु विशेष व्याख्यान न देकर सामान्य आप सद्गुणों का ही देते रहे ॥ १८९ ॥

※ सर्वतोगमनवन्धः ※

न ते न ते ते न ते न ते न ते न न ते न ते ।

न ते न ये ये न ते न ते न ये न न ये न ते ॥१९०॥

[अन्वयः]

येन—येन—नतेन (जनेन) ते—ते—(अनिर्वचनीयाविषयाः) येन—येन—(प्रकारेण) [तस्य महर्षेरग्रे प्रश्नरूपेण विन्यस्ताः] तेन—तेन—नतेन—(जनेन) ते—ते—(प्रसिद्धा विषयाः) तेन—तेन—(प्रकारेण) [तदुत्तरद्वारा] न (प्राप्ता इति) न—किंत्ववश्यं प्राप्ता इत्येकोऽर्थः ।

(अथवा)

येन—येन—नयेन (नीतिमार्गेण) तेन—(मुनिना) ते—ते—(प्रसिद्धाः पुरुषाः) न—(नीता इति) न—(किन्तु नीता इत्यर्थः) तेन—तेन—(प्रसिद्धेन) नयेन (नीतिमार्गेण) ये—(अधमाः) ते—न (अगुः)नते—नते—(नम्रतामापन्ने—)सरले इत्यर्थः—नये—(नीतिमार्गे—)ते—(अधमाः) न—(यांतीति शेषः) एवमष्टावर्था अन्येष्व्यूहाः ।

स्वामीजी की प्रशंसा कहीं तक करें जिस जिस नम्र पुरुष ने उन उन विषयों को जिस जिस प्रकार पूँछा उस नम्र पुरुष ने उन उन विषयों को उस उस प्रकार अवश्य प्राप्त किया (अथवा) जिस जिस नीति मार्ग के द्वारा उस मुनि ने वह वह प्रसिद्ध जन अच्छे मार्ग में लगा दिये उस उस प्रसिद्ध नीतिमार्ग से जो अधम थे वह न गये क्योंकि सरल नीति मार्ग में

वे अधम जन नहीं जाया करते हैं। (इस श्लोक के) केवल दो अर्थ यहाँ मैंने बतला दिये बाकी आठ प्रकार के और अर्थ पण्डित स्वयं निकालें। इस पद्य के दस अर्थ हैं ॥ १९० ॥

※ द्व्यर्थकः ※

यथायमं यथान्यायं यथाधर्मं यथागमम् ।

सत्कृताऽसत्कृताच्चापि मतामतविपर्यये ॥१६१॥

आपने यहाँ की जनता को मतवाद के विषय में शास्त्र, धर्म और न्याय के अनुकूल और यमों (पाँच विधि) के अनुकूल सत्कृत भी किया और असत्कृत भी किया। (यह श्लोक द्व्यर्थक है) ॥ १९१ ॥

करुणाकरुणावेशैरेवमल महामुनिः ।

धर्मागममवस्थाप्य किं न चक्रेऽपरं परम् ॥१६२॥

करुणा और अकरुणा इन दोनों के आवेश से आपने यहाँ पर धर्म का स्थापन कर क्या क्या अच्छा काम नहीं किया अर्थात् समस्त धर्म-कार्यों का आपने यहाँ पर प्रचार किया ॥ १९२ ॥

तृतीयवारमागत्य मुनिना तेन सत्कृता ।

सभा सभयमेनं तैर्नुनाव पदविस्तरैः ॥१६३॥

इधर उधर भ्रमण कर तीसरी बार फिर आपने यहाँ आकर व्याख्यानों द्वारा सभा को संतुष्ट किया। वह संतुष्ट हुई सभा आपकी इस प्रकार प्रशंसा करने लगी जो निम्न लिखित है—॥ १९३ ॥

[युग्मम्]

※ षोडशदलकमलबन्धः ※

कृतशातमतव्रात ! वृतश्रुत ! धृतव्रत ! ।

हतध्वान्त ! यतस्वान्त ! नुतदान्त ! शतस्तुत ! ॥१६४॥

※ गामूत्रिकाबन्धः ※

अव देव ! जनं लोके पापकर्मपरायणम् ।

भवदावर्तनं शङ्के पोषंशर्मतुरायणम् ॥१६५॥

१ आसमन्ताद्वर्तनमवस्थानम् । २ पोषा वञ्चकाः । ३ तुरायणं यज्ञ विशेषः ।

मत्तां के समूह को कृश करने वाले, वेद के स्वीकार करने वाले, व्रत के धारण करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले, मन के रोकने वाले, योगियों की प्रशंसा करने वाले, अनेक जनों के स्तुति योग्य, हे स्वामीजी महाराज ! पाप कर्म में लगे हुए पुरुषों की सदुपदेश से रक्षा कीजिए इस जगत् में आपका रहना अधर्मियों के मानन्द का विनाश करने वाला और संतों को सुख देने वाला है ॥ १९४ ॥ १९५ ॥

[युग्मम्]

※ छत्रबन्धः ※

धर्मकार्यकृते जात ! धनमानविभावित ! ।

धैर्यवीर्यविभावौ तौ धैर्यवीर्यविभावितौ ॥१६६॥

विधेहीति यथायोग्यं नुतवृत्तो यतीश्वरः ।

समाहूतो ययौ लोकैस्तत्परं पत्तनोत्तमम् ॥१६७॥

धर्मकार्य के लिए उत्पन्न हुए, धन और मान के द्वारा पूजित हुए, हे स्वामीजी महाराज, आप उस धैर्य और वीर्य के नाम मात्र प्रभाव को वास्तव में धैर्य और पराक्रम के साथ में लगा दीजिए । इस प्रकार प्रशंसा को पहुँचाये हुए स्वामीजी महाराज रायपुराधीश ठाकुर हरीसिंहजी के कई बार बुलाने पर १९ अगस्त सन् १८८१ ई० को रायपुर पधारे ॥ १९६ ॥ १९७ ॥

मार्गे समागतान्पश्यन् वनभागानलङ्कृतान् ।

जगदीशेन स मुनिः प्रपेदे तत्पुरं द्रुतम् ॥१६८॥

मार्ग में आये हुए अनेक प्रकार के वनों को (जिनको कि परमेश्वर ने सजाया था) देखते देखते स्वामीजी उस नगर में पहुँच गये जिलके लिए मसूदा से चले थे ॥ १९८ ॥

तत्र नानाविधाचारैः कृतातिथ्यः पुरेश्वरः ।

दर्शनं देवदेवस्य कृतवानितरत्यजन् ॥१६९॥

वहाँ पर पहुँचते ही ठाकुर साहब ने सब काम छोड़ आपका स्वागत-पूर्वक दर्शन किया और सब प्रकार आपके ठहरने का अच्छा प्रबंध कर दिया जो कि उनको उचित था ॥ १९९ ॥

प्रसङ्गवशतस्तेन योगिना सचिवः स्वयम् ।

पर्य्यपृच्छत भूपोपि तदुत्तरमदादिदम् ॥२००॥

बातचीत करते करते प्रसंग वश स्वामीजी ने ठाकुर साहब से पूँछा कि आपकी रियासत के मन्त्री कौन हैं ? स्वामीजी के प्रश्न के उत्तर में ठाकुर साहब ने निम्न लिखित उत्तर दिया ॥ २०० ॥

देव धीसचिवो यो मे मुख्यः स तु गतोधुना ।

पुरान्तरमयन्तस्य स्थानापन्नीकृतो मया ॥२०१॥

महाराज ! हमारी रियासत के मुख्य मन्त्री तो आज कल जोधपुर गये हुए हैं जिनका कि नाम (इलाहीबख्श) है परन्तु आजकल उनकी जगह पर (करीमबख्श) हैं और वे आपके समक्ष ही हैं ॥ २०१ ॥

परमेतौमहाभाग यवनावेव जन्मना ।

वर्तेते गुणकर्मभ्यामपि तादृशवासनौ ॥२०२॥

परन्तु ये दोनों वैदिक धर्म के मानने वाले नहीं हैं । न इनका खानपान आदि व्यवहार आर्यसम्मत है ॥ २०२ ॥

समाकर्णितवाक्योथ योगी बुद्धिमतां वरम् ।

धर्मशास्त्रोचितं किञ्चिद्राजानमिदमब्रवीत् ॥२०३॥

स्वामीजी ने इतना सुन कर सामने बैठे हुए ठाकुर हरिसिंहजी से कुछ कहना आरम्भ किया ॥ २०३ ॥

मनुनानुमते धर्मशास्त्रे यादृग्व्यवस्थितिः ।

प्रतिष्ठितास्ति भूपानां सैव कल्याणकारिणी ॥२०४॥

महाराजा मनु ने जो व्यवस्था राजाओं के लिए बतलाई है वही सर्वोश में कल्याणकारिणी है ॥ २०४ ॥

समेषु सचिवेष्वेव धर्मकार्यव्यवस्थितिः ।

सम्भवेदिति सर्वांशे मनुवाक्यं विचार्य्यताम् ॥२०५॥

समान धर्म, समान आचरण वाले अमात्य में ही धर्म का भार रखना चाहिए, यह मनु का वचन सर्वांश में मानने योग्य है ॥ २०५ ॥

असमाने समानत्वं यः करोति लहीपतिः ।

स विनाशं समभ्येति धर्ममार्गविमर्दनात् ॥२०६॥

जो राजा असमान अमात्य के ऊपर भरोसा रखता है वह नाश को प्राप्त होता है क्योंकि वह धर्म का नाश करता है ॥ २०६ ॥

इति शास्त्रसमायुक्तं भाषमाणे यतीश्वरे ।

वचो निपीय सहसा कृतार्थोऽभून्महीपतिः ॥२०७॥

इस प्रकार शास्त्रानुकूल संमति देने पर राजा कृतार्थ हुआ और अत्यन्त प्रसन्न हो कर आपकी स्तुति करने लगा ॥ २०७ ॥

अनन्तरमसौ योगी कृतप्रश्नं महीपतिम् ।

राजधर्मान्मनुप्रोक्तान्वोधयामास तत्त्वतः ॥२०८॥

कुछ समय बीतने पर ठाकुर साहब ने आपसे राजधर्म के विषय में प्रश्न किया जिसका उत्तर निम्न लिखित दिया गया—॥ २०८ ॥

वेदवेदाङ्गशास्त्रेषु सर्वदा दत्तचेतसा ।

भूपेन भाव्यमखिलप्रजापालनकारिणा ॥२०९॥

राजा इस प्रकार का होना चाहिए जो कि वेद-वेदांग जानता हो, समस्त प्रजा का पकसा पालन करता हो ॥ २०९ ॥

यस्य राज्ये द्विजन्मानो वेदवेदाङ्गपारगाः ।

वसन्ति सर्वदा वृद्धिं तस्य राज्यं प्रयात्यलम् ॥२१०॥

जिस राजा के राज्य में वेद के जाननेवाले ब्राह्मण रहा करते हैं उस राजा का राज्य सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ २१० ॥

यत्रापमानमेतेषां राज्ये भवति भूभृताम् ।

नाशं समेति तद्राज्यं स्वयमेवाम्लकुरुभवत् ॥२११॥

जिसके राज्य में विद्वानों का अपमान होता है उसका राज्य इस प्रकार नष्ट होता है जिस प्रकार अचार का घड़ा ॥ २११ ॥

अतः सर्वप्रकारेण सम्मानं प्रापयन्द्बिजान् ।

धर्मकार्ये रतो भूयाद् भूप एतत्सुखावहम् ॥२१२॥

इसलिए राजा को चाहिए कि विद्वानों का सर्वदा सम्मान करे और सर्वदा अपना मन धर्म के कार्यों में लगावे ॥ २१२ ॥

निर्णयो दण्डनीतेर्यः समाम्नातो मनुस्मृतौ ।

स एव सर्वधर्मार्थकाममोक्षप्रदः स्मृतः ॥२१३॥

दण्डनीति के विषय में जो कुछ मनुस्मृति में बतलाया गया है वही राजाओं के लिए कल्याण करनेवाला है ॥ २१३ ॥

एनं निबोधयित्वैनं राजानं पार्श्ववर्तिनम् ।

धर्मकार्याणि सुदितो बभूव यमिनांवरः ॥२१४॥

इस प्रकार राजा के प्रश्न का उचित उत्तर देकर स्वामीजी अपने मन में अति प्रसन्न हुए और राजा भी कृतार्थ हो गया ॥ २१४ ॥

अत्रान्तरे बभूवात्र यवनैः सह योगिनाम् ।

संवादो यत्र सहसा यवना मूकतां गताः ॥२१५॥

इसी बीच में यहाँ के यवनों के साथ उनके उत्पत्ति-विषय में विचार हुआ जिसमें वे मूकता को प्राप्त हो गये ॥ २१५ ॥

अनन्तरं समायातैर्जनैः सत्रा यतीश्वरः ।

प्रकाममकरोत्तेषां शिवाय किल भाषणम् ॥२१६॥

अंत में स्वामीजी भी अपने पास आये हुए पुरुषों के साथ धार्मिक बातचीत करते हुए समय बिताते रहे ॥ २१६ ॥

केषाञ्चिद्दीश्वरे नानाविधाः शङ्काः हृदि स्थिताः ।

वारयामास सहसा नानायुक्तिनिबन्धनैः ॥२१७॥

जो कोई पुरुष आपके पास आकर ईश्वर के विषय में प्रश्न करता था उसका उत्तर आप देकर उसे तुष्ट करते थे ॥ २१७ ॥

केनचिद्यज्ञविषये कृतां शङ्कां यथोचिताम् ।
दूरीचकार सम्ब्रोधय तत्प्रमाणं स वेदवित् ॥२१८॥

जो कोई पुरुष यज्ञ-विषय में आकर प्रश्न करता था वह उसका उत्तर सुन कर स्वयं मूक हो जाता था ॥ २१८ ॥

एवं स नीतसमयो महात्मा योगिनांवरः ।
समागतेषु धर्मस्य मनुजेषु मतं व्यधात् ॥२१९॥

इस प्रकार यहाँ पर समय बिताते हुए आपने अनेक जनों के संशयों को निवृत्त कर वैदिक धर्म का स्थापन किया ॥ २१९ ॥

एतावतैव कालेन पौराणिकजनैः कृता ।
शास्त्रार्थकल्पना यस्यां पराजयमिताः स्वयम् ॥२२०॥

इसी बीच में पौराणिकों ने आकर कुछ बात की जिसमें वे स्वयं प्रमाणाभाव से निरुत्तर हो गये ॥ २२० ॥

निरीक्ष्य योगिवर्यस्य प्रभावं योगसञ्चितम् ।
निरस्तकान्तयः सर्वे बभूवुर्मतवादिनः ॥२२१॥

आपके व्याख्यानों का प्रभाव देख कर बहुत से मतवादी नष्टकांति हो गये और इधर उधर जा छिपे ॥ २२१ ॥

पराजितेषु सहसा सर्वेषु मतवादिषु ।
दूरीकृतमतध्वान्तः शुशुभे यमिनां वरः ॥२२२॥

समस्त मतवादियों के परास्त होने पर वैदिक धर्म के प्रचारक श्रीस्वामीजी अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए ॥ २२२ ॥

जयश्रिया वृतं वीक्ष्य यतिवर्यं हतप्रभाः ।
सर्वेपि सहसाऽभूवँश्चकिताः सत्रपाश्च ते ॥२२३॥

जयलक्ष्मी से आपको अलंकृत देख कर यहाँ के समस्त मतानुयायी चकित एवं लज्जित हो गये ॥ २२३ ॥

गतेष्वनन्तरं तेषु यवनेषु यतीश्वरः ।

वक्तृताविभवैस्तस्य नगरं पर्यवेष्टयत् ॥२२४॥

अंत में उनके जाने पर स्वामीजी ने भी ऐसा प्रचार किया कि सारे शहर में एक साथ हलचल मच गई ॥ २२४ ॥

महोत्साहैर्महायोग्यं महामान्यैर्महाधनम् ।

कृतं मन्दिरमालोक्य समाजस्य मुदं ययौ ॥२२५॥

बड़े उत्साह के साथ यहाँ के लोगों ने आपके समक्ष ही में समाज स्थापित किया जिसे देख स्वामीजी अति प्रसन्न हुए ॥ २२५ ॥

पुरान्तरमितो गत्वा समाह्वानैरयं मुनिः ।

ततान वञ्चतृता भव्याः संशयानप्यनाशयत् ॥२२६॥

यहाँ से बिदा हो कर स्वामीजी ९ सितम्बर सन् १८८१ ई० को व्यावर धारे और जाने के साथ व्याख्यान आरम्भ किया ॥ २२६ ॥

उपदेशवशादस्य तत्रापि परिकल्पितम् ।

समाजमन्दिरं विज्ञैरार्थधर्मपरायणैः ॥२२७॥

आपके उपदेश के प्रभाव से यहाँ पर भी समाज स्थापित हो गया । यहाँ स्वामीजी लगातार १५ दिन तक रहे ॥ २२७ ॥

सौहार्दाद्भिन्नमार्गस्थैः कृता वार्ता परं बुधैः ।

प्रकल्पिता न शास्त्रार्थकल्पनाऽनल्पविस्तरा ॥२२८॥

यहाँ के पादरी भी कुछ आपसे प्रीतिपूर्वक बातचीत करते थे परन्तु कुछ उन्होंने विवाद नहीं किया ॥ २२८ ॥

निवृत्ते जनसंवादे प्रवृत्ते च गतिक्रमे ।

मसूदानगरं प्राप पुराणं यमिनांवरः ॥२२९॥

मनुष्यों की शंका निवृत्त होने पर २४ सितम्बर सन् १८८१ ई० को आप यहाँ से मसूदा पधारे और १० दिन तक यहाँ पर रह कर आपने वैदिक धर्म का प्रचार किया ॥ २३९ ॥

कारणानुगमात्तस्माद्भिन्नस्थानेषु संवसन् ।

राजधानीमयम्प्राप राजकार्यैरलङ्कृताम् ॥२३०॥

मसूदा से बिदा होकर हुरड़े रूपाहेली और रापड़े होते हुए ६ अक्टूबर सन् १८८१ ई० को रियासत बनेड़ा पधारे ॥ २३० ॥

तत्र राज्ञा यथायोग्यं कृतातिथ्यो यतीश्वरः ।

सिषेवे चरणौ तस्य स्वयमेव यथायथम् ॥२३१॥

पहुँचने के साथ यहाँ के राजा ने आपका बड़ा मान किया और आतिथ्य का अच्छा प्रबन्ध कर दिया । वे प्रति दिन आपके पास उपस्थित हुआ करते थे ॥ २३१ ॥

श्रावणाय कुमारौ तौ सामवेदस्य योगिनाम् ।

समीपे तेन विन्यस्तावौरसौ बहुशासनात् ॥२३२॥

राजा साहब के दो पुत्र थे जो सामवेद गाया करते थे । वे दोनों स्वामीजी को सामवेद सुनाया करते थे ॥ २३२ ॥

सामवेदलसद्दानचतुरौ तौ कुमारकौ ।

परीक्ष्य विषये भव्ये यतिस्तुष्टिमुपाययौ ॥२३३॥

आपने इन दोनों की परीक्षा ली । परीक्षा लेने के बाद अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । राजा से भी इस बात को राज्य में बढवाया ॥ २३३ ॥

पारितोषिकसद्भावे पुस्तके प्रवितीर्य सः ।

राज्यमात्रे समालोच्य विद्यामतिमुदं ययौ ॥२३४॥

राजा के दोनों पुत्रों को स्वामीजी ने अपनी बनार्ई पुस्तकें पारितोषिक (इनाम) में दीं । इस राज्य में विद्या का अधिक प्रचार देख कर स्वामीजी मन में अति प्रसन्न हुए ॥ २३४ ॥

निघण्टुनामकं वेदकोषमत्रैव संस्थितात् ।

सरस्वतीगृहादेष यमिनांवर आददे ॥२३५॥

यहाँ के राजकीय पुस्तकालय ' सरस्वतीसदन ' में एक वैदिक कोष निघण्टु का बड़ा प्राचीन पुस्तक था ॥ २३५ ॥

पर्यालोच्य यथौचित्यं मेलनं च विधाय सः ।

निजेन पुस्तकेनाथ प्रलं तत्पुस्तकं ददौ ॥२३६॥

स्वामीजी ने वहाँ से मगाकर अपने निघण्टु से मिलाया और दो तीन शब्दों का भेद मिलाकर पुस्तक वापस कर दिया ॥ २३६ ॥

चक्राङ्कितानलं वीक्ष्य तत्र योगीश्वरो जवात् ।

मतं वैष्णवतामाप्तं भञ्जयामास सर्वशः ॥२३७॥

यहाँ पर चक्रांकित भी अपना अड्डा जमाये हुए थे इसलिए स्वामीजी ने इनकी खूब ही खबर ले डाली ॥ २३७ ॥

दृष्ट्वा निजमतस्यात्र खण्डनं मुनिना कृतम् ।

रोषेण विकृताः सर्वे बभूवुर्वैष्णवा जनाः ॥२३८॥

अपने मत का खण्डन सुन कर वैष्णव अत्यन्त क्रुद्ध हुए और अनेक प्रकार का उपद्रव मचाने का इन्होंने उद्योग किया ॥ २३८ ॥

तानवेक्ष्य यतीन्द्रोपि रोषेण विकृताननान् ।

गुप्तं रहस्यमेतेषां पुनरप्युदघाटयत् ॥२३९॥

उन वैष्णवों को क्रोध से विकृत मुख देखकर स्वामीजी ने भी इनका रहस्य खोल दिया जो कि अत्यन्त गोपनीय एवं नितांत घृणित है ॥ २३९ ॥

अन्ते निजसदुद्योगैर्दूरीकृतमहत्तमाः ।

स महात्मा यथायोग्यं कल्पयामास शासनम् ॥२४०॥

इस प्रकार अनेक प्रकार की युक्तियों से चक्रांकितों के चक्र का खण्डन कर स्वामीजी सज्जनों को और शिक्षाप्रद बातें बताने लगे ॥ २४० ॥

आर्य्यमन्दिरमत्युग्रमधिवेश्य यतीश्वरः ।

गतौ निजं मनोभावं दत्वा नव्यमगात्पुरम् ॥२४१॥

यहाँ पर समक्ष ही समाज का मंदिर स्थापित देख कर आप अत्यन्त संतुष्ट हुए और यहाँ से २६ अक्टूबर सन् १८८१ ई० को चित्तौरगढ़ गये ॥ २४१ ॥

तत्राथ कविराजेन कृतातिथ्यमहोत्सवः ।

स महात्मा निवासाय निजां चक्रे मतिं शुभाम् ॥२४२॥

यहाँ पर आपके आतिथ्य का जो कुछ सामान था कविराज श्यामल-दास ने सब एकत्र किया और स्वामीजी का उचित सत्कार किया । विश्राम के लिए स्वामीजी कुछ दिन यहाँ पर ठहर गये ॥ २४२ ॥

निवसन्नल केनापि सत्रा तैलङ्गशास्त्रिणा ।

सुब्रह्मण्याभिधेयेन तर्के वादः प्रकल्पितः ॥२४३॥

यहाँ पर एक ब्रह्मण्य शास्त्री से, जो तैलंग ब्राह्मण थे, न्याय विषय में कुछ विचार होना आरम्भ हुआ ॥ २४३ ॥

तमप्येष महायोगी सूत्तरादानविस्तरैः ।

विमूकतां निनायालं किमस्मादधिकं बलम् ॥२४४॥

स्वामीजी ने उनकी समस्त बातें सुन कर ऐसा खण्डन करना आरम्भ किया कि वे अपनी सब युक्तियाँ भूल गये ॥ २४४ ॥

राजानो बहवस्तत्र दर्शनाय समागताः ।

यतीशं पर्यसेवन्त कल्पद्रुमभिवामराः ॥२४५॥

यहाँ पर आपका उपदेश सुनने के लिए आसीन्द के राजा अर्जुन-सिंहजी, भीलवाड़े के राजा फ़तहसिंहजी, शाहपुरा के राजा नाहरसिंहजी,

कानूड़ के राजा उम्मेदसिंहजी, शाबड़ी के राजा राजसिंहजी, उदयपुर के राजा महाराणा सज्जनसिंह आदि अनेक नरेश आया करते थे और उपदेश सुन कर तृप्त होते थे ॥ २४५ ॥

समाहितमनस्कत्वात्पिबन्तो वक्तृतामृतम् ।

दोषाक्रान्तेपि हृदये निर्जरत्वमुपाययुः ॥२४६॥

यद्यपि इन राजाओं के हृदय सर्वथा सांसारिक बातों से रहित न थे तथापि एकाग्रचित्त होकर आपके उपदेशामृत पान करने से देवत्व को प्राप्त हो गये ॥ २४६ ॥

कृतामरफलप्राप्तीनेतान्वीक्ष्य मुनीश्वरः ।

निजामरफलप्राप्तिं सफलामन्वमन्यत ॥२४७॥

यहाँ पर अमर फल पाये हुए इन राजाओं को देख कर स्वामीजी ने अपनी अमर फल की प्राप्ति सफल करली । स्वामीजी का अमर फल की प्राप्ति के लिए यत्न करना और उस यत्न में सफल हो जाना तीसरे सर्ग में मैंने वर्णन किया है । दर्शक वहाँ पर देखें ॥ २४७ ॥

निमन्त्रितोपि तैर्भूपैर्मुनिराजः पृथक्पृथक् ।

मुम्बापुरीत आगत्यागमिष्यामीत्यवोचत ॥२४८॥

यहाँ से अपनी अपनी राजधानियों में आपके पधारने के लिए कई राजाओं ने भिन्न भिन्न रूप से आपके समक्ष निवेदन किया, परन्तु स्वामीजी ने उन से यही कहा कि मैं मुम्बई से लौटकर आऊँगा ॥ २४८ ॥

भूभुजा रहितां वीक्ष्य नगरीं मार्गसङ्गताम् ।

निवसन्मुनिराडस्यामल्पाहानि ततो ययौ ॥२४९॥

यहाँ से रवाना होकर स्वामीजी २१ दिसंबर सन् १८८१ ई० को इन्दौर पहुँचे जो कि मुम्बई के रास्ते में पड़ता था । परन्तु यहाँ के महाराजा, जो कि आपके अनन्य भक्त थे, यहाँ पर उपस्थित नहीं थे । इसलिए कुछ दिन ठहर कर आप मुम्बई के लिए प्रस्थित हो गये ॥ २४९ ॥

प्राप्तं दक्षिणभागस्य तिलकायित्तपत्तनम् ।

तडिन्मार्गेण राजापि सूचयामास योगिनम् ॥२५०॥

३० दिसंबर सन् १८८१ ई० को आप मुम्बई पहुँच गये और महाराजा इन्दौर का पश्चात्ताप सूचक तार भी साथ ही साथ पहुँच गया जिसमें अनुपस्थितिजन्य अपराध का क्षमापन और दुबारा पधारने का प्रार्थनापत्र भी साथसाथ था ॥ २५० ॥

प्रत्यावृत्तिप्रसङ्गाप्तसभागभविनोदनाम् ।

तडिन्मार्गेण देवोपि सूचयामास भूभुजम् ॥२५१॥

स्वामीजी ने भी उस तार के उत्तर में तारही द्वारा महाराजा को सूचना दी जिसमें यह लिखा था कि लौटते समय मैं अवश्य आऊँगा ॥ २५१ ॥

परस्परपरिप्राप्ततडिन्मार्गशुभार्थनौ ।

द्वावप्यभूतां मुदितौ राजा योगी च सर्वशः ॥२५२॥

इस प्रकार दोनों तरफ से तार द्वारा समाचार विदित होने पर इन्दौर के राजा और श्रीमान् योगिराज स्वामीजी भी अत्यन्त संतुष्ट हुए ॥ २५२ ॥

चरणस्पर्शवाञ्छेन समुद्रेणावृते शुभे ।

भवने कृतसंवासो मुनिराप कृतार्थताम् ॥२५३॥

चरणस्पर्श के लिए समीप आये हुए समुद्र से परिवेष्टित एक रमणीय स्थान में (जिस को कि मैंने भी स्थयं देखा है) स्वामीजी का निवास हुआ; यह स्थान बालकेश्वर के पास है ॥ २५३ ॥

वार्षिकोत्सवमुद्दिश्य मुनेरलागमः शिवः ।

सामाजिकमलंचक्रे जनं हर्षपरिप्लुतम् ॥२५४॥

स्वामीजी का अब की बार जो यहाँ पर पधारना हुआ वह समाज के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ । इसलिये बड़ा ही आनन्द हुआ ॥ २५४ ॥

दाक्षिणात्या जनास्तत्र चतुर्वेदपरायणाः ।

हवनं कारयामासुः समाजे समुपागताः ॥२५५॥

उत्सव में बहुत से दक्षिणी ब्राह्मण (जो कि एक एक करके चारों वेद जानते थे) समाज में आकर चारों वेदों के मन्त्रों से हवन करा रहे थे ॥ २५५ ॥

जनं तेष्ववलोक्यायं योगी वार्धक्यसङ्गतम् ।

पठन्तं चतुरो वेदानुवाच परमार्थवित् ॥२५६॥

उनमें एक वृद्ध ब्राह्मण जो कि स्वरसहित चारों वेद कण्ठस्थ रखता था उसको देखकर कई प्रतिष्ठित पुरुषों से स्वामीजी कहने लगे ॥ २५६ ॥

(युग्मम्)

विश्रुतं यदिदं लोके चतुराननकल्पनम् ।

तदेतद्दृश्यतामत्र द्विजे ब्रह्मत्वमद्भुतम् ॥२५७॥

भिन्नमस्माद्ब्रह्मन्त्येते यदिदं ब्रह्मकल्पनम् ।

मृषैव तत्समालोच्यं परमेश्वरशासनात् ॥२५८॥

संसार में ब्रह्मा का जो चतुर्मुख विशेषण सुना करते हैं वह यही हो सकता है । इससे भिन्न कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता ॥ २५७—२५८ ॥

सामगायनपूतेस्मिन्सामाजिकमहोत्सवे ।

हर्षेण महताविष्टो मुनिर्व्याख्यानमातनोत् ॥२५९॥

सामवेद के गान से अति रमणीय सामाजिक उत्सव में श्रीस्वामीजी ने भी अपने श्रीमुख से व्याख्यान दिया था ॥ २५९ ॥

बहवो वणिजस्तत्र धनाढ्याः स्वामिनामिनम् ।

अनुव्रजन्तो हृदये वाञ्छामेनामकल्पयन् ॥२६०॥

यहाँ के बहुत से सेठ साहूकार आपके अनुयायी थे और उनके हृदय में अकस्मात् यह इच्छा उत्पन्न हुई—॥ २६० ॥

सूचनां यदि योगीशः कुर्व्याद्द्रव्यपरिग्रहे ।

तदावयमलं दद्वो धनमस्मै यथायथम् ॥२६१॥

यदि स्वामीजी हम से कुछ इशारा (संकेत) करें तो समाज के लिए हम बहुत सा द्रव्य दे देंगे ॥ २६१ ॥

परमेतानयं योगी सूचयामास नो तदा ।

तस्य सार्वजनीनत्वात्समाजस्य हितैषिणः ॥२६२॥

परन्तु स्वामीजी ने उनके लिए कुछ नहीं कहा, इसका कारण यह था कि समस्त देशों के लिए हित करनेवाला यह समाज स्वयं ही समस्तजनों से सहायता का अभिलाषी हो सकता है ॥ २६२ ॥

सार्वदेशिककार्यैस्मिन्यथारुचि यथाधनम् ।

सर्वेव यथायोग्यं साहाय्यं कर्तुमर्हथ ॥२६३॥

इस समाजरूप सार्व-देशिक कार्य में अपनी अपनी रुचि के अनुसार समस्त पुरुष सहायता दे सकते हैं ॥ २६३ ॥

विदितं सर्वथा लोके वृत्तमेतदवस्थितम् ।

मनुजैर्न समाजोयमेकमानवकल्पितः ॥२६४॥

संसार में यह बात प्रसिद्ध है और समस्त भद्रजन इस बात को जानते भी हैं कि समाज किसी एक पुरुष का नाम नहीं है ॥ २६४ ॥

शब्दस्यार्थवशादेव यत्र कार्यव्यवस्थितिः ।

न तत्र कथनं साधु साधूनामतिविस्तरम् ॥२६५॥

जहाँ पर शब्दार्थ के विचार से ही कार्य सिद्ध हो सकता हो वहाँ पर मुझ से संकेत कहना अच्छा मालूम नहीं होता ॥ २६५ ॥

भवेद्यदि ममैवान्यत्कार्यं किमपि तत्कृते ।

कथनाप्यतिशोभेत मुखेन न तदस्ति मे ॥२६६॥

हाँ, यदि कोई खास मेरा काम होता तो कहना भी ठीक था । इस समय वह भी नहीं है । फिर कहने से क्या प्रयोजन ॥ २६६ ॥

सतां विभूतयो यद्यप्यलं परहिते रताः ।

तथापि नैव साधूनां कथनं शोभते सुखात् ॥२६७॥

यद्यपि सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है, तथापि संन्यासियों को अपने मुख से कहना ठीक नहीं ॥ २६७ ॥

इति वादिनि योगीन्द्रे तदाशयमुपेयुषी ।

सभा सम्पूरयासास मण्डपं धनविस्तरैः ॥२६८॥

इस प्रकार आपके कहने पर आपका आशय जान कर समस्त सभा धनवृष्टि से सभा को पूर्णरूप से पूर्ण करने लगी ॥ २६८ ॥

(युग्मम्)

कश्चिद्वैदूर्यरत्नानां प्रभाभिः सम्पूरयत् ।

मण्डपं कोपि नितरां विद्रुमैः कोपि मौक्तिकैः ॥२६९॥

सुवर्णरजतादीनां तत्र साकल्पनाभवत् ।

या न वर्णनभापेदे मनसा वचसाप्यलम् ॥२७०॥

जिस सभा में बैठा हुआ कोई पुरुष समस्त सभा को वैदूर्यरत्न की चमक से, कोई विद्रुम की झलक से, कोई मोतियों की दमक से शोभित करता था; उस सभा में सोना, चाँदी आदि धातुओं की कौन गिनती है ? इसलिये यहाँ पर बहुत सा धन आ गया ॥ २६९ ॥ २७० ॥

एवं यथायथं जाते नितान्तं द्रव्यसंग्रहे ।

कोषवानपि कोषत्वं प्राप सामाजिको महः ॥२७१॥

वार्षिकोत्सव में इस प्रकार सर्वतः धन आने पर पहले से भी कोष-युक्त उत्सव अत्यन्त कोषवान बन गया ॥ २७१ ॥

महामहोत्सवे तत्र विदुषामपि कल्पना ।

विकल्पनां समायाता वीक्ष्य योगेश्वरप्रभाम् ॥२७२॥

स्वामीजी का इस उत्सव पर व्याख्यान सुन कर वहाँ के पौराणिक विद्वानों की रही सही बुद्धि भी चक्र में पड़ गई। सब हत-कान्ति हो गये ॥ २७२ ॥

निवृत्तिमागते तस्मिन्वार्षिकोत्सवविस्तरे ।

वणिजामुत्तमः कोपि समाभाषत योगिनम् ॥२७३॥

जब समाज का उत्सव समाप्त हो गया तब एक सेठजी ने अपने पुत्र को कुछ उपदेश देने के लिए स्वामीजी से प्रार्थना की ॥ २७३ ॥

योगिराजोपि संवीक्ष्य भक्तिं तस्य तनूभवम् ।

शिक्षयामास बालानामुपयोगीनि कानिचित् ॥२७४॥

स्वामीजी ने भी सेठजी की उत्कट भक्ति देख कर उसके पुत्र के लिए कुछ उपयोगी बातें बतला दीं जो निम्न लिखित हैं ॥ २७४ ॥

[तान्येव कार्याण्याह]

प्रातरुत्थाय तोयेन प्रक्षाल्यवदनं स्वकम् ।

ईश्वरोपासना कार्या सर्वतः पूर्वमादरात् ॥२७५॥

सबसे प्रथम ब्राह्म सुहृत् में उठ कर अपना मुँह धो, उस ईश्वर की प्रार्थना और उपासना प्रति दिन करनी चाहिए ॥ २७५ ॥

पश्चात्पितरमुद्दिश्य मातरं च यथाक्रमम् ।

वन्दना प्रत्यहं कार्या नम्रभावेन पादयोः ॥२७६॥

तदनन्तर अत्यन्त भक्ति-पूर्वक माता और पिता का प्रति दिन चरण छूते हुए वन्दना करनी चाहिए ॥ २७६ ॥

अनन्तरं यथाधीतं पर्यालोच्य क्रमागतम् ।

भोजनादिकमाश्वेवं गन्तव्यं गुरुसन्निधौ ॥२७७॥

फिर पिछला पढ़ा हुआ पाठ विचार कर क्रमानुसार स्नान, सन्ध्यादि करके भोजन से निवृत्त हो कर पढ़ने के लिए गुरु के समीप जाना चाहिए ॥ २७७ ॥

गमनावसरे नैजं पुस्तकं स्वयमादरात् ।

ग्रंहीतव्यं न भृत्यादि द्वारा नेयं मदागमात् ॥२७८॥

जाते समय अपना पुस्तक स्वयं ले जाना चाहिए, किसी नौकर के द्वारा पुस्तक नहीं ले जाना चाहिए ॥ २७८ ॥

गत्वा कुलगुरोः पार्श्वे प्रणत्य च यथायथम् ।

विधातव्यमलं मत्वाऽध्ययनं परमं कृतम् ॥२७९॥

अपने कुलगुरु के समीप जाकर उनको अभिवादन करके पढ़ने को अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझ कर पढ़ना चाहिए ॥ २७९ ॥

सर्वदा स्वासनादुच्चैः स्थापनीयं स्वपुस्तकम् ।

यतस्तत्रास्ति सम्बद्धं वैदिकं साम्परायिकम् ॥२८०॥

हर समय अपने से पुस्तक ऊँचा रखना चाहिए, चूँकि उसमें इस लोक एवं परलोक दोनों लोकों में कल्याण करनेवाली शिक्षाये सम्बद्ध हैं। यहाँ पर (साम्पराय शब्द) उपनिषद् में लिया गया है जिसका अर्थ परलोक-विचार के हैं (कठ ६। ३५ देखिए) ॥ २८० ॥

यथाध्येता दधात्युच्चैः पुस्तकं श्रद्धया युतः ।

अध्येतारं तथा विद्या करोति सकलोनतम् ॥२८१॥

जिस प्रकार पढ़ने वाला अपने पुस्तकों को श्रद्धा से ऊँचे पर रखता है इसी प्रकार विद्या भी उसको सबसे ऊँचा बना देती है ॥ २८१ ॥

इति वैदिकमार्गोत्थं बालक्रममुदाहरन् ।

योगी कृत्यान्तरासक्तोऽभवदाशु प्रसङ्गतः ॥२८२॥

इस प्रकार उसको बालकोपयोगी उपदेश देकर प्रसङ्ग वश स्वामीजी दूसरे कार्य की तरफ ध्यान देने लगे ॥ २८२ ॥

कृताँल्लवपुरे नव्यान्नियमान्दश योगिराट् ।

सार्वभौमजनस्यार्थे नियम्य मुदितोभवत् ॥२८३॥

लाहौर में बनाये हुए समाज के दश नियमों को यहाँ भी नियत कर स्वामीजी अपने मन में अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ २८३ ॥

(युग्मम्)

अस्मिन्नेव शुभे काले तत्रत्येन यथायथम् ।

वणिजा सूचना दत्ता केनचित्सर्वजन्तुषु ॥२८४॥

यो मूर्तिपूजनं वेदे दर्शयेत्कोपि मानवः ।

पञ्चसाहस्रिका मुद्राः स लभेत यथायथम् ॥२८५॥

इसी अवसर में मुम्बई के एक सेठ ने, जिनका कि नाम मथुरादास था, एक विज्ञापन इस प्रकार का छपवा कर बटवा दिया था कि जो कोई वेदों से मूर्तिपूजा सिद्ध कर दे तो उसको मैं पाँच सहस्र रुपये पारितोषिक (इनाम) देने को तैयार हूँ ॥ ३८४ ॥ २८५ ॥

परं कस्याभवत्तल शक्तिरेतादृशी यया ।

पारितोषिकलाभोभूदस्मिन्नवसरे भयात् ॥२८६॥

परन्तु स्वामीजी के समक्ष किसी का भी साहस नहीं हुआ कि इस इनाम को ले कर अपने घर में रख ले ॥ २८६ ॥

इत्थमत्र कृतोद्योतो महात्मा मनुजैरितः ।

निमन्त्रितो ययौ यानैः खाण्डवं पुरमादरात् ॥२८७॥

इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण रूप से आनन्द की वर्षा कर, निमन्त्रित हुए आप २४ जून सन् १८८२ ईसवी को यहाँ से खँडुआ पधारे, जहाँ कि पहले किसी समय खाण्डव वन था, जिसको अर्जुन ने जलाया था ॥ २८७ ॥

तत्र नानाबुधैरेषः कृतातिथ्यो यतीश्वरः ।

वाञ्छितानि यथायोग्यं पूरयामास देहिनाम् ॥२८८॥

अनेक सज्जनों ने यहाँ पर आपका स्वागत किया, और आतिथ्य किया। आपने भी आने के साथ ही वैदिकधर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया ॥ २८८ ॥

निवारितमहाशब्दबद्धमेघदलो यतिः ।

शारदीनचमच्चन्द्रचन्द्रिकामातनोदरम् ॥२८९॥

अनेक प्रकार की गर्जना करनेवाले, अज्ञानरूप घनघोर घटाओं को हटा कर आपने यहाँ शरदऋतु के चन्द्रमा का प्रकाश सर्वत्र कर दिया, अर्थात् अज्ञान हटा कर ज्ञान का प्रकाश किया ॥ २८९ ॥

प्रसङ्गाद्गमनस्यायं विधानाच्च सदागतेः ।

इन्दौरनगरं भेजे धर्षयन्धूर्तमण्डलीः ॥२९०॥

अन्त में निमन्त्रण आने पर की हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ४ जूलाई सन् १८८२ ईसवी को आप यहाँ से मूर्खों की मण्डली में भय उत्पन्न करते हुए, इन्दौर पधारे ॥ २९० ॥

अनवेक्ष्यात्र राजानं मुनिना बहुनादृता ।

समावसितिरात्मीया गमनेऽतः कृता रुचिः ॥२९१॥

परन्तु महाराजा इन्दौर के इस समय भी उपस्थित न होने के कारण स्वामीजी ने यहाँ पर रहना उचित न समझा। इसलिए दूसरे ही दिन आपने जाने की इच्छा प्रकट की ॥ २९१ ॥

यद्यप्ययं तदामात्यैरादृतोपि यथायथम् ।

तथापि तत्र नो भेजे वसतिं कार्यविस्तरात् ॥२९२॥

यद्यपि महाराजा इन्दौर के दीवान साहब ने आपसे ठहरने के लिए बहुत कुछ आग्रह किया, परन्तु कार्य के वश श्रीस्वामीजी यहाँ पर अधिक दिन निवास करने को उद्यत नहीं हुए ॥ २९२ ॥

पत्तनान्तरतः प्राप्ते समाह्वानाय मानवे ।

ययौ परमकारुण्यान्मुनिनाथकशासकः ॥२९३॥

इतने ही में आपके लिए रतलाम से निमन्त्रण-पत्र लेकर एक पुरुष उप-
स्थित हुआ। इसलिए आप यहाँ से ५ जूलाई सन् १८८८ ईसवी को इन्दौर
से रतलाम पधारे ॥ २९३ ॥

अवाप्य तत्पुरं हर्षादागतैः सज्जनैः सह ।

नियते भवने वासं कल्पयामास देवराट् ॥२९४॥

रतलाम पहुँच कर स्वागत के लिए आये हुए पुरुषों के साथ साथ राजा
के एक अति रमणीय बँगले में आप निवास के लिए पधारे ॥ २९४ ॥

नाना व्याख्यानविस्तारैर्दूरीकृतमदागमः ।

सदागमपदं तेने वेदरीत्यनुशासनात् ॥२९५॥

वहाँ जाते ही व्याख्यानों का आरम्भ भी हो गया, जिससे मनुष्यों में
विद्यमान अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान का उदय हुआ ॥ २९५ ॥

प्रतिगेहं प्रतिजनं प्रतिरथ्यं प्रतिस्थलम् ।

व्याख्यानविस्तृतिः साभूत्तदागमनसम्भवा ॥२९६॥

हर एक के घर पर, हर एक पुरुष के पास, हर एक मार्ग पर, समस्त
स्थलों में, आपके व्याख्यान का विहापन लगा हुआ था ॥ २९६ ॥

सामाजिकमतन्यासे कल्पिते तत्र मानवैः ।

मुदा परमया युक्तो बभूवायं महामुनिः ॥२९७॥

कुछ पुरुषों में, यहाँ पर वैदिक धर्म की सचि देख कर स्वामीजी अपने
मन में अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ २९७ ॥

गमने दत्तचित्तत्वाद्गच्छन्मार्गेऽथ संवसन् ।

पुरेषु बहुषु प्रायो वैदिकं धर्ममातनोत् ॥२९८॥

यहाँ से आप आगे जाने के लिए उद्यत थे। इसलिए मार्ग में आये हुए
जावरा आदि नगरों में विश्राम करते हुए वैदिक धर्म का सर्वत्र प्रचार करते
गये ॥ २९८ ॥

महोद्योगे कृतारम्भा महान्तः कुत्र तन्वते ।

विश्रामं यावदारब्धं न याति परिपूर्णाताम् ॥२९६॥

एक महान् कार्य के लिए उद्यत हुए महा-पुरुष तब तक विश्राम नहीं लेते जब तक कि उसकी पूर्ति न हो जाय ॥ २९९ ॥

इति निश्चित्य यद्रस्यं समुद्दिश्य पुरं मुनिः ।

प्रस्थितोभूत्तदालोच्यस्ये विश्रामकल्पनात् ॥३००॥

अपने मन में ऐसा निश्चय कर, जिस उत्तम राजधानी को आप जाने के लिए उत्सुक थे उसका वर्णन अग्रिम सर्ग में किया जायगा । दर्शक महा-शय वहीं पर देखें ॥ ३०० ॥

※ हारदन्धः ※

इत्थं सुखेन सुमहाः स भवे समस्ते

विस्तार्य विश्राममवाप मनुष्यभावात् ।

वेदोदितानि दिनदीप्तिसमाप्तिकाले

को नाम कोमलतया न तनोत्यवस्थाम् ॥३०१॥

वे अत्यन्त प्रकाशवान् स्वामीजी समस्त संसार में इस प्रकार वैदिक कर्मों का उपदेश देते हुए, मनुष्य-भाव से कुछ विश्राम लेने की इच्छा प्रकट करने लगे । क्योंकि दिन के अवनान समय में, कोमलता को प्राप्त हुआ कौनसा पुरुष थकावट अनुभव नहीं करता । अर्थात् सूर्यास्त के समय कार्य करनेवाले सभी पुरुष थक जाते हैं और विश्राम लेना चाहते हैं । इसलिए कविरत्न भी सायङ्काल के समय इस सर्ग को समाप्त कर, रात भर के लिए, अब विश्राम करते हैं ॥ ३०२ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

कल्पितसमाजपर्यालोचनं नाम चतुर्दशः सर्गः ।



पञ्चदशः सर्गः

अथोत्सुकः सज्जनसिंहवर्मा
दयानिधेरस्य समीपदेशम् ।
समस्तसम्भारयुतं पुत्रांसं
विसर्जयामास निमन्त्रणाय ॥१॥

ऋषि दयानन्द के प्रताप को सूर्य के प्रताप से भी बड़ा हुआ देख कर मन में आनन्दित हुए महाराणा सज्जनसिंहजी ने आपके दर्शनों की अभिलाषा से आपके पास निमन्त्रण देने के लिए अपने एक पुरुष को भेजा ॥ १ ॥

दयामयत्वादयस्यनेके-
रत्नङ्कृतन्तन्नगरं महीपैः ।
जगाम वेदोदितधर्मवृद्ध्यै
तडित्पथेनापितसर्ववृत्तः ॥२॥

उदयपुराधीश महाराणा सज्जनसिंहजी के बुलाने पर आप भी तार के द्वारा अपने आने की सूचना देकर अनेक राजाओं द्वारा सुशोभित उदयपुर को वैदिकधर्म के प्रचारार्थ ११ अगस्त सन् १८८२ ई० को पधारे ॥ २ ॥

अशेषवृत्तोदयमञ्जुलं तत्
ससर्गवत्पत्तनमप्यवाप्य ।
मनोरमे सज्जनसिंहभूप-
स्योद्यानमध्ये विरराम रागात् ॥३॥

अनेक प्रकार के चरित्रों से विचित्रता को प्राप्त हुए उस उदयपुर के ईश्वरीय-सृष्टि के समान रमणीय देख कर महाराणाजी के अत्यन्त मनोहर सज्जननिवास नाम के बाग में आप ठहरे ॥ ३ ॥

प्रकाशमन्दीकृतसूर्यभासं

दयामयं वीक्ष्य सभागतं ते ।

पुराणभाजो नितरां दिनेपि

न किञ्चिदालोकयितुं प्रशोकः ॥४॥

अपने तेज से मन्द किया है सूर्य का प्रकाश जिन्होंने ऐसे ऋषि दयानन्द के प्रकाश को देख कर, वहाँ के पौराणिक पण्डित चक्रवर्ध में पड़ गये और दिन में भी उनको कम दीखने लगा ॥ ४ ॥

कृतः समायात इहायमुग्रः

क विश्रमं यास्यति चायमेव ।

मुहुः प्रतोलीषु बभूव कोपि

मुस्वामुखि प्राथमिको विवाहः ॥५॥

ये स्वामीजी यहाँ पर कहाँ से आये हुए हैं ? कहाँ पर इनके रहने का प्रबन्ध किया गया है ? कुछ दिनों तक उदयपुर के सब रास्तों पर यही चर्चा हुआ करती थी ॥ ५ ॥

तपोनिधेरागमनेन सद्यः

पुरे पुरे कीर्तिकथाप्रचाराः ।

तथा विचेलुर्गमने निरभ्रे

यथा शरच्चन्द्रमरीचिधाराः ॥६॥

उदयपुर में आपके आने पर आस पास के समस्त नगरों में आपकी कीर्ति के समाचार इस प्रकार फैलने लगे जिस प्रकार निर्मल आकाश में शरदभ्रतु के चन्द्रकिरण दौड़ते हैं ॥ ६ ॥

दयामयस्यागमनात्पुरस्ता-

व्यथायथं राजनि तत्पुरस्थे ।

रजोगुणः पूर्णतयावतस्थे

निसर्गतो यः समुपैति भूपान् ॥७॥

आपके आने से पहले ही महाराणा सज्जनसिंह के अन्दर सर्वांश में रजोगुण के भाव रहा करते थे, जोकि स्वभाव ही से किसी किसी राजा में हुआ करते हैं ॥ ७ ॥

दिवा सुषुप्तिर्विषयप्रसक्तिः

स्वधर्मकार्यप्रथने विरक्तिः ।

प्रवृत्तिरेकान्ततयारसेषु

तदा समासीदतिनीरसेषु ॥८॥

दिन में सोना, शृङ्गार में अधिकतर आसक्त रहना, अपने धर्म के कार्यों से अलग रहना, सर्वदा खेल तमाशे में, जोकि सर्वांश में व्यर्थ है, तत्पर होना आदि आदि बातें महाराज में थीं ॥ ८ ॥

न पूजनं वैदिककर्मभाजां

न माननं पूर्णविरागभाजाम् ।

ध्रमंस्त भूपः सहसा तदानीं

स्वशर्ममूलं किमतोधिकं स्यात् ॥९॥

वैदिक-मार्ग में तत्पर पुरुषों का, तथा साधु और महात्माओं का सत्कार करना आप तब तक अपने कल्याण का एक मात्र मार्ग नहीं मानते थे, इससे अधिक क्या होता ॥ ९ ॥

परं मुनीन्द्रस्य निरीक्षणो

तदीयसरुभाषणतश्च सर्वे ।

विनाशमापुर्लघु दुर्गुणौघा

दिनोदये ध्वान्तपरम्परावत् ॥१०॥

परन्तु स्वामीजी के आने पर, आपके व्यवहारों के दर्शन से और आपके साथ सम्भाषण करने से आपके सब दुर्गुण इस प्रकार नष्ट हुए जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नष्ट होता है ॥ १० ॥

वदान्यतः किं नु परं निशादौ

निशान्तकाले च स भूमिपालः ।

समागमस्योत्कतया विस्तृज्य

समस्तकार्याणि तमेव भेजे ॥११॥

इससे अधिक मैं क्या कहूँ । स्वामीजी के आने पर महाराणा सज्जन-सिंहजी दोनों समय अर्थात् सायंकाल और प्रातःकाल अपने समस्त कार्यों को छोड़ कर आपकी सेवा में उपस्थित होते थे ॥ ११ ॥

मुहुर्विलोक्याथ मुनीश्वरस्य

समस्तभावेन स राजवर्यः ।

समाधियोगं परमात्मदृष्टेः

प्रसन्नताभाप तथैव चक्रे ॥१२॥

अनेक प्रकार से आपके कार्यों को देख कर महाराणाजी अपने मन में अस्यन्त संतुष्ट हुए और उनके आचरणों का ही स्वयं अनुकरण करने लगे । सायं प्रातः सन्ध्या, हवन आदि कार्यों को करके वे प्राणायाम भी किया करते थे ॥ १२ ॥

प्रसङ्गतः सोध्ययनस्य तत्र

मुदैव वैशेषिकसूत्रभाष्यम् ।

पतञ्जलेर्योगपदानुवादं

समध्यगीष्टाय मुनेः प्रसादात् ॥१३॥

स्वामीजी से प्रति दिन चार चार पाँच पाँच घण्टे तक आपने संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया, भाष्यसहित वैशेषिकदर्शन, वृत्तिसहित योगदर्शन आपने स्वामीजी के प्रसादरूप में प्राप्त किया, अर्थात् पढ़ लिया ॥ १३ ॥

मनुप्रदिष्टां नियमस्य रीतिं
 क्रियामपि प्राणनिरोधभूताम् ।
 स योगमार्गस्य ऋषिप्रभावा-
 दवाप सर्वामपि शर्मभूताम् ॥१४॥

मनुस्मृति में बतलाई हुई नियमों के पालन करने की रीति, प्राणायाम करने की क्रिया, योगमार्ग की समस्त कथा आपने स्वामीजी से सीखीं, जोकि समस्त कल्याणों की देनेवाली हैं ॥ १४ ॥

मुनीश्वरस्तं नियमानुबन्धा-
 दिनस्य चर्यां परिवोध्य लेखैः ।
 प्रसन्नतामाप यथा तथैव
 निरीक्ष्य भावं मनुजाधिपस्य ॥१५॥

स्वामीजी ने महाराजाजी को नियमपूर्वक काम करते देख कर दिन-चर्या का समस्त प्रकार उनको लिख कर दिया और उसके पालन में उनको लगा हुआ देख कर अपने मन में स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥

सुपात्रविन्यासवशेन रम्या
 नवोदयानन्दितसर्वलोका ।
 गुरुननन्तातिशयेन लोके
 प्रसन्नतामापयतीह विद्या ॥१६॥

अच्छे पात्र में, अच्छे समय, अच्छी तरह से धरी हुई, फिर अच्छे ही अच्छे फलों की देनेवाली अच्छी विद्या, संसार में गुरुओं के गौरव को बढ़ाया करती है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥

नियम्य भागं समयस्य हर्षा-
 द्रशेन कृत्यस्य स भूमिपालः ।
 स्वयं प्रचक्रे समयेवशिष्टे
 विशेषकार्यप्रतिबन्धमच्छम् ॥१७॥

महाराणा सज्जनसिंहजी प्रत्येक कार्य को नियत समय पर करने लगे, अर्थात् उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य का समय नियत कर दिया था। वे अपने अपने समय पर ही सब काम किया करते थे। वे समय पर नहीं ॥ १७ ॥

निरीक्ष्य धर्मेनुमतिं नृपस्य
निसर्गतः सज्जनसिंहनाम्नः ।
स योगिवर्यो मनसि स्वकीये
विचार्य किञ्चित्स्वगतं चकार ॥१८॥

स्वामीजी ने महाराणा सज्जनसिंहजी की धर्म में प्रवृत्ति देख कर मन में एक विचार उठाया और वे उसका परिणाम अच्छे प्रकार विचार कर महाराणाजी से कहने को उद्यत हुए ॥ १८ ॥

निजानुमत्या बहु बोधयित्या
सदीयराज्यस्थितमानवानाम् ।
कृते नितान्तं नवपाठशालाः
स कारयामास मुनिर्महीशम् ॥१९॥

उनको अपनी सम्मति अच्छे प्रकार बतला कर रियासत के समस्त श्रीमानों के लड़कों के पढ़ने के लिए नवीन पाठशालायें बनवाने का उद्यम किया था जो उनके लिए उचित ही था ॥ १९ ॥

अधीत्य यस्यां बहवो मनुष्याः
समस्तशास्त्राणि तथास्त्रविद्याम् ।
निजं निजं वैदिकधर्ममार्गं
प्रपेदिरे सत्पुरुषार्थयोगात् ॥२०॥

जिसमें बहुत से श्रीमानों के नव युवक अनेक शास्त्र एवं अस्त्र शास्त्रों का विधान भी सीख कर अपने वैदिक धर्म का अच्छे प्रकार प्रचार करने के लिए उद्यत हुए और उस पर चलने लगे ॥ २० ॥

मुनीश्वराज्ञावशतः स सर्वं

विधाय तत्तत्कथनानुरूपम् ।

पदे पदे वैदिकधर्मवृद्धिं

चकार धर्मोचितकार्यसक्तः ॥२१॥

महाराणा सज्जनसिंहजी स्वामीजी के कथनानुसार समस्त कार्यों को करते हुए पद पद में वैदिक धर्म की वृद्धि के लिए उद्यत हुए और अनेक प्रकार से उसकी पुष्टि करने लगे ॥ २१ ॥

वलेन राज्यानुगतप्रबन्धे

नियस्य भाषां निजदेशभूषाम् ।

निवारयामास समस्तभाषाः

स योगिराजप्रतिलब्धविद्यः ॥२२॥

स्वामीजी से विद्या पढ़ कर महाराणा सज्जनसिंहजी ने रियासत के समस्त न्यायविभागों में देवनागरी का प्रचार किया और बहुत से अरबी के शब्दों का स्वामीजी से संस्कृत में अनुवाद कराया ॥ २२ ॥

मुनिप्रदिष्टां मनुदण्डनीतिं

समस्तराज्येपि निवेशयित्वा ।

स भूपवर्यो निजराज्यभाजां

कृते तु कल्पद्रुरिवाभवत्किम् ॥२३॥

स्वामीजी से महाराणा ने मनुस्मृति के दण्ड-प्रकरण को अच्छे प्रकार देख कर और विचार कर उसी के अनुसार रियासत में दण्ड देना आरम्भ किया । इसी से महाराणाजी अपनी रियासत के लिए एक प्रकार के कल्पवृक्ष बन गये ॥ २३ ॥

प्रसङ्गतश्चारणपाठशालां

निरीक्ष्य विद्यार्थिगणान्परीक्ष्य ।

मुदा दयानन्दयतीश्वरस्तां

ददौ स मूर्तां करुणामिवाज्ञाम् ॥२४॥

यहाँ पर एक चारण-पाठशाला थी जिसमें पचास विद्यार्थी पढ़ते थे । स्वामीजी ने एक दिन उनकी परीक्षा ली और कई आवश्यक बातें बता कर संस्कृत पढ़ने की आज्ञा दी और उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर एक दिन उनको भोजन भी कराया ॥ २४ ॥

विविच्य विश्वव्यवसायविद्यां

मनोनुकूलान्यपि चेष्टितानि ।

मुनिः प्रकामं स्वगतं समस्तं

विचार्य पश्चादवदन्महीपम् ॥२५॥

संसार भर में आनन्द देनेवाली अनेक प्रकार की विद्याओं का विवेचन करके महाराणा सज्जनसिंह के उद्यमों को अपने अनुकूल देख कर स्वामीजी ने पहले कुछ विचारा और फिर महाराणाजी से कहा ॥ २५ ॥

यदुच्यते सज्जनसिंह राजन्

मया पुरस्तात्तव देशवृद्ध्यै ।

विनीतभावेन तदेकमत्या

निपीयतामद्य विधेर्निदेशात् ॥२६॥

हे राजन् ! आपके देश की उन्नति के लिए जिस प्रस्ताव को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ उसको विनीत-भाव से एकाग्र-चित्त होकर सुनिए । ऐसी बातें न सर्वदा कही जा सकती हैं और न सुनी ही जा सकती हैं ॥ २६ ॥

अभावतः सद्भिषजां भवन्ति

मनुष्यमात्रेपि नवीनरोगाः ।

तएव वृद्धिं प्रगता नयन्ति

यशोवशेषं मनुजाननन्तान् ॥२७॥

सर्च वैद्यों के अभाव से भारतवर्ष में अनेक प्रकार के रोग नवीन नवीन रूप से मनुष्यों में प्रादुर्भूत होते हैं और वही रोग वृद्धि को प्राप्त होकर अनेक भद्र-जनों को संसार में नामावशिष्ट कर देते हैं ॥ २७ ॥

विदेशवैद्यादरणान्न रोगाः

प्रयान्ति नाशं शतशोपि दृष्टाः ।

स्वदेशभाजां मनुजेश्वराणां

निवासपानाशनवातभेदैः ॥२८॥

विदेश में पैदा हुए वैद्यों के आदर से वे रोग सैकड़ों बार शान्ति रूप में आकर भी, इस देश में पैदा होने वाले महाराजों के स्थान, भोजन, जल, वायु के भिन्न होने से शान्ति (नाश) को प्राप्त नहीं होते ॥ २८ ॥

निसर्गतो भिन्नगुणस्वभाव-

कर्मानुबन्धव्यसनानुविद्धा ।

न भाति सा देशविशेषवास-

व्ययोपयुक्तौषधदानचर्चा ॥२९॥

स्वभाव ही से भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव वाली, अपने अपने देश के अनुकूल फल देनेवाली जो अनेक औषधियों की व्यवस्था है वह इतर देश में पैदा हुए वैद्य कदापि समस्त देशों के लिए उपयोगी नहीं बना सकते ॥ २९ ॥

रसावलेहासवचूर्णपाक-

प्रयोगशून्याः किल ते कदापि ।

महर्षिनिर्दिष्टविधानतस्त-

द्विदन्ति नो योजनमौषधानाम् ॥३०॥

इस देश के लिए उत्तम फल देने वाले रस, अवलेह, आसव, चूर्ण, पाक, आदि औषधों के बनाने में वे इसलिए असमर्थ होते हैं कि वे ऋषियों के बनाये हुए प्रकार से, औषधों का प्रयोग करना ही नहीं जानते ॥ ३० ॥

परीक्षणं सद्धमनीगतीनां

न पाचनं रक्तरसादिभेदैः ।

विशोधनं तन्मलवीर्ययोश्च

न विद्यते तत्कृतपुस्तकेषु ॥३१॥

नाडियों की गति किस समय किस प्रकार की होती है, रक्त कितने दिनों में असली हालत पर आता है, रस कितने दिनों में बनता है, वीर्य के गुण दोष कितने प्रकार के होते हैं, मल का शोधन किस प्रकार करना होता है यह सब बात उनके ग्रन्थों में नहीं है ॥ ३१ ॥

न कालविज्ञानमतिप्रशस्तं

न रोगनिर्णायकदेशसाध्यम् ।

न रोमकूपान्तरभावएव

समेति तेषां हृदये निसर्गात् ॥३२॥

न अच्छे प्रकार उनको काल का ज्ञान होता है, न रोग की परीक्षा के लिए देश काल का उनको ज्ञान होता है । रोमों के अंदर किस किस प्रकार के संकोच विकाश होते हैं ये बातें उनके हृदयों में अच्छी तरह उत्पन्न नहीं होती ॥ ३२ ॥

अतो विधेयो भिषजां प्रसादः

स्वदेशभाजां मनुजैः सदैव ।

भवन्ति ये सञ्चरकप्रवीणा-

स्तथा जगद्विश्रुतसुश्रुतज्ञाः ॥३३॥

इसलिए जहाँ तक होसके रोग होने पर अपने देश के वैद्यों से चिकित्सा करानी चाहिए जो भले प्रकार वेद का उपवेद आयुर्वेद जानते हों, आर चरक तथा सुश्रुत में प्रवीण हों ॥ ३३ ॥

भवेदभावो भिषजां यदात्र

विधाय तद्दार्शु सुपाठशालाः ।

नियोजनीया भिषजांवरिष्ठाः

समस्तलोकाध्वयनाय तासु ॥३४॥

यदि योग्य वैद्यों का यहाँ पर अभाव हो तो एक वैद्यविश्वविद्यालय बन-
वाया जाय । उसमें अनुभवी वैद्यों को पढ़ाने के लिए रख कर नवीन नवीन
कलाओं के जाननेवाले वैद्य तैयार करने चाहिए ॥ ३४ ॥

इति प्रसादोदयमञ्जुलाङ्गी

गिरं वदत्यानतभूपमध्ये ।

धनोदयोपि प्रवभूव तत्र

तदीयसम्प्रोक्तविधानहेतोः ॥३५॥

इस प्रकार अपने देश की भलाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर
समस्त सरदारों ने आपकी बात का अनुमोदन किया और उसके लिए द्रव्य
इकट्ठा करने का उपाय भी सोचा गया ॥ ३५ ॥

यदीह जीवेत्स महानुभावो-

दशाब्दमार्त्वं पुनरप्युदारः ।

समस्तभावेन भवेदवश्यं

तदेतदारात्परमेष मन्त्रे ॥३६॥

यदि इस भारतवर्ष में महाराणा सज्जनसिंहजी और योगिराज स्वामीजी
कुछ दिन और जीते रहते तो यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो जाता, परन्तु
देश के दुर्भाग्य से ये दोनों परोपकारी अधिक न जी सके ॥ ३६ ॥

मनोभिलाषो मनसि प्रलीनो-

महामुनेरत्र विचारितेर्थे ।

न सिद्धिमाप्नोति कदाप्यभीष्टं

महेश्वरेच्छाविपरीतमेषाम् ॥३७॥

ऋषिदयानन्द की यह आन्तरिक अभिलाषा मन में उठ कर मन ही में समाप्त हो गई । ठीक भी है, जिस कार्य में ईश्वर की कृपादृष्टि नहीं होती, वह कार्य कदापि पूर्णता को प्राप्त नहीं होता ॥ ३७ ॥

मनस्यभूदस्य मुनेः प्रशस्ते
भवेद्विशाला किल वैद्यशाला ।

समस्तसामन्तधनव्ययेन

भुवस्तलालङ्करणप्रधाना ॥३८॥

स्वामीजी के मन में यह उत्कट इच्छा थी कि इस आर्योवर्त में समस्त राजा महाराजाओं की ओर से एक वैद्यविश्वविद्यालय (युनीवर्सिटी) बने, जो इस देश के लिए भूषण के समान हो ॥ ३८ ॥

समस्तलोकेऽपि तदेकशाला

विनिःसृताः सद्भिषजांवरिष्ठाः ।

महौषधैर्व्याधिविनाशनेन

गतामयङ्कुर्युरिमं स्वदेशम् ॥३९॥

उस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए वैद्यराज इस देश के अनेक प्रान्तों में भ्रमण करें और अपने अमृतरूपी औषधों से मनुष्यों का इलाज करके देश मात्र को नीरोग बनावे ॥ ३९ ॥

न कर्हिचित्सिद्धिमुपैति साध्यं

जनैरनेकैरपि यत्प्रदिष्टम् ।

सुखेन सिद्धिं समुपैति लोके

यदीप्सितं तस्य जगद्विधातुः ॥४०॥

अनेक पुरुषों द्वारा निश्चय किया हुआ भी कार्य परमात्मा की इच्छा न होने पर सिद्ध नहीं होता, और जो कार्य परमेश्वर को अभीष्ट होता है वह बिना किसी के सहारे भी सिद्ध हो जाता है ॥ ४० ॥

मृतेः परं यानि भवन्ति लोके
 वहूनि चिह्नानि जनैर्मतानि ।
 न तानि साधूनि जनोत्तमाना-
 मिति प्रशस्तं स मुनिर्जगाद ॥४१॥

इस प्रकार स्वामीजी महाराज महाराणाजी से बात चीत करते रहे ।
 प्रसङ्ग आने पर स्वामीजी ने यह भी कहा कि मरने के पश्चात् समाधि या
 और कोई चिह्न बनवाना मनुष्यों की बड़ी भूल है ॥ ४१ ॥

प्रसङ्गतः श्रीकविराजनामा
 वभाण योगीन्द्रमिमं तदर्थे ।
 परं न देवः प्रददौ प्रशस्तां
 स्वसम्मतिं तत्र ततो न साभूत् ॥४२॥

इसी अवसर में कविराज श्यामलदासजी मरने के बाद अमनी समाधि
 बनवा देने को आपसे पूछने आये । आपने उनसे कहा कि देखना, कविराज
 जी ! ऐसा काम कभी भूल कर भी मत करना ॥ ४२ ॥

समावदत्तं करुणापयोधि-
 भुर्वस्तले कृत्यमिदं करोति ।
 जडप्रतिष्ठां मनुजेषु तस्मात्
 कदापि नेदं भवता विधेयम् ॥४३॥

इसी प्रकार का काम संसार में जड़-पूजा की प्रथा चलानेवाला होता है
 इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि कभी किसी को ऐसे काम करने की
 आज्ञा न दें और न स्वयं करें ॥ ४३ ॥

ममापि नाशात्परतो भवद्भि-
 निपातनीयानि कृषिप्रधाने ।
 ममास्थिखण्डानि वनप्रदेशे
 यतो न नामापि ममात्र भूयात् ॥४४॥

मेरे मरने के पश्चात् मेरी अस्थियों को किसी खेत में डाल देना जिससे जगत् में मेरा नाम और पन्थायियों के सा न रह जावे । मेरी समाधि या मेरे नाम का और कोई चिह्न कदापि न बनवाना ॥ ४४ ॥

कदापि नेदं करणीयमार्यैः

कृपां विधायोपरि मे विशालाम् ।

भवेयमेवं करणेन लोके

जडानुरागप्रथनापरोहम् ॥४५॥

मेरे ऊपर अपनी महती कृपा रख कर मेरे मरने के बाद इन बातों का स्मरण तक न करना, नहीं तो मैं भी इस संसार में जड़-पूजा का चलाने-वाला समझा जाऊँगा ॥ ४५ ॥

भवत्यनेनैव जनेषु लोके

स मूर्तिपूजाप्रसरः क्रमेण ।

परम्पराभावमयं प्रयाति

मतानुवादः किल मूढबुद्धौ ॥४६॥

इस प्रकार किये हुए काम ही धीरे धीरे मूर्ति-पूजा के चलानेवाले बन जाते हैं और परम्परा से मूर्ख पुरुषों की बुद्धि में मत के निमित्त हो जाते हैं । इन्हीं को फिर मूढ़ पुरुष कल्याण का मार्ग समझने लगते हैं ॥ ४६ ॥

विनाशनार्थं जगतीतलेहं

जनिं गतो यस्य पथस्य दैवात् ।

स एव चैवङ्करणेन लोके

प्रतिष्ठितः स्थास्यति मन्निमित्तात् ॥४७॥

जिस जड़ पूजा की जड़ उखाड़ने के लिए मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, उसी जड़-पूजा का किसी प्रकार के चिह्न छोड़ने पर प्रवर्तक बन जाऊँगा और मेरे निमित्त से यह मार्ग और भी पुष्ट हो जायगा ॥ ४७ ॥

यएव तन्मार्गविभञ्जकः स्यात्
 प्रवर्तकस्तस्य कथं स भूयात् ।
 स्वभावतो विश्रतले विरुद्ध-
 प्रवर्तकत्वं न कदापि सिद्धम् ॥४८॥

जो पुरुष जिस मार्ग का विनाश करनेवाला समझा जाता है वह पुरुष उस मार्ग के बढ़ाने का कारण नहीं बन सकता । यह बात संसार में प्रसिद्ध है कि दो विरुद्ध बातें एक पुरुष में नहीं रहतीं ॥ ४८ ॥

न मे मतिर्वाञ्छति मन्निमित्ते
 यशोविशेषादपरं क्रियेत ।
 किमप्यभावान्मम नामभूतं
 विरुद्धमेतन्मम सर्वथैव ॥४९॥

इतना कह कर आपने फिर भी बड़े जोर के साथ कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई भी स्मारक संसार में स्थिर किया जावे । मेरे मन्तव्य से यह बात सर्वथा विरुद्ध है ॥ ४९ ॥

इति ब्रुवत्येव यतीश्वरे ते
 समागता भूपतयः प्रसिद्धाः ।
 निरीक्ष्य यानेष महानुभावो-
 जगाद तेषां पुरतो यथार्हम् ॥५०॥

इतना कहते ही आपके पास महाराजा जोधपुर, महाराजा शाहपुरा, महाराजा भीलवाड़ा आदि कई राजा लोग उपस्थित हुए, जिनको देख कर आपने इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ५० ॥

मनुस्मृतावित्थामिदं प्रशस्तं
 निरीक्ष्यते चेदधिपो जगत्याः ।
 परोप्यथो न्यायपरो जनो वा
 निबोधयेत्तत्सकलं विधेयम् ॥५१॥

मनुस्मृति में यह स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि यदि कोई राजा अथवा अन्य कोई अधिकारी पुरुष धर्मानुसार कुछ आज्ञा करे तो उस आज्ञा का सबको पालन करना चाहिए ॥ ५१ ॥

यदि ब्रुवीताधिपएव दुष्टं
तथापरो वा न कदापि तस्य ।
वचो विधेयं मनुजैरितीदं
मनुस्मृतावेव निरीक्ष्यणीयम् ॥५२॥

यदि कोई स्वामी किसी कारणवश अपने आदमियों से अधर्म का काम कराना चाहे तो उसे कदापि नहीं करना चाहिए । यह भी आज्ञा मनुस्मृति में ही दी हुई है ॥ ५२ ॥

इति ब्रुवाणं यमिनामधीशं
जगाद कश्चिद्यदि देव कश्चित् ।
महीश्वरो भिन्नमतानुवादै-
र्विवासयेत्तर्हि किमत्र कार्यम् ॥५३॥

आपके इतना कहने पर ठाकुर मनोहरसिंहजी रईस सरदारगढ़ ने कहा कि यदि कोई राजा किसी को अपने से विरुद्ध जान कर देश से निकाल दे, तो क्या करना उचित है ॥ ५३ ॥

स्वयं प्रदत्तां धरणीं स्वयं यो-
मतस्य वैरुद्ध्यवशान्नरेशः ।
पुनर्यदीच्छेद्दलवान्प्रहीतुं
तदापि किं कार्यमितीह वाच्यम् ॥५४॥

और भी सुनिए, जो राजा स्वयं दी हुई जागीर को अपनी आज्ञा का पालन न करता देख कर प्रजा से फिर वापिस ले ले तब क्या करना चाहिए ? ये महाराणा साहब हमारे प्रभु हैं । यदि हम इनकी आज्ञा न मानें तो जागीर न रहे ॥ ५४ ॥

यतीश्वरोऽदः श्रवणीयमेवं

निपीय तं प्राह यदि स्वधर्मे ।

स्थितस्य भिक्षोपगमेन वृत्ति-

र्भवे भवेत्सापि भवेत्प्रशस्ता ॥५५॥

इस प्रकार सङ्केत (इशारे) से कही हुई ठाकुर साहब की बात को अच्छे प्रकार सुन कर स्वामीजी बोले—अपने धर्म में आरूढ़ होकर, भिक्षा से भी मनुष्य निर्वाह कर ले तो बहुत उत्तम है ॥ ५५ ॥

अधर्ममार्गोपगतौ समन्ता-

द्यदीन्द्रभोगोपि जनानुपेयात् ।

तदापि तस्मिन्न पदं निधेयं

स्वधर्मरक्षाकृतपक्षपातैः ॥५६॥

अधर्म मार्ग में चलने से यदि मनुष्य को इन्द्र-भोग की भी प्राप्ति हो जाय तो उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए । धर्म ही संसार में एक जीवन है । उसका बिगड़ना मरने का द्वार है ॥ ५६ ॥

वरं विदेशेषु विशेषवासो-

वरं धनाभाववशेन भिक्षा ।

परं स्वधर्माचरणादधर्मे

वरं न पादार्पणमार्यजातेः ॥५७॥

अपने स्थान से निकल कर परदेश में निवास करना अच्छा, धन के पास न रहने पर भिक्षा माँग कर निर्वाह करना अच्छा, परन्तु धर्म से हट कर अधर्म पर क्रदम रखना आर्यजाति के लिए अच्छा नहीं ॥ ५७ ॥

इति प्रशस्तं निगदत्यधीशे

मुनौ समस्तापि महर्षिगोष्ठी ।

चकार तेनैव सहानुभूतिं

महर्षिणा साकमथो जगाम ॥५८॥

इस प्रकार आपके कहने पर समस्त महाराजे आपके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए, आपके विश्वास की प्रशंसा करने लगे और अन्त में चरण छू कर अपने अपने नगरों को चले गये ॥ ५८ ॥

यतीश्वरोप्यध्ययनाय पार्श्वे

समागतान्मोहनलालमुख्यान् ।

निबोधयामास निजानुमत्या

समस्तमङ्गादिकमल्पकालम् ॥५९॥

उनके जाने पर स्वामीजी भी मोहनलाल, जगन्नाथसिंह, ब्रजनाथ, राम-प्रसाद, कर्माश्रय आदि कई शिष्यों को अपनी इच्छानुसार कुछ वेदाङ्ग पढ़ाते रहे और सदुपदेश भी दिया करते थे ॥ ५९ ॥

जगाद चैतन्यदिगानवाञ्छा

भवेत्तदा सामपदप्रगीतिः ।

सुखं विधेया परमात्मलब्धा

न कर्हिचिद्द्वारबधूभिरुक्ता ॥६०॥

एक दिन आपने उपदेश देते समय अपने शिष्य वर्गों से कहा कि जब कभी गाना सुनने या गाने की रुचि हो तो, स्वर-पूर्वक वेदों का गाना सुनना चाहिए । विषय-वर्धक गान कदापि न सुनना न गाना चाहिए ॥ ६० ॥

शुनीसमानाः किल वारयोषाः

कदापि सेव्या न महीपवर्यैः ।

यतः प्रसङ्गाद्भवतीहलोके

विनिन्दना व्यर्थधनव्ययश्च ॥६१॥

राजाओं को चाहिए कि आप सिंह-समान होकर कुतियों के समान वेश्याओं से कदापि न मिलें । अपने अनुरूप (योग्य) वीराङ्गनाओं से सम्बन्ध करें, जिससे न लोक में निन्दा हो, न द्रव्य का व्यर्थ व्यय हो ॥ ६१ ॥

इति स्वधर्मानुमतिं ददाने
 मुनौ जनाः केपि समागतास्तम् ।
 महर्षिपूज्यं परितो निविष्टा
 ययाचिरे किञ्चिददो वदन्तः ॥६२॥

इस प्रकार धार्मिक शिक्षा देते हुए आपके पास आकर कुछ रियासत के जमीन्दारों ने आपसे निवेदन किया और गद्गद होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ६२ ॥

परोपकारव्रतराजयोगे
 नियन्त्रितानां यदि नो विमुक्तिम् ।
 भवान्विदध्यात्कथनेन तर्हि
 महत्फलं स्यादिदमेव वाच्यम् ॥६३॥

हे महाराज ! हमारा एक अभियोग (मुकद्दमा) महाराणाजी के यहाँ लगा हुआ है उसमें आप महाराणाजी से कह कर न्याय करा दीजिए । हम लोग आपके बहुत ही कृतज्ञ (अहसानमन्द) होंगे ॥ ६३ ॥

इति ब्रुवाणानधमान्नयज्ञो-
 विचार्य तेषां कपटप्रयोगम् ।
 स्वराजदन्तद्युतिभिः समन्ता-
 त्कृतप्रकाशो मुनिरेवमाह ॥६४॥

इस प्रकार उन जमींदारों की कपट-कूट बात सुन कर, मानो अपने राज-दन्तों की प्रभा से उनके हृदयगत अन्धकार को मिटाते हुए आप सबके समक्ष इस प्रकार कहने लगे—॥ ६४ ॥

न धर्म एषः किल मद्रिधानां
 भवानुविद्धेषु मतेषु बन्धः ।

अतो यथेच्छं धरणीप एव

करोतु वा मा कुरुतात्प्रसादम् ॥६५॥

मुझ जैसे संन्यासियों का सांसारिक बातों में हस्तक्षेप करना सर्वथा पाप है। इसलिए आपके कार्यों में महाराजा साहब अनुग्रह करें या आप लोगों का निग्रह करें मुझे कुछ प्रयोजन नहीं ॥ ६५ ॥

न मध्यमेत्याहमिदं कुकृत्यं

भवन्नियोगानुगतं विरुद्धम् ।

स्ववेषवासाश्रमधर्मकार्यैः

कदापि कर्तुं प्रयतो भविष्ये ॥६६॥

मेरा आप लोगों के बीच में पड़ कर महाराणा सज्जनसिंहजी से कुछ कहना अपने वेष (लिवस) और आश्रम तथा धर्म से विरुद्ध है। इसलिए आप लोगों का कहना मैं कदापि न मानूँगा ॥ ६६ ॥

इतीदमाकर्ण्य गतेषु लोके-

ष्वनन्तरं सज्जनसिंहनाभा ।

मुनीश्वरं नम्रतया रहस्ये

परीक्षणेच्छावशतो वभाषे ॥६७॥

आपका इतना कथन सुन कर उनके चले जाने पर महाराणा सज्जनसिंहजी आपके समीप आये और आपकी मंशा लेने के लिए नम्र होकर एकान्त में इस प्रकार कहने लगे ॥ ६७ ॥

महामुने खण्डनमत्र लोके

विहाय धीमान्यदि सर्वथैव ।

पुराणपक्षस्य महोपदेशै-

र्भवान्विदध्यात्सकलं वरं स्यात् ॥६८॥

हे महर्षे ! यदि आप देशकालोचित मूर्तिपूजा का खण्डन सर्वथा छोड़ कर संसार में काम करें तो आपके साथ सबकी सहायुभूति हो जावे और आपका कार्य भी अच्छे प्रकार चलने लगे ॥ ६८ ॥

इदन्तु जानन्ति भवन्तएव

स्वयं मदीया बहुराज्यभूमिः ।

सदैकलिङ्गेश्वरदत्तचित्तैः

कृता तदर्थे ममपूर्वजाग्यैः ॥६९॥

यह तो आप स्वयं ही जानते हैं कि यह मेरी रियासत पहले ही से एक-लिङ्गेश्वर महादेव के अधीन चली आती है और मेरे पूर्वजों ने उसी के अर्पण कर दी है ॥ ६९ ॥

समस्तमेतन्मम राज्यमद्य

मनीषितश्चेत्क्रियतां भवद्भिः ।

प्रधानभावेन वयन्तु सर्वे

तवैव सेवार्थमुपस्थिताः स्मः ॥७०॥

यदि आप चाहें तो मेरा समस्त राज्य, जोकि एकलिङ्गेश्वर महादेव के अधीन है, ले लीजिए और उसके राजा बनिए । हम तो केवल आपके चरण-सेवक हैं । आपकी सेवा करते रहेंगे ॥ ७० ॥

भविष्यति प्राप्तिरपि प्रकामं

महाधिपत्यस्य तदन्वयेन ।

बहूनि राजोचितसाधनानि

समागमिष्यन्ति भवत्समीपे ॥७१॥

यदि आप चाहें तो केवल इस मन्दिर के ही महन्त बन सकते हैं और लाखों रुपयों की सम्पत्ति पर आपका अधिकार भी हो सकता है । जो आपकी रुचि हो वह लीजिए और खण्डन करना छोड़ दीजिए ॥ ७१ ॥

इति श्रुताभाषणतारतम्यः

स योगिराजोपि रुषा समेतः ।

जगाद राजानमिदं प्रकाशं

शृणुष्व भो सज्जनसिंहवस्मन् ! ॥७२॥

इस प्रकार महाराणा सज्जनसिंहजी की बातें सुन कर आप अत्यन्त क्रोध में भर गये । आपको फटकार कर स्वामीजी बड़े जोर से यों कहने लगे जो निम्न लिखित रूप में वर्णन किया गया है ॥ ७२ ॥

प्रलोभनैस्त्वं मम भोगवाञ्छां

निवेश्य चित्ते परमेश्वरस्य ।

विधेरवज्ञाकरणे किमर्थं

प्रवर्तसे मा वद वाक्यमीदृक् ॥७३॥

महाराणाजी ! आप मुझे लालच देकर उस सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर की अवज्ञा करने पर उद्यत करना चाहते हैं ॥ ७३ ॥

इमानि ते सुन्दरमन्दिराणि

तथातिलध्वी किल राज्यभूमिः ।

कदापि नो मे परमेश्वराज्ञा-

विलङ्घने दास्यति साहसानि ॥७४॥

ये आपके मन्दिर और यह छोटीसी रियासत मुझे किसी दशा में उस परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते ॥ ७४ ॥

जवेन चेद्धावनमद्य कुर्यां

तवात्र भूमौ सकलं तदैव ।

निवृत्तिमेष्यत्यधुनैव राज्यं

यदर्थमेवं वदसि क्षितीश ॥७५॥

यदि मैं इस समय जोर से भागना आरम्भ करूँ तो एक ही दौड़ में आपके राज्य के बाहर निकल सकता हूँ, जिसका मुझे आप लोभ देते हैं ॥७५॥

निसर्गतः कोपि कदापि यस्य
 न गन्तुमीष्टे परमेश्वरस्य ।
 कथं तदुद्देश्यमहं विहाय
 व्रजामि राज्याद्वद दूरदेशम् ॥७६॥

जिस परमेश्वर के राज्य से कोई भी पुरुष बाहर नहीं जा सकता उसकी आज्ञा को छोड़ कर मैं किस प्रकार आपका कहना मानूँ ॥ ७६ ॥

कदापि नाहं परमेश्वरं तं
 विहाय वेदानुगतिश्च लोके ।
 नवीनमार्गानुगतौ यतिष्ये
 विनिश्चयोयं परमो मदीयः ॥७७॥

आप निश्चय रखिए, मैं कभी परमात्मा और वेदों की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता । यह मेरा परम निश्चय है ॥ ७७ ॥

इति प्रकामं मुनिनायकेन
 निपीय सस्रभाषितमादरेण ।
 वचः सलज्जश्चकितोतिनम्रः
 क्षमाभिकाङ्क्षी समभून्महीपः ॥७८॥

इस प्रकार आपका वचन सुनकर महाराणा सज्जनसिंहजी अपने मन में चकित और लज्जित हुए और नम्र होकर क्षमा माँगने लगे ॥ ७८ ॥

अनन्तरं तत्र परोपकारिणी
 निवेशिता कापि सभा यतीश्वरैः ।
 बभूव यस्यां कविराजउत्तमः
 सुखेन मन्त्रित्वपदे निवेशितः ॥७९॥


अन्त में यहाँ पर एक स्वामीजी ने परोपकारिणी नामक सभा स्थापित की जिसमें महाराणा उदयपुर प्रधान और कविराज श्यामलदासजी मन्त्री हुए । इसका विवरण अग्रिम सर्ग में विस्तर से किया गया है ॥ ७९ ॥

इति प्रसन्नताङ्कितो मुनीश्वरः प्रकामतो-
निवेश्य तत्र मानसे बभूव हर्षनिर्भरः ।
परोपकारिणीं सभां भवन्ति के न भूतले
परोपकारकारिणो जनाः प्रसादपूरिताः ॥८०॥

इस प्रकार स्वामीजी अनेक राजा महाराजाओं के मध्य में इस सभा का स्थापन कर मन में अति प्रसन्न हुए । ठीक भी है, परोपकारी जन परोपकारिणी सभा के स्थापन होने से क्योंकर आनन्दित न हों ॥ ८० ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

परोपकारिणीपरिषद्द्विन्यसनं नाम पञ्चदशः सर्गः ।



षोडशः सर्गः

श्रीमानिहान्तिमदलं नियमप्रबन्धै-
रावद्धमेकमभिलिख्य तदैव काले ।
राजाधिराजकृतशासनरीतियोगैः
पूर्णं विधाय समभूद्गतभार एव ॥१॥

ऋषि दयानन्द ने इसी उदयपुर में अपना अन्तिम शिक्षा-पत्र (वसीयत-
नामा) लिख कर और उसी समय उसकी रजिष्टरी करा कर अपने अव-
शिष्ट जीवन को हलका बना लिया ॥ १ ॥

यस्यानुवाद इह सर्वनिरीक्षणाय
देशोन्नतिप्रणिहितान्तरवासनेन ।
प्रत्यक्षरं समभिलिख्यत इत्यवेक्ष्य
सर्वे जनास्तदनुकूलमिहापि कुर्युः ॥२॥

सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उस शिक्षा-पत्र का अविकल अनुवाद
आज मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ ताकि इसी की देखा देखी और सज्जन गण
भी अपने जीवन में करें ॥ २ ॥

लोकप्रसिद्धमिदमस्ति जनाः पुरस्ता-
द्गच्छन्तमेव नितरामनुयान्ति तस्मात् ।
सर्वोपकारकरणे कृतनिश्चयस्य
सन्दर्श्यतेन्तिमदलं मयका महर्षेः ॥३॥

संसार में बहुत से पुरुष इस प्रकार के हुआ करते हैं कि वह देखादेखी एक पुरुष को आगे जाता देख कर उसके पीछे ही चले जाते हैं इसलिए सर्वोपकारी ऋषि दयानन्द का आज मैं शिक्षा-पत्र दिखाना चाहता हूँ ॥३॥

नीचैः प्रदिष्टमहनीयतमाभिधेया-

नीचैः स्थितेन नियमेन निबन्धयित्वा ।

वस्त्रादिकं निजपरिश्रमलब्धमद्य

सर्वं परोपकृतये मनसा ददामि ॥४॥

मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्न लिखित तेईस सज्जनों को निम्न लिखित नियमों के अनुसार नियन्त्रित करके वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधिकार देता हूँ ॥ ४ ॥

अध्यक्षतामुपगताः किल ते मदीयं

सर्वस्वमप्युपकृतिप्रवणाः सदैव ।

वेदोदितेषु सकलेष्वपि साधनेषु

संयोजयन्तु मयि जीवति वा मृते वा ॥५॥

अध्यक्षता (मालिकपन) को प्राप्त हुए वे तेईस आर्य पुरुष परोपकार और सुकार्य में मेरे सर्वस्व को लगा दें । यह अधिकार उनको मेरे मरने तथा जीने पर भी रहेगा ॥ ५ ॥

एवं विलिख्य किल शीर्षकलेखमादौ

पश्चाद्विधाय च शिवात्मभिधां सभायाः ।

ये ये महाशयवरा नियमे नियुक्ता-

स्तानेव सस्पृति रसादिह वर्णयामि ॥६॥

इस प्रकार सबसे प्रथम आरम्भिक शीर्षक लेख लिख कर पत्र में सभा का नाम परोपकारिणी रख के जिन तेईस महाशयों को अधिकारी बनाया, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥

संसारमात्रसरसीगतनव्यभव्य-

नानाशुभार्यजनपद्मविकासहेतुः ।

यस्यां सभापतिपदेनुमतो मुनीन्द्रै-

रग्रेसराभ इव सज्जनसिंहवर्मा ॥७॥

संसार रूप समुद्र में उत्पन्न हुए जितने आर्यकुल-कमल हैं उनके खिलाने के लिए सूर्य समान श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र महाराणा "सज्जन-सिंहजी" उदयपुराधीश जी. सी. एस. आई, राज मेवाड़ इस सभा के सभा-पति हुए ॥ ७ ॥

दैवात्प्रधानपदवीमधिगत्य येन

पुथ्यां लवस्य पुनरत्र महर्षिपत्रे ।

भाग्योदयादुपसभापतितापि लब्धा

वेविद्यते स किल सम्प्रति मूलराजः ॥८॥

जिन्होंने पहले लाहौर के आर्यसमाज में प्रधान-पद प्राप्त किया था वह लाला "मूलराज" असिस्टेन्ट कमिश्नर इस सभा के उपसभापति नियत हुए ॥ ८ ॥

किं वर्णयामि किल तस्य दलस्य वृत्तं

यस्मिन्नहो महति मन्त्रिपदे नियुक्ताः ।

"श्रीश्यामदासकविराज"वराः प्रकामं

भाग्योदयादुदयपत्तनएव जाताः ॥९॥

इस शिक्षा-पत्र का मैं कहाँ तक सौभाग्य वर्णन करूँ जिसमें उदयपुर के ही खास कर रहनेवाले श्रीयुत कविराज "श्यामलदासजी" ही उत्तम मन्त्री के पद पर नियत किये गये ॥ ९ ॥

लब्ध्वापि येन मयराष्ट्रपुरे नवीनां

भाग्येन भव्यपदवीमुपसर्गशून्या ।

मन्त्रीत्यलम्भि पदवी विदुषांप्रसादा-
दस्मिन्स रामशरणोदिवमारुरोह ॥१०॥

जिन्होंने मेरठ के आर्यसमाज में पहले उपप्रधान पदवी को प्राप्त किया, वे लाला “रामशरणदासजी” रईस इस सभा में दूसरे मन्त्री नियत किये गये ॥ १० ॥

आपज्जनिं दिनमणोः शमनस्य यासी-
देकोदरी भगवती यमुनामुनापि ।
तत्तीरजेन किल मोहनलालनाम्ना
दिव्योपमन्त्रिपदवी रभसादलम्भि ॥११॥

जिनका जन्मस्थान यमुना के तट पर वसे हुए मथुरा नगर में था, और आज कल जो उदयपुर में आकर रहने लगे हैं वे पण्ड्या “मोहनलालजी” इस सभा के उपमन्त्रा बनाये गये ॥ ११ ॥

यत्सभ्यमण्डलमलङ्कुरुते नितान्तं
मूर्धाभिषिक्तकुलमौक्तिकतामुपेतः ।
शौर्येण धैर्यपरिधारणतश्च लोके
राजाधिराजइव नाहरसिंहवर्मा ॥१२॥

क्षत्रिय वंश के भूषण, राजोचित अनेक गुणों के अद्वितीय आधार, सिंह के समान शूरवीर, श्रीमन्महाराजाधिराज “नाहरसिंहजी” शाहपुरा-धीश सबसे प्रथम सभासदों में नियत किये गये ॥ १२ ॥

सर्वाधिपत्यमधिगत्य बलेन येन
पट्टाभिषेकसमये समलम्भि सत्यम् ।
तत्पट्टवर्धनपदं गुणपारवश्या-
दस्मिन्स सभ्यपदमाप विचित्रपत्रे ॥१३॥

राजसिंहासन पर पदार्पण करते समय जिन्होंने वास्तव में अपने नाम को सफल बनाया वह “तख्तसिंहजी” वेदले राजमेवाड़ इस सभा के सभासदों में दूसरे अङ्क पर नियत किये गये ॥ १३ ॥

यन्नामवर्णगणएव जयं ब्रवीति

यश्चाधिपत्यमपि दर्शयते मनुष्यान् ।

येनादरादिव कृतार्य्यमते मनीषा

भूमण्डले विजयते स महोदयोपि ॥१४॥

शत्रुओं के बीच में जिन्होंने अपने बल से विजय (फ़तह) प्राप्त कर उन पर अपना अधिकार जमाया, तथा आर्यसमाज में भी जिन्होंने अधिक यश प्राप्त किया वे “फ़तहसिंहजी” भीलवाड़ा तीसरे सभासद् बने ॥ १४ ॥

येनार्जुनोपि यशसा वपुषा बलेन

मन्दीकृतः सकलवैरिजनप्रहर्ता ।

नेत्वाम्बुभिः स्नापितवैरिवधूकपोलः

सोयं गुणेन महितोऽर्जुनसिंहवर्मा ॥१५॥

समस्त शत्रुओं का जीतनेवाला, वैरियों के वधूजनों का हलानेवाला, अर्जुन भी जिन्होंने अपने यश, बल और रूप से नीचे कर दिया वे आसीन्द के राजा “अर्जुनसिंहजी” इस सभा में चौथे सभासद् बने ॥ १५ ॥

येनादृता गजगतिर्वपुषोगुरुत्वा-

दत्यन्तमञ्जुलपदार्पणतश्च लोके ।

दानी दमी विनयनीतिपरः स किं नो-

लोकान्तरे विजयते गजसिंहवर्मा ॥१६॥

शरीर की गुरुता (भारीपन) एवं मन्दगति से जिन्होंने गज की गर्दन का अनुकरण कर लिया वे दानी, जितेन्द्रिय, विनीत, उदयपुर के “गजसिंहजी वर्मा” इस सभा के पाँचवें सभासद् बने ॥ १६ ॥

सन्दर्शिता सकलविश्वतलेपि येन

वीरत्वभावमहती घटना प्रकामम् ।

रम्याजतुन्दपुरगौरवरक्षणार्थे

सोयं महोदयवहादुरसिंहवर्मा ॥१७॥

जिन्होंने अपने नाम के अनुसार सारे देश में अपनी बहादुरी दिखादी वे मसूदा ज़िला अजमेर के “ बहादुरसिंह ” इसके छोटे सभासद बने ॥१७॥

सौन्दर्यसञ्चयमलं प्रविधाय वेधा

यद्रूपनिर्मितिपरिश्रममाततान ।

विश्वाभिरामगुणगौरवगर्वस्वर्गः

सभ्येष्वभूदहह, “सुन्दरलालशर्मा” ॥१८॥

संसार भर की सुन्दरता को एकत्र करके विधाता ने जिनके बनाने का परिश्रम उठाया वह अत्यन्त सुन्दर गुण वाले राय बहादुर “पण्डित सुन्दरलाल जी ” सुप्रेण्टेण्डेन्ट वर्कशाप अलीगढ़ इसके सातवें सभासद बने ॥ १८ ॥

येन स्वकर्मवशतो भुवनेतिलोला

लक्ष्मीः प्रबन्धविधिना भवने स्वकीये ।

दासीकृता चलति सन्थरभावतोद्य

लोकोत्तरः स “जयकृष्ण” पदाभिधानः ॥१९॥

जिन्होंने अपने प्रताप से अत्यन्त चञ्चल लक्ष्मी को भी अपने घर में बन्द कर दिया वे सी, एस, आई राजा जयकृष्णदास डिप्टीकलेकूर विजनौर वा मुरादाबाद इसके आठवें सभासद बने ॥ १९ ॥

येन प्रतापवशतः प्रधने रिपूणा-

मस्त्राणि सुन्दरतया मदनोत्सवेषु ।

वस्त्राणि चापि न हठेन पृथक्कृतानि

“दुर्गाप्रसाद” इह सोपि समागतोभूत् ॥२०॥

जिन्होंने अपने प्रताप से शत्रुओं के शस्त्र और अङ्गनाओं के वस्त्र बिना किसी परिश्रम के ही नीचे गिरा दिये वे सेठ “दुर्गाप्रसादजी” कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फ़र्ह खाबाद इसके नवें सभासद बने ॥ २० ॥

सर्वस्वदानपरतावशतोत्र येन

कीर्तिः समस्तमनुजेषु निवेशिताऽऽस्ते ।

लोकं पृथाधिकयुगो महनीयकर्मा

“नाथः स कोपि जगतां” विततान लक्ष्मीम् २१

अनेक बार आर्यसमाज के लिए अपना सर्वस्व देकर जिन्होंने अपनी कीर्ति समस्त भद्रजनों के हृदयों में स्थापित की वे लोकोत्तर गुणशाली सेठ “जगन्नाथजी” रईस फ़र्ह खाबाद इसके दशवें सभासद बने ॥ २१ ॥

येनार्जितापि पदवी महती समाज-

स्थानान्तरे निखिलगौरवधारणेन ।

नानाविधप्रतिनिधिप्रकटीकृतार्थः

“श्रेष्ठी स निर्भय”पदेन ततान शोभाम् २२

जिन्होंने अपनी उदारता से फ़र्ह खाबाद के आर्यसमाज में प्रधान पदवी को प्राप्त किया वे सेठ “निर्भयरामजी” विसाऊ, राजपूताना इस सभा में ग्यारहवें सभासद बने ॥ २२ ॥

आविर्भवन्नवनवोदयकीर्तिवेगात्

प्रागल्भ्यमाप्तवति यत्र गुणेन जाता ।

कालीपदेन घटना शुभनाम्नि पूर्वा-

प्राश्चात्यभागघटना चरणेति वर्णैः ॥२३॥

नवीन कीर्ति के प्रताप से सुन्दरता को प्राप्त हुए जिन्होंने फ़र्ह खाबाद के समाज में मन्त्री पद को प्राप्त किया वे “लाला कालीचरणजी” इस सभा के सभ्यवृन्द में बारहवीं संख्या को प्राप्त हुए ॥ २३ ॥

विच्छेदयन्भवसमुद्रसमुद्रवानि

जालानि मन्दमनुजैरनुसङ्गतानि ।

येनार्धनामघटना सफलीकृताभू-

दर्धानपश्यत जना इह तं पुमांसम् ॥२४॥

संसार के अनेक जालों के छेदन से जिन्होंने अपने नाम का अर्धभाग सफल किया वे बाबू "छेदीलालजी" गुमास्ते कमसरियट, छावनी मुरार (ग्वालियर); इस सभा के तेरहवें सभासद् बने ॥ २४ ॥

लब्धं सुखेन किल येन पुरे लवस्य

मन्त्रित्वमार्य्यमनुजेषु गुणोत्तरेण ।

भाग्योदयाधिगतसुन्दरवर्णनामा

सोप्यत्र सभ्यगणानां बलवानुपागात् ॥२५॥

जिन्होंने लाहौर के आर्यसमाज में पहले अपने भाग्य के वश मन्त्री पद प्राप्त किया वह लाला "साईदासजी" इस सभा के चौदहवें सभ्य नियत हुए ॥ २५ ॥

किं क्षीरसागरगतेन मदीयमेव

नामाधिगत्य किल येन विडाञ्चितानि ।

मिथ्यैव सर्वभुवनानि धिगीदृशं त-

मित्थं प्रहासकुशलोल वभूव सभ्यः ॥२६॥

जिन्होंने क्षीरसागर में सर्वदा रहनेवाले विष्णुभगवान को झूँठा जान कर हँस दिया, वह दानापुर के समाज में मन्त्री के पद पर आरूढ़ हुए बाबू "माधवदासजी" इस सभा के पन्द्रहवें सभासद् बने ॥ २६ ॥

नीतानि येन यदुवंशभवेन बाल्ये

गोपेषु नन्दपरिवर्धितबालकेन ।

गोमण्डले बहुदिनानि सएव मन्ये

तारुण्यमाप्य परिषद्यभवत्समेतः ॥२७॥

जिन्होंने बचपन के कुछ दिन गोपाल बन कर ब्रज में व्यतीत किये वे रायबहादुर “गोपालरावजी” मेम्बर कौन्सिल गवर्नर बम्बई तथा प्रधान आर्यसमाज मुम्बई पूना इसके सोलहवें सभासद बने ॥ २७ ॥

यन्नाम सर्वभुवनेषु तनोति शोभां
तन्नामवर्णनमलं न भवेदिति व ।
मत्वा मयापि मनुजस्य सभां गतस्य
कस्यापि नाम न निवेशितमत्र पद्ये ॥२८॥

जिनका नाम सर्वत्र ही विख्यात हो चुका उनके अधिक वर्णन से कुछ फल नहीं मिलेगा । इसलिए प्रशंसनीय रायबहादुर “महादेव गोविन्द रानाडे” जज पूना इस सभा के सत्रहवें सभासद बने ॥ २८ ॥

यः श्यामजीति भुवने विदितोस्ति यश्च
देशान्तरेपि शिवमार्यमतं ततान ।
वेदोपवेदपरिशीलनदत्तचेताः
सर्वातिमं पदमवाप स चात्र गोष्ठ्याम् ॥२९॥

अपने निज बल से देशान्तरों में भी जाकर जिन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया वे पण्डित “श्यामजीकृष्णवर्मा” प्रोफेसर, संस्कृत यूनीवर्सिटी आक्सफ़ोर्ड, लन्दन, इस सभा के अठारहवें सभासद बने ॥ २९ ॥

एवं समस्तपरिषत्पतिनामधेया-
न्यावेश्य तत्र नियमानपि यानकार्षीत् ।
पत्ने निजे मुनिमहर्षिनुताङ्घ्रियुग्म-
स्तानत्र सादरमहं विनिवेदयामि ॥३०॥

इस प्रकार समस्त २३ मंत्रों के नाम लिख कर जिस प्रकार शिक्षा-पत्र में स्वामीजी ने नियमों का उल्लेख किया है वह सब इस सर्ग के अवशिष्ट भाग में मैं दिखलाता हूँ ॥ ३० ॥

आद्ये यदस्ति नियमे लिखितं तदेतद्
द्रव्यं मदीयमनिशं व्ययमेषु यायात् ।

वेदोपवेदऋषिदर्शनसत्प्रचार-

तन्मुद्रणाध्ययनलेखनपाठनादौ ॥३१॥

पहले नियम में ऋषि ने यह लिखा कि “ जितना मेरा द्रव्य है वह सर्वदा वेद-वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार में अर्थात् उनकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने, आदि में व्यय हो ॥ ३१ ॥

वेदोक्तधर्मकथनाय विभिन्नदेशे-

ष्वार्यान्नियोज्य विदुषो भृतिदानमानैः ।

यन्मे मतं विदितमस्ति शिवं प्रचाराद्

द्वीपान्तरेष्वपि भवद्भिरलं निवेश्यम् ॥३२॥

वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशक-मण्डली नियत करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तरों में भेज कर सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग आदि में व्यय हो ॥ ३२ ॥

अत्रापि ये मृतिवियोजितत्रन्धुवर्गा-

दीना भवेयुरधनाः शिशवो यथावत् ।

तेषां धनेन परिपालनमाधनान्तं

कार्यं महोदयवरैर्मम सर्वभावैः ॥३३॥

इस आर्यावर्त में भी जो कोई अनाथ और दीनजन हों अर्थात् जिनकी रक्षा कोई न कर सकता हो, उनके पालन-पोषण और शिक्षा आदि में मेरा धन व्यय हो ॥ ३३ ॥

एवन्निवेश्य नियमान्मुनिराद्यपङ्क्तौ

यादृग्द्वितीयनियमोदयमाततान ।

सोपि प्रसाद इव तस्य मुनेः स्वचित्ते
संस्थापनीय इह सर्वजनैर्यथावत् ॥३४॥

इस प्रकार पहले नियम में तीन बातों का उल्लेख करके जो जो बातें दूसरे नियम के अन्दर नियमित की हैं वे सब निम्न लिखित पद्यों में देख लीजिएगा ॥ ३४ ॥

यद्वन्महोदयवरैर्मयि विद्यमाने
कार्याणि साधयितुमाद्रियते प्रयत्नः ।
तद्वन्मृतेपि मयि तादृशकल्पनाभिः
कार्यो यथोचिततया सकलोपि यत्नः ॥३५॥

इस सभा के सभ्यगण जिस प्रकार मेरी उपस्थिति में अनेक उचित कार्यों के लिए प्रबन्ध करते हैं इसी प्रकार मेरे मर जाने पर भी समस्त कार्यों का ठीक ठीक प्रबन्ध करें ॥ ३५ ॥

आयव्ययोपगमसङ्कलनं तृतीये
षष्ठेऽथवा नियमितैर्मनुजैर्विधेयम् ।
मासे सुखेन कमपि द्विजमत्त कृत्ये
संयोज्य पुस्तकविमुद्रणयन्त्रकस्य ॥३६॥

इस सभा में नियुक्त महोदय तीसरे या छठे महीने में किसी पुरुष को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पढ़तालने के लिए भेजें, जिससे हिसाब में गड़बड़ न हो ॥ ३६ ॥

दृष्ट्वा समस्तघटनां धनसञ्चयस्य
हस्ताक्षराङ्कितमरं दलमेकमेकम् ।
सर्वेधिकारिमनुजा विदितेतिवृत्ताः
सम्प्रेष्य तन्नियमितेन जनेन कार्याः ॥३७॥

वह सभासद् वहाँ जाकर कुल आमदनी और खर्च की जाँच पड़ताल करके उस वही के नीचे अपने हस्ताक्षर करे और इस पड़ताल की एक एक प्रति प्रत्येक सभासद् के पास भेज दे ॥ ३७ ॥

तेपि ऋटिं समवलोक्य दले निजाङ्कैः
 पत्रैर्निवेद्य नियमानुगतात्मनुष्यान् ।
 भव्यां स्वसम्मतिमपि प्रतियोज्य तत्र
 सन्देहमात्मविषयं विलयं नयन्तु ॥३८॥

यदि वह भी यन्त्रालय के प्रबन्ध में कुछ ऋटि देखें तो उसके सुधारने के लिए अपनी सम्मति लिख कर प्रत्येक सभासद् के पास भेजें और प्रत्येक सभासद् को उचित है कि अपनी सम्मति सभापति के पास लिख भेजें ॥ ३८ ॥

लोकान्तरागतदलानि समीक्ष्य योगा-
 द्यां सम्मतिं प्रतिदिशेत्परिषत्प्रधानः ।
 सैवादरादहरहः परिसेवनीया
 सर्वैरपि द्विजवरैर्नियमानुसारात् ॥३९॥

उन पत्रों को देख कर सभापति जो सर्वसम्मत यथोचित प्रबन्ध करे, उसका सबको पालन करना चाहिए और इस कार्य में किसी सभासद् को भी आलस्य नहीं करना चाहिए ॥ ३९ ॥

एवं द्वितीयमपि तं नियमं विधाय
 यद्यत्तृतीयनियमं मुनिरावभाषे ।
 सर्वैर्महाशयवरैस्तदलं निपीय
 साफल्यमस्य वपुषः क्रियतां प्रसादात् ॥४०॥

इस प्रकार दूसरे नियम में इतनी बातों का नियमन करके ऋषि ने तीसरे नियम में जो लिखा है उसको भी देख कर समस्त महाशय अपने जीवन को सफल करें ॥ ४० ॥

स्थाने यथेदमतिधर्मपरोपकार-

कार्यं तथैव सभया क्रियतां सदैव ।

उत्साहपौरुषसमुन्नतधर्मभावै-

रेषस्तृतीयनियमो मुनिना प्रदिष्टः ॥४१॥

इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का काम है वैसाही उसको उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे । किसी प्रकार का संकोच या आलस्य न करे ॥ ४१ ॥

यद्वर्णितं मुनिवरैर्नियमे तृतीये

सन्दर्शितन्तदखिलं मयकापि हर्षात् ।

यद्यन्निवेशितमतः परतश्चतुर्थे

तद्वीक्ष्यतां सहृदयैरतिगूढभावम् ॥४२॥

इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने जो कुछ तीसरे नियम के अन्दर बतलाया वह मैंने भी आप लोगों को बतला दिया । जो कुछ चाथे नियम के अन्दर वर्णन किया जायगा उसको भी सज्जन देखें ॥ ४२ ॥

ये ये मया नियमिताः परिकल्प्य गोष्ठीं

ते नाशमाप्तवति मय्यधिकारमीयुः ।

यश्चाधिपत्यविषयो मम वस्तुमध्ये

वेविद्यते स भवतात्किल तेषु सर्वः ॥४३॥

जिन प्रागुक्त तेईस आर्यसज्जनों को मैंने परोपकारिणी में नियुक्त किया है वह मेरे मरने के पश्चात् सब प्रकार से मेरे स्थानापन्न समझे जावें अर्थात् जो कुछ मुझे अपने सर्वस्व पर अधिकार है वही अधिकार उनका भी है और भविष्यत् में होगा ॥ ४३ ॥

यः कोपि तेषु परमार्थमतिं विहाय

स्वार्थेषु दत्तहृदयो नियमाद्विरुद्धम् ।

कुर्यात्तमन्यपरिषत्पतयो विविच्य

मिथ्येति चित्तपुटकेषु विभावयन्तु ॥४४॥

यदि उक्त सभासदों में से कोई सभासद् स्वार्थ (लालच) में पड़ कर इन नियमों के विरुद्ध (जिनको कि मैं बतला रहा हूँ) काम करे या कोई इनसे भिन्न पुरुष मेरे कार्य में हस्तक्षेप (दस्तन्दाजी) करे तो वह सर्वथा मिथ्यावादी समझा जावे ॥ ४४ ॥

एवं विधाय नियमं स यतिश्चतुर्थं

यत्पञ्चमे गदितवान्नियमे तदेतत् ।

सर्वैः प्रसन्नहृदयैरधुना समीक्ष्यं

भव्यां वसन्ततिलकामुपयातमेवम् ॥४५॥

इस प्रकार चौथे नियम के अन्दर आवश्यक बातों को बता कर जो कुछ ऋषि ने पाँचवें नियम में बतलाया उसको सबके अवलोकनार्थ मैं यहाँ पर लिखता हूँ ॥ ४५ ॥

यद्वत्सभेयमधुना मयि वर्तमाने

सर्वस्य वस्तुनिचयस्य तथा ममापि ।

रक्षामहोन्नतिपदे यतते तथैव

दाहादिकर्मविषये नियता यतेत ॥४६॥

जिस प्रकार इस सभा को मेरी विद्यमानता (मौजूदगी) में मेरी तथा मेरे सब पदार्थों की यथाशक्ति रक्षा और उन्नति करने का अधिकार है, उसी प्रकार मेरे मृतक-शरीर के संस्कार का भी उसे पूर्ण अधिकार है ॥४६॥

जीवो यदा मम सुखं परलोकमेयात्

तस्मिन्गते मम वपुर्न जले न भूमौ ।

नारण्यभागविषयेषु निवेश्यमग्नौ

तद्दाहकर्मविधिनैव विधेयमेवम् ॥४७॥

मेरा जीवात्मा जब इस पञ्चभौतिक (पञ्चभूतों से बने हुए) शरीर को छोड़ कर लोकांतर को चला जावे, उस समय मेरा मृतक-शरीर न जल में बहावे, न पृथ्वी में गाड़े, न जङ्गल में फेंके; किन्तु जिस प्रकार मैं आगे बतलाता हूँ उसी विधान से दाह-कर्म के साथ उसका संस्कार करदें ॥४७॥

दिव्यां विधाय महतीं नवचन्दनौघै-

वेदीं निवेश्य किल तत्र वपुर्मदीयम् ।

वेदोदितेन विधिना परमाणुमार्गे

सम्प्रापणीयमिति मे प्रथमं विधानम् ॥४८॥

सबसे प्रथम सुन्दर और बड़ी वेदी बना कर उसमें केवल चन्दन की चिता बना कर उसके बीच में मृतक-शरीर को रख कर वैदिक रीति से मेरा दाह करना ॥ ४८ ॥

नैवं भवेद्यदि तदा युगलन्तु खार्या-

स्तच्चन्दनं किल चतुष्टयमाज्यभारः ।

सार्धं क्रमेण नुतयोस्तगरागराणां

युग्मं तदाऽऽर्य्यपुरुषैरुपचेयमेव ॥४९॥

यदि ऐसा सम्भव न हो सके तो दो मन चन्दन, चार मन घृत, ढाई मन तगर और ढाई मन अगर अच्छे प्रकार लेकर एकत्र करके पहले रखना ॥ ४९ ॥

तस्मात्परं भवतु दिङ्मितपूर्वमानं

शुद्धं पलाशमधुपिप्पलकाष्ठकूटम् ।

ग्राह्यं ततः परमरं कथनान्मसैव

कर्पूरमप्यतिसुगन्धिसदार्यवय्यैः ॥५०॥

फिर उसके पीछे शुद्ध और बेघुना पलाश अथवा शमीवृक्ष या पीपल का दश मन काष्ठ (जोकि यज्ञ कर्म के योग्य हो) पवित्रता से एकत्र करके यथायोग्य रखना ॥ ५० ॥

प्रस्थानि पञ्च च तदर्धमितं सुगन्धि-
 द्रव्यं ततोर्धमथ केसरसुत्तमं स्यात् ।
 कस्तूरिका युगलरूप्यमिता परस्ता-
 द्यद्यत्सुगन्धिकरणां सकलं तदस्तु ॥५१॥

उसके अनन्तर पाँच सेर कर्पूर, ढाई सेर और सुगन्धित द्रव्य, इलायची जावित्री आदि, डेढ़ सेर उत्तम केसर, दो तोले कस्तूरी और भी इसके अलावा जो जो सुगन्धित वालछड़, कपूरकचरी, बुरादा आदि उत्तम पदार्थ हों, एकत्र करना ॥ ५१ ॥

संस्कारविध्यनुसतेन यथोचितेन
 वेदोदितेन विधिना सप्त देहभस्म ।
 सर्वैर्जनैर्निगमसार्गगतैः स्मशाने
 कर्तव्यमेतदपरं न समास्ति कृत्यम् ॥५२॥

तदनन्तर वेदोक्त रीति से, जोकि 'संस्कारविधि' नामक पुस्तक में लिखी हुई है, वेदी बना कर उन मन्त्रों से, जोकि अन्त्येष्टि प्रकरण में लिखे हुए हैं, मेरे मृतक-शरीर को भस्म करें । इसके सिवा वेद के विरुद्ध और कुछ न करें ॥ ५२ ॥

नोपस्थिता यदि भवेन्निखिला जनाली
 तस्मिन्मसान्तसमये निजकार्यवश्यात् ।
 तर्ह्यदरेण समुपस्थितसिन्नवर्धै-
 रेतद्विधेयमखिलं सप्त देहकृत्यम् ॥५३॥

यदि उस समय इस सभा के समस्त सभासद् उपस्थित न हों तो जो कोई उस समय उपस्थित हो वही इस मेरे अन्तिम कार्य को विधिवत् करे, किसी प्रकार की त्रुटि न रखे ॥ ५३ ॥

यावान् व्ययः किल भवेदिह कार्यमध्ये
 देयः स सत्वरमलं सभया तदैव ।

ग्राह्यश्च तैर्जनवरैर्विहितं ममेदं

यैः कार्यमुत्तमतया निगमानुकूलम् ॥५४॥

और जितना व्यय (खर्चा) मेरे इस अन्तिम कार्य में लगे उतना उस कार्य के उपरान्त वह जन सभा से ले लेवे। सभा को भी उचित होगा कि वह तुरन्त दे देवे ॥ ५४ ॥

एवं समस्तमपि देहविनाशकाल-

योग्यं वचो यतिवरो नियमेत्र दैवात् ।

निर्दिश्य यद्गदितवानपरं तदेत-

च्छष्टे निरीक्ष्यसधुना नियमे भवद्भिः ॥५५॥

इस प्रकार अन्तिम समय के लिए जितना कुछ वक्तव्य था उसको पाँचवें नियम में कह कर जो जो आगे कहेंगे उसे छठे नियम में देखिए ॥५५॥

ये ये मथा नियमिता मनुजाः प्रबन्धे

ते ते सुखेन मयि जीवति वा मृते वा ।

सभ्यानसभ्यमनुजात्तपदे विधातुं

शक्ताः पृथक् च करणेऽधममानवानाम् ५६

इस सभा में जिन महोदय महानुभावों को मैं प्रबन्ध करने के लिए नियत कर चुका वे मेरे जीवित रहने पर और मरने के उपरान्त इस बात का अधिकार रखते हैं कि चाहे जिस सभासद् को पृथक करके उसके स्थानापन्न किसी और योग्य सामाजिक आर्य्य-पुरुष को नियत करदे ॥ ५६ ॥

एतत्परं किल विचार्यमिह प्रधानै-

र्यावल्ल कोपि खलु दुष्टगुणो मनुष्ये ।

लभ्येत नो तदवधेर्मम पारिषद्यः

केनापि कारणवशेन विवासनीयः ॥५७॥

परन्तु इस बात का सब सभासदों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई सभासद् उस समय तक सभा से अलग न किया जावे जब तक कि उसमें

कोई दुर्गुण न पाया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की अनुचित (बेजा) कार्यवाही न पाई जावे ॥ ५७ ॥

निर्दिश्य षष्ठनियमं विधिनासमेतं

योगी यदन्तिकजनान्कथयास्वभूव ।

तत्सादरं निजमनोरमकर्णयुग्म-

सत्कुण्डलोपसमिहापि विलोकनीयम् ॥५८॥

इस प्रकार छठे नियम में जिन जिन बातों को ऋषि दयानन्द ने नियमित किया उनका वर्णन हो चुका । अब सातवें नियम में जिन जिन बातों का नियमन करेंगे उनका वर्णन निम्न लिखित प्रकार से होगा ॥ ५८ ॥

मद्वत्सभेयमपि शिचरणपत्रमेतद्

व्याख्यातुमर्हति तथा नियमस्य सेवाम् ।

आधानमुद्धरणमप्यथ कर्तुमीष्टे

कस्यापि दुर्गुणयुतस्य तथा शुभस्य ॥५९॥

मेरे समान इस सभा को इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वह सर्वदा स्वीकार-पत्र (वसीयतनामे) की व्याख्या अथवा उसमें लिखे हुए नियमों का पालन अथवा किसी सभासद् को अलग करके उसके स्थान में अन्य सभासद् को नियत करे ॥ ५९ ॥

दुःखे ममोपरि सभागतवत्यनिष्टे

तद्धारणाय बहु सत्वरमेव दैवात् ।

सर्वैः सभापतिभिरेकमतं विधाय

कार्यं विधेयमचिरेण यथा सुखी स्याम् ॥६०॥

मेरे ऊपर दैववश से आपत्ति के आने पर उसके अति शीघ्र निवारण करने के लिए उपाय सेवै और यथासम्भव यत्न करें । परन्तु वह उपाय तथा प्रयत्न सर्व सभासदों की सम्मति से निश्चय अथवा निर्णीत हो । किसी एक सभासद् का न हो ॥ ६० ॥

वैरुध्यमाप्तवति सभ्यगणे नियुक्ते

या सम्मतिर्बहुजनैरनुमोदिता स्यात् ।

सैवादरादहरहः परिपालनीया

मान्या तथा द्विगुणिता परिषत्पतेर्वाक् ॥६१॥

यदि सभासदों की सम्मति में परस्पर विरोध पाया जावे तो बहुपक्ष के अनुसार अर्थात् जिसमें अनेक सभासद् सहमत हों कार्य किया जावे और प्रत्येक समय में तथा प्रत्येक कार्य में सभापति की दी हुई सम्मति औरों की दी हुई सम्मति की अपेक्षा द्विगुण (दूनी) मानी जावे ॥ ६१ ॥

एवं विविच्य नियमं करुणापरोयं

योगीश्वरो यदपरं वचनं बभाषे ।

तत्सावधानमनसा सकलैर्मनुष्यै-

रालोकनीयमधुना पुरतः समेतम् ॥६२॥

इस प्रकार सातवें नियम में जो कुछ ऋषि ने बतलाया उसका वर्णन हो चुका । जो कुछ आगे कहेंगे वह आठवें नियम में वर्णित होगा ॥ ६२ ॥

यावन्न तत्पदगतो मनुजोपरः स्यात्

तावत्सभेयमधिकारिजनत्रयाणाम् ।

सिद्धेऽपराधविषयेपि बलाद्विदधान्

निर्वासनं न नियमानुगता दशायाम् ॥६३॥

किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराधों के सिद्ध (साबित) होने पर भी अलग न कर सकेगी जब तक कि उनकी जगह और योग्य सभासदों को नियत न कर ले ॥ ६३ ॥

एवं समस्तमुनिपूजितपादपद्मः

स्वामी त्रिधाय नियमं वसुतामुपेतम् ।

यद्यज्जगाद नवसे नियमे यमस्थ-

स्तत्सादरं शृणुत मानवमात्रवर्याः ॥६४॥

अनेक मुनियों ने पूजित किया है चरण युगल जिनका ऐसे ऋषि दयानन्द आठवें नियम में जो कुछ कह चुके वह आप लोगों ने देख लिया । अब जो कुछ आगे कहेंगे उसका वर्णन निम्न लिखित है ॥ ६४ ॥

यायान्मृतिं यदि च कोपि स पारिषद्यो-

यद्वा विरुद्धकरणे निरतः स्वयं स्यात् ।

तं सत्वरं मम सभा सकलानुमत्या

निर्वास्य तस्य विषयेऽपरमादधीत ॥६५॥

यदि किसी सभासद का देहान्त हो जावे अथवा वैदिक धर्म को छोड़ कर उक्त नियमों के विरुद्ध कार्य करने को उद्यत हो जावे तो सभापति को उचित होगा कि समस्त सभासदों की सम्मति से उसको अलग करे तथा उसकी जगह किसी और योग्य आर्य पुरुष को, जोकि वेदोक्त-धर्म युक्त कार्य करता हो, नियत करे ॥ ६५ ॥

एतद्विचारकरणां पुनरत्र कार्यं

यावन्नवीनमनुजोपगमो न भूयात् ।

तत्तत्पदेषु न कदापि ततः कथञ्चित्

पूर्वं नवीनकृतिरादरतो विधेया ॥६६॥

परन्तु सभापति को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अपने पद से निर्वासित सभासदों का स्थान आये हुए सभासदों से पूर्ण न हो तब तक किसी भी नवीन कार्य का, जोकि अब तक प्रस्तुत न हुआ हो, प्रस्ताव नहीं उठाना चाहिए । तब तक साधारण प्रस्तावों पर ही निर्णय होना चाहिए ॥ ६६ ॥

एवं विधाय नियमं नवमं यतीन्द्रो-

यत्सर्वभावमहितं पुनरप्युवाच ।

तत्के न कर्णपथमादरतोत्र लोके

नेष्यन्ति वैदिकपथानुगता मनुष्याः ॥६७॥

इस प्रकार आनन्दकन्द जगदानन्द ऋषि दयानन्द अपने मुखकमल से नर्वे नियम को कह कर जिस प्रकार दशम नियम को कहने के लिए उद्यत हुए वह सबका सब निम्न लिखित प्रकार से वर्णित है ॥ ६७ ॥

अस्याः समस्तविषयेष्वधिकार आस्ते

गोष्ठ्या नवीनवद्भुक्त्याविधानमार्गे ।

नव्योपचारकरणे निखिलेषु तेषू-

पायेषु चापि भवतादनिशं स्वतन्त्रा ॥६८॥

इस सभा को इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वह समय पर सब प्रकार का उचित प्रबन्ध करे तथा मेरी और मेरे कार्य की उन्नति किस किस प्रकार से होगी इस बात पर भी ध्यान दे ॥ ६८ ॥

स्त्रीये सभासुपगतस्य नवे विचारे

पूर्णां जनस्य यदि नो भवतात्तदातु ।

नूनं समाजगतसम्मतिरूपलेखै-

र्विश्वास आशु नियते समये विधेयः ॥६९॥

यदि सभा को अपने किये हुए परामर्श अथवा विचार पर पूर्ण रूप से निश्चय न हो या विश्वास न हो तो किसी नियत समय का निर्धारण करके अपने किये हुए निश्चय पर विश्वास होने के लिए लेख द्वारा समस्त आर्य-समाजों के सभासदों से उचित सम्मति ले लेवे ॥ ६९ ॥

भिन्नेषु भिन्नविषयानुगते विचारे

प्रायः समस्तपरिषत्पतिषु प्रकामम् ।

सारांशमेकदिवसे परिषद्विविच्य

कुर्यात्समस्तमपि तद्गृह्यपक्षसिद्धम् ॥७०॥

यदि आर्य-समाजों के सभासदों के भिन्न भिन्न विषयों पर अपने अपने विचार भिन्न हों तो उन सबके आये हुए विचारों को कए दिन नियत करके विचारा जावे और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध किया जावे ॥ ७० ॥

इत्थं विविच्य दशमं नियमं सुनीशो-

विन्द्यस्य चापि नियते समये परस्तात् ।

एकादशं नियममाशु ततान सोयं

सर्वैरपीश्वरसतानुगतैः समीक्ष्यः ॥७१॥

इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने दशवें नियम में जिन जिन बातों का उल्लेख किया उनका वर्णन हो गया । वे जो कुछ आगे कहने को उद्यत थे उन बातों का वर्णन निम्न लिखित प्रकार से है ॥ ७१ ॥

न्यूनाधिकत्वमथ मन्नियतप्रबन्धे

तत्स्वीकृतिर्विनियमादथवा विपक्षे ।

अस्वीकृतिर्नियतवाग्विषयस्य सर्वै-

र्गोष्ठीपतेः पुरतएव निवेदनीया ॥७२॥

जिस कार्य का जिस प्रकार मैंने प्रबन्ध किया है, यदि उसमें कुछ घटाना हो अथवा बढ़ाना हो, सर्व सम्मत होने पर उसका स्वीकार करना हो अथवा उसमें कुछ अस्वीकार हो तो सभा को चाहिए कि सभापति के पास भेजे ॥ ७२ ॥

कस्यापि सभ्यमनुजस्य विवासनं वा

भिन्नस्य तत्र विषये विनियोजनं वा ।

आयव्ययावपि धनस्य तथोपयोगं

दृष्ट्वा सभा परिषदः पतये ब्रवीत ॥७३॥

अयोग्य मालूम होने पर किसी सभासद को सभा से अलग कर देना अथवा उचित समझने पर किसी अन्य सभासद को सभा में नियत करना अथवा आमदनी और खर्च की जाँच पड़ताल करनी हो तो भी सभा सभापति को लिखे ॥ ७३ ॥

सर्वेषु तेषु धनहानिसमागमेषु

योग्यानुयोज्यकरणापटुरादरेण ।

वर्षे तदर्धदिवसेष्वथवा विविच्य

गोष्ठीपतिः सकलमेव शिवं विदध्यात् ॥७४॥

इन बातों के अतिरिक्त (अलावा) यदि धन-सम्बन्धी बातों में जाँच पड़ताल करने पर कोई हानि प्रतीत हो अथवा किसी प्रकार का लाभ प्रतीत हो तो सभापति को उचित होगा कि वह वर्ष भर में अथवा छः महीने में उसका निरीक्षण करे ॥ ७४ ॥

संमुद्रयन्त्रनिलयेऽखिलसभ्यवर्या-

नावेदयन्नियमितान्विषयान्क्रमेण ।

सर्वैक्यसम्मतिवशान्नवकार्य्यबन्धे

दद्यात्स्वसम्मतिसनेकजनानुकूलाम् ॥७५॥

स्वयं निरीक्षण करने के अनन्तर जो कुछ सभापति उस निरीक्षण किये हुए का परिणाम (नतीजा) निकाले उसको यन्त्रालय में छपवा कर चिट्ठी के द्वारा समस्त सभा के सभासदों के पास भेज दे और सर्व सम्मति के अनुसार किसी भी नवीन कार्य के लिए अपनी उचित सम्मति दे देवे ॥ ७५ ॥

एकादशं नियममेवमयं समाप्य

सर्वोपकारकरणाय कृतप्रयत्नः

यं द्वादशं नियममादरतो जगाद

सोप्येष कर्णपुटके क्रियतां मनुष्यैः ॥७६॥

इस प्रकार ग्यारहवें नियम में आवश्यक कतिपय बातों का नियमन करके जिन जिन बातों का स्वामीजी ने फिर प्रस्ताव उठाया उन सब बातों का वर्णन बारहवें नियम में होगा ॥ ७६ ॥

अस्मिन्मदीयनियमे यदि कोपि वादो-

जायेत तस्य शमनं स्वयमेव कार्य्यम् ।

नैवं भवेद्यदि तदा किल राजगेहे

तस्यार्पणेन शमनं विधिवद्विधेयम् ॥७७॥

यदि इस स्वीकार-पत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तो उसे राजगृह में न ले जाना चाहिए किन्तु जहाँ तक हो सके यह सभा अपने आप उसका निर्णय करले। यदि आपस में किसी प्रकार निर्णय न हो सके तो फिर न्यायालय से निर्णय होना चाहिए ॥ ७७ ॥

एवं विलिख्य यमिनांवर आदरेण

तं द्वादशं नियममादरतो यमारात् ।

नव्यं त्रयोदशमहो नियमं जगाद

सोयं न किं समभिवीक्ष्यत आदरेण ॥७८॥

इस प्रकार संन्यासियों के आचार्य ऋषि दयानन्द बारहवें नियम का भली भाँति वर्णन करके जिस तेरहवें नियम का वर्णन करने के लिए तैयार थे क्या आप लोग उसको नहीं देखेंगे ? अवश्य ही देखना होगा ॥ ७८ ॥

जीवन्नहं यदि किमप्युपकारबुद्ध्या

कस्मैचिदार्यपुरुषाय धनादिजातम् ।

सत्पारितोषिकमिषेण ददामि चेत्त-

न्न ग्राह्यमार्यमनुजैर्मयि मृत्युमाप्ते ॥७९॥

यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्य-पुरुष को पारितोषिक (इनाम) देना चाहूँ और उसकी लिखत पढ़त कराकर रजिस्ट्री करा दूँ तो सभा को चाहिए कि उसको माने और दे ॥ ७९ ॥

एवं यथोचितमलं प्रविधाय योगी

दैवान्नयोदशमिसं नियमं क्रमेण ।

मोदाच्चतुर्दशमपि प्रजगाद सोयं

सर्वैः स्वनेत्रविषयीक्रियतां मनुष्यैः ॥८०॥

इस प्रकार ऋषि दयानन्द को जो कुछ तेरहवें नियम में बतलाना था वह पूर्ण रूप से बतला दिया । अब जो कुछ चौदहवें नियम में बतलावेंगे उसे भी सज्जन अवलोकन करें ॥ ८० ॥

कालादतः परमलं मयि जीविते वा
लोकान्तरभ्रमणवासनया गते वा ।
उक्तान्मदीयनियमान्भुवनप्रमाणान्
केनापि कारणवशेन समस्तसभ्याः ॥८१॥

इस सभा को इस बात का पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वह मेरे अवशिष्ट जीवन में अथवा मेरे शरीरान्त होने पर उक्त नियमों को जोकि अब तक तेरहवीं संख्या तक पहुँचे हुए हैं किसी विशेष कारण से न्यूनाधिक करे परन्तु निम्न लिखित बातों ही के लिए करे ॥ ८१ ॥

देशोपकारकरणाय विशेषलाभ-
स्यार्थेऽथवा परहितोपगमाय सर्वे ।
न्यूनाधिकत्वपदवीमपि यापयेयु-
र्यस्मात्परोपकरणं सम मुख्यकृत्यम् ॥८२॥

यदि न्यूनाधिक करने पर कोई किसी प्रकार का मेरे अथवा मेरी सभा के लिए विशेष लाभ हो सके अथवा कोई परोपकार हो सके, चूँकि मेरा प्रधान कर्तव्य केवल परोपकार ही करना है ॥ ८२ ॥

एवं चतुर्दशमिमं प्रविधाय योगी
सर्वस्वमव्युपकृतौ विनियोजयित्वा ।
नीचैर्नियन्त्रितदलस्य चकार हर्षा-
द्वस्ताक्षराणि निजनामनिबोधकानि ॥८३॥

इस प्रकार चौदहवें नियम को समाप्त कर जो कुछ अपने पास था परोपकार के लिए सब कुछ सभा के अधिकार में करके शिक्षा-पत्र के नीचे भाग में अपने नाम के बतलानेवाले हस्ताक्षर किये, जो (हस्ताक्षर दयानन्दस्व-स्वती) इस प्रकार से उस पर विद्यमान हैं ॥ ८३ ॥

इत्थं समस्तमपि यल्लिखितं सुनीशै-
 रन्त्ये दले करुणया भयका तथैव ।
 श्रीपिङ्गलोक्तमधुमाधववृत्तबन्धे
 निर्माय दर्शितमनेकजनोपकारि ॥८४॥

शिक्षा-पत्र (वसीयतनामे) में जो भी कुछ ऋषि दयानन्द ने संसार के उपकारार्थ लिखा वह सबका सब महर्षि पिङ्गलाचार्य-प्रोक्त मधुमाधवी नामक वृत्त में मैंने भी लिख कर बतला दिया ॥ ८४ ॥

नेट्ग्विधं जलधिवेष्टितभूमिभागे
 केनाप्यकारि सनुजेन यथा महर्षिः ।
 सर्वोपकारकरणाय चकार शिक्षा-
 पत्रोदयं नियमनिर्मितगूढभावम् ॥८५॥

जैसा शिक्षा-पत्र इस संसार में ऋषि दयानन्द ने दिग्विजय के बाद बना कर दिया, इस प्रकार का आज तक किसी भी दिग्विजयी पुरुष ने नहीं दिया । इसलिए आपके समान परोपकारी न कोई हुआ और न होगा ॥ ८५ ॥

किं शङ्करेण कृतदिग्विजयेन लोके
 येनोदरंभरयएव समस्तभावैः ।
 काषायवल्त्रकृतभोजनभाजनाङ्काः
 संवर्धितानपरमित्यनिशं वदन्तः ॥८६॥

स्वामी शङ्कराचार्य ने जो बौद्धों के समय में दिग्विजय किया उससे क्या अधिक फल हुआ ? काषायवल्त्र की झोली बना कर भिक्षा माँगनेवाले 'अहं-ब्रह्मास्मि' के कहनेवाले उदरम्भरी ही संसार में बढ़ गये; कुछ धार्मिक कार्य की वृद्धि न हुई ॥ ८६ ॥

नादेयमम्बु न नदीपरिपालनाय
 यद्ब्रह्मदीपकलिका परदर्शनाय ।

तद्वत्सतामखिलमप्युपकारएव

भूमण्डले भवति नात्मकृतेर्यजातम् ॥८७॥

जिस प्रकार नदी का जल नदी के उपकार के लिए नहीं होता, जिस प्रकार प्रदीप का प्रकाश प्रदीप के उपकार के लिए नहीं होता, इसी प्रकार सज्जनों का पदार्थ केवल अपने ही उपकार के लिए नहीं होता, किन्तु भ्रैरों के लिए होता है ॥ ८७ ॥

आविर्भवन्नवनवोदितनव्यपर्णः

पार्श्वे समागतजनोपकृतौ सुकर्णः ।

आरण्यकोदितचतुष्पथपान्थवर्णः

कोप्यत्र भूमिवलये भवति प्रपर्णः ॥८८॥

पुराने पत्तों के गिर जाने पर नवीन नवीन पत्तों वाला, अपने पास आये हुए जनों के लिए राजा कर्ण के समान, जङ्गल के चौराहे पर चलनेवालों के लिए (वर्ण) घट-वृक्ष के समान, इस संसार में विरले ही होते हैं ॥ ८८ ॥

वातावधूननवशात्कचिदुद्गिरद्भि-

स्तोयं ऋचिन्न विषयेऽचलतामुपेतैः ।

धैर्येण सज्जनवरैः सकलोपकार-

सरूपादने कृतपदैर्जलदैर्न तुल्याः ॥८९॥

परोपकारी पुरुष के लिए मेघ की उपमा देना उचित नहीं । क्योंकि मेघ वायु के वेग से चञ्चल हो जाता है, कहीं बरसता है, कहीं नहीं बरसता । पर परोपकारी पुरुष ऐसे धीर होते हैं कि वे कभी चञ्चल नहीं होते । चञ्चलता उनसे कोसों दूर रहती है । वे विश्वमात्र के लिए उपकार करते हैं, सबका हित चाहते हैं ॥ ८९ ॥

धन्यः स कोपि जगतीतलचक्रवर्ती

येनेदृशं जगति कर्म कृतं परार्थे ।

कल्पद्रुमोपमितिमाप्तवता किमन्य-

द्वक्तव्यमस्ति विबुधैरपि कार्यमेवम् ॥९०॥


इस लिए उस ऋषि दयानन्द को कोटिशः धन्यवाद देने चाहिएँ कि जिसने केवल परोपकार के लिए कल्प-वृक्ष हो कर अपना सर्वस्व दे दिया । इससे अधिक मैं भी क्या कहूँ । केवल इतनाही वक्तव्य है कि आप के अनुसार और भी सज्जन महाशय परोपकार के लिए कटिबद्ध हैं ॥ ९० ॥

नवमिदमितिवृत्तं सर्वलोकेषु वेगात्
 कथयितुमिव याते देवदेवेपि भानौ ।
 कविरवहितचित्तः सर्वकृत्यं विहाय
 प्रमुदितमतिरेकं लोकनाथं नुनाव ॥६१॥

इस प्रकार इस सर्ग में वर्णन किये हुए नवीन चरित्र को लोकान्तरे में कहने के लिए जाते हुए भुवनभास्कर सूर्य को देख कर, एकाग्रचित्त कविरत्न भी अन्य कार्यों को छोड़ कर, प्रसन्नमन हो, उस अजर, अमर, अभय, अविनाशी, अनन्त, अनुपम, ईश्वर की स्तुति करने लगे ॥ ९१ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

सहस्रिनिर्मित-शिक्षापत्रवर्णनं नाम षोडशः सर्गः ।



सप्तदशः सर्गः

अथ लोकदर्शितपथः स मुनि-
र्मतजालखण्डनमनुक्रमितुम् ।
समदान्मतिं मतिमतां पुरतो-
निजगाद चेदमितिवृत्तमरम् ॥१॥

श्रीमती परोपकारिणी सभा और उसके नियम बन जाने पर, संसार-गत मनुष्यों को मार्ग बतलाने वाले श्री १०८ ऋषि दयानन्द, अनेक मतों के खण्डन के लिए प्रवृत्त हुए और उपास्थित सभ्यों के समक्ष इस प्रकार कहने लगे:—॥ १ ॥

यदिदं जनेषु जगति प्रथितं
निगमेतरानुगतशैवमतम् ।
तदिदं कथञ्चिदपि नाद्रियतां
विबुधैरनन्तनरकानुगतम् ॥२॥

यह जो आज कल संसार में वैदिक मार्ग से सर्वथा विरुद्ध और इसी लिए आशैव शैवमत प्रचलित हो रहा है इसका कोई आदर न करे, क्योंकि यह मत अनेक प्रकार की यातनायें भुगवाता है ॥ २ ॥

न मतानि वेदनिचये गदिता-
न्यलमत्र यानि बहुधा जगति ।
प्रथितानि तत्तदुपकल्पनया-
ऽधममानवैरनुकृतानि वृथा ॥३॥

जितने मत-मतान्तर आज कल संसार में प्रचलित हो रहे हैं, वह वेद से लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं रखते। इन मनमाने मतों को, मनमाने मनुष्यों के नाम से, मतिमन्द मनुष्यों ने ही चला रक्खा है ॥ ३ ॥

न शिवः कदापि जनिमेति परः

प्रथितं चकास्ति भुवने तदिदम् ।

परमेष योस्ति शिवनामपरः

स नटो न नेति हृदये ध्रियताम् ॥४॥

शिव, जिसमें कि सारा जगत् शयन करता हो, कदापि जन्म नहीं लेता। इसी लिए वह अजन्मा कहाता है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। परन्तु आज कल जो शिव माना जाता है, वह एक नटराज था। कोई योग्य पुरुष नहीं था ॥४॥

मृगचर्मधारणमिदं तनुते

वनभूमिवासकरणं परतः ।

बहुनर्तनं च डमरोरनुगं

नटतां न किं वदत दर्शयति ॥५॥

मृगचर्म आदि का धारण करना, जङ्गल में रहना, डमरू बजा बजा कर अनेक स्थलों में नाचना, यह इनकी अनुच्चकुलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और सर्वसम्मत है। देखिए, कविराज क्या कहते हैं—“अविरतं नृत्यतु हरः” गं० ल० ॥ ५ ॥

गलबाहुदेशविषयेषु कृतं

भुजगानुबन्धनमिदन्तनुते ।

जगतीतलेषु कणयाचकतां

चरवृत्तितामपि तथास्यबलात् ॥६॥

१ प्रमाणमप्यस्य नटत्वे लभ्यते यथा “नृत्यावसाने नटराजराज” इति नान्दिकेश्वर-काशिकायाम् ।

गले में और बांहों में साँपों का लपेटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह कोई भिक्षुक और गारुडिक (सँपैरा) साँपों का पकड़नेवाला था, जैसा कि मुद्राराक्षस में, चररूप से, उसका वर्णन आया करता है ॥ ६ ॥

नरमुण्डमण्डलकृता यदि चे-

निहिता गले स्रगपि तेन ततः ।

किमयं प्रयाति परमेश्वरतां

बहवो भ्रमन्ति भुवनेस्य समाः ॥७॥

मरघट में पड़े हुए नरमुण्डों की माला पहरना, कोई परमेश्वर होने में प्रमाण नहीं है । इस प्रकार के बहुत से पुरुष घूमा करते हैं । स्मशान में रहना, पिशाचों (राक्षस) से मिलना, आदि अनुचित बातें देख कर ही पुष्पदन्त ने लिखा है कि—“ अमङ्गल्यं शीलम् ” म० स्तो० ॥ ७ ॥

कथयन्ति मूढमतयो बहुधा

निहिता जटासु गिरिशेन नदी ।

क निरन्तरप्रसरणाभुवने

सरितो भवन्ति मनुजस्य वशे ॥८॥

बहुत से अनपढ़ कहा करते हैं कि नटराज ने गङ्गा जटाओं में रक्खी, परन्तु यह नहीं विचारते कि हर समय सिलसिलेवार बहनेवाली गङ्गा इतने दिन रुकी कैसे रही जो कई बन्ध लगाने पर भी नहीं रुकती ॥ ८ ॥

हिमपर्वतात्समुदयः सुतरां

स्वयमेव दर्शयति किं न वलात् ।

प्रकृतां जनैरधमवादकथां

धिगिमां समस्तनरकानुगताम् ॥९॥

गङ्गा का हिमालय पर्वत (गङ्गोत्तरी) से प्रकट होना क्या मनुष्यों की कल्पना को व्यर्थ नहीं बनाता, जोकि मनुष्यों ने जटाओं से कल्पित माना है ?

वास्तव में उनकी यह बात शोचनीय है। देखिए (भुवः प्रभवः) इस सूत्र के भाष्य में साफ़ लिखा है कि—“हिमवतो गङ्गा प्रभवति” ॥ ९ ॥

डमरोर्निबन्धनमिदं प्रथमं

मृगतर्णकानुगमनं परतः ।

बहुभिल्लरूपपरिधानमदः

सकलां निबोधयति तस्य कथाम् ॥१०॥

डमरू का बजाना, हिरनों के बच्चों को पालना, भील (एक प्रकार की जङ्गली जाति) का सा भेष बनाना, उसकी बातें जतला रहा है। इन्हीं बातों को देख कर भारतचम्पूकार ने आपके लिए “शवरत्वजुषः” पद का प्रयोग किया है ॥ १० ॥

वृषभोपसङ्गमनतोऽवगतं

बहुधा स्मशानगमनादपि च ।

नटएव नायमितरो जगतां

परिवञ्चनाय भुवने समभूत् ॥११॥

वैल के ऊपर चढ़ कर जाना, प्रायः मरघट में रहना, चिता में अधिकतर लोटना प्रत्यक्ष में हमको जतला रहा है कि यह कोई बना हुआ नट था, और अपना नाम जगत् में शिव बतलाता था ॥ ११ ॥

शशिलेखया गगनसङ्गतया

कथमस्य मूर्ध्नि विहिता वसतिः ।

कथना सृषैव शशिधारणजा

न विलोक्यते जगति पुंसु तथा ॥१२॥

चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली चन्द्रकला, भूतलचारी मनुष्य में क्यों कर आ गई ? यह भी एक बनावटी और जगत् में असम्भव बात है। परन्तु चन्द्रकला नाम का एक भूषण, भील जाति की स्त्रियाँ पहना करती हैं। शायद यह वही हो ॥ १२ ॥

अतिमादकद्रविणसेवनतः

स्वयमेव तस्य विषमास्ति मतिः ।

परतश्च बिल्वदलचर्वणया

वनमानुषत्वमुपयाति शिवम् ॥१३॥

भङ्ग, धतूरा आदि मादक द्रव्यों के सर्वदा सेवन से आप शिव की बुद्धि का पता तो स्वयं लगा सकते हैं कि—वह कहाँ तक ठीक थी और उनकी रही सही योग्यता वेलपत्रों के खाने से हो गई। कहिए, अब भी कुछ कसर रही ? ॥ १३ ॥

यदि भोजपत्रपरिवेष्टनतो-

धिकतां प्रयाति कदलीवसनम् ।

तदिदं न दृश्यतइहापि परं

तदभावएव मयकात्रमतः ॥१४॥

भोजपत्र से केले की छाल अधिक गरम और मजबूत नहीं होती, परन्तु आपके लिए उन भोजपत्रों का भी अभाव ही रहा। वह भी पूरे तौर पर शरीर ढाँकने को न मिले। देखिए, यह बात शिवपुराण आदि ग्रन्थों में लिखी हुई है ॥ १४ ॥

इति यस्य लोकपरिवञ्चकता

प्रथितास्ति तेन रचितं भुवने ।

मतमेतदद्भुतमतो न बुधैः

श्रवणीयमस्य चरितं विकृतम् ॥१५॥

जिस पुरुष की यह दशा थी, यह रईसी और यह रङ्ग ढङ्ग था, उस पुरुष ने इस जगत् में भोले भाले लोगों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए यह जाल फैलाया। अब भी यदि आप लोगों को विश्वास (इतमीनान) न हुआ हो तो और सुनिए ॥ १५ ॥

नयनत्रयन्तु बहुधा जगति

प्रतिवीक्ष्यते किल गवां विकृतौ ।

किमनेन तस्य जड़ता परमा

न मता भवद्भिरधुनापि रसात् ॥१६॥

प्रायः देखा गया है कि—छोटी गायों में कसाई लोग तीसरी आँख लगा कर कहा करते हैं कि—यह महादेव का नादिया है और नटराज के लिए भी त्रिनेत्र शब्द आया करता है जैसा कि—“पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं” इससे विकृताङ्गता तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। देखिए यास्काचार्य क्या कहते हैं (हानि-वदाधिक्यमप्यङ्गानां विकारः) इसका उदाहरण वामन देता है कि—यथा “अक्षणा काणः, तथैव मुखेन त्रिलोचनः” इति ॥ १६ ॥

बहुधा हिमालयतले जगति

प्रथितोस्ति रुद्रनयनो विटपः ।

फलमस्य वर्तुलमिहस्थजनै-

र्बहुवीक्ष्यते पशुगले निहितम् ॥१७॥

हिमालय पर्वत की तराई में रुद्राक्ष नाम एक वृक्ष प्रायः हुआ करता है, जिसका सछिद्रफल वहाँ के पुरुष पशुओं के गलों में बाँधा करते हैं। रुद्र की आँख से इसका पैदा होना, जटाओं से गङ्गा की तरह प्रत्यक्ष विरुद्ध है ॥ १७ ॥

किमनेन तस्य परमेश्वरता

वदतागता जनवरा यदिदम् ।

मतमस्ति. मन्दमतिभिर्विहिता

बहुकल्पनेति मयकानुमतम् ॥१८॥

यदि उस वृक्ष के फल कोई पुरुष कण्ठ आदि देशों में बाँध लेवे तो क्या परमेश्वर बन जायगा। मालूम होता है कि यह पन्थ मन्दबुद्धियों ने ही चलाया, नहीं तो इसमें इतनी असम्भव बातें न होतीं। इतने से “सस्वर्यं नीलकण्ठः” का निराकरण हो गया ॥ १८ ॥

अनुयायिभिः किल नटस्य नटै

स्तदभिन्नरूपभरणाजगति ।

मतमत्र शैवसमभिख्यमिदं

मनुजान्तरेषु कृतमादरतः ॥१६॥

उस नटराज के अनुयायी (पीछे चलनेवाले) लोगों ने उसके समान वेश धारण कर इस शैव मत को मन्दमतियों के हृदय में स्थापित किया है अर्थात् जैसे सेवक वैसे ही सेव्य । भद्रता किसी में भी नहीं ॥ १९ ॥

निधनं गते नटवरे परतो-

जडमूर्तिरत्र रचिता मनुजैः ।

प्रथिताधुनापि किल यत्करणा

निरयोन्मुखेषु मनुजेषु भुवि ॥२०॥

उस नटराज के मर जाने पर उसके पन्थाइयों ने उसके नाम की अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनवा कर उसके मत को चलाया जोकि अब तक चल रहा है और भङ्ग पिलवा रहा है ॥ २० ॥

अभवत्पुरा रजतशैलतटे

शिवनामवान्स तु महीपवरः ।

नृपवंशजो जगति यस्य कथा

कविभिः स्वकीयरचनासु धृता ॥२१॥

कैलाशपर्वत का राजा अर्थात् उस पर अधिकार रखनेवाला, जो शङ्कर-सिंह हुआ वह तो चन्द्रवंशी एक राजा था, जिसकी कथा (जीवनचरित्र) बहुत से कवियों ने बनाई है और वह प्रचलित है ॥ २१ ॥

हिमवन्महीपसुतया गिरिजा-

समभिख्यया जगति यस्य कृते ।

विहितं तपोन्यमनुजैरसहं

बहुधार्मिकः समभवत्स नृपः ॥२२॥

हिमगौर नामक राजा की आर्या नामक कन्या ने, जोकि मेनका से उत्पन्न हुई, जिसके लिए बड़ा दुश्चर तप किया, वह राजा शङ्करसिंह अति प्रतापी और वैदिक धर्म का अनुगामी हुआ था ॥ २२ ॥

परमेतदस्ति किल यत्प्रथितं

मतमस्य तेन न कृता जगति ।

रचना यतः स परमात्मपरो-

न शिवं क्षमो बहु विडम्बयितुम् ॥२३॥

यह जो आज कल शैव मत फैल रहा है वह उसका चलाया हुआ नहीं है क्योंकि वह ईश्वर का परम भक्त था । वह उसकी नकल नहीं कर सकता था । यह बात कालिदास ने निज ग्रन्थ में “आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तं” इस पद्य के द्वारा बतलाई है ॥ २३ ॥

मनुजः कथं भुजचतुष्टयवा-

न्यदि चेदिदं कथमयं मनुजः ।

विपरीतमेतदितरेतरता

स्वयमेव याति पशुमानवताम् ॥२४॥

इस प्रकार शैवमत की समालोचना करके अब वैष्णवमत की आलोचना करते हैं । देखिए सृष्टि क्रम के विपरीत मनुष्य चार हाथ वाला नहीं बन सकता । यदि है तो मनुष्यत्व से भिन्न है । ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं । यह भी कोई विचित्र जीव विशेष है जो कुछ मनुष्य के समान और कुछ और जीवों के समान है ॥ २४ ॥

जलधौ कथं निवृत्सनं प्रथितं

मनुजस्य सर्पमयविष्टरके ।

अयमप्यलं शिवपदानुगतः

प्रतिभाति कोपि नटएव नवः ॥२५॥

साँपों की बनी हुई शय्या पर समुद्र के अन्दर रहना मनुष्य धर्म से कहीं बहुत दूर है । इस प्रकार की गप्पें चलानेवाला यह भी कोई अजीब बाजीगर

मालूम होता है। इस मत का चलानेवाला कौलिक नामक बड़ई था। पंच-
तन्त्र में इसकी कथा पढ़िए ॥ २५ ॥

बहवो भवन्ति जलधौ मनुजा-
जलमानवेत्यभिधया प्रथिताः ।
किमुतेष्वयं किमथवा जलग-
स्तिमिरेष राघवसमानवपुः ॥२६॥

समुद्र के भीतर अनेक प्रकार के जल-जन्तु होते हैं। हो न हो यह भी
कोई जल-मानुष है। या यह कोई राघव मत्स्य जैसा अन्य ही जल-जन्तु
होगा। जल में अधिकतर रहना इस प्रकार के प्राणियों का ही काम है।
मनुष्य का नहीं ॥ २६ ॥

युगलन्तु तत्र नृपचिह्नमहो-
परिवीक्ष्यते जगति सर्वजनैः ।
परमस्ति चिह्नयुगलन्तु तथा
वनमानवेषु बहुधास्ति यथा ॥२७॥

दो चिह्न तो इसमें राजाओं के से दीखने हैं। एक गदा और दूसरा चक्र
का धारण; परन्तु दो चिह्न ऐसे हैं जो मनुष्यों में नहीं होते। एक शङ्ख दूसरा
कमल। भला गदा के साथ में कमल और चक्र के साथ में शङ्ख किस काम
के लिए उपयोगी बनेगा ॥ २७ ॥

यदि विष्णुरेष नगराधिपति-
र्जलधिप्रधाननृपकन्यकया ।
उररीकृतस्तदपि सेश्वरता
न कथञ्चिदत्र मयकानुसता ॥२८॥

यदि यह विष्णुकांची नामक नगर का राजा, कौलिक (बड़ई) माना
जावे और साथ में ही सामुद्रिक राजा की, लक्ष्मी नामक पुत्री से इसका
विवाह भी माना जावे तब भी यह परमेश्वर तो नहीं बन सकता ॥ २८ ॥

यदि विष्णुरेष परमात्मसमः
 कथमस्य जन्मचरितं प्रथितम् ।
 वसतिः कथं जलनिधौ शयनं
 पवनाशनेषु वनिता च कथम् ॥२९॥

यदि इसको परमेश्वर माना जावे तो बन नहीं सकता । क्योंकि वह अजन्मा है । इसका जन्म हुआ है । वह सर्वव्यापी है । यह समुद्रवासी है । वह हृदय-शायी है । यह सर्प-विष्टरशायी है । वह असङ्ग है । इसके साथ इसकी स्त्री लक्ष्मी भी है ॥ २९ ॥

अनुमीयते मतमिदं मयका
 मनुजैः कुतश्चिदधिगत्य कृतम् ।
 प्रथितं तदेव मनुजेष्वपि किं
 न हि चेदहो कुतश्चिदं समभूत् ॥३०॥

मालूम होता है यह पन्थ लोगों ने किसी की देखा देखी चलाया और जगत् में फैला दिया है । यदि ऐसा नहीं तो यह आया कहाँ से ? गरुड़ रूप विमान बना कर कौलिक बहई ने दो लकड़ी के हाथ बना यह नाटक खेला है । यह कथा पंचतन्त्र आदि में मिलती है ॥ ३० ॥

तिलकाङ्कनं जगति यत्प्रथितं
 बहुतप्तयाथ किल मुद्रिकया ।
 परतः स्वदेहदहनं च तथा
 मनुजावरेषु तदिदं प्रकटम् ॥३१॥

और तिलक छाप आदि का लगाना जो मनुष्यों ने आरम्भ किया वह भी उत्तम कोटि के मनुष्यों में नहीं देखा जाता ॥ ३१ ॥

न विलोक्यते क्वचिदिदं चरितं
 परमेश्वरस्तिलकवानिति यत् ।

न च मुद्रयापि दहनं मयका
परमेश्वरे जगति दृष्टमदः ॥३२॥

यह बात आज तक कहीं भी नहीं देखी गई कि निराकार परमेश्वर के भी तिलक लगे हुए हैं या वह तप्त मुद्राओं से दग्ध किया गया हो। यह समस्त मनमानी कपोल कल्पित बातें मूढ़ों ने चलाई हैं कि जिससे मनुष्य चकित होजावे। जब तक मनुष्य अजीब नक़ल नहीं करता, तब तक मन्दों का उसमें अनुराग नहीं होता ॥ ३२ ॥

निजकल्पनापरतया मनुजै-
विरचय्य वैष्णवमतन्तदिदम् ।
परिवञ्चितं सकलविश्वमहो
बहुधा पुराणघटनापि कृता ॥३३॥

मनिमन्दों ने अपनी कल्पनाओं द्वारा पूर्वोक्त मत से निराला यह वैष्णव मत चलाया है और इसके द्वारा मनुष्यों का बहकाया है। उसके साथ ही विष्णु के नाम का एक पुराण भी गढ़ डाला, जिससे सर्व साधारण में इस का प्रचार हो ॥ ३३ ॥

अतिचित्रमेतदपरं यदिदं
चतुराननोद्गमनमाचरितम् ।
उदरोद्गताब्जदलखण्डतले
नहि दृश्यतेत्र भुवने तदिदम् ॥३४॥

इस प्रकार वैष्णव मत की समालोचना होने के बाद ब्रह्मा की आलोचना करते हैं। देखिए, पेट (उदर) में से पैदा हुए कमल पुष्प के अन्दर से चारों तरफ़ जिसके मुख हैं ऐसी व्यक्ति का पैदा होना कितना असम्भव है ! ज़रा विचार तो कीजिए ॥ ३४ ॥

सलिलाशये भवति पद्मलता
मनुजोदरे न किल सा प्रथिता ।

नियमेतरच्चरितमेतदलं

परिहासमात्रकरणाय मतम् ॥३५॥

जो कमल तालावों के बीच में पैदा होता है और खास कर कीचड़ से; उस कमल की पहले तो मनुष्य के उदर से उत्पत्ति ही कपोल-कल्पित है। ऐसी नियम-विरुद्ध बात का गढ़ना केवल विद्वानों में कल्पान्त तक हँसी कराना है ॥ ३५ ॥

यदि पद्मकोषवसतिभ्रमर-

श्चतुराननः स कथमेतदपि ।

नियमाद्विरुद्धमुदियायमते

न कथञ्चिदेति सम तच्चरितम् ॥३६॥

यदि कमल के अन्दर बन्द हुए भ्रमर (भैरं) को हम चतुरानन माने, तब भी ठीक नहीं, क्योंकि नियम विरुद्ध है। वहाँ पर पद्मकोष में बन्द हुआ भ्रमर चतुरानन नहीं किन्तु कुण्ठितानन हो जाता है। देखिए “ निष्क्रियो-भवति पङ्कज मध्ये ” ॥ ३६ ॥

परितो मुखानि यदि तस्य कथ

शयनक्रिया भवति सा यदि वा ।

परिमर्दनं न कथमस्य भवे-

न्मुखनासिकाद्यवयवानुगतम् ॥३७॥

यदि सर्वतोमुख होने से उसके एक विकृताङ्ग पुरुष मानें तो भी उसकी व्यवहार-कल्पना किसप्रकार की मानें। एक मुख से भोक्ता मानें, या चारों से; और सोने के लिए किस कम्पनी का पलंग मगवायें, जिससे सर्वतोभव मुखों का परिमर्दन न हो ॥ ३७ ॥

मनुजैः श्रुतं कचिदिदं चरितं

मनुजो विहङ्गमधिरुह्य स्वगः ।

विचरत्यहो विहगवज्जगतीं

धिगियं मनुष्यरचना जगति ॥३८॥

और भी देखिए, चार मुख, आठ हाथ वाला अथवा एक मुख चार हाथ वाला पहले तो मनुष्य ही बनाना सृष्टि-क्रम के विरुद्ध कल्पित है, तथापि उनके लिए पक्षिरूप सवारी का होना और भी कल्पित है। कहाँ तक निर्वाह करें ॥ ३८ ॥

किमिदं वदामि चरितं विकृतं

मनुजैरिहापि बहुधाऽऽचरितम् ।

जडमूर्तिमश्मरचितां परतः

परिकल्प्य पूजनमदो विततम् ॥३९॥

लोगों ने जिस मूर्तिपूजा का इस भारत में प्रचार किया है उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। निराकार ईश्वर की मनमानी प्रतिमा बना कर उसे बदनाम कर उसके द्वारा खाने कमाने का भी ढंग निराला ही बनाया है ॥ ३९ ॥

निखिलेपि येन भुवने सुतरां

परमात्मना रचितमन्नजलम् ।

पुरतोस्य सत्करणमश्ममये

विनिवेद्य हास्यमिदमाचरितम् ॥४०॥

जिस ईश्वर ने समस्त भुवनों में प्राणियों का निर्वाह-साधन, अन्न और जल आदि बनाया, उसको एक जड़ पत्थर की मूर्ति में, जोकि कारीगरों ने बनाई है, बिठला कर रोटी, पानी आदि से उसका आदर किया है ॥ ४० ॥

रविचन्द्रतारकसमूहकरं

परमेश्वरं जडमयप्रकृतौ ।

विनिधाय दीपशिखया विहिता

बहु हास्यमेतदनलप्रतिभा ॥४१॥

सूर्य, चन्द्र, तारा आदि अनेक प्रकार के प्रकाशक पदार्थों को जिस ईश्वर ने प्रकाशित किया उसको अप्रकाश (प्रकाशरहित) एक मूर्ति में बिठला कर दो बच्चियों की रोशनी दिखाना आरम्भ किया। यह उसका कितना अपमान है ॥ ४१ ॥

भुवनेश्वरं नियतदेशपतिं

यदि कल्पयेदहह तस्य कथम् ।

न भवेदनन्तनवदुर्दशया

नरकेष्वलं नियतमेव गमः ॥४२॥

जो पुरुष समस्त विश्वपति को एक जड़ पदार्थ का पति मान कर उसका अपमान करना आरम्भ करे, उस पुरुष का, यदि अनेक प्रकार की यातनाओं में गिर कर दुःख भोगना न हो, तो और क्या हो ? यही उसके लिप दण्ड है ॥ ४२ ॥

मदमांसभक्षणपरैर्मनुजै-

रिदमत्र शाक्तमतमप्यपरम् ।

प्रथितं यदस्ति सकले जगति

प्रतिवीक्ष्यतामहरहो निहितम् ॥४३॥

इस प्रकार कल्पित ब्रह्मदेव की समालोचना कर, शाक्तमत की आलोचना करने हैं। देखिए, आज कल जो जगत् में शाक्तमत प्रतीत होता है, इसको मद्य और मांस खानेवालों ने चलाया है। चूँकि इसका यही "महा-प्रसाद" है ॥ ४३ ॥

क पराऽऽत्मशक्तिरनिरीक्ष्यकला

क जडाऽऽत्मशक्तिरतिमांसपरा ।

न कथञ्चिदत्र मनुजैः क्रियता-

मितिभावना जडभयप्रकृतौ ॥४४॥

निराकार ईश्वर के साथ रखनेवाली कहाँ निराकार शक्ति ! कहाँ फिर जड़मूर्ति में कल्पना की हुई मद्य, मांस, रक्त खानेवाली शक्ति ! इस मत में

किसी भी बुद्धिमान् पुरुष को पढ़कर अपना पवित्र जन्म नष्ट नहीं करना चाहिए ॥ ४४ ॥

यदि शक्तिरेकपरमेश्वरगा

दशधाऽथवा च नवधापि च सा ।

कथमागता सकलशक्तिमयं

परमेश्वरं प्रतिविहाय भुवम् ॥४५॥

यदि इस शक्ति को ईश्वरीय शक्ति माना जाय तो सर्वशक्तिमान् उस ईश्वर को छोड़ कर अकेली यह शक्ति यहाँ आई क्यों, धार निराकार शक्ति में, अष्टभुजा, दशभुजा, चतुर्भुजा आदि भेद क्यों कर हो सकते हैं ? ॥ ४५ ॥

समवायतः परतरे सततं

निहितापि सा यदि ततः प्रचलेत् ।

गतशक्तिरेव तदहो जगतां

प्रभवेत्पतिः कथमिदं प्रभवेत् ॥४६॥

समवाय सम्बन्ध से, सर्वदा ईश्वर में रहनेवाली शक्ति, यदि ईश्वर को छोड़ कर अन्यत्र चली जावे, तो उतनी देर तक वह परमात्मा अशक्त माना जायगा । यदि ऐसा माना जायगा तो जगत् का पालन-पोषण नहीं बन सकता ॥ ४६ ॥

यदि पार्वती पतिरता स्वपतिं

परिहाय सत्कुलभवा विचरेत् ।

जगतीतले कथमतिप्रथितां

क सती क चाथ कुलटा विकटा ॥४७॥

यदि कहा जावे कि यह शक्ति पार्वती का ही रूपान्तर है तो एक रूप से उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाना है । पतिव्रता पार्वती अपने पति को छोड़ क्यों कर संसार में विचरेगी ? यदि विचरेगी तो पतिव्रता क्यों कर रहेगी ? ॥ ४७ ॥

नरकोन्मुखैरिह कृता मनुजै-
 नवतन्त्रमन्त्ररचना जगति ।
 न कदापि सा मनुजधर्मपरा
 पशुतानुरूपघटनानुगमात् ॥४८॥

इसलिए जगत् में जितनी शाक्तमत फैलानेवाली तन्त्र मन्त्र आदि की रचना है, उसको मूर्ख जनों ने अपने निर्वाहार्थ चलाया है। काली, तारा, त्रिपुर-सुन्दरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, मातङ्गी, कमलात्मिका आदि कल्पित नाम एवं रूप बना कर लोगों ने मनुष्यों को इस पन्थ में प्रवृत्त किया है ॥ ४८ ॥

महदद्भुतं मनुजवत्सकलं
 पशुवद्विधाय वदनाऽऽरचनम् ।
 गणपेति तस्य कथनाकरणं
 खनकात्मकेथ शकटे गमनम् ॥४९॥

इस प्रकार शाक्त मत की आलोचना कर गणपत्य की आलोचना आरम्भ करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक जन्तु को आधा पशु और आधा मनुष्य बना कर उस का नाम गणेश धरदिया है और उसकी सबारी में चूहा लगा दिया है ॥ ४९ ॥

क्रमुकात्मके गणपतौ मनुजै-
 नवतन्तुजालमभिवेष्ट्य मुधा ।
 भुवनेषु येषु रचना विहिता
 यदरं भवेत्तदधिकं न पुनः ॥५०॥

जिस जगत् में (क्रमुक) सुपारी को गणेश मान उस पर तागा लपेट मनुष्यों को बहकाया उसमें जो कुछ हो सब थोड़ा है। सुपारी के गणेश का पूजन करना मनुष्यों की अद्वितीय मन्दता में सर्वोच्च प्रमाण (सबूत) है ॥५०॥

अभवत्पुरा गणधरात्मतया

मनुजाधिपः स किल नाशमगात् ।

अवनीतले मिथुनभावगतः

स च हूणदेशवसनोप्यभवत् ॥५१॥

पहले एक किन्नर देश में गणधर नाम का राजा हुआ था जो अपने बल से हूण देश का राज्यकारी बन अपना जीवन वहीं व्यतीत कर गया था ॥५१॥

तदनुव्रजैर्गणपतेरधुना

मतमेतदत्र रचितं जगति ।

कथमत्र कोपि मनुजो भवता-

द्विदुषां मते यदि भवेत्स जडः ॥५२॥

उस राजा के अनुचरों ने वहीं पर उसके मर जाने के बाद इस मत को खलाया जो अब तक जगत् में प्रख्यात है। आप जैसे विद्वानों के मत में यह मत ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि मूर्ख पुरुषों के लिए होना चाहिए (या उचित हो) ॥ ५२ ॥

न निरीक्ष्यते क्वचिदिदं चरितं

वनिता मलाजनिमित्तो मनुजः ।

यदि वा भवेत्स न करोति महत्

प्रधनं स्वभावतद्दं प्रथितम् ॥५३॥

जो इस गणेश का इस प्रकार कथानक बनाया गया है कि वह पार्वती के मैल से पैदा हुआ है, वह असङ्गत है। मनुष्य और पशुओं के सृष्टि-क्रम से विरुद्ध है। यदि हुआ होगा तो जूँ की योनि में हो सकता है परन्तु वह युद्ध नहीं कर सकता ॥ ५३ ॥

अभवद्गणेशइति कोपि बुधो-

भुवि भारतं समलिखद् बहु यः ।

स ममार पूर्वमुदितो मयका
नरएव सोपि न पशुर्विकृतः ॥५४॥

गणपति नामक एक विद्वान् भी व्यास के समय में उत्पन्न हुआ था जिसने महाभारत लिखा और बढ़ाया है। परन्तु वह विद्वान् इस मत का चलानेवाला नहीं हुआ। क्योंकि वह नास्तिक और चार्वाक मत का मानने वाला था ॥ ५४ ॥

यदि नानकेतिमनुजेन कृतं
मतमादरान्नयति नारकिताम् ।
गमनोन्मुखैः किमिति नाद्रियते
सुलभोयमस्ति किल तस्य पथः ॥५५॥

इस प्रकार परिकल्पित गणपति मत की आलोचना कर और मतों की आलोचना आरम्भ करते हैं। यदि संसार में नानक का चलाया हुआ मत उच्छुद्धमार्ग में जाने के लिए सबसे सीधा मार्ग है तो उसके लिए मार्गान्तर की क्या अपेक्षा है ॥ ५५ ॥

परमात्मवादपरकैरितर-

द्यदिदं मतं विरचितं तदपि ।
यदि सत्यमस्ति मरणं न पुनः
प्रभवेत्तथाविधमतेषु नृणाम् ॥५६॥

“अहं ब्रह्मास्मि” के माननेवालों का यदि मत सच्चा है तो उस पर चलनेवाले मरण धर्म को क्यों प्राप्त होते हैं? ब्रह्म कदापि न मरता, न जीता और न पैदा होता है ॥ ५६ ॥

अहमेव तत्त्वमिति सैति कथा
नवमुण्डिभिर्विरचिता जगति ।
मनुजान्करोति बहुनास्तिकता-
निरतानतो न विबुधानुमता ॥५७॥

“अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि” आदि महावाक्यों की कथा नवीन मुण्डियों ने बना कर खड़ी की है। यह मनुष्यों को नास्तिक बना देती है इसलिए यह अवैदिक है ॥ ५७ ॥

अयमस्ति चेति वचनं यदि तं
परमेश्वरं कथयति प्रथितम् ।
न निरूपणं विगतरूपमयं
पुनरत्र तिष्ठति कथञ्चिदपि ॥५८॥

यदि “अयमात्मा ब्रह्म” यह वचन परमेश्वर को निर्दिष्ट करता है तो उस का स्वरूप अनिर्देश्य नहीं रहता। ‘अयमात्मा’ यह निर्देश साकार में बनता है, न कि निराकार में। परमात्मा तो वाणी का भी विषय नहीं है। “यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचुः” ॥ ५८ ॥

यदि जीवएव परमेश्वरता-
मुपयाति तर्हि कथमत्र मता ।
बहुलक्षणा प्रकृतिवादपरा
निरूपद्रवं भवतु सर्वजगत् ॥५९॥

यदि कहो कि जीव ही ईश्वर बन जाता है। ईश्वर कोई भिन्न पदार्थ नहीं, तो फिर उसमें तटस्थ लक्षण या स्वरूप लक्षण (जन्माद्यस्य यतः) त० (अकायमव्रणम्) स्व० आदि आदि प्रकृति से भिन्न क्यों लगाते हो? ब्रह्म में तो कोई प्रकार का उपद्रव ही नहीं रहता ॥ ५९ ॥

प्रकृतेर्विकार इह कं श्रयतात्
परिहाय जीवघटनां त्रिगुणाम् ।
परमेश्वरोपगममिच्छति चे-
न्न पुनः कथञ्चिदपि सोऽस्य गुणः ॥६०॥

जितना यह प्रकृति का विस्तार जीवों के सम्बन्ध से अनेक रूप होकर प्रतीत होता है यह भी नहीं रह सकता। क्योंकि जीव ईश्वर बन गया।

यदि परमात्मा में ही उस प्रकृति का सम्बन्ध मानें तो वह बनता नहीं ।
ईश्वर केवल साक्षी है और स्वयं निर्गुण है ॥ ६० ॥

अभवत्स कोपि मतमूलधरो-

बुधनामवानधमभूतकथः ।

निगमेतराऽधुनिकवादपरो-

विहितं नु येन भुवि बौद्धमतम् ॥६१॥

इस प्रकार मायावादियों की समालोचना कर आगे चलते हैं । मतों की प्रथा जगत् में चलानेवाला सबसे प्रथम एक बुद्ध हुआ, जिसने वैदिक सिद्धान्तों को न मान कर एक नया बौद्धमत अपने नाम से प्रचलित किया ॥ ६१ ॥

द्विमाप्तवत्यथ कथञ्चिदितो-

जगतीतलात्तदनुगैर्मनुजैः ।

तदभावतः प्रतिकृतिर्विहिता

रचितापि चास्य बुधदेवकथा ॥६२॥

उस बुद्ध के पश्चात् उनके मत के चलानेवाले लोगों ने सबसे प्रथम एक उसकी प्रतिकृति—मूर्ति—बनाई और उसके नाम की कथा बना कर जगत् में उसको विख्यात किया । कथा और पुराणों का प्रसंग भी यहीं से आरम्भ हुआ ॥ ६२ ॥

परतो बभूव जिनदेवकथा

जगतीतलेऽवरपथानुगता ।

बहवः समेत्य किल यां मनुजा

विमतिं गता इति मयानुमितम् ॥६३॥

इसके अनन्तर संसार में जिन देव की कथा प्रकट हुई और इस मत के अनेक भेद बने । इसने भी संसार में मूर्तिपूजा का सिलसिला जारी किया और बहुत से लोगों में यह मत फैल गया ॥ ६३ ॥

तदनुव्रजैर्नवपुराणधरै-

र्मतभेदकल्पनधिया रचिता ।

लघुकालतो भुवि सनातनतां

प्रगताधुना तु जड़मूर्तिकथा ॥६४॥

जैनों के साथ भोले हिन्दुओं ने भी उनकी देखा देखी कुछ मनमानी मूर्तियाँ बनाईं और उनके नाम के नये ग्रन्थ बना कर उनका नाम पुराण रक्खा । उनमें यह प्रसिद्ध किया कि ईश्वर अवतार धारण करता है और मत्स्य, कूर्म, वराह आदि योनियों में आता है ॥ ६४ ॥

अनलङ्कृता नरमयी रहिता

वसनैर्जिनस्य रचिता प्रतिमा ।

मतमादरादनुगतैर्मनुजै-

रचनापि सा जिन पुराणमयी ॥६५॥

सिलसिला भी देखिए । जैनों ने अपने मन्दिरों में भूषणरहित दिगम्बर (नग्न) और एक मूर्ति बना कर उसका पूजन आरम्भ किया । इसी लिए सबसे अधिक अजायबघरों में जैन-मत की नग्न मूर्तियाँ ही मिलती हैं और वह सब औरङ्गजेब के द्वारा तुड़वाई हुई मिलती हैं ॥ ६५ ॥

अतिभूषणा युगलभावगता

वसनैर्वृता तदितरैर्मनुजैः ।

परिकल्पिता निरयमार्गमयी

प्रतिमा नृणां तदनुगा च कथा ॥६६॥

हिन्दुओं ने उनके स्थान में उनके विरुद्ध अच्छे प्रकार अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहना कर युगल जोड़ा अर्थात् एक स्त्री और एक पुरुष की मूर्ति स्थापन की और युगलरूप की ही कथा भी लिख डाली ॥ ६६ ॥

उभयेपि ते निगमभिन्नमते

निरता नयन्ति जनतां कुपथम् ।

परिदृश्यते तदिदमत्र जनै-

रितरेतरोदितमताश्रयणात् ॥६७॥

यह दोनों मूर्तिपूजा के प्रचारक अर्थात् जैन और हिन्दू वैदिक सिद्धान्तों से विमुख होकर मनुष्यों को बहकाने के लिए आपस में मिले हुए से काम करते हैं और सामान्य पुरुषों को भ्रम में डालते हैं ॥ ६७ ॥

तदिदं जनैर्जिनमतादुदितं

परिपूजनं जडाशिलानुगतम् ।

परिहाय सेव्यमनुरागवशा-

दधुना विधिप्रणिहितं सकलम् ॥६८॥

इसलिए जैनों से चली हुई मूर्तिपूजा को छोड़ कर अब मनुष्यों को चाहिए कि सच्चे वैदिक मार्ग का भक्तिपूर्वक अवलम्बन करें और वेद में कहे हुए आचरणों का ही बर्ताव कर समस्त आनन्द के भागी बनें ॥ ६८ ॥

करणं न यस्य मुनिभिर्गदितं

न च रूपमप्यथ च नो जननम् ।

सकलेष्टदश्च किल यो जगतां

परिपालने च निरतः सततम् ॥६९॥

जिस ईश्वर का कोई कारण नहीं है और जो नीरूप होकर जगत् का साक्षी और कर्मों का फल देनेवाला है तथा समस्त जगत् का जो पालन-पोषण करनेवाला है उस एक सच्चिदानन्द रूप ईश्वर को मानो और कुछ नहीं ॥ ६९ ॥

इति सर्वथा जडमतप्रथनां

क्रमशो निवार्य्य मुनिराडऽवरम् ।

सकलं पुराणरचनञ्च ततः

परतो बभूव मुदमेव गतः ॥७०॥

इस प्रकार उपस्थित महाराजाओं के समक्ष महर्षि दयानन्द सरस्वती क्रमशः मूर्तिपूजा का निषेध, मतेों की आलोचना और पुराणों का ढकोसला बतला कर मन में अति प्रसन्न हुए और अद्वितीय यश के भागी बने ॥ ७० ॥

मनुजाधिपोपि सकलं यमिनां
परिपीय वाक्यनिचयं मुदितः ।
निगमेतरां प्रकृतिपूजनगां
मतिमुद्धरन्यमपरः समभूत् ॥७१॥

महाराणा सज्जनसिंहजी भी आपका यह अमृतातिशायी (अमृत से भी अधिक) मीठा उपदेश सुन प्रसन्न हुए और तन, मन, धन से वैदिक-धर्म का पालन कर नगर में अवैदिक मत का उच्छेद करते रहे ॥ ७१ ॥

जनतोत्सवे सुतसमुद्भवने
मुनये मुदाधनमदाज्जनपः ।
मुनिरप्यनाथजनतोषकृते
नगरान्तरं तदभिनोदितवान् ॥७२॥

महाराणाजी के जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब उन्होंने आठ सौ रुपये आपके अर्पण किये । आपने भी उस द्रव्य को अग्राह्य समझ कर अनाथालय फ़ीरोजपुर के लिए भिजवा दिया । वास्तव में “राजाभन्तेजआदत्ते” यह ठीक है ॥ ७२ ॥

गमनोत्कतामनुगते परमां
मुनिनायके स शिविकादिमयम् ।
सकलं विधाय करणं जगदे
यमिनांवरं परमनम्रतया ॥७३॥

स्वामीजी ने जब यहाँ से जाने की इच्छा प्रकट की तब महाराणाजी ने सब पालकी आदि का प्रबन्ध किया और दो सहस्र मुद्रा आपकी भेट की, जिसको आपने तुरन्त परोपकारिणी के भेट किया । अन्त में महाराणाजी अति गद्गद होकर कहने लगे— ॥ ७३ ॥

भगवन्भवान्स्वरचितां यदि तां
 विवृतिं विमुद्रयितुमेष्यति माम् ।
 ऋतुदर्शनेषु तदहं द्रविणं
 सकलं तदर्थमरमेव पुनः ॥७४॥

यदि आप स्वयं किया हुआ षड्दर्शनों का भाष्य छपवावें तो बीस हजार उसके छपने के लिए मैं हों.....इतना कह कर आपसे कुछ बोला न गया । वास्तव में वियोग समय का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है । मनुष्य का गला स्वयं गद्गद हो जाता है ॥ ७४ ॥

इतिवादिनं तमाधिकं पुरतो-
 नृपतिं तथास्त्वतिवदन्मुनिराद् ।
 प्रजगाम तत्परतरं नगरं
 मनुजाधिवाह्यमधिरुह्य सुखम् ॥७५॥

उस समय महाराणा साहब हाथ जोड़ कर अधोमुख खड़े थे । उनकी आँखों में जल भर रहा था और वाणी गद्गद हो रही थी । उनकी यह दशा देख कर महर्षि ने “तथास्तु” कह कर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया । इस प्रकार १ मार्च सन् १८८३ ईसवी को आप उदयपुर से शाहपुरा पधारे ॥ ७५ ॥

प्रगते मुनौ सकलहर्षकरे
 तदनुव्रजैर्जनवरैर्विहिता ।
 महती समाजघटनात्र पुरे
 महतां महत्त्वमिदमेव परम् ॥७६॥

आनन्दकन्द जगदानन्द ऋषि दयानन्द के प्रस्थित होने के पश्चात् उदयपुर में भी नियमानुसार समाज का कार्य आरम्भ होने लगा । कई प्रतिष्ठित महोदय इस समाज के सभासद् बने और उत्साह से काम करने लगे ॥७६॥

नगरेषु वर्त्मनि गतेषु मुनि-
बहुसंवसन्नरवरार्थनया ।

बहुधाऽऽर्यमन्दिरकृतोद्यमनः

प्रययौ महत्पुरमपि क्रमशः ॥७७॥

शाहपुरे के लिए प्रस्थित होकर ये स्वामीजी मार्ग में नीमाहेड़, चित्तौड़ आदि नगरों में कामदारों के विशेष अनुरोध से ठहरते हुए वैदिक धर्म का उपदेश देते थे और आर्य-मन्दिरों के लिए प्रेरणा करते जाते थे ॥ ७७ ॥

दिनएव तत्पुरमवाप्य यति-
नववाटिकोदरगतोच्चशिले ।

सिकतान्धुसन्निधिमितेन्यवस-

त्कृतसर्वलोकनमनो भवने ॥७८॥

इस प्रकार स्वामीजी क्रमशः ठहरते हुए ९ मार्च सन् १८८३ ईसवी को चार बजे दिन के शाहपुरा पहुँच गये और रेतिया कुए के पास नाहरनिवास नामक बाग में, जहाँ कि आपके ठहरने का पहले ही से प्रबन्ध हो चुका था, उतरे ॥ ७८ ॥

नगराधिपोपि सकलं करणं
स्वयमेव देवसविधे नितराम् ।

मुदमाप देवकथनाधिगतं

स विधाय सर्वमनमच्च मुदा ॥७९॥

महाराजा शाहपुरा ने जो कुछ आपके लिए उपयुक्त आवश्यक पदार्थ थे सबको एकत्र कर दिया, जिससे किसी प्रकार का दुबारा कष्ट न उठाना पड़े और आपके चारों तरफ पहरा बिठला दिया, जिससे बिना आपकी आज्ञा के कोई अन्दर न आ सके ॥ ७९ ॥

विहितासनो मुनिवरः परतः
 प्रथयाम्बभूव निजमागमनम् ।
 मतवादभञ्जनपरां च कथां
 सकलेपि राज्यपरिषत्पटले ॥८०॥

आपने भी यहाँ आने के साथ ही वैदिक धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया और साथ ही अनेक प्रकार के मतों का खण्डन भी आरम्भ कर दिया । इससे समस्त रियासत में आपके आने का यश फैल गया ॥ ८० ॥

मनुजाधिपं प्रतिदिनं नियतं
 घटिकात्रयं मनुकृतां रचनाम् ।
 मुनिराडऽनुग्रहतएवपरं
 समबोधयत्स च मुदाभ्यपठत् ॥८१॥

महाराजा को प्रतिदिन नियमपूर्वक सायंकाल के समय तीन घण्टा आप मनुस्मृति को, जो राजाओं के लिए अवश्य पढ़नी चाहिए, पढ़ाया करते थे । महाराजा भी उस समय विनयपूर्वक जी लगा कर पढ़ा करते थे ॥ ८१ ॥

मनुनिर्मिते मुनिवरः सकलं
 समबोधयन्मिलितपद्यचयम् ।
 मनुजेश्वरं प्रकरणान्वयतो-
 न मिलन्ति धूर्तकृतयः सुकृते ॥८२॥

मनुप्रणीत धर्मशास्त्र में जितने श्लोक प्रक्षिप्त थे आपने महाराजा को प्रकरणशः सब बतला दिये और उनसे कह दिया कि आज से आप इन श्लोकों को प्रामाणिक न मानें । ठीक भी है, विद्वानों के लेख में अविद्वानों का लेख छिपा नहीं रहता ॥ ८२ ॥

अथ योगशास्त्रमपि तं नृपतिं
 परिपाठयन्विधिविधानयुतम् ।
 कण्ठभुग्निनिर्मितमपि क्रमशः
 समबोधयत्सकलमात्मगतिः ॥८३॥

मनुस्मृति पढ़ने के बाद आपने महाराजा को योगदर्शन पढ़ाया । उसके साथ साथ प्राणायाम की रीति भी बतलाई । अन्त में कणाद ऋषि-प्रोक्त वैशेषिकदर्शन भी आपने राजा को पढ़ाया जिससे महाराजा शाहपुरा निपुण हो गये ॥ ८३ ॥

परतः प्रसङ्गवशतो मुनिराङ्
 द्विजमेकमानतमुदारगुणम् ।
 पदयोर्निवेदनत आत्मबला-
 दकरोद्विधानवशतः स्वसमम् ॥८४॥

प्रसंग से यहाँ पर आपने एक ब्राह्मण को, जोकि आपसे कई बार प्रार्थना कर चुका था, संन्यास-दीक्षा को ग्रहण कराया और उसको दण्ड देकर उसका नाम ईश्वरानन्द सरस्वती रखवा । उसको असद्रुति से सद्रुति का मार्ग बतला दिया ॥ ८४ ॥

कृतकृत्यतामुपगतः स जनो-
 बहुधा विदन्नपि पुनः पठने ।
 कृतनिश्चयो यतिवरैः क्रमशो-
 विनियोजितः प्रतिजगाम ततः ॥८५॥

यद्यपि वह कृतकृत्य होकर पहले भी कुछ लिखा पढ़ा था, परन्तु पढ़ने में उसकी अधिक रुचि देख कर आपने उसको विद्योपार्जन ही में फिर प्रवृत्त किया और यहाँ से उसको इलाहाबाद (प्रयाग) भेज दिया ॥ ८५ ॥

मुनिना निजानुव्रशतो नियत-

प्रतिबन्धबन्धनविधानवशात् ।

निजनिर्मिते निगमयन्त्रगृहे

विनियुक्तएव किमतोप्यधिकम् ॥८६॥

उस समय प्रयाग में आपका वैदिक यन्त्रालय उपस्थित था । आपने उस ईश्वरानन्द के ठहरने और पढ़ने आदि का सुभीता देकर उसी में रहने के लिए कह दिया । वह ईश्वरानन्द यहाँ आकर रहने लगा ॥ ८६ ॥

प्रतिमासमाप्य किल सोपि मुदा

“कलदार” पञ्चकमतिक्रमया ।

मुनिनायकस्य परमेश्वरतो

नितरामवाप च विबोधकलाम् ॥८७॥

निर्वाह के लिए एक पत्र वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकर्ता को लिख दिया कि ५) रुपये मासिक ईश्वरानन्द को दिया जावे । तदनुकूल पाँच रुपये उनको मिलते रहे और आपकी कृपा से वे पढ़ने में कृतकार्य हुए ॥ ८७ ॥

इह चापि केचिदविनीततराः

सबलेन तेन मुनिना प्रसभम् ।

कृतशङ्कनाः परमगर्वरताः

प्रमदारताः प्रतिदिनं प्रहताः ॥८८॥

यहाँ पर रामसनेहियों के सबसे बड़े एक महन्त रहते थे । वे प्रतिदिन आपसे कुछ न कुछ शङ्का किया करते थे । परन्तु जब आपने शास्त्रार्थ के लिए उनसे कहा तो वे हट गये, इसलिए आपने भी खूब फटकारा ॥ ८८ ॥

अथ कोपि तत्र नवभार्गगतः

कृतवेदबाह्यबहुधाचरणः ।

मुनिनायकस्य भवनं न ययौ

निजकर्मगोपनभयादिव किम् ॥८९॥

एक दादूपन्थी भी यहाँ पर रहता था, जो कुछ कुछ संस्कृत में भी टाँग अड़ाता था । अपने मत की पोल खुल जाने के भय से, जब तक स्वामीजी यहाँ रहे तब तक वह कभी उनके आश्रम पर नहीं आया ॥ ८९ ॥

परमेषमूर्खतरण्य सदा

पाथि वाटिकोपगमनाय कृते ।

प्रतिवादमारभत नित्यमलं

प्रसमीक्ष्य यान्तमऽतिगर्ववशात् ॥९०॥

परन्तु वह मूर्ख जब स्वामीजी शौच आदि के लिए जङ्गल जाया करते थे उस समय मौक़ा देख कर रास्ते में आ बैठता था और जो कुछ अण्ड बण्ड मन में आता था बका करता था ॥ ९० ॥

दिवसान्तरे स मुनिनातिशठः

प्रतिभर्त्सितो निगदितश्च हठात् ।

न तवेव मेऽपि सभयो नितरां

विफलस्तदेहि मम वासगृहम् ॥९१॥

जब स्वामीजी ने इसको रोज़ रास्ते में अटकता देखा तब एक दिन उससे कहा कि उदासीनपुङ्खवजी ! जैसा आप अपना समय व्यर्थ खोते हैं इस प्रकार मैं नहीं खोना चाहता । यह मेरा समय अमूल्य और अप्राप्य है ॥ ९१ ॥

यदि ते रुचिर्मम वचःसु तदा

हृदये धृतापि गतविद्यतया ।

परिशङ्कना मम समुत्तरतो-

नितरां त्वया गतमदा क्रियताम् ॥९२॥

यदि आपको कुछ पूँछना हो, या किसी विषय में वार्तालाप करना हो, तो आप मेरे आश्रम पर, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, आइए। आपके जो कुछ प्रश्न होंगे मैं सबका उचित उत्तर दूँगा। यहाँ अवसर नहीं है ॥ ९२ ॥

इति वादिनं मुनिवरं स शठः

कथयास्वभूव न मते मम तु ।

जगदस्ति कालकलनापि न सा

कुतएव वादकलना भवताम् ॥६३॥

इस प्रकार स्वामीजी के कहने पर वह बोला कि मेरे मत में तो काल कुछ चीज़ ही नहीं है। न मेरे मत में यह जगत् है। जब जगत् और काल ही कुछ चीज़ नहीं तब आपसे वार्तालाप करना कहाँ रहा ॥ ९३ ॥

मुनिनायकोपि तमभाषत रे !

यदि नास्ति सज्जगदिदं क भवान् ।

समयोपि नास्ति यदि तत्सकलं

कथमेतदस्ति निजकर्मपरम् ॥६४॥

उसको इस प्रकार बोलते हुए देख कर स्वामीजी ने उससे कहा कि यदि तुम्हारे मत में जगत् ही नहीं तो तुम भी कहाँ हो ? कहाँ नहीं। काल के न होने से यह जो कुछ तुम कह रहे हो यह भी कुछ नहीं है ॥९४॥

इति वादिनं यतिवरं न पुनः

प्रजगाद मूर्खजनराड्भयतः ।

मुनिनायकोपि निजकस्मरतः

प्रवभूव तत्र नगरे परतः ॥६५॥

इस प्रकार फटकार लगने पर वह मूर्ख दुम दबा कर चलता बना। स्वामीजी भी उसके जाने पर अपने कार्य में प्रवृत्त हुए। वास्तव में ऐसे पुरुषों के लिए जब तक उचित उत्तर नहीं मिलता तब तक वे चुप नहीं होते ॥ ९५ ॥

दिवसैककेत्र नगरे पतितं

भवनस्य कस्यचिदसच्छदनम् ।

यदधोगताः किल जना मरणं

ययुरेव यर्हि न भवेत्स मुनिः ॥६६॥

एक दिन वहाँ पर अचानक एक कोठी की छत, जोकि नई बन रही थी, टूट पड़ी। उसके नीचे कई पुरुष दब गये। यदि उस समय स्वामीजी वहाँ उपस्थित न होते तो उनका जीवन किसी दशा में भी न रहता ॥ ६६ ॥

प्रसमीक्ष्य तत्र मुनिराडभय-

स्तदधोगतौ विगतचित्तमरम् ।

मनुजौघमस्य नगरस्य हठात्

स्वयमेव किन्न स चकार बलम् ॥६७॥

आपने जब उनको दबा हुआ देखा तब बिना किसी के कहे सुनेही आप जिस दशा में बैठे हुए थे उसी हालत में जाकर उनके बचाने के लिए स्वयं लग पड़े। उन्होंने अपने अमूल्य बलों की कुछ परवा न की ॥ ६७ ॥

शिलयावृतान्मुनिरयं मनुजान्

विनिवार्य तां बृहदुपान्ताशिलाम् ।

समजीवयत्स्वबलतो नितरां

परजीवनाय समदात्स्ववपुः ॥६८॥

जिस शिला के नीचे कई पुरुष दब गये थे उसको अकेले ही हटा कर शीघ्र उनको उसके नीचे से निकाल दिया और उनको जीवनदान दिया। कहीं तक कहे। न केवल उनके किन्तु भारत के बचाने में उन्होंने अपना प्राण तक दे दिया ॥ ६८ ॥

अथ कोपि रामगढपत्तनतो-

विबुधोयतेरुपगतः सविधम् ।

नयने निजे सफलतामनयत्

मुनिदर्शनादथ च भाषणतः ॥६६॥

कुछ दिनों के अनन्तर आपके दर्शन के लिए रामगढ़ से पण्डित कालू-रामजी आये थे । आपने स्वामीजी के अनुपम दर्शन से अपने नेत्र कृतार्थ किये और अमृतमय वाणी सुन कर्णकुहर भी पुनीत किये ॥ ९९ ॥

परिपीय देवकथनं परमं

स बुधो गतान्तरमदः परतः ।

निजदेशमाप्य लघु देवगिरा

कथयाञ्चभूव किल धर्मकथाम् ॥१००॥

कुछ दिन तक पण्डितजी आप से धर्मोपदेश लेते रहे । अन्त में उन्होंने पूछा कि मेरे योग्य कुछ कार्य बताइए । स्वामीजी ने कहा, आप अपने देश में जाकर वैदिक धर्म का प्रचार करें । पण्डितजी ने भी जाकर ऐसा ही किया ॥ १०० ॥

इतरोपि कोपि हरदत्तबुधः

समुपेत्य देवचरणौ प्रणमन् ।

कृतभाषणः परमतुष्टसनाः

प्रययौ गृहं निजमनन्यमनाः ॥१०१॥

यहाँ के प्रतिष्ठित पण्डित हरदत्तजी भी आपके दर्शनार्थ आये थे और कुछ समय तक वार्तालाप करके अत्यन्त प्रसन्न हुए । अन्त में आपसे आज्ञा पाकर अपने घर को चले गये ॥ १०१ ॥

उपदेशमस्य यमिनोजनपः

परिपीय कर्णयुगलेन तदा ।

भवने निजे समकरोन्महतीं

नववेदिकामखिलमङ्गलदाम् ॥१०२॥

श्री १०८ स्वामीजी के लगातार उपदेश सुनते हुए महाराजा शाहपुरा ने अपने अन्तःपुर (राजमहल) में एक बड़ी यज्ञशाला बनवाई जिसमें वे बड़े बड़े नैमित्तिक हवन मास और वर्ष के अन्त में करते रहे ॥ १०२ ॥

नियमाद्धविः स मनुजैकपति-

जुहवाञ्चकार जनशर्मकृते ।

बहुशालमेकमकरोद्भवनं

शुभयज्ञकर्मकरणाय बहिः ॥१०३॥

नियमपूर्वक प्रतिदिन महाराजाजी अग्निहोत्र करने लगे और अनेक मनुष्यों के बैठने योग्य आपने एक यज्ञमन्दिर बाहर भी बनवाया ॥ १०३ ॥

हवनस्थलेऽथ विहिते जनपो

महदार्यमन्दिरमपि प्रथितम् ।

यदनुव्रजाः समभवन्बहुधा

विबुधास्तदार्यमकरोन्मुदितः ॥१०४॥

भीतर और बाहर यज्ञमन्दिर बनवाने के बाद महाराजा ने आर्यमन्दिर भी बनवाना आरम्भ कर दिया, जिसके बनने पर कई पुरुष आर्यसमाज के अनुयायी और कल्याणभागी बने ॥ १०४ ॥

मुनिनायकं समभिवीक्ष्य गतौ

कृतनिश्चयं परत एष नृपः ।

नववेदभाष्यपरिमुद्रणसद्-

द्रविणे निजांशमपि योजितवान् ॥१०५॥

इतने ही में स्वामीजी ने यहाँ से जाने की इच्छा प्रकट की, जिसको सुन महाराजा बड़े दुःखिन हुए और २५०) वेदभाष्य के लिए देने लगे ॥ १०५ ॥

उपदेशकानिह निजव्ययतो-

विनियोज्य भूपवर एष महान् ।

शिवमार्यधर्ममनुवर्धयितुं

परमं चकार पुरि यत्नमलम् ॥१०६॥

और ३०) मासिक पर एक पण्डित को रख कर महाराजा ने वैदिक धर्म के प्रचार में सहायता देना स्वीकार किया, जोकि श्रीस्वामीजी का परम उद्देश्य था। इस बात से स्वामीजी अति प्रसन्न हुए ॥ १०६ ॥

न बभूव यावदिह सर्वमिदं

मनुजः सयोधपुरजो यमिनम् ।

समवेत्य सर्वमिति वृत्तमलं

निजगाद दूतवरवेषमितः ॥१०७॥

इस प्रकार आपस में बातें हो ही रहीं थीं कि जोधपुराधीश महाराजा यशवन्तसिंह की तरफ से उमरदानजी निमन्त्रण-पत्र लेकर स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और महाराजा का समाचार सुनाने लगे ॥ १०७ ॥

अवगत्य तस्य कथनं मुनिराड्

गमनोत्सुकः समभवत्स यदा ।

मनुजाधिपः परमनम्रतया

निजगाद मित्रइव सोपि तदा ॥१०८॥

जब महाराजा जोधपुर का निमन्त्रण आपने स्वीकार किया और जाने का उत्साह प्रकट किया, उस समय महाराजा शाहपुरा ने शिष्य होने पर भी मित्रवत् होकर आपकी सेवा में इस प्रकार निवेदन किया— ॥ १०८ ॥

गमनन्तु देव भवता क्रियते

परमेतदाशु हृदये ध्रियताम् ।

पुरमाप्य तन्न गणिकाविषये

किमपि प्रवाच्यमितिनास्त्यपरम् ॥१०९॥

हे महाराज ! यदि आपने जोधपुर का जाना स्वीकार कर लिया तो वहाँ पर जाकर कुछ वेश्याओं का खण्डन न कीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए परिणाम में कष्ट होगा ॥ १०९ ॥

इति वादिनं नरपक्षेण मुनि-

निजगाद नाऽघविटपाँल्लघुना ।

निशितेन किन्तु महता महतो-

विनिपातर्यामिरभसादसिना ॥११०॥

राजा का इस प्रकार कहना सुन आपने उत्तर दिया कि राजन् ! मैं बड़े हुए पापों के वृक्षों को नख-शस्त्र से काटने को उद्यत न हूँगा, किन्तु मैं उन-को अत्यंत पैनी तलवार से काटूँगा । आशय इसका आप स्वयं समझे ॥११०॥

इति तं निबोध्य जनपं स मुनि-

र्गमनाय निश्चितमतिस्त्वरितम् ।

अजतुन्दनामकमवाप पुरं

यदगात्प्रसङ्गवशतः स्वपथम् ॥१११॥

आपसे इतना कह कर व्यष्ट कृष्ण चतुर्थी शनिवार संवत् १९४० को दिन के चार बजे शाहपुरे से आप अजमेर के लिए प्रस्थित हुए, जोकि जोधपुर के रास्ते में ही पड़ता है ॥ १११ ॥

कृतकार्यतामुपगतो नितरां

गमनेथ योधपुरजे सुमनाः ।

परिवीक्षितः सहृदयैः स यदा

प्रतिबोधितोपि बहुधैव तदा ॥११२॥

बहुत ही शीघ्र अजमेर पहुँच कर स्वामीजी ने कुछ विश्राम लिया । इतने ही में जोधपुर जाने की खबर सर्वत्र फैल गई । आप भी जब सर्वथा जाने को ही तैयार हुए, तब कुछ आपके मित्रों ने आपसे निवेदन किया ॥ ११२ ॥

भगवन्गातिस्तु भवतानुमता

मरुदेशजेषु नगरेषु परम् ।

मनुजास्तु तत्र जननं प्रगताः

पशवो भवन्ति किमिदं क्रियते ॥११३॥

भगवन् ! आपने मरुदेश के नगरों में जाना तो स्वीकार किया, परन्तु उस देश के मनुष्य तो सर्वथा मूर्ख होते हैं। आपने बिना सोचे समझे ऐसे देशों में जाना केवल दुःख भोगने के लिए ही स्वीकार किया है ॥ ११३ ॥

इति मानसे बहु विविच्य यते

गमनं न तत्र भवता क्रियताम् ।

यदि सम्मतिः किल भवेद्भवतां

न परन्तदास्ति वचनं महताम् ॥११४॥

यदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें तो जोधपुर कदापि न जायँ। यदि आपको जानाही स्वीकृत है तो आपकी इच्छा को कौन रोक सकता है। हमारा तो केवल निवेदन करना ही परम कर्तव्य है ॥ ११४ ॥

इति वादिनः स्वपुरुषान्स्र यति-

नयनाश्रुपातबहुसिक्तभुवः ।

यदुवाच योग्यमथ शोककरं

शृणुतादरात्तदिदमद्य जनाः ॥११५॥

इस प्रकार अश्रुपातपूर्वक निवेदन करते हुए अपने प्राणप्रिय मित्रों से आपने वृत्तान्त सुन कर उत्तर दिया। वह एक तरफ़ से योग्य और दूसरी तरफ़ से शोक बढ़ानेवाला भी है। वह इस प्रकार का है—॥ ११५ ॥

यदि तद्भवा मम कराड्गुलिभिः

करदीपिकानुगतकार्यमपि ।

भुवनोदयाय लघु कुर्युरलं

न तदापि रौक्ष्यमनुयास्यति माम् ॥११६॥

प्रियवरो ! यदि उस देश के मनुष्य वैदिक धर्म और देशोपकार के लिए मेरी अँगुलियों में कपड़े लगा और उनको जला कर मशाल का भी काम लेंगे तब भी धर्म के प्रचार से मैं कदापि न हटूँगा ॥ ११६ ॥

क्रियतां प्रबन्ध इति योगिवरे

कथनाय चित्तमनुधावयति ।

परमादरादिव परो मनुजो-

निजगाद सान्यवरमादरतः ॥११७॥

मेरे जाने का तुम शीघ्र प्रबन्ध करो । इस प्रकार दृढ़ निश्चयपूर्वक अपने मित्रों से कहते हुए आपको देख कर एक आपका परम मित्र फिर भी आपके चरणों में गिर कर यह कहने लगा ॥ ११७ ॥

यदि गन्तुमेव नितरां भवता-

मधिकं मनोभवति तर्हि वयम् ।

न कथञ्चिदप्यनुशयादपरं

निगदासहे चरणदर्शनतः ॥११८॥

हे कृपालो ! यदि आपको जोधपुर जाना सर्वथा ही स्वीकृत है, तो हम आपके समक्ष कुछ नहीं कहते । केवल श्रीमानों के चरणों में ही हमारा अनुराग रहे । यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपकी कृपा चाहते हैं ॥ ११८ ॥

इयदादरात्प्रतिविधेयसहो

मुनिवर्य तलभवता भवता ।

निजभाषणेषु मधुवाक्प्रथनं

न कठोरवागनुगतं किमपि ॥११९॥

परन्तु इतना वक्तव्य और भी है । आप वहाँ जाकर किसी प्रकार का किसी के ऊपर आक्षेप न करें और कोमल वाणी से समस्त व्याख्यान आदि का काम लें । कठोर वाणी का प्रयोग न करें ॥ ११९ ॥

इति वादिनीं परमभक्तिमतीं

हितवद्वचः प्रकथनानुगताम् ।

परिवीक्ष्य मित्त्रपरिषज्जनतां

पुनरप्युवाच निजधर्मरतः ॥१२०॥

इस प्रकार परम भक्ति से निवेदन करती हुई अपनी मित्र-मण्डली को देख कर आप अपने उद्देश्य पर ध्यान रखते हुए, फिर भी जो कहने लगे, वह तीसरी बार का उत्तर भी ध्यान देकर सुन लीजिए ॥ १२० ॥

न कदाप्यधर्मकुटपङ्क्तिमहं

नखकृन्तनेन विनिपात्य पुनः ।

परिवर्धितामहह कर्तुमहो-

प्रयतिष्य एवमधुना वृयताम् ॥१२१॥

आपने कहा कि मैं पापों की वृक्ष-पंक्तियों को नुहरने से, अथवा कैंची से कलम कर उनको बढ़ाऊँगा नहीं। कैंची से उनको कलम करना, उनके लिए वृद्धि का कारण बन जाता है। मैं ऐसा कभी न करूँगा ॥ १२१ ॥

परशुप्रहारकरणेन ततां

बहुमूलसन्ततिमिह प्रथिताम् ।

अघशाखिनां निजपरिश्रमतो-

विनिपातयेयमिति मे मननम् ॥१२२॥

मैं उनकी जड़ पैने कुठारों से काट कर, उनका भारतवर्ष से मूलेच्छेदन करूँगा ताकि वह फिर न बढ़ें। मेरा यही कर्तव्य है, यही मन्तव्य है, यही जगत् का मुख्य उपकार है और कुछ नहीं ॥ १२२ ॥

इति वादिनि प्रतिभया विनता

न जगाद मित्रपरिषत्किमपि ।

मुनिनायके किमपरं परतः

परमेश्वरं स्वमनसाऽऽश्वऽनमत् ॥१२३॥

निज प्रतिभानुकूल आपके इस प्रकार के कहने पर मित्र-मण्डली और आपसे कुछ कहने को उद्यत न हुई, किन्तु आपके कल्याण के लिए उस जगद्गीश्वर, जगदाधार, जगदन्तर्यामी का स्मरण करने लगी ॥ १२३ ॥

यतिराडपि स्वकरुणावशतो-

मरुदेशराजकथनात्परतः ।

प्रतिगन्तुमेव नितरां स्वमनः

समयोजयञ्भटिति योधपुरम् ॥१२४॥

स्वामीजी भी निमन्त्रण-पत्र के ऊपर अधिक ध्यान देकर, कृपा करके मई सन् १८८३ ई० को, अजमेर से जोधपुर के लिए प्रस्थित हुए ॥ १२४ ॥

कालो यदा मनुजमादरतः स्वगेहं

वेगादिवाह्वयति तस्य तदा समक्षे ।

मित्रोक्तिरप्यरिवचः समतां प्रयुंक्ते

वैरानुविद्धमनसान्तु गिरां कथा का ॥१२५॥

जिस समय मनुष्यों के लिए काल अपना निमन्त्रण भेज देता है, उस समय उनके समक्ष मित्रों की भी बातें शत्रुओं के समान प्रतीत होती हैं। शत्रुओं की बातों का तो कहना ही क्या ॥ १२५ ॥

नो तं कथञ्चिदपि बोधयितुं समर्थः

पुत्रो न बान्धवगणो न मनोरमापि ।

नो मित्रतामुपगतः सुजनो न चाम्बा

यं कालकूटरचना समुपैति जन्तुम् ॥१२६॥

जिस पुरुष के समीप काल की कूट रचना उपस्थित होती है, उस पुरुष को न पुत्र समझा सकता है, न भाई, न छात्र, न मित्र, न माता, न पिता ॥ १२६ ॥

न लोको नाऽऽलोको न शिवमशिवं नापि हितकृन्

न मित्रं नामित्रन्न हितमहितं वा न मननम् ।

न वेद्यं नावेद्यं भवति बहुधाऽऽसन्नमरणे
मनुष्ये सर्वस्मिन्नपि विरलमेतद्व्रत पदम् ॥१२७॥

आसन्नकाल मनुष्य के लिए लोक, आलोक, शिव, अशिव, हितकारी मित्र और शत्रु, हित, अहित, विचार, अविचार, वेद्य, अवेद्य, कुछ भी प्रतीत नहीं होता । यह अवस्था वास्तव में अनिवचनीय होती है ॥ १२७ ॥


इति बहुविधभावे कालचक्रस्य वन्धे
पतितमसमयेपि स्वान्तमुद्धर्तुकामः ।
कविरविरलतारं यामिनीशेषभागं
समवासितिमनैषीदाप्य सर्गं प्रभातम् ॥१२८॥

इस प्रकार काल के विषय में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों के मध्य में असमय निमग्न हुए, अपने मन को शीघ्र निकालने के लिए, जब तक कविरत्न ने उत्कण्ठा की तभी तक उषा का सामने दर्शन हुआ, रात्रि के साथ साथ यह सर्ग भी समाप्ति को प्राप्त हो गया ॥ १२८ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

कल्पितमतसमालोचनं नाम सप्तदशः सर्गः ।

१ ईषदर्थे नञ् ।



अष्टादशः सर्गः

प्रस्थितं लघु निशम्य योगिनं
सर्वएव बहुशोकसङ्कुलाः ।
तत्पुरस्थमनुजाः सभाभव-
न्वास्तवे सकलविश्वमण्डनम् ॥१॥

भारतवर्ष के अद्वितीय रत्न, भारत-जननी के एक मात्र सुपुत्र, आनन्द-
कन्द, जगदानन्द, ऋषि दयानन्द को प्रस्थित सुन अजमेर के सज्जन वास्तव में
दुःखसागर में गोते खाने लगे ॥ १ ॥

एकतः किल विधाय तां क्षपा-
मन्यतः प्रतिविधाय तद्दिनम् ।
शोकहर्षविषयेण भानुता-
माप योगिजन एव किन्न ताम् ॥२॥

एक ओर अपने वियोग से रात्रि का दृश्य दिखा कर, दूसरी ओर अपने
समागम से दिन का दृश्य दिखा कर, क्या स्वामीजी सूर्य के पद को प्राप्त
नहीं हुए ? सूर्य भी अपने गमन से एकत्र रात्रि अन्यत्र दिन करही देता
है ॥ २ ॥

गच्छता मरुभुवं तपस्विना
यत्प्रदर्शितमनन्यसाहसम् ।

तस्य कः किल करोतु तुल्यतां
तोयराशिवलयाङ्कितस्थले ॥३॥

मरुदेश जाने के आरम्भ में जिस अनन्य साहस को ऋषि दयानन्द ने दिखाया उसकी समता इस भूमंडल में कौन और किसके साथ कर सकता है ? कोई भी नहीं कर सकता ॥ ३ ॥

राजभिः पथि रथाश्वमश्वकै-
धीवरोपवहनैर्नगैस्तथा ।
सर्वएव किल कारणाच्चयः
साधितो यतिपतेरनुग्रहात् ॥४॥

मार्ग के सुख के लिए स्थल स्थल पर रथ, घोड़े, हाथी, गाड़ी और आपके लिए पालकियों का मार्ग में इतना प्रबन्ध किया गया था कि किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े और कई योग्य पुरुष इस कार्य के लिए निमन्त्रित थे ॥ ४ ॥

आगतं यतिवरं निशम्य ते
बाष्पयानमधिरुह्य वेगवत् ।
सत्प्रबन्धकरणाय सर्वतः
स्वागताय च नृपाः समभ्ययुः ॥५॥

जोधपुर के लिए आपको अजमेर से प्रस्थित सुनकर समस्त राजाओं ने आपके ठहरने के लिए प्रबन्ध करना आरम्भ कर दिया और उचित प्रबन्ध के अनन्तर आपके स्वागत के लिए सब उपस्थित हुए ॥ ५ ॥

ते यथोचितविधानसाधनाः
स्वागतादपरकालएव तत् ।
पत्तनं समनयन्त योगिनं
यत्र सर्वमितिवृत्तमाभवत् ॥६॥

उन्होंने नगर से बाहर ही बड़े समारोह के साथ आपका स्वागताचार किया । तदनन्तर स्वामीजी को राजमहलों से सुशोभित जोधपुर शहर के भीतर अपने साथ लाये ॥ ६ ॥

कस्यचिद्यवनकस्य मञ्जुले

रम्यरम्यनवपादपाकुले ।

योगिवर्य्यभिभमाश्रमे तदा

ते नृपाः समनयन्यथोचिते ॥७॥

जहाँ पर एक सुन्दर उपवन में आपके उतारने का प्रबन्ध किया गया था वहाँ पर आपका सामान लगवा दिया और आपभी उस दिन (२९ मई को) वहाँ पर आकर अपने उचित कार्यों में प्रवृत्त हुए ॥ ७ ॥

किञ्चिदेव समयान्तरे नृपौ

योगिदर्शनकृते तमाश्रमम् ।

प्राप्तुः सकलतापनाशनं

दर्शनं च सममेव दैवतः ॥८॥

कुछ ही देर के बाद महाराजा प्रतापसिंहजी और राजा तेजसिंहजी स्वयं उस आश्रम में श्री १०८ स्वामीजी के दर्शनार्थ उपस्थित हुए जहाँ कि आपका विश्रामालय बनाया गया था ॥ ८ ॥

लब्धयोगिवरदर्शनौ च तौ

चारणादिपुरुषान्यथायथम् ।

द्वारपालगृहपालकर्मणि

प्रत्यवेक्ष्य निरतान्गृहङ्गतौ ॥९॥

आश्रम के भीतर आकर राजोचित रीति से दोनों महाशयों ने स्वामीजी का दर्शन किया । उसके अनन्तर चारण मूलदान को स्वामीजी के कार्य प्रबन्ध में लगाया और दरवाजे पर पहरा बिठला कर आप अपने घर चले गये ॥ ९ ॥

पञ्चविंशति निवेद्य राजतीः

पञ्चता अपि सुवर्णमुद्रिकाः ।

किंनताविह नरोत्तमौ तदा

किन्न चक्रतुरनुक्तसत्क्रियास् ॥१०॥

मिलने के समय २५) रुपये तेजसिंहजी ने और ५ अशर्फी महाराजा प्रतापसिंहजी ने आपकी भेंट की और मार्ग में आने से जो कष्ट हुआ उसकी क्षमा माँगी; साथही और भी समयोचित वृत्तान्त आपसे पूछा ॥ १० ॥

पक्षमात्रसमयादनन्तरं

तत्पुराधिप उपेत्य योगिनम् ।

पूर्वमादरतया धनं पुनः

स्वं शरीरमपि भूतले न्यधात् ॥११॥

आपके जोधपुर में आने के पन्द्रह दिन बाद जोधपुराधीश जशवन्तसिंहजी आपसे मिलने आये । मिलने के समय महाराजा ने पहले धन पश्चात् शरीर भूमि पर झुकाया और आप नीचे ही बैठ गये ॥ ११ ॥

स्वामिनापि विनयादधः स्थितं

भूपतिं समभिवीक्ष्य मानसे ।

हर्षितेन निजपार्श्वविष्टरे

तस्य संवसितिरादृता जवात् ॥१२॥

स्वामीजी ने भी अत्यन्त भक्ति से महाराजा को जमीन पर ही बैठा देख अपने बराबर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया । अपने में राजा साहब की अधिक भक्ति देख कर स्वामीजी मन में बड़े प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥

यद्यपि प्रतिजगाद भूपति-

नैव योग्यमिदमस्ति मत्कृते ।

सेव्यसेवकविधानमीदृशं

नो नियोजयति मामिह स्थितौ ॥१३॥

जिस समय स्वामीजी ने महाराजा के लिए कुर्सी पर बैठने की इजाजत दी उस समय हाथ जोड़ कर महाराजा ने कहा कि मेरे लिए आपके बराबर बैठना सर्वथा अनुचित है। सेव्य-सेवक-भाव इसके लिए इजाजत नहीं देता ॥ १३ ॥

तं तथापि यतिराडनुग्रहा-

त्पार्श्ववर्तिनि निवेश्य विष्टरे ।

भूपतिं भुवनवन्दितोप्यभू-

द्धर्ममार्गमुपदेष्टुमुद्यतः ॥१४॥

इस प्रकार कहते हुए महाराजा को स्वामीजी ने हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। महाराजाजी इतने कहने पर कुर्सी पर बैठ गये। स्वामीजी ने भी आपके लिए धर्मोपदेश करना आरम्भ किया ॥१४॥

वादनत्रयमितं मुनेः पुरः

कालमेष जनपोऽनयन्नतः ।

वक्तृतावसितिरप्यतःपरा

सम्बभूव बहुविस्तरोदयात् ॥१५॥

तीन घंटे तक बराबर महाराजा आपका अमृतमय उपदेश सुनते रहे। अंत में समय अधिक हो जाने के कारण उन्होंने विश्राम के लिए आपसे प्रार्थना की। इसलिए उपदेश समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

अन्त एष नरपः समब्रवीद्

भाग्यतोत्र भवतां समागमः ।

प्राप्तकालइव भाति तद्विभो

प्रत्यहं भवतु वक्तृतामहः ॥१६॥

उपदेश के अंत में महाराजा आपसे कहने लगे कि आपका यहाँ पर पधारना हमारे अदृश्य सौभाग्य का कारण है । इसलिए जब तक आप इस स्थल को सुशोभित करें तब तक प्रति दिन मेरे लिए उपदेश देते रहें ॥१६॥

एवमेकदिवसक्रियोत्तरं

भानुना सह गते महीपतौ ।

सा निशापि शशिना समं नभः

प्रावृणोद्यतिवरोपि चासनम् ॥१७॥

इस प्रकार महाराजा का पहले दिन का समागम सूर्य के साथ साथ समाप्ति को प्राप्त हुआ । इसके अनन्तर चन्द्रमा के साथ साथ रात्रि बढ़ने लगी । साथ ही स्वामीजी का आसन पर बैठ कर योगाभ्यास भी बढ़ने लगा ॥ १७ ॥

तत्परेथ दिवसे यतीश्वरो-

राजके सम्यतः प्रभामितः ।

वेदवादनमितात्सुविस्तृते

वक्तृतामचकथद् भुवस्तले ॥१८॥

दूसरे दिन से स्वामीजी ने यह नियम किया कि दिन के चार बजे से छः बजे तक तो मैदान में, जहाँ कि सब महाराजा आदि माननीय जन एकत्र होते थे, व्याख्यान दिया करेंगे । निदान उन्होंने ऐसा ही किया भी ॥ १८ ॥

तत्परं नियमिते मुनीश्वरः

प्रत्यहं स्वसमये विलक्षणैः ।

सूत्तरैर्जनसमस्तशङ्कनाः

सत्वरं गतमदा इवाकरोत् ॥१९॥

छः बजे तक मैदान में व्याख्यान देकर अपनी कोठी में आगये । यहाँ पर भी नियमानुसार आठ बजे तक आपने मनुष्यों की शंकाओं का निवारण किया । फिर अपने कार्य में तत्पर हुए ॥ १९ ॥

तत्समीपगतपण्डितावली
 नो विवादमकरोदविद्यया ।
 स्वात्मशङ्कनमलं निवार्य सा
 मार्गमस्य सहसा समागमत् ॥२०॥

आस पास के बड़े बड़े प्रसिद्ध पण्डित भी आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत नहीं हुए किन्तु जिन जिन विषयों में उनको शंकाये थीं आपके पास आकर निवृत्त करते थे और आपके पक्ष ही का अनुमोदन करते रहे ॥ २० ॥

चक्रदग्धवपुषामिह स्थले
 खण्डनेन मुनिना निराहता ।
 मण्डली दिनमणोरिवोदये
 कौशिकायितमुपाचरद्भयात् ॥२१॥

जब कि यहाँ पर आपने चक्रांकितों का, जिनका कि यहाँ पर जोर भी अधिक था, खण्डन करना आरम्भ किया तब तो समस्त चक्रांकित इस प्रकार छिप गये जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर दिवांध छिप जाते हैं ॥ २१ ॥

तत्पुरोदरगता जनव्रजा-
 स्तं यतीश्वरमवाप्य दैवतः ।
 मानसोदरगता विशङ्कना-
 दूरमेव लघु कर्तुमभ्ययुः ॥२२॥

यहाँ के प्रायः समस्त प्रतिष्ठित श्रीमान्जन आपको दैव से यहाँ पर आया हुआ जान अपनी अपनी अनेक प्रकार की शंकाये निवृत्त करते थे । यहाँ पर एक प्रकार का मेला सा लगा रहता था ॥ २२ ॥

यावनं मतमुपागता अपि
 स्वामिनः सदुपदेशविस्तरैः ।

मानवा इह विहाय किम्मतं

तन्मते निजमतिं समादधुः ॥२३॥

स्वामीजी के व्याख्यान में अधिकतर मुहंमदअली वगैरः मुसलमान भी आया करते थे परन्तु वह बहस का नाम तक नहीं लेते थे । जो कुछ स्वामी जी उनके मत का खण्डन करते थे चुपचाप सुनकर चले जाते थे ॥ २३ ॥

कोपि तत्र यवनेषु बुद्धिमान्

देवदेवमवलोक्य सत्वरम् ।

नो भवादृशजनैर्विकल्पनां

कर्तुमेति मतिरेवमब्रवीत् ॥२४॥

एक यहाँ पर मुसलमानों में मुहंमदअली थे जो कि सर्वोत्तम माने जाते थे । उन्होंने जब कभी बात आपड़ी तब स्वामीजी से कह दिया कि आपसे बहस करना फ़िजूल है । आपतो पहुँचे हुए साधु हैं । हमारा और आपका क्या मुक़ाबिला ॥ २४ ॥

कोपि तत्र यवनाः स्वशङ्कनां

कर्तुमिच्छवइवातिजल्पनाः ।

स्वामिनं समभिगम्य निर्भया

दुस्तरायपि समुत्तरायगुः ॥२५॥

कोई कोई मुसलमान अपने को बहस में चलता पुरजा मान कर आपसे अपनी शंकायें मिटाने को आया करते थे, परन्तु जब स्वामीजी उनके मत की आलोचना प्रारंभ करते थे तब सबके सब दाँतों के बीच अंगुली दबा कर चले जाते थे ॥ २५ ॥

अब्रवीद्यवन एक ईदृशं

वक्तृतावसितिमाप्य पामरः ।

नो भवेत्तव तु वक्तृता यदि

स्यादहो यवनराज्यमत्र तत् ॥२६॥

एक मुसलमान ने जिसका नाम [फैजुल्लाखां] था एक दिन आपके व्याख्यान के अंत में क्रोध में आकर कहा कि यदि आज मुसलमानों का राज्य होता तो इस प्रकार के व्याख्यान आप कदापि नहीं दे सकते ॥ २६ ॥

एवमुक्तवति तत्र किञ्जने

स्वाम्यपि प्रतिजगाद चेद्भवेत् ।

यावनं सकलमत्र शासनं

क्षत्रियद्वयबलं तदाप्यलम् ॥२७॥

स्वामीजी ने भी उसका उत्तर तुरन्तही दिया और कहा कि कुछ बात नहीं थी। यदि यहाँ पर ऐसे मुसलमानों का राज्य होता तो उनके लिए दो क्षत्रिय-राजपूतों का बल पर्याप्त होता ॥ २७ ॥

एवमावदति योगिनाम्बरे

तत्र केपि बहुशास्त्रमानिनः ।

क्षत्रियाः स्वयमुपेत्य योगिनं

प्रावदन्वद विभो समुत्तरम् ॥२८॥

इतना कहते ही आपके पास राजा शिवनाथसिंहजी और उनके भाई मोहनसिंहजी उपस्थित हुए जो कि संस्कृत के भी विद्वान् थे। उचित प्रणामादि कार्य होने पर वे कुछ निम्न लिखित शंकायें प्रस्तुत करने लगे ॥ २८ ॥

शाक्तशैवमतवादकल्पना

कीदृशी च नवमुण्डिमण्डना ।

सुष्ठु वा न वद योग्यमुत्तरं

पक्षपातकरणं न शान्तिकृत् ॥२९॥

उन्होंने पूँछा कि आप पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतन्त्र संमति दें कि नवीन वेदान्तियों का एवं शाक्त और शैवों का जो मत है किस प्रकार का है। आप इन मतों को अच्छा मानते हैं या बुरा ? ॥ २९ ॥

एवमुद्धुरतरं निशस्य तद्
भाषणं यतिवरः समब्रवीत् ।
सर्वथैव नरकोन्मुखी मता
मे मते मतविवादकल्पना ॥३०॥

इस प्रकार आपका साकूत प्रश्न सुन स्वामीजी कहने लगे कि मेरे मत (सिद्धांत) में जितना कुछ वेदों से विपरीत मतों का जाल है सबका सब बुरा है। शैव हो या शाक्त हो या नवीन वेदांत हो ॥ ३० ॥

एवमुद्दिरमिमं यतीश्वरं
ते समेत्य किल बाहुजाः परम् ।
साधुसाध्विति निगद्य माननां
कर्तुमस्य जयवादसन्नुवन् ॥३१॥

इस प्रकार आपका पक्षपातरहित उत्तर सुन कर वे दोनों अति प्रसन्न हुए और आपका पक्ष मान गये। अंत में स्वामीजी से इन दोनों का अधिक स्नेह हो गया। कुछ देर के बाद आपकी प्रशंसा करते हुए वे दोनों चले गये ॥३१॥

कोपि तत्र बुधराडू यतीश्वरं
भारतैकनवरत्नमादरात् ।
संवदन्नतिविनम्रभाषणः
सर्वमस्य हितकृत्यमाकरोत् ॥३२॥

यहाँ पर एक पण्डित शिवनारायण जी थे वे महाराजा जोधपुर के प्राइ-वेट सेक्रेटरी थे। उनका स्वामीजी से अति स्नेह होगया। वे प्रति दिन आकर आपका दर्शन करते थे और आपका सब इंतजाम देख जाते थे ॥ ३२ ॥

एकदा यतिवरो महीभुजां
 दुर्दशोपरि ददौ स्ववक्तृताम् ।
 यद्दिरामतिगभीरकल्पना
 पूर्वराजचरितान्यलम्भयत् ॥३३॥

एक दिन आपने क्षत्रियों की दुर्दशा पर एक व्याख्यान दिया जिसमें एक एक शब्द अत्यन्त गम्भीर भाव को लिये हुए था और प्राचीन धार्मिक राजाओं का स्मारक एवं आदर्श दिखलानेवाला था ॥ ३३ ॥

आप्य चावसरमित्थमब्रवीत्
 येत्र केपि परिणीतकामिनीम् ।
 वेश्यया सह विहाय कुर्वते
 सङ्गमं पशवएव ते मताः ॥३४॥

प्रसंग से आपने इसी व्याख्यान में यह भी कहा था कि जो लोग अपनी एक विवाहिता रानी को छोड़कर और स्त्रियों के साथ अनुचित वर्ताव करते हैं वे महा पाप के भागी होते हैं ॥ ३४ ॥

शोचनीयदशया समन्विता
 वास्तवे पशुसमानधर्मिणः ।
 सम्भवन्ति किल ये निजस्त्रियं
 तोषयन्ति न समस्तसाधनैः ॥३५॥

उनकी दशा वास्तव में शोचनीय होती है। उनसे पशु अच्छे होते हैं जो पुरुष अपनी स्त्री को प्रसन्न नहीं रखते और उसके बिना यथेच्छ काम करते हैं। उनका यह कार्य सर्वथा शोचनीय और निन्दनीय होता है ॥ ३५ ॥

एवमाप्य समयं यतीश्वरः
 खण्डनस्य रभसादुवाच तान् ।

ये जडाश्मपरिपूजने रता-

स्ते जना न परमेश्वरानुगाः ॥३६॥

इस प्रकार एक पक्ष का समर्थन कर स्वामीजी ने दूसरे दिन मूर्ति-पूजकों के प्रति कहा कि जो पुरुष जड़ पाषाण की पूजा में अपना समय बिताते रहते हैं वे कदापि परमेश्वर के रूपापात्र नहीं बनते ॥ ३६ ॥

सर्वशक्तिसहितं महेश्वरं

ये विहाय जडमूर्तितत्पराः ।

ते विनिन्दनपराः प्रभोरहो

किं न सर्वमयताऽपहारिणः ॥३७॥

जो मनुष्य सर्वशक्तिमान्, जगदाधार, जगदीश्वर, जगदन्तर्यामी का आश्रय छोड़ कर उसको एक मूर्ति में मानते हैं वे उसकी व्यापकता को हटाकर एक प्रकार से उसकी निन्दा करते हैं ॥ ३७ ॥

मण्डलेश्वरमिवैकदेश्यं

सर्वशक्तिपमऽनन्यशक्तिपम् ।

सर्वदेवगतमेकदेवगं

सर्वविश्वनिलयं गृहैकगम् ॥३८॥

जो पुरुष विश्व के पति को एक देश का पति मानते हैं, सर्वशक्तिमान् को एक शक्तिवाला मानते हैं समस्त देवतों के अंदर प्रकाश देने वाले को एक देवता में मानते हैं, समस्त विश्व में व्याप्त को एक गृह में बैठा हुआ मानते हैं ॥ ३८ ॥

ये जनाः स्वहृदये विचारय-

न्त्युद्भूमादिव सदान्धमानसाः ।

ते न कामिह नियन्त्रणास्त्रला-

द्यान्ति कर्मफलसङ्गमादिव ॥३९॥

वे मूर्ख पुरुष इस जगत् में कौन से दुःख को नहीं भोगते ? जो जो दुर्दशा वे उस जगन्नियता की करते हैं उससे कई गुनी अधिक उनको प्राप्त हो जाती है । उलटे कर्मों का तो फल ऐसा होना ही चाहिए ॥ ३९ ॥

शोकमोहभयतापपीडना-

न्यत्र यानि विलसन्ति भूतले ।

तानि दण्डवदलंसमीक्षया

विश्वपः प्रतिददाति निश्चितम् ॥४०॥

इस संसार में जो कुछ शोक, मोह, भय, ताप आदि अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं वे सब अपने ही कर्मों के फल रूप होते हैं और ईश्वर उनका फल देने वाला होता है । इसीलिए उसको साक्षी माना गया है ॥ ४० ॥

एवमावदति योगिनां वरे

सान्ध्यविध्यनुगमादिवातुरा ।

सा संभा निजगृहोचितैः पथै-

स्तानि तानि भवनान्यरं ययौ ॥४१॥

इस प्रकार व्याख्यान देते हुए सायङ्काल हो गया । छः बजने के साथ ही स्वामीजी अपने बँगले को पधारे और श्रोता लोग भी आपका गुणगान करते हुए अपने अपने घर चलने लगे ॥ ४१ ॥

देवेष समयानुबन्धने

पूर्णदृष्टिरभवद्यथायथम् ।

तेन तस्य सकलानि साधना-

न्युत्तमानि नितरां समाभवन् ॥४२॥

स्वामीजी अपने समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे । इसलिये उनका कोई भी कार्य बिगड़ने नहीं पाता था । उनके सब काम समय पर तैयार रहते थे और वे स्वयं समय पर ही करते थे ॥ ४२ ॥

एकदा दशनिनादनात्परं
 शेषकार्यमितरेहनीत्यलम् ।
 तत्पुरस्थनरपोपि किं न सः
 प्रेषितो निगदता निजं गृहम् ॥४३॥

एक दिन महाराजा जशवंतसिंहजी आपसे कुछ बातचीत करते रहे । इतने ही में दस बज गये । स्वामीजी ने राजा साहब से अनःशंक कह दिया कि शेष वार्तालाप कल के लिए रखिए । जाइए । आराम कीजिए ॥४३॥

सर्वमस्य समयानुयन्त्रणा-
 ज्ञोजनं गमनमागमस्तथा ।
 वक्तृता लिखनपाठनादिकं
 स्वस्वकालगतमेव चाभवत् ॥४४॥

जो कुछ भी स्वामीजी का भोजन, गमन, आगमन (जाना आना) भाषण, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, था सब अपने अपने समय पर हुआ करता था । समय पर स्वामीजी और काम छोड़कर उस नियत कार्य को ही करते थे ॥ ४४ ॥

एकदात्र चरतः प्रतिश्रुतं
 यत्किमप्यतिनिकृष्टभाववत् ।
 तन्न वर्णयितुमिच्छतीव मे
 मानसं यतिवरस्य वर्णने ॥४५॥

एक दिन आपने यहाँ के एकचर (गुप्त दूत) से यहाँ के राजा जशवंत-सिंह की कुछ अप्रकट (प्राइवेट) बातें सुनलीं जिनका वर्णन हिंदी-जीवन-चरितों में विस्तारपूर्वक लिखा हुआ है । इस पवित्र काव्य में हम उन बातों का उल्लेख करना उचित नहीं समझते ॥ ४५ ॥

कर्णशूलमिदमस्य योगिनो-
 मानसं न सकलेन्द्रियव्रजम् ।

मूर्च्छितं प्रतिचकार वेगव-

दारुणेन गरलेन सन्मितम् ॥४६॥

कर्णशूल से भी अधिक पीड़ा देने वाला यह पाप वृत्तांत न केवल ऋषि के मन को बल्कि समस्त इन्द्रियगण को भी मूर्च्छित कर गया । क्योंकि दारुण विष से भी यह अधिक विषधर था ॥ ४६ ॥

सत्यमेव निगदन्ति कोविदा

नो विषं खलवचः समं यतः ।

भक्षणाद्गरलमत्र दुःखदं

तत्तु कर्णपुटकश्रवादपि ॥४७॥

यह जो विद्वानों का कथन है कि खल का वचन विषधर से भी अत्यन्त विषधर होता है वह ठीक है । विष तो खाने पर असर दिखाता है परन्तु खल का वचन श्रवण मात्र से असर कर देता है ॥ ४७ ॥

खेदेष इति योगिनांवरः

स्वे मनोमयपुटे यदभ्यधात् ।

वेगतः स्वगतमेव तद्वच-

स्तस्य हानिकरमाभवद्ध्रुवम् ॥४८॥

इस प्रकार गुप्त दूत की गुप्त बातें सुनकर जो ऋषि ने अपने मन में पश्चात्ताप किया, वही पश्चात्ताप आपके लिए हानिकारक हुआ और भारत-वर्ष को शोकसागर में डुबो गया ॥ ४८ ॥

केयमस्य भुवनस्य दुर्दशा

सङ्गतास्ति परमेश्वर ! प्रभो ! ।

या न याति विलयं कुबुद्धिभि-

र्वर्द्धिता प्रतिदिनं विवर्धते ॥४९॥

आप अपने मन में विचार करने लगे कि हे परमात्मन् ! इस भारतवर्ष के लिए यह क्या दुर्दशा उपस्थित हुई जो किसी प्रकार भी शान्ति को प्राप्त नहीं होती और प्रति दिन बढ़ती ही चली जा रही है ॥ ४९ ॥

केन केन किल कर्मणा जनाः
पापपुरायवशगेन भूतले ।
यान्ति जन्म विलयं च नेमिव-
न्न प्रवृत्तिमनुयुञ्जते सुखे ॥५०॥

न मालूम किन पापों से और किन पुण्यों से मनुष्य यहाँ पर जन्म ले लेते हैं और उन उन कर्मों का फल भोग भोग कर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं । रथ-चक्र के समान इन्हीं धंधों में लगे रहते हैं । मुक्ति को कोई नहीं चाहता ॥ ५० ॥

का भविष्यति दशास्य नो मया
बुध्यतेऽधमचरित्रतत्परैः ।
यत् सर्वमनुजैरलङ्कृता
गर्हणैव तव हे दयामय ! ॥५१॥

न मालूम इस संसार की अब क्या दशा होगी । कुछ समझ में नहीं आता । जहाँ पर पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पुरुष कुछ भी आपका भय नहीं मानते बल्कि आपकी निन्दा (अवज्ञा) किया करते हैं ॥ ५१ ॥

कश्च पापमखिलं भुवस्तलाद्
भूतिमाप्य भुवने विनाशयेत् ।
कश्च सज्जनचकोरचन्द्रिका-
चातुरीपदमटेदलङ्कृतम् ॥५२॥

वह कौन सा मनुष्य होगा जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर जितना कुछ पाप कर्म फैल रहा है सबको एक साथ हटावेगा और सज्जनरूपी चकोरों के लिए अपनी प्रभाव रूपी चन्द्रिका का अद्वितीय पात्र होगा ॥५२॥

एवमात्मनि विचारवानसौ
 योगिराडनुशयादिवान्वहम् ।
 तत्पुरोपवनविभ्रमागमै-
 स्तान्यहानि कथमप्ययापयत् ॥५३॥

इस प्रकार अपनी आत्मा में विचार करते करते ऋषि दयानन्द पद्मा-
 ताप के साथ आप भी खिन्न हुए और बगीचों में भ्रमण करते करते कुछ
 दिन व्यतीत करने लगे । कारण इसका कुछ और ही था ॥ ५३ ॥

केषुचित्प्रतिगतेषु यत्नतः
 सदिनेषु मनुजाधिपः स्वयम् ।
 योगिनं निजनिवासमन्दिरे
 वक्तृतार्थमवरः समाह्वयत् ॥५४॥

कुछ दिनों के बाद महाराजा जशवंतसिंहजी ने आपको अपने महलों में
 आने को निमन्त्रित किया । इसका कारण यह था कि वे महलों में भी
 आपका व्याख्यान कराना चाहते थे ॥ ५४ ॥

योगिराडपि नितान्तहर्षितः
 स्वीचकार गमनं सहृद्गृहे ।
 यस्य कारणमिदं विशेषतः
 सूपदेशकरणं समाभवत् ॥५५॥

महाराजा का निमन्त्रण पत्र आने पर स्वामीजी ने जाना स्वीकार किया,
 परन्तु कारण इसका भी अत्यन्त दुरूह था । इस अवसर पर आप एक
 विशेष उपदेश देना चाहते थे जो कि कई दिन से उनके चित्त में आविर्भूत
 हुआ था ॥ ५५ ॥

वीक्ष्य तत्र चरितं विचित्रितं
 रोषपूरितमना यतीश्वरः ।

मानसे सकलविश्वदुर्दशा-

माश्वपश्यदयमात्ममानसः ॥५६॥

यहाँ का कुछ हाल सुन कर स्वामीजी मन में रुष्ट हुए । वे मन में भावी दुर्दशा का अनुमान कर अपने उपदेश में वर्तमान राजाओं की जो प्रवृत्त दशा है उसका अच्छे प्रकार चित्र खींचने लगे ॥ ५६ ॥

यद्वदुत्तमविशालदर्पणे

सत्वरं पतति वस्तुनः प्रभा ।

तद्वदेव मुनिचित्तसत्पुटे

तच्चरित्तमभवद्विचित्तितम् ॥५७॥

जिस प्रकार निर्मल विशाल दर्पण में सामने आये हुए पदार्थ का चित्र (प्रतिबिम्ब) बहुत शीघ्र पड़ जाता है इसी प्रकार स्वामीजी के विशुद्ध और विशाल हृदय में जगत् की भावी दशा का चित्र खिँच गया ॥ ५७ ॥

स्पष्टमेव किल वक्तृतोदये

योगिराडगददुत्तरोत्तरम् ।

सिंहयूथमधुना शुनीव्रजं

याति वैषयिकभोगवाञ्छया ॥५८॥

उपदेश देते समय स्वामीजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया कि मालूम होता है और वह समय अब बहुत शीघ्र आने वाला है कि जब विषय की लालसा से सिंहों के समूह कुतियों के पीछे पीछे दौड़ा करेंगे ॥ ५८ ॥

नैजदेशगतभूपदुर्दशा-

नाटकाङ्कितहृदन्तरप्रभः ।

विस्तरेण निजगाद भूभुजां

मध्यएव स यथोचितां गिरम् ॥५९॥

मैं आज कल के राजपूत राजाओं की दुर्दशा देख कर अनुमान करता हूँ कि क्षत्रियों के वंश इस कलिकाल में सर्वथा अधोगति को प्राप्त होंगे । नहीं तो इस प्रकार के कुकर्म क्यों उपस्थित होने लगे ॥ ५९ ॥

पापकर्मनिरताः किल स्त्रियः
 साम्यमुद्धरतया शुनीव्रजैः ।
 यान्ति तद्गमनकर्मतत्पराः
 किं न तत्पतयएव वास्तवे ॥६०॥

इस संसार में जितनी नीच और व्यभिचारिणी स्त्रियाँ हैं वे कुतियों के समान हैं । जो पुरुष उनके साथ व्यभिचार करने में तत्पर रहते हैं वे फ्यों कर कुत्तों के समान न हों ॥ ६० ॥

रूपहानिवलहानिकारकं
 बुद्धिनाशधननाशकार्य्यपि ।
 कीर्तिसन्ततिसुखादिसाधनं
 नाशमेव किल यापयत्यदः ॥६१॥

वास्तव में व्यभिचार रूप को नष्ट कर देता है, धर्म को भ्रष्ट कर देता है, बल को क्षीण कर देता है बुद्धि और धन का सत्यानाश कर देता है, वंश का विध्वंस, कीर्ति का प्रध्वंस और सुख-सम्पत्ति का विनाश कर देता है ॥ ६१ ॥

इत्युदीरयति योगिनां वरे
 तत्पुरस्थनृपचित्तमञ्जसा ।
 सत्वरं समभवद्धृतप्रभं
 धर्ममार्गगमने धृतव्रतम् ॥६२॥

आपके इतना कहने पर महाराजा के चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सचेत हो गये और धर्म मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुए ॥ ६२ ॥

मानवा अपि तदा महामुने-
 स्तद्वचो बहुनिपीय हर्षिताः ।

तत्र पापकरणादराः परं

शोकमापुरितरेतरेक्षणाः ॥६३॥

इस सभा में बैठे हुए मनुष्य भी आपके भाषण से आज बहुत कुछ आनन्द को प्राप्त हुए परन्तु जो मनुष्य पापी, दुराचारी और अधर्मात्मा थे वे आपस में देखने लगे और घबराने लगे कि अब क्या करें ॥ ६३ ॥

योगिनाप्यनुगतं महीभुजं

वीक्ष्य नैजकथनाफलोदयः ।

स्पष्टएव किल दर्शितोजने

सत्यवागनुभवश्च तादृशः ॥६४॥

ऋषि दयानन्द ने भी महाराजा को अपने कथनानुकूल चलता देख कर अपने कथन का परिश्रम सफल माना और साथ में यह भी मनुष्यों को दिखा दिया कि सत्य का और सत्यवादी का सर्वत्र जय होता है ॥ ६४ ॥

येष्वहःसु मुनिना निजेच्छया

वर्णिता सकलभूपदुर्दशा ।

तेष्वहःसु भुवनस्य सा दशा

या न वक्तुमुचिता महाधमा ॥६५॥

जिन दिनों आपने अपनी इच्छानुसार वर्तमान राजाओं का दुर्दशा-पूर्ण चित्र खींचा! उन्हीं दिनों में संसार की भी आपने वर्तमान दशा अच्छे प्रकार दिखा दी जो कि वास्तव में अनिर्वचनीय थी ॥ ६५ ॥

वर्णनावसरएव पार्वती-

जानकी-द्रुपद-भीम-पुत्रिका ।

सच्चरित्रमपि तेन योगिना

वर्णितं मुदमितेन तद्यथा ॥६६॥

व्याख्यान के अवसर में पातिव्रत का पक्ष आने पर स्वामीजी ने महारानी सीता, महारानी दमयन्ती, महारानी द्रौपदी आदि अनेक पतिव्रताओं का दृश्य दिखलाया और साथ ही आधुनिक स्त्रियों का दोष भी बतलाया ॥६६॥

येयमस्ति भुवनस्य सदृशा
साद्य किं नृपविधानतः स्थिरा ।
किं तु धर्मरतयोषितामियं
वर्तते प्रबलभाग्यकल्पना ॥६७॥

आपने एक आर्य्य पुरुष से बातचीत में कहा कि जो कुछ छोटी छोटी रियासतों की अब भी कुछ अच्छी अवस्था है वह रानियों के पातिव्रत धर्म के कारण से है । ये विचारी अपने धर्म का पालन किया करती हैं ॥ ६७ ॥

यादृशी भुवि मनुष्यवर्तना
तादृशी यदि भवेत्सुयोषिताम् ।
सर्वथैव विलयस्तदा भवे-
न्नात्र शङ्कनमवस्थितं लघु ॥६८॥

आज कल जैसे पुरुषों के कर्म हैं यदि ऐसे ही स्त्रियों के होते तो कभी का वेड़ा डूब गया होता । यहाँ पर क्षत्रियों का नाम भी न रहता । इन धार्मिक रानियों का यह प्रभाव है कि वे आज तक स्थिर हैं ॥ ६८ ॥

इत्युदीरयति कोविदोत्तमे
सा सभा किल विसर्जिताऽभवत् ।
कष्टमित्यपि नितान्तदुःखितो-
भानुराप वरुणाङ्कितां दिशम् ॥६९॥

इस प्रकार स्वामीजी के कहने पर सभा विसर्जित हुई । स्वामीजी अपने स्थान को पधारे । सब लोग अपने अपने स्थलों को सिधारे । भुवन-भास्कर सूर्य भी आज की बातों से, जो कि महाराजा ने कीं, अप्रसन्न हो पृथ्वी की दिशा को चले गये ॥ ६९ ॥

चालनाय जलधिं गते रवौ

कल्मषस्य भुवनावलोकनात् ।

सङ्गतस्य हिमदीधितिर्जवात्

किंकिमित्यनुवदन्समापतत् ॥७०॥

पापी जगत् के देखने से उत्पन्न हुए पाप के धोने के लिए समुद्र के पास सूर्य को जाता देख कर क्या हुआ क्या हुआ, कहता हुआ चन्द्रमा शीघ्र ही निकलने को उद्यत हुआ ॥ ७० ॥

गच्छतो दिनकरस्य वारुणी-

सागतस्य च ततो निशाम्पतेः ।

पीतिमा समवदन्न वारुणी-

पानजं किमु फलं भुवस्तले ॥७१॥

वारुणी को जाते हुए और वारुणी के सङ्ग से लौट कर आते हुए सूर्य और चन्द्रमा की जो पीतिमा है क्या वह वारुणी के (मंदिरा के) संगम का फल नहीं बतलाती ? ॥ ७१ ॥

तुल्यमार्गगमनादहर्दिवं

तुल्यकार्यकरणादपि ध्रुवम् ।

मित्रशोकसमये निशापतिः

सख्यमात्मकिरयौरदर्शयत् ॥७२॥

एक मार्ग में जाने आने से और एक सा काम करने से सूर्य का मित्र चन्द्रमा और चन्द्रमा का मित्र सूर्य माना गया है इसलिए सूर्य के अस्त में चन्द्रमा उपस्थित हुआ ॥ ७२ ॥

अस्तपर्वतगताद्धमेकतो-

भानुविश्वमुदयाचलोद्गतम् ।

चन्द्रविम्बमपि तादृगन्यतः

काञ्चिदाप कसनीयतां दिवि ॥७३॥

एक ओर से छिपा हुआ सूर्य का अर्द्धभाग और दूसरी तरफ से निकला हुआ चन्द्रमा का अर्द्धभाग आकाश में एक अनिर्वचनीय शोभा का कारण बन गया ॥ ७३ ॥

संमदादुभयतः करे दधद्-

भाजनं विधृतभिचुकव्रतः ।

कालभिचुरभवत्समन्ततो-

दत्तदृष्टिरुदुमोदकव्रजे ॥७४॥

समयरूप संन्यासी प्रसन्न हो दोनों हाथों में भिक्षा-कपाल लेकर जो इधर उधर देखने लगा तो तारागण रूप मोदक एकत्र देख मानों मन में फूला नहीं समाया ॥ ७४ ॥

योजनार्थसुभयोरुपस्थितो-

यावदेव विधिरेकतोगतम् ।

विम्बमेकमपरं च पूर्णता-

माप विस्मयमतो ययौ कविः ॥७५॥

दोनों सूर्य और चन्द्रमा के आधे आधे टुकड़ों को जोड़ने के लिए जब तक विधाता आया तब तक एक सर्वथा छिप गया दूसरा निकल आया इस-लिए कवि (शुक्र) हँस पड़े ॥ ७५ ॥

नो विरुद्धगुणयोर्भुवस्तले

सङ्गमो भवति योजनादिति ।

ख्यापयन् रविरगादधस्तलं

शीतगुश्च रभसान्नभस्तलम् ॥७६॥

विरुद्ध गुण वाले दो पदार्थों का कदापि संगम नहीं हुआ करता । जोड़ने वाला कितना ही चतुर हो यह दिखलाने के लिए सूर्य जोड़ने से पहले पाताल चला गया और चन्द्रमा आकाश को ॥ ७६ ॥

तेन रात्रिसमये समुद्रतं

यत्कलङ्ककमदर्शि भूतले ।

तस्य विम्बमधुनापि दृश्यते

निर्मलेस्य हृदये व्यवस्थितम् ॥७७॥

रात्रि को प्राप्त होकर किरणों द्वारा जगत् में फैला हुआ पाप जो चन्द्रमा ने देखा उसका चिह्न उसके अन्दर आज तक विद्यमान है और कोई बात उसके अन्दर नहीं है ॥ ७७ ॥

प्रातरेत्य भुवनं पुनारविः

सादरं किरणपङ्क्तिमस्तृणोत् ।

योगिराडपि निजोचितां कृतिं

हर्षवेगवशतः समातनोत् ॥७८॥

प्रातःकाल होते ही सूर्य ने भुवन में आकर फिर अपना किरण-समूह फैलाया । स्वामीजी ने भी अपने कर्तव्य आरम्भ किये । दोनों ने अपना अपना काम आनन्दपूर्वक आरम्भ किया ॥ ७८ ॥

मोहतोयधिपरिप्लुतं जनं

वेद नौ समवलम्बनोदयात् ।

वीक्ष्य भारततले समुद्धरन्

कानि कानि चरितानि नाकरोत् ॥७९॥

मोहसागर के अन्दर डूबे हुए इस जगत् को वेदरूपी नौका का सहारा देकर स्वामीजी ने निकाला । वह कौन सा उपकार बाक़ी रहा जो जगत् के उद्धारार्थ स्वामीजी ने नहीं किया ? ॥ ७९ ॥

एवमेव समये गते यतिः

पत्रमेकमभिलिख्य सादरम् ।

सत्वरं मरुभुवांपतेः कृते

ऽप्रेषयत्सकलभावगर्भितम् ॥८०॥

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर स्वामीजी ने महाराजा प्रतापसिंहजी के लिए एक पत्र लिखा और वह मनुष्य के द्वारा शीघ्र ही उनके पास पहुंचवा दिया ताकि उत्तर में विलम्ब न हो जावे ॥ ८० ॥

यत्र सर्वमितिवृत्तमाहितं

तत्तदीयनगरस्य योगिना ।

मन्त्रवत्पुरपतिर्विलोकयन्

मूकएव समतिष्ठतानतः ॥८१॥

उस पत्र में आपने जितनी जोधपुर रियासत की खराबी की बातें थीं महाराजा को लिख दीं ताकि वह इसका शीघ्र उचित प्रबन्ध कर अपने राज्य को निर्दोष बनावे ॥ ८१ ॥

आत्मनोपि विषये सुशिक्षणां

वीक्ष्य तद्दलगतां महीपतिः ।

शिष्यवद्गुरुजनोचितप्रथां

स्वीचकार समदर्शयच्च ताम् ॥८२॥

उस पत्र को पढ़ कर महाराजा ने स्वामीजी को अपना गुरु माना और आप शिष्य बनकर जो जो आपने बतलाया सब उसी रीति से किया और स्वामीजी को भी तदनुकूल दिखला दिया ॥ ८२ ॥

यानि यानि करणानि योगिना

सुप्रबन्धविषयोचितान्यलम् ।

दर्शितानि जनपाय दैवत-

स्तानि तानि सकलान्यकारयत् ॥८३॥

उस पत्र में आपने यह भी लिख दिया कि अमुक अमुक बातों के सुधारने से आप इस कार्य में सिद्धहस्त हो जावेंगे। आप ध्यान दें। आपके ऊपर रियासत का बड़ा भारी भार है ॥ ८३ ॥

एवमत्र भुवने कृतोद्यमो-
यावदेष न समाप्तिमाययौ ।
तावदेव परमेश्वराज्ञया
कोपि दूतइव पादयोरगात् ॥८४॥

इस प्रकार जब तक स्वामीजी अपना काम जगत् में पूरा न करने पाये तभी तक एक ईश्वरीय निर्देश आपके चरणों में आकर अचानक उपस्थित हो गया ॥ ८४ ॥

वाचिकं स विनिवेद्य सादरं
स्वागताय विनियोज्य चेतरेत् ।
गन्तुमिच्छुरिव नायकाङ्गणं
व्यत्यतिष्ठत समुत्तरेच्छया ॥८५॥

वह मुक्त पुरुषों का भेजा हुआ कुछ इशारा आपको समझा कर जाने के लिए तैयार हो, आपसे जवाब मांगने की प्रतीक्षा करता रहा अर्थात् काल उपस्थित होकर कहने लगा कि चलिए आपके साथी मुक्त पुरुष आपको याद करते हैं, बहुत दिन हो गये ॥ ८५ ॥

आदरात्प्रतिगतेऽनुलभ्यतां-
वाचसस्य विदुषोपि दूतके ।
तन्नियोजितजनाः समन्तत-
श्चक्रिरे गमनसर्वसाधनम् ॥८६॥

आपने भी उससे इशारे में कह दिया कि चलो आते हैं। बहुत देर नहीं है। इतना सुन कर वह चला गया। इधर उस दूत के लगाये हुए जन चारों ओर से आपके जाने की तैयारियाँ करने लगे ॥ ८६ ॥

सर्वतः प्रथममेष पाचको-
 धौडमिश्रइह दुष्टमानवैः ।
 सत्कृतो गरलदानकर्मणि-
 प्रेरितश्च धनदानलोभनैः ॥८७॥

सबसे पहले आपका रसोई बनाने वाला रसोइया जिसका नाम धौड़-
 मिश्र था काल दूतों ने पट्टी पर चढ़ाया और उससे कहा कि जो तुम
 स्वामीजी को धिप दे दो तो तुमको हम इतना द्रव्य देंगे ॥ ८७ ॥

धीवरस्तदपरं महाधमै-
 नौदितो धनमिहाहरत्पुनः ।
 दूरदेशमगमन्मुनेर्द्रुतं
 सप्त तानि शतकानि यन्मितिः ॥८८॥

फिर आपका पानी भरने वाला कहार जो था उसको कालदूतों ने
 सिखाया और वह भी ७०० रुपये लेकर भाग गया । उसका कुछ पता न
 लगा । भला संकेत में काम करने वालों का पता कैसे लगता ? ॥ ८८ ॥

एवमेष बहु दूतचेष्टितं
 वीक्ष्य सत्वरगतौ कृतोद्यमः ।
 कारणान्तरवशादिनैककं
 वस्तुमत्र पुनराहतोऽभवत् ॥८९॥

इस प्रकार के अनेक उपद्रव देख कर आप यहाँ से चलने को उद्यत
 हुए परन्तु विशेष कारण से आज २७ दिसम्बर को न चल सके । कारण
 और कुछ नहीं, वही काल की कूट रचना है ॥ ८९ ॥

प्रातरत्र कृतपूर्ववत्क्रियः
 सौरभाणि पयसा समं मुदा ।

सायमेष समभक्षयत्पुनः

स्वीचकार शयनं क्रमागतम् ॥६०॥

२९ दिसम्बर को जो कुछ आप प्रति दिन अपना काम करते थे प्रातःकाल से लेकर सायंकाल पर्यन्त करते रहे। सायंकाल को आपने आम खाकर धौड़मिश्र से दूध लेकर पिया। फिर आप सो गये ॥ ९० ॥

एवमेष मुनिरुत्तरोत्तर-

ध्वस्तसर्वमतवादकल्पनः ।

भारतोदरगतेषु पत्तने-

ष्वदरेण निगमोक्तमातनोत् ॥६१॥

इस प्रकार के समस्त कल्पित मतों के विध्वंस में दक्ष ऋषि दयानन्द भारतवर्ष के भीतर बसे हुए प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों में एकतः वैदिक धर्म प्रचार कर चुके और सबसे पहले विद्याध्ययन के मिष से उत्तर, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उनका मध्य विजय कर भुवर और स्वर लोक में वैदिक धर्म का प्रचार करने को उद्यत हुए। निमंत्रण भी आ ही गया। अब केवल पोशाक बदलनी बाकी रही थी ॥ ९१ ॥

यत्कृतं मुनिवरेण भारते

भारतोदयकृते शिवं कृतम् ।

भारतोन्नतिनिविष्टचेतसा

भारते भवतु तन्मुदे सताम् ॥६२॥

जो कुछ ऋषि ने भारत के अन्दर भारत की उन्नति के लिए भारत की उन्नति में दत्तचित्त होकर शुभ कार्य किया वह सज्जनों के लिए सुख देने वाला हो। यही वक्तव्य बाकी रहा और कुछ नहीं ॥ ९२ ॥

यत्परं समभवत्तदग्रिमे

वर्णितं न रसभङ्गकारणात् ।

अत्र सज्जनवरैर्विलोक्यतां

योगिराजचरितं मनोरमम् ॥६३॥

अब जो कुछ वृत्तांत बाक़ी रहा उसका वर्णन अगले १९ में सर्ग में किया जायगा । रसविच्छेद के कारण यहाँ पर नहीं कर सकते । सज्जन गण वही पर देखने की कृपा करें ॥ ९३ ॥

❁ चक्रबन्धः ❁

तत्त्वं सर्वसुखात्मकं समकलं सानन्दमेकं परं
लब्ध्वा येन गुणाकरेण महता संबोधितं तन्मुदा ।
मुक्तेर्वर्त्म दयामयेन महतां मान्येन हर्षात्तदा
दाम्यन्तं तमलं लयान्तमुदितं रम्यं सदानं सदा ॥६४॥

समस्त आनन्द का भंडार एक रस जो ईश्वर का अनिर्वचनीय स्वरूप है, उसको योग बल से जानने वाले ऋषि ने सबके लिए मुक्ति का मार्ग बतला दिया । दानी दमन करनेवाले यशरूप से जगत् में सर्वदा स्थिर, उस ऋषि दयानन्द को हृदय में धन्यवाद दीजिए और स्मरण रखिए ॥ ९४ ॥

इति निरवधिसौर्यावाप्तिकामः स योगी
यदनुदिनसकार्षींश्चर्मध्ये चरित्रम् ।
तदखिलमिह भक्त्या वर्णितं सज्जनानां
विलसतु परिशुद्धे मानसे सर्वभावैः ॥६५॥

अनन्त सुख की कामना करनेवाले ऋषि ने जो जो प्रति दिन इस जगत् में कार्य किया सबका सब इस महाकाव्य में मैंने अन्यय भक्ति से वर्णन किया सज्जनों के विमल अंतःकरण में वह सर्वदा समस्त भावों से विद्यमान रहे और विजय को प्राप्त हो ॥ ९५ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सातिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये

सद्गुपदेशावसानं नामाष्टादशः सर्गः ।



एकोनविंशः सर्गः

इससे पहले सर्ग में दूध पीकर स्वामीजी का शयनांत वर्णन किया गया है। अब उसके बाद के वृत्तांत सुनाने के लिए यह सर्ग आरम्भ किया जाता है:—

अथाल्पसमयादेव चित्ते विष्टरशायिनाम् ।
स्वामिनामभवत्कोपि महोद्वेगो भयावहः ॥१॥

पलंग पर लेटे हुए स्वामीजी का थोड़ी ही देर में जी मचलाया और उनके चित्त में भयङ्कर उद्वेग आरम्भ हुआ, जिसका कारण आगे बतलावेंगे ॥ १ ॥

अल्पकालात्परं दैवावेगादिव रुजाकरम् ।
शूलमौदरिकं चित्तं व्यथयामास वेगवत् ॥२॥

जी मचलाने के बाद कुछ देर में अत्यन्त कष्टदायक उदरशूल हुआ जिसके होने पर आपका चित्त और भी खिन्न हो गया और कष्ट बढ़ गया ॥ २ ॥

सत्रा दुग्धेन मिष्टान्तर्गतकाचकणाणुगा ।
निदानमभवत्तस्य सपीतिरुपजीविका ॥३॥

पीछे से निश्चित रीति पर मालूम हुआ कि दूध में चीनी के साथ काँच पीस कर दिया गया था। वही इस रोग का कारण हुआ। वह शरीर में प्रविष्ट हो कर निकल न सका ॥ ३ ॥

१ कण्ठाभरणामते भिन्नलिङ्गता गुणः अतएव न परिचयो मालिनात्मनां प्रधानम् इति माघः ।

आदिनोदयमेतेन न कोप्युत्थापितो जनः ।

समदर्शितया तत्र निद्राविच्छेदकारणात् ॥४॥

अपने समान सबका सुख दुःख समझ कर प्रातःकाल होने तक आपने निद्रा से किसी भी पुरुष को नहीं जगाया । इसलिए उपाय न होने पर कष्ट बढ़ता गया ॥ ४ ॥

वमने सत्यपि श्रीमान्स्वयमेव जलादिकम् ।

समानीयाऽऽस्यसंशुद्धिमकार्थीच्छुद्धकल्पनः ॥५॥

वमन होने पर भी आप स्वयं उठ कर जल ले लेते थे और उससे हाथ मुहँ धोकर फिर लेट जाते थे, फिर उठते थे, फिर लेट जाया करते थे ॥५॥

विरुद्धनियमाधानाद्दिनानन्तमुरत्थितिः ।

नैर्बल्यतो न सञ्चारकल्पना च तदाभवत् ॥६॥

आज प्रातःकाल आप ब्राह्म मुहूर्त के बदले दिन चढ़े उठे । इसका कारण शरीर की निर्बलता और बेचैनी थी । इसीलिए भ्रमण करने को भी कहीं नहीं गये ॥ ६ ॥

जनानाज्ञापयत्स्वीयान्हवनाय तदा यतिः ।

मातरिश्वा न तत्रत्यः समीचीनो यतोऽभवत् ॥७॥

उठने के साथ ही आपने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि हवन करो । जिससे रात्रि भर का दुर्गन्धित वायु मकान से निकल जाय और शुद्ध वायु आ जाय ॥ ७ ॥

अत्रान्तरे महावेगादभूद्देवोदयादिव ।

शूलमौदरिकं पश्चादतीसारश्च वेगवान् ॥८॥

इतने ही में बड़े जोर के साथ उदरशूल उठा और साथ ही अतीसार का भी होना आरम्भ हुआ, जिससे और भी बेचैनी और निर्बलता बढ़ती ही चली गई ॥ ८ ॥

अस्यामपि दशायां स यतिराडतिधैर्यवान् ।
नागमत्कैव्यमेकान्तं सत्यमेवावदज्जनान् ॥६॥

इस दशा में भी श्री १०८ स्वामीजी महाराज अत्यन्त धैर्य से काम लेते थे और पूछने पर अपनी वास्तविक दशा सबको बतला दिया करते थे ॥ ९ ॥

पूर्वं भिषग्वरः कोपि नाम्ना सूर्यमलो मुनेः ।
चिकित्सां कर्तुमारेभे दिनानां दशकं यतः ॥१०॥

सबसे पहले डाकूर सूर्यमलजी की चिकित्सा आरम्भ हुई । आपने अत्यन्त श्रद्धा के साथ दस दिन तक आपका इलाज किया ॥ १० ॥

तदनन्तरमारेभे चिकित्सां यवनो भिषक् ।
यस्योपचारतो रोगो वृद्धिमेवाप नित्यशः ॥११॥

उसके बाद राज की ओर से डाकूर अलीमर्दानखां का इलाज आरम्भ हुआ जिसके होने से दिन दिन बीमारी बढ़ती ही चली गई ॥ ११ ॥

उपचारादलं तस्य प्रत्यहं यमिनां वपुः ।
क्षयमेवाप दौर्बल्यात्कृष्णपक्षे यथा शशी ॥१२॥

इसीलिए इसकी चिकित्सा से स्वामीजी का दिव्य शरीर कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की तरह दिन दिन क्षीण ही होता चला गया । कुछ भी आराम न हुआ ॥ १२ ॥

चत्वारिंशदतीसारा मूर्च्छनाश्च सहस्रशः ।
दिनैककेऽभवन्वेगादत्तकाचप्रकोपनात् ॥१३॥

अब दूध में दिया हुआ काँच शरीर की संधि संधि में प्रविष्ट हो गया इसलिए एक ही दिन में चालीस चालीस दस्त और बार बार मूर्च्छा का आना आरम्भ हुआ ॥ १३ ॥

पर्यङ्गाङ्कगतस्यास्य भागव्यत्ययकर्मणि ।
बहुदुःखमभूच्छोषो मुखताल्वादिषु स्फुटः ॥१४॥

पलंग पर लेटे हुए स्वामीजी को करवट बदलना भी कठिन हो गया ।
करवट लेने की भी शक्ति नहीं रही और मुख सूखने लगा ॥ १४ ॥

मस्तकोपरि चिह्नानि हिक्राऽऽगमनमुद्‌धुरम् ।
भाषणे कष्टता चापि समाभवदतः परम् ॥१५॥

गरमी के कारण तालु चटकने लगा, जीभ पर छाले पड़ गये, माथे पर
छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आईं, हिचकियों का तार बँध गया ॥ १५ ॥

एतावत्यपि संवेगे रोगस्य गरलागमात् ।
कान्तिरस्य तथैवासीद्यथा पूर्वमवस्थिता ॥१६॥

इतने पर भी आपके मुख की चमक दमक वैसी ही बनी रही जैसी की
पहले थी । मुख की कांति के ऊपर किसी प्रकार का अन्तर न आया ॥१६॥

यमिनोस्य दशां दुष्टा गोपयन्तो न भूपतेः ।
पुरतोन्ववदन्यस्माद्गुगतः पर्यवर्धत ॥१७॥

दुष्ट जन स्वामीजी की दशा को छिपा कर महाराजा जोधपुर के सामने
कुछ का कुछ कह दिया करते थे । इसलिए उनकी चिकित्सा ठीक ठीक न
हुई ॥ १७ ॥

चिकित्सामस्य भिषजः समीक्ष्य हृदये स्वके ।
सूर्यप्रसादो भिषजांवरिष्ठः पर्यतप्यत ॥१८॥

डाकूर अलीमर्दानख़ाँ का इलाज देखकर स्वामीजी के भक्त डाकूर
सूर्यप्रसादजी अपने मन ही मन कुढ़ते थे और दुखी होते थे ॥ १८ ॥

समक्षमागतान्भव्यानवेक्ष्य मनुजानयम् ।
कथयामास देवाय नौषधं साधु दीयते ॥१९॥

किसी किसी समय अपने पास आये हुए पुरुषों से कह भी दिया करते
थे कि स्वामीजी की चिकित्सा अच्छी तरह नहीं होती । यह बात अच्छी
नहीं है ॥ १९ ॥

चपलं क्रियतां दूरमतएवायमुद्धतः ।

पदे निवेश्यतामन्यो वैद्यराडस्य दुर्मतेः ॥२०॥

इसलिए इनको यहाँ से अलग कर दिया जाय और इनकी जगह कोई अच्छा वैद्य बुलाया जाय तो स्वामीजी को आराम हो ॥ २० ॥

एवमाभाषमाणोस्मिन्भिषजासुत्तमे तदा ।

अभवन्विस्मिताः सर्वे बभूवुश्च शुचाऽऽकुलाः ॥२१॥

डाकूर सूर्यमल की बात सुनकर समस्त पुरुष अचम्भे में आ गये और स्वामीजी की हालत देखकर मन में बड़े दुखी हुए ॥ २१ ॥

अकस्मादजतुन्दस्थमनुजेन निरीक्षिता ।

देवरोगसमाचारकल्पना मुद्रिते दले ॥२२॥

इतने ही में एक अजमेर समाज के सभासद ने अचानक ११ अक्टूबर सन् १८८३ ई० को राजपूताना गज़ट में यह समाचार पढ़ा कि स्वामीजी जोधपुर में बीमार हैं ॥ २२ ॥

तां समस्तार्यमनुजे दर्शयित्वा स मानवः ।

समस्तमेव नगरं शोकाकुलमिवाकरोत् ॥२३॥

इस खबर को समस्त अजमेर के पुरुषों के पास लेजाकर सर्वत्र विदित किया कि स्वामीजी बीमार हैं । खबर सुनते ही समस्त जन शोकाकुल हो गये ॥ २३ ॥

पूर्वं तु तैर्न विश्वासः कृतोस्मिन्मुद्रिते दले ।

शत्रुकार्यमिति ज्ञात्वा परमप्रीतिवर्धनात् ॥२४॥

पहले तो अजमेर के पुरुष राजपूताना गज़ट पर विश्वास नहीं लाते थे वह इसलिए कि शायद किसी विरोधी पुरुष ने यह झूठी खबर छाप दी हो ॥ २४ ॥

परमेकदिने काश्चिद्विगिग्योधपुरं गतः ।

निरीक्ष्य यमिनां लीलां मूर्च्छितोभूदधः पतन् ॥२५॥

परन्तु एक दिन अजमेर-समाज की ओर से सेठ जेठमलजी स्वामीजी का हाल देखने के लिए जोधपुर पहुँचे । वे स्वामीजी की हालत देखकर मूर्च्छित हो गये ॥ २५ ॥

संमाश्रांस्य समाभाष्य योगिना सह सत्वरम् ।

अजतुन्दमुपागत्य सर्वं वृत्तमुदाहरत् ॥२६॥

सचेत होने पर स्वामीजी से बात कर जेठमलजी बहुत ही शीघ्र अजमेर आ गये और स्वामीजी की वास्तविक दशा सबको सुना दी । तब सबको विश्वास हुआ ॥ २६ ॥

एतावतैव कालेन तडिन्मार्गमुपेयुषी ।

स्वामिरोगदशा सर्वं भारतं व्याकुलं व्यधात् ॥२७॥

विश्वस्त रीति पर मालूम होते ही चारों ओर तार से खबर फैल गई, जिसमें समस्त आर्यावर्त में कोलाहल मच गया और खेद हुआ ॥ २७ ॥

बह्वः सज्जनाः सर्वा विहायावश्यकां कृतिम् ।

गतास्तद्दर्शनोत्कण्ठा व्याकुलाः पुण्यशालिनः २८

बहुत से सज्जन महाशय (जो कि स्वामीजी को इष्ट देव मानते थे) तुरन्त ही खबर पाकर आपका दर्शन करने के लिए जोधपुर पहुँच गये ॥ २८ ॥

दृष्टैव यमिनामीशं रुदन्तः साश्रुलोचनाः ।

समब्रुवन्महाभाग ! कथं नादायि सूचना ॥२९॥

जाने के साथ ही आपकी यह हालत देखकर आँखों में आँसू भर कर रोने लगे और कहने लगे—महाराज, आपने हमको खबर क्यों नहीं की ॥२९॥

वदतो वीक्ष्य मुनिराडेतानेवं शुचांकुलान् ।

समब्रवीच्छ्रद्धाचन्द्रिकानिर्मलां गिरम् ॥३०॥

स्वामीजी भी अपने भक्तों को इस प्रकार शोकाकुल देख कर शरद ऋतु के चन्द्रमा की चमक को भी मात करने वाली निर्मल वाणी से कहने लगे ॥ ३० ॥

मा भवन्तु शुचाऽऽविष्टा भवन्तो न किमप्यदः ।
भवत्येव शरीरेत्र कष्टं नाश्चर्यमीदृशम् ॥३१॥

आप लोग शोक से व्याकुल न हों, कोई बात नहीं है। शरीर को कष्ट हुआ ही करता है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। कुछ बात होती तो लिख भी देता ॥ ३१ ॥

भवन्तो दुःखमाप्स्यन्ति श्रुत्वा मत्कष्टमणवपि ।
पारवश्यान्मम प्रीतेरतोनादायि सूचना ॥३२॥

मेरे कष्ट का हाल सुनते ही सब लोग घबरा जाते इसलिए मैंने आप लोगों को सूचना नहीं दी। यही कारण है और कुछ नहीं ॥ ३२ ॥

एवं कथितवत्यस्मिन् मुनौ बाष्पविलोचनाः ।
सर्वे जनाः समावेष्ट्य योगिनं ददृशुः शिवम् ॥३३॥

इस प्रकार आपके कहने पर बाहर से आये हुए सब आपके मित्र आँसूभरी आँखों से आपको चारों ओर घेर कर टकटकी लगाये देखने लगे ॥ ३३ ॥

पुनरेकोवदद्देवं त्यज्यतामत्र संस्थितिः ।
सत्वरं गम्यतामस्माद्भिन्नदेशे सुखावहे ॥३४॥

साथ ही एक मित्र ने आपसे निवेदन किया कि महाराज आप यहाँ से वायुपरिवर्तनार्थ यदि अन्यत्र पधारे तो बहुत अच्छा हो ॥ ३४ ॥

एवं गदितवन्तं तं तथास्त्वितिवदन्मुनिः ।
समाह्वयत राजानमुवाच च निजां मतिम् ॥३५॥

स्वामीजी ने भी यह अच्छा समझ कर प्रातः काल होते ही महाराजा जोधपुर को बुलवाया और अर्बुदगिरि जाने को उनसे अपनी इच्छा प्रकट की ॥ ३५ ॥

निषिद्धोपि महीपेन निन्दाव्याकुलितात्मना ।
न मुनिः स्वमनोवाञ्छां गोपयामास वेगवान् ॥३६॥

महाराजा ने कहा कि ऐसे समय में मैं कैसे आपसे जाने को कहूँ । इस समय आपके जाने से मेरी बड़ी बदनामी होगी, परन्तु स्वामीजी का मन देख कर वह भी लाचार हो गये ॥ ३६ ॥

अत्यन्तशोचनीयां तां यदागमदयं दशाम् ।
तदा वैद्यवरानुज्ञाप्यभूदेशविपर्यये ॥३७॥

अंत में १५ अक्तूबर को जब आपकी हालत बहुत शोचनीय हो गई तब सिविलसर्जन एडम साहब की भी यह राय हुई कि आपका आवू पर जाना बहुत अच्छा है ॥ ३७ ॥

अर्बुदं गिरिमेष्यामीत्युक्ते नियमितं दिनम् ।
समभूद्यमिना तूर्णं प्रबन्धश्च समाभवत् ॥३८॥

१६ अक्तूबर को आपका यहाँ से प्रस्थान नियत हुआ । उसके लिए सब सामान तैयार किये गये, ताकि मार्ग में किसी प्रकार का उनको कष्ट न हो ॥ ३८ ॥

मुख्याधिकारपुरुषैः समं राजापि सत्वरम् ।
विनयावनतौ भूमौ निविश्य मुनिमब्रवीत् ॥३९॥

१५ अक्तूबर की शाम को महाराजा जोधपुर मुख्य मुख्य कर्मचारियों को लेकर आपके समीप आये और लज्जित हो नीचा सिर करके कहने लगे ॥ ३९ ॥

अहो दौर्भाग्यमस्माकमीदृशी भवतां दशा ।
दूरदेशं नयत्यद्य श्रीमन्तं मम पत्तनात् ॥४०॥

मैं बड़ा मन्दभागी हूँ जो आप पेसी दशा में मेरी रियासत से बाहर जाते हैं । मेरे लिए यह बड़ा अमंगल है और सर्वदा के लिए कलंक है, परन्तु क्या करूँ ॥ ४० ॥

एवमाभाष्य विनयात्साद्धे द्वे हेमभाजने ।
सहस्रे हैममुद्राणामर्पयद्दीनभावतः ॥४१॥

इतना कह कर एक बड़े भारी सुवर्ण के थाल में महाराजा जोधपुर ने स्वयं रोते रोते अढ़ाई हजार अशरफियाँ निकाल कर रख दीं ॥ ४१ ॥

काश्मीरवस्त्रयुगलं तथान्यदपि सादरम् ।
निवेद्य पादयुगलं पस्पर्श नतमौलिना ॥४२॥

दो और बढ़िया दुशाला उसी थाल पर रखकर और भी बहुत सा सामान आपके लिए भेंट किया और आपके चरणों पर अपना शिर रक्खा ॥ ४२ ॥

निषिद्धेनापि बहुधा यमिना यन्महीभुजा ।
समदायि बहु द्रव्यं तदा स्वीकृतिमागमत् ॥४३॥

स्वामीजी ने यह सब सामान लेने से इनकार किया परन्तु जब महाराजा ने न माना तब स्वीकार कर लिया और रखने की आज्ञा दी ॥ ४३ ॥

नियते दिवसे तस्य पराद्धे समुपागतौ ।
नृपावन्यौ मुनिं द्रष्टुं सहस्रैः सज्जनैर्वृतौ ॥४४॥

१६ अक्टूबर को दुपहर के बाद महाराजा प्रतापसिंहजी और महाराजा जशवंतसिंहजी अनेक मनुष्यों समेत आपको विदा करने के लिए आये ॥४४॥

[युग्मम्]

सुखासीनमिमं देवात्पर्यर्थाङ्गके निरीक्ष्य तौ ।
विष्टरे वेत्रसम्बद्धे निविश्य शनकैः परम् ॥४५॥
निद्राविनिगमे देवमाभाष्य बहुमाननात् ।
कर्मचारिजनानाज्ञापयाभासतुरुत्वरम् ॥४६॥

स्वामीजी इस समय पलंग पर सो रहे थे इसलिये चुपचाप जशवंतसिंहजी कुर्सी पर बैठ गये और प्रतापसिंहजी पलंग के पास फर्श पर बैठ गये जब स्वामीजी की आँखें खुलीं तब दोनों ने सामने आकर

शिर झुका कर प्रणाम किया और जाने का प्रबंध करने के लिए स्वयं उद्यत हुए ॥ ४५ । ४६ ॥

मनुष्यवाह्यमद्यैव सिंहासनमनुत्तमम् ।

समानयंतु वेगेन भवन्तो धीवराँश्च तान् ॥४७॥

कामदारों को आज्ञा दी गई कि तुम बहुत ही शीघ्र सोलह कहारों की पालकी (तामजाम) तैयार करा कर यहाँ पर उपस्थित हो ॥ ४७ ॥

इति सम्भाष्य मनुजान्व्यजनावहनस्थिरान् ।

मनुजान्नियताँस्तूर्णं चक्रतुः शोकसङ्कुलौ ॥४८॥

इस प्रकार कामदारों को आज्ञा देकर पालकी के साथ साथ चलने वाले पंखाकुलियों को महाराजाओं ने स्वयं बुलाकर नियत किया ॥ ४८ ॥

नानाशीतलसम्भारान्यथायथमिमौ नृपौ ।

विधाय राजपुरुषप्रबन्धाय बभूवतुः ॥४९॥

इसके अतिरिक्त और भी सामान तैयार कराया गया । दो खस की टट्टियाँ और कई सिपाही एवं सेवक खास तौर पर नियत किये गये जिससे बीच में कष्ट न हो ॥ ४९ ॥

अर्वुदं गिरिमुद्दिश्य तडिन्मार्गानुमोदनात् ।

प्रेषिता सकला ताभ्यां प्रबन्धानुविधायिता ॥५०॥

चलने के समय आवू को तार दिया गया कि स्वामीजी आते हैं । महाराजा जोधपुर की कोठी में ठहरेगे । सब सामान तैयार रहे । महाराजा की आज्ञा है ॥ ५० ॥

सायङ्कालमुपागम्य शिविकायां यतीश्वरम् ।

संनिवेश्याधिपः पुर्याः पद्भ्यामेव तमन्वगात् ॥५१॥

तार देने के बाद सायंकाल के समय स्वामीजी को पालकी पर बिठलाया गया और बगीचे तक महाराजा जोधपुर पैदल ही आपके पीछे पीछे चले ॥ ५१ ॥

आवाटिकमयं गत्वा सत्वरं मनुजाधिपः ।

रोधयामास शिविकां दर्शनाय महामतेः ॥५२॥

वगीचे के दरवाजे पर पालकी को रुकवाया और पीछे से शीघ्र आकर आपका दर्शन किया । यही कारण पालकी रुकवाने का था ॥ ५२ ॥

निजामूर्णामयीं मृद्धीं शाटिकां स कटीवरे ।

निवध्य नैजहस्तेन विनयावनतोभ्यधात् ॥५३॥

दर्शन करने के बाद आपके आराम के लिए फुलालेन को अपनी खास पेटी महाराजा ने स्वयं स्वामीजी की कमर में बाँध दी और गद्गद हो कहने लगे ॥ ५३ ॥

नास्ति लोके मया तुल्यो मनुजो भुवि यो मुनिम् ।

एवं विधं समुत्सृज्य निजकार्ये रतो भवेत् ॥५४॥

मेरे समान इस जगत् में दूसरा अभाग नहीं है जो इस दशा में भी आपको छोड़कर अपने कार्य में लगा हुआ और विदीर्ण हृदय न हो ॥ ५४ ॥

क्षन्तव्यएव भवता मत्कृतागःसमुच्चयः ।

किमन्यदपरं वाच्यं पुरस्तात्तव हे विभो ! ॥५५॥

आप इस मेरे अपराध को क्षमा करें (जो कि इस समय मैं आपके साथ साथ नहीं जाता हूँ) और मैं आपके समक्ष कुछ कह ही नहीं सकता ॥ ५५ ॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

वक्तव्यमेतदपरं वर्ततेऽर्जुदपर्वतम् ।

समेत्य भवतामेषा यदा नश्येदवस्थितिः ॥५६॥

तदा निर्मुक्तरोगेण श्रीमता सम संनिधौ ।

तडिन्मार्गेण संप्रेष्यं सर्वमप्यात्मवर्तनम् ॥५७॥

सूचनोत्तरमेवाहं सत्वरं भवदन्तिके ।

समागत्य समानेष्ये भवन्तं खगृहं पुनः ॥५८॥

केवल इतना वक्तव्य और है कि जिस समय आप आवू पर जाकर नीरोग हो जावे उस समय मुझे तार दें। मैं फिर आपको लेने के लिए आऊँगा ॥ ५६। ५७। ५८ ॥

इत्युक्त्वा शिविकावाहानप्यवोचदयं नृपः ।
सावधानतया सर्वे भवन्तो यान्तु वर्त्मनि ॥५६॥

आपसे इतना कह कर कहारों से भी कहा कि तुम लोग रास्ते में बड़ी सावधानी से स्वामीजी महाराज को पहुँचाओ। किसी प्रकार का मार्ग में कष्ट न हो ॥ ५९ ॥

(युग्मम्)

सुखसम्प्राप्तसंवासः स्वामी यदि भवत्कृते ।
स्वहस्तलिखितं पत्रं दास्यति प्रीतिपूर्वकम् ॥६०॥
तदा सर्वे भवन्तोत्र मम राज्ये समागताः ।
पारितोषिकमानाभ्यां युक्ता अपि भविष्यथ ॥६१॥

यदि आनन्दपूर्वक स्वामीजी को पहुँचा कर इनका हस्ताक्षरित पत्र लाओगे तो राज्य की ओर से तुम लोगों को अच्छा पारितोषिक (इनाम) मिलेगा ॥ ६०। ६१ ॥

एवमुक्त्वा जनव्रातं प्रणम्य च मुनीश्वरम् ।
पुनरागमनस्यार्थे विनयं बह्वदर्शयत् ॥६२॥

इस प्रकार नौकरों से कह कर श्रीस्वामीजी महाराज का दर्शन करके बार बार फिर दर्शन देने की प्रार्थना करते हुए महाराजा जोधपुर विदा हुए ॥ ६२ ॥

भृत्यानथ यथायोग्यसेवासम्भारतत्परान् ।
विधाय साश्रुनयनो रुदन्यहमगान्तृपः ॥६३॥

अंत में बार बार नौकरों को ताकीद कर गद्गद कण्ठ महाराजा जोधपुर पृथ्वी को आँसुओं से सींचते हुए जैसे जैसे अपने घर को छोड़े ॥ ६३ ॥

कथयामास चैवं यो वैद्यरागमुनिमुत्तमम् ।
करिष्यति सहस्रे द्वे परितोषिकमाप्स्यति ॥६४॥

चलते चलते महाराजा ने यह अपनी अभिलाषा प्रकट की कि जो वैद्य स्वामीजी महाराज को अच्छा करेगा उसको मैं दो हजार रुपये इनाम दूंगा ॥ ६४ ॥

एवमादृतसत्कारो यतिराट् सुखविष्टरे ।
निषराणः प्रययौ हर्षाद्वुदं गिरिमद्भुतम् ॥६५॥

इधर स्वामीजी का भी सफ़र बढ़ा । आवू पर्वत का दृश्य स्वामीजी के मन को अपनी तरफ़ खींच कर मानो स्वामीजी का समय काटना सुलभ करता था ॥ ६५ ॥

मध्ये मध्येऽवतीर्यासौ वाष्पयानादतन्द्रितः ।
हवनं कारयामास परमात्मप्रसादनम् ॥६६॥

मार्ग में जहाँ जहाँ पर ठहरते जाते थे वहाँ वहाँ पर हवन कराया करते थे और मनुष्यों से कहते थे कि ईश्वराज्ञा को यथाशक्ति हर समय पालन करना चाहिए ॥ ६६ ॥

गच्छत्यपि महावेगाद्वाष्पयाने यतीश्वरः ।
हवनाधानधूमेन धूमयानमकल्पयत् ॥६७॥

बड़े वेग के साथ जाती हुई रेल के भीतर भी, अपनी रिजर्व गाड़ी के अन्दर हवन कुण्ड में गेरी हुई सामग्री का धूम मानों (धूमशकटी) शब्द को चरितार्थ करता था ॥ ६७ ॥

एकदा हवनारम्भे ब्राह्मणा वेदपारगाः ।
समागत्य महाहर्षाद्धवनं चक्रिरे समम् ॥६८॥

एक दिन सायंकाल के समय अग्निहोत्र हो रहा था । इतने में दो वेद-पाठी ब्राह्मण कहीं से आकर हवन में संमिलित हुए और घेंदमन्त्र पढ़ने लगे ॥ ६८ ॥

हवनान्ते यतिश्रेष्ठस्तेभ्यो मुद्रैककं मुदा ।

दापयामास विदुषां सत्कारमिव वर्धयन् ॥६६॥

चलते समय स्वामीजी ने अपने मनुष्यों से कहा कि इनको भोजन करने के लिए एक एक मुद्रा दे दो। ऐसा ही किया गया [मुद्रं हर्षं राति ददातीति मुद्रा] इति मुद्रा शब्दनिर्वचनम् ॥ ६९ ॥

काले गते पुराणज्ञानपि सन्निधिमागतान् ।

वारयामास धर्म्मात्मा सत्वरं यमिनांवरः ॥७०॥

थोड़ी देर के पश्चात् कई ब्राह्मण काशी-माहात्म्य आदि लेकर आपके पास आये और जोर जोर से पढ़ने लगे। स्वामीजी ने उनको तुरन्त निकलवा दिया ॥ ७० ॥

न देयं पणमप्येभ्यो मन्देभ्य इति भाषता ।

मुनिना दर्शिता सत्यं पौराणिकनिरादृतिः ॥७१॥

और अपने सेवकों से कहा कि इन मन्दमतियों को एक पैसा भी मत दो। ऐसे पाखंडियों को मेरे समक्ष मत आने दो। वास्तव में इनकी यही बुर्दशा करने योग्य है ॥ ७१ ॥

एवं कृतमहायज्ञः पथि भारतभूषणः ।

स योगिवर्यो गमने मतिमादादनुत्तमाम् ॥७२॥

इस प्रकार मार्ग में आये हुए अनेक स्थलों में यज्ञ करते कराते भारत-वर्ष के अद्वितीय रत्न श्री १०८ स्वामीजी महाराज आगे जाने के लिए उत्कण्ठित हो रहे थे ॥ ७२ ॥

यस्मिन्काले महायोगीजगामार्बुदपर्वतम् ।

तदैव वैद्यवर्योस्मात्प्रत्यावृत्तिमुपागमत् ॥७३॥

जिस समय स्वामीजी महाराज आबू को जा रहे थे उस समय जालंधर के रहने वाले डाकूर लक्ष्मणदासजी आबू से लौट कर अजमेर जा रहे थे ॥७३॥

परं महामतेरस्य मुनेर्वीक्ष्य दशामयम् ।
पुनरप्यर्बुदं गोत्रं मुनिना सममाययौ ॥७४॥

परन्तु मार्ग में स्वामीजी की शोचनीय दशा देख कर उन्होंने अजमेर जाने का मनोरथ बदल दिया और स्वामीजी के साथ ही फिर आवू लौट आये ॥ ७४ ॥

प्राप्यार्बुदगिरिं योगी निश्चिते भवने स्थितिम् ।
विधाय तद्भवं वस्तु सिषेवे शान्तमानसः ॥७५॥

स्वामीजी भी आवू पहुँच कर महाराजा जोधपुर की कोठी में [जो कि पहले ही से आपके लिए तैयार की गई थी] उतरे और वहाँ की बीजों सेवन करने लगे ॥ ७५ ॥

वैद्योपि तानि तान्याशु समानीयौषधान्यरम् ।
समये समये दायं दायं व्यत्ययभागभूत् ॥७६॥

डाकूर लक्ष्मणदास भी समय समय पर अनेक प्रकार के औषध बना बना कर आपको देते रहे और दवाओं में तबदीली करते रहते थे ॥ ७६ ॥

अत्रान्तरे समायाता तडिन्मार्गेण सूचना ।
वैद्यराजस्य सविधे शीघ्रमागस्यतामिति ॥७७॥

इतने ही में सर्कारी नौकर होने के कारण लक्ष्मणदासजी के पास तार आ गया कि वे अपनी नौकरी पर शीघ्र आकर उपस्थित हों ॥ ७७ ॥

वैद्यराजस्ततो दृष्ट्वा राजकीयनियन्त्रणम् ।
भृतेरस्वीकृतौ चेतः कृत्वा तत्पत्रमप्यदात् ॥७८॥

डाकूर लक्ष्मणदासजी ने एक तरफ़ से तार का आना और दूसरी तरफ़ से स्वामीजी की सेवा से अलग होना जानकर नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया ॥ ७८ ॥

भृत्यस्वीकृतिकामोपि तत्र नाप यदा स्थितिम् ।
विवशः प्रयतौ तस्मादजतुन्दपुरं भिषक् ॥७९॥

जब डाकूरजी का भेजा हुआ इस्तीफा नामंजूर हुआ तब तो विचर
होकर आपको जाना ही पड़ा परन्तु हृदय से आप बड़े दुखी हुए ॥ ७९ ॥

(युग्मम्)

गमनावसरे दत्त्वा दिवसत्रयभेषजम् ।
स्वामिनं प्रार्थयामास वैद्यराजः शुभार्थिनम् ॥८०॥
भगवन्भवताप्याशु तत्रैव विधिपूर्वकम् ।
नानौषधिप्रयोगाय गन्तव्यं यत्र मे स्थितिः ॥८१॥

चलते समय आपने दो तीन दिन की दवाई तैयार करके रख दी और
कह दिया कि आपभी अजमेर ही पधारे वही पर मैं आपका इलाज
करूंगा ॥ ८० । ८१ ॥

(विशेषकम्)

एवमाभाषमाणेत्र वैद्यराजे यतीश्वरः ।
नाङ्गीचकार गमनं पूर्वं तु समयोचितम् ॥८२॥
परतस्तद्वचो मत्वा मुनिवर्योस्य शर्मदम् ।
गमनं स्वमतौ दध्रे बहुशो भिषजार्थितः ॥८३॥
स्वीकृतप्रार्थनः सोन्ते सत्वरं भिषजां वरः ।
प्रणम्य बहुशो देवं प्रययौ बहुशः स्मरन् ॥८४॥

स्वामीजी ने पहले तो इनका कहना अस्वीकार किया परन्तु फिर बहुत
कुछ कहने सुनने पर स्वीकार किया । प्रार्थना स्वीकार होने पर वैद्यजी
चले गये ॥ ८२ । ८३ । ८४ ॥

गते भिषग्वरे तस्मिन्बहवो वैद्यपुङ्गवाः ।
मुहुर्मुहुर्यतिश्रेष्ठं वीक्षयामासुरादरात् ॥८५॥

डाकूर लक्ष्मणदासजी के जाने पर डाकूर गुरुचरणदास, सिविलसर्जन
पण्डित साहव श्रीस्वामीजी का इलाज करने लगे ॥ ८५ ॥

प्रतापसिंहनामाथ राजापि मुनिपुङ्गवम् ।
द्रष्टुमभ्याययौ योधपुरादरमतिप्रभम् ॥८६॥

एक दिन जोधपुराधीश महाराजा प्रतापसिंहजी श्रीस्वामीजी के दर्शनार्थ स्वयं आवू पधारे और आकर समस्त प्रबंध करने लगे ॥ ८६ ॥

नानाराजनिदेशात्ते नानावैद्या यथायथम् ।

नानौषधविधानेन योजयामासुरानताः ॥८७॥

महाराजा जोधपुर एवं महाराजा शाहपुरा के कथनानुसार डाकूर और सिविलसर्जन समय समय पर अच्छी अच्छी औषधियाँ बना बना कर देते रहे ॥ ८७ ॥

तडिन्मार्गस्य सा कापि घटनासमभूत्तदा ।

या न राजेश्वरस्यापि सूत्सवेऽभूदनारता ॥८८॥

आपके आवू रहने पर तारों का यह हाल हो गया कि दिन रात चलते थे । तार देने वाले बावू आश्चर्य में आकर कहते थे कि इतने तार तो बाइसराय के पधारने पर भी नहीं आते ॥ ८८ ॥

वैद्योक्तस्मरणादिष मुनिपुङ्गव आदरात् ।

अजतुन्दगतौ चक्रं निजं मन उदारधीः ॥८९॥

डाकूर लक्ष्मणदासजी के कथनानुसार २६ अक्तूबर ८३ ई० को श्रीस्वामीजी महाराज प्रातः काल आवू से प्रस्थित हो शाम तक अजमेर पहुँच गये ॥ ८९ ॥

आपर्वतादर्वुदकादजतुन्दपुरं प्रति ।

उत्तमं यानमस्यार्थे समागतमभूत्तदा ॥९०॥

आवू रोड़ से पहले दर्जे की एक पूरी गाड़ी आपके लिए रिजर्व कराई गई थी और अजमेर तक वह आपकी स्पेशलगाड़ी एक ही दिन में पहुँच गई ॥ ९० ॥

तस्मिन्नेनमवस्थाप्य बहवस्तन्महाशयाः ।

अजतुन्दपुरं देवं निन्युः शोकसमाकुलाः ॥९१॥

उस गाड़ी में श्रीस्वामीजी को सवार करा कर बहुत से महाशय साथ साथ वहाँ से चले और रास्ते भर हर प्रकार का प्रबन्ध करते रहे ताकि किसी प्रकार का कष्ट न हो ॥ ९१ ॥

तत्रापि शकटस्थाने शिविकाङ्कितमस्तकाः ।
स्वागताय जनाः सर्वेऽवतिष्ठन्दर्शनेच्छया ॥६२॥

जब रेलवे स्टेशन अजमेर पर पहुँच गये तब अजमेर के समस्त भद्र पुरुष पालकी लेकर आपके स्वागताचार के लिए उपस्थित मिले ॥ ९२ ॥

प्राप्य तत्पुरमानन्दाच्छिविकाङ्के यतीश्वरम् ।
अवरोप्याथ नियते भवने निन्युरादरात् ॥६३॥

उन्होंने श्रीस्वामीजी को रेल से उतारा और अत्यन्त कोमल पालकी पर सवार कराया तथा धीरे धीरे सावधानी के साथ नियत किये हुए स्थान में पहुँचाया ॥ ९३ ॥

तत्रावतार्य्य योगीशं विष्टरेप्यवरोप्य ते ।
निशार्धसमये शीतव्याकुला अभवज्जनाः ॥६४॥

वहाँ पर आपको उतार कर पलंग पर लिटाया और सब बात का प्रबंध हो गया । इस समय रात के तीन बजे थे । मनुष्यों को शीत मालूम होने लगा ॥ ९४ ॥

परमेष यतिस्तत्र सहदौष्णयमिति ब्रुवन् ।
कारयामास गेहस्य द्वारोद्घाटनमाकुलः ॥६५॥

परन्तु स्वामीजी को उस समय भी गरमी मालूम हुई । इसलिये कोठी के सब दरवाजे खुलवाये गये परन्तु शांति तब भी नहीं हुई ॥ ९५ ॥

द्वितीयदिवसात्पूर्ववैद्यराजेन सर्वशः ।
श्रौषधोपगमः सम्यक् कृतएव यथोचितः ॥६६॥

दूसरे दिन से डाकूर लक्ष्मणदास ने श्रीस्वामीजी का इलाज शुरू किया और अनेक प्रकार के औषध थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको दिये गये ॥९६॥

परमस्थौषधादत्र नाभवत्कोप्यनुग्रहः ।
निग्रहस्तु स्वयं तस्य कथयामास शोकताम् ॥६७॥

परन्तु दैववश आपके औषधों ने जैसा फल आवू पर दिया वैसा फल यहाँ पर नहीं दिया । अच्छे अच्छे औषध भी इस समय निर्वोर्य हो गये ॥ ९७ ॥

मसूदानगरं गन्तुमेकदा स्वजनानयम् ।

कथयामास धर्मस्य प्रचाराय दृढव्रतः ॥९८॥

इसी समय श्रीस्वामीजी ने अपने सेवकों से कहा कि हमको मसूदा ले चलो । वहाँ पर जाकर धर्मोपदेश करेंगे और प्रचार करेंगे ॥ ९८ ॥

परमत्रत्यमनुजैरानन्दे सति तत्पुरम् ।

समेव्यास इति प्रोक्तं नाधुनेति यथोचितम् ॥९९॥

परन्तु इस पर सबों ने आपकी दशा देख कर कहा कि अभी नहीं, आराम होने पर आपको ले चलेगे । यह समय कहीं पर जाने योग्य नहीं है ॥ ९९ ॥

दिनद्वयेन मे सौख्यमनन्तं भवितेति सा ।

मुनिवागत्र विषये बहुस्मर्तव्यतामगात् ॥१००॥

स्वामीजी ने यह बात सुनकर सबसे कहा कि “ दो दिन में हमको पूरा पूरा आराम हो जायगा ” यह आज का उत्तर सबके लिए स्मरण रखने योग्य है ॥ १०० ॥

अधुना सर्वदेहेस्य पिटिकाः प्राभवन्बलात् ।

नैर्बल्पमपि त्वात्यन्तमभवच्छोकदायकम् ॥१०१॥

यहाँ आने पर आपके शरीर पर छोटी छोटी फुन्सियाँ उगने लगीं और २९ अक्टूबर को शरीर अत्यन्त ही निर्बल हो गया । साथ ही गरमी बढ़ने लगी ॥ १०१ ॥

मनुजानुत्थितेरर्थे निगाद्य शुभविष्टरे ।

समतिष्ठत योगीन्द्रः परमेश्वरदत्तधीः ॥१०२॥

अपने सेवकों से आपने उठाने का इशारा किया । जब आपको बिठाया गया तब आपने कहा कि अब छोड़ दो । फिर कुछ देर तक आप बिना सहारे ही बैठे रहे ॥ १०२ ॥

अतिसत्वरमस्याद्य श्वासः प्रचलितोभवत् ।

मग्नश्च परमानन्दे समभूद्योगिराडपि ॥१०३॥

इस समय श्रीमान् का श्वास जल्दी जल्दी चल रहा था, परन्तु आप उसे रोक रोक कर बाहर निकालते रहे और ईश्वर के ध्यान में मग्न हो रहे थे ॥ १०३ ॥

रात्रावस्यां महत्कष्टमभूदस्य जगद्गुरोः ।

परमेकरसः श्रीमानयं न तदमन्यत ॥१०४॥

यद्यपि आज की रात भर आपको अधिक कष्ट रहा परन्तु आप ईश्वर के ध्यान में मग्न थे, इसलिए मालूम नहीं हुआ। यह कष्ट कफ के बढ़ने से हुआ ॥ १०४ ॥

प्रातरेव भिषग्वर्यसमाह्वाने कृतश्रमा ।

जनता जनमान्यस्य मुनेरस्याभवत्पुरः ॥१०५॥

दूसरे दिन ३० अक्टूबर को प्रातःकाल होते ही वैद्य लाने के लिए मनुष्य गये और शीघ्र ही डाकृर न्यूनन साहब को लिया लाये ॥ १०५ ॥

(युग्मम्)

वैद्यराट् सत्वरं तत्रागत्य वीक्ष्य च योगिनम् ।

न दृष्ट ईदृशो देवो मयकेत्यवदद्द्रुतम् ॥१०६॥

य ईदृशेतिकष्टेपि न कामप्यतिपीडनाम् ।

नाटयत्यतिधैर्यस्य प्रभावमिव दर्शयन् ॥१०७॥

जिस समय डाकृर साहब ने श्रीमान् को देखा, उस समय बड़े आश्चर्य में हुए और कहने लगे कि धन्य है श्रीस्वामीजी को जो इतने कष्ट पर भी आह तक नहीं करते। हमने इस प्रकार दिल के मजबूत संसार में अन्य नहीं देखे ॥ १०६ । १०७ ॥

हेतावपि विकारस्य समुपस्थितिमागते ।

येषां न चित्तमुद्विग्नं ते धीरा इति सम्मतम् ॥१०८॥

विकार के जितने कारण हैं वे सब जब एकत्र होजावे तब भी जिन का मन विकार को प्राप्त न हो वही पुरुष “ धीर ” कहने योग्य होते हैं अन्य नहीं ॥ १०८ ॥

एवमुक्त्वा कफघ्नन्तद्दवावौषधमुत्तमम् ।

परं तेनापि नास्याभूद्विशेषः शोकउद्गतः ॥१०९॥

इतना कह और कण्ठ में कफ की प्रबलता देख कर उसकी निवृत्ति के लिए औषध दिया परन्तु उस दिये हुए औषध से कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई ॥ १०९ ॥

एकादशनिनादानां श्रवणादिवसे मुनिः ।

शौचाय गतवान्हैमपीठे निर्भयमानसः ॥११०॥

दिन के ११ बजे से आपका श्वास विशेष बढ़ा । श्रीमान् ने शौच जाने की इच्छा प्रकट की । आज्ञा पाते ही चार पुरुषों ने आपको चौकी पर बिठलाया ॥ ११० ॥

(विशेषकम्)

चतुर्भिर्मनुजैस्तत्र वेदैरिव निवेशितः ।

शौचक्रियां यथायोग्यं विधाय निरगाद्दहिः ॥१११॥

स्वयमेव जलं तस्मिन्दिवसे तेन योगिना ।

हस्ताननपदादीनां गृहीतुं शुद्धये शुचि ॥११२॥

दन्तधावनमेकान्तं विधाय मनुजैर्धृतः ।

पयःफेननिभां शय्यामसेवत यथोचिताम् ॥११३॥

श्रीमान्जी शौच गये । शौच जाकर उन्होंने स्वयं जल लेकर समस्त कार्य किया । हाथ पैर धोने के बाद दंतधावन किया । अन्त में पलङ्क पर जा कर आप लेट गये ॥ १११ । ११२ । ११३ ॥

निरुध्य वायुमासीनो योगमार्गेण योगिराट् ।

परमेश्वरसङ्ग्रहाने दत्तचित्तोऽभवत्ततः ॥११४॥

यद्यपि इस समय श्वास जल्दी जल्दी चल रहा था तथापि प्राणायाम के द्वारा उसको रोक कर आप धीरे धीरे निकालते थे और ईश्वर के ध्यान में मग्न थे ॥ ११४ ॥

(युग्मम्)

कीदृशी भवतामद्य चित्तवृत्तिरिति द्रुतम् ।
पृष्टे जनेन कथयामास योगीश्वरेश्वरः ॥११५॥
मासान्तरे तथा सौख्यं न लब्धं कुत्रचिन्मया ।
यथाद्य वर्तते तस्य करुणातो जगत्पतेः ॥११६॥

आपसे इस समय पूछा गया था कि आपकी तबीयत कैसी है ? आपने उसका उत्तर दिया कि “ एक मास के पश्चत् आज का दिन आराम का है ” ॥ ११५ । ११६ ॥

एवमुक्तवति श्रेष्ठे मुनौ सा जनता तदा ।
सुप्तमीनहृदावस्थां नाटयामास सर्वशः ॥११७॥

इस प्रकार आपका उत्तर सुन कर उपस्थित समस्त जनों की ऐसी निस्तब्ध दशा हो गई कि जैसी शांत सरोवर की होती है ॥ ११७ ॥

अत्रान्तरे सभागत्य लवपत्तनतो द्रुतम् ।
जनः कोपि यतिश्रेष्ठं पप्रच्छ सभयं शनैः ॥११८॥

इसी समय आपके देखने के लिए लाहौर से लाला जीवनदासजी आ-
गये । सामने आकर उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न किया—॥ ११८ ॥

कुत्रावस्थितिरद्यास्ति भवतामिति सूचिते ।
शान्तिमध्य इति प्रोक्त्या तोषयामास तं जनम् ११९

महाराज ! आज आपकी स्थिति कहां है ? श्रीस्वामीजी ने उसका उत्तर
दिया—आज हमारी स्थिति ईश्वरेच्छा में एवं शांति में है ॥ ११९ ॥

दशामस्य महावेगविह्वलामीक्ष्य सज्जनाः ।
न बहिर्नान्तरे शोकं रोद्धुमुद्यमिनोऽभवन् ॥१२०॥

आपकी तत्कालीन दशा देख कर आपके प्रेमी हृदय में उत्पन्न हुए शोक को न छिपा सकते थे और न प्रकट कर सकते थे ॥ १२० ॥

(युग्मम्)

दिनेस्मिन्नेव मनुजैरजतुन्दगतैः स्वयम् ।

वैद्यान्तरसमाहृत्यै सूचनादायि सत्वरम् ॥१२१॥

तामवाप्यार्गलपुरादागच्छामीति सूचयन् ।

मुकुन्दलालनामा तान्सान्त्वयामास विह्वलान् १२२

उसी दिन अजमेर के आर्य पुरुषों ने डाकूर मुकुन्दलालजी को तार दिया । उसके उत्तर में उन्होंने भी शीघ्र आने की सूचना देकर उनको शान्त किया ॥ १२१ । १२२ ॥

वेदवादनतः पश्चादात्मानन्दसरं मुनिः ।

समाह्वयत सोप्याशु समागत्यावतिष्ठत ॥१२३॥

श्रीस्वामीजी ने चार बजे आत्मानन्द को बुलाया । आज्ञा पाते ही आत्मानन्दजी सम्मुख आकर खड़े हुए । स्वामीजी ने सिरहाने की ओर बैठने का संकेत किया । वे बैठ गये ॥ १२३ ॥

(युग्मम्)

समीपावस्थितं वीक्ष्यमुनिस्तं करुणार्द्रया ।

विलोक्य सुदृशा पश्चादुवाच अधुराक्षरम् ॥१२४॥

किमिच्छसि वदाशु त्वस्मात्मानन्द ! यथोचितम् ।

समयेऽत्र न संकोचस्त्वया कार्यो विजानता ॥१२५॥

बैठे हुए आत्मानन्द को पहले तो स्वामीजी ने देखा । देखने के अनन्तर उनसे पूँछा कि कहो आत्मानन्द ! तुम क्या चाहते हो ? जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो बिना किसी शंका के कहो ॥ १२४ । १२५ ॥

मुनेरिदं वचः श्रुत्वा नेत्रवारिपरिप्लुतः ।

सत्वरं गद्गदगिरा समवोचदिदं वचः ॥१२६॥

स्वामीजी की इस प्रकार बात सुन कर आत्मानन्द की अश्रुधारा चल पड़ी। मोह के वश कण्ठ गद्गद हो गया। चेहरे पर उदासी छा गई। उत्तर में उन्होंने कहा—॥ १२६ ॥

मनसा कर्मणा वाचा भवदानन्दतः परम् ।

न मेस्ति हृदये किञ्चिन्महर्षे साश्रुतं कृतम् १२७

स्वामीजी ! जगदंतर्यामी सर्वव्यापक ईश्वर इस बात का साक्षी है कि मैं सिवाय आपके आराम के मन, वचन, कर्म से कुछ भी अन्य पदार्थ नहीं चाहता हूँ ॥ १२७ ॥

एवमाभाषमाणं तमात्मानन्दं यतीश्वरः ।

स्वकरेण शिरोदेशे पस्पर्श निजगाद च ॥१२८॥

आत्मानन्द की यह बात सुनकर स्वामीजी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर रख कर उनको शांत किया और उनसे इस प्रकार कहा ॥ १२८ ॥

देहोयं भूतसम्भूतः किमस्य भविता शिवम् ।

किं वाऽशिवं परं लोके शिवं ते भवतादिति ॥१२९॥

यह पंचभूतों का बना हुआ शरीर है। इसका अच्छा क्या होना है। परन्तु तुम इस संसार में आनन्दपूर्वक रहो। किसी प्रकार का तुमको कष्ट न हो ॥ १२९ ॥

एवमस्मै शिवां दत्वा मुनिराशिषमागतम् ।

वाराणसीतः सदयं गोपालगिरिमब्रवीत् ॥१३०॥

इस प्रकार आत्मानन्दजी को आशीर्वाद देकर काशी से उनके दर्शनार्थ आये हुए गोपालगिरि को आपने बुलवाया और उनसे इस प्रकार पूँछा ॥ १३० ॥

महामते यदिष्टं ते वर्तते मनसि स्थितम् ।

ब्रूहि शङ्कां परित्यज्य लज्जां च समयोचिताम् १३१

गोपालगिरिजी ! आपकी क्या इच्छा है ? आप क्या चाहते हैं ? समस्त शंकाओं को मन से निकाल कर आप अपने हृदय की यथेष्ट इच्छा प्रकट करें ॥ १३१ ॥

इति पृच्छति योगीन्द्रे गोपालगिरिरानतः ।

पस्पर्श प्रथमं पादौ समुवाच ततः परम् ॥१३२॥

स्वामीजी के इस प्रकार पूँछने पर गोपालगिरि अत्यन्त लज्जित हुए और नीचे को गरदन झुका कर उन्होंने पहले तो स्वामीजी के चरण छुए और फिर कहा—॥ १३२ ॥

भगवन्भवदानन्दं विहाय भवसङ्गतम् ।

न सेन्यदस्ति हृदये यद्ददाम्यधुना पुरः ॥१३३॥

महाराज ! इस समय सिवाय आपके आराम होने के मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है । ईश्वर से यही ध्यान लगा है कि आपको शीघ्र आराम हो ॥ १३३ ॥

इत्थमुत्करुणं तस्मिन्वदत्यानतकन्धरे ।

रुदत्यविरतं योगी दयानिधिरवोचत ॥१३४॥

इस प्रकार करुणारस भरे हुए शब्दों को कह कर गोपालगिरिजी नीचे को सिर करके रोने लगे । स्वामीजी ने उनको समझा कर कहा ॥१३४॥

सखे विहाय भवता सर्वदा कष्टमागतम् ।

सुखेन जगति स्थेयन्न दुःखं ते भविष्यति ॥१३५॥

भाई ! यह देह है । इसका क्या अच्छा होगा । इसका अच्छा होना या न होना कर्म-फलाधीन है । परन्तु तुम “ आनन्दपूर्वक रहना ” ॥ १३५ ॥

एवमानन्दजननीमाशिषं मुनिपुङ्गवः ।

प्रदाय चपलं तस्मै विचारान्तरमागमत् ॥१३६॥

इस प्रकार काशी से दर्शनार्थ आये हुए गोपालगिरि को आनन्दप्रद आशीर्वाद देकर स्वामीजी महाराज अन्य विचारों में प्रवृत्त हुए ॥ १३६ ॥

दशामिमां यतीन्द्रस्य तडिन्मार्गादुपागताम् ।
निशम्य बहुशोकार्ता नगरेष्वभवञ्जनाः ॥१३७॥

स्वामीजी की यह दशा देख कर अजमेर के सभ्यों ने समस्त नगरों को तार दे दिया, जिसके देते ही भारतवर्ष में एक साथ खलबली मच गई ॥ १३७ ॥

(युगम्)

नानानगरवास्तव्या नागत्य पुरतः स्थितान् ।
जनान्यया कृपादृष्ट्या वीक्षयामास योगिराट् १३८
न सा वर्णयितुं शक्या न समर्थास्ति लेखनी ।
लिखितुं न मनोप्याराद्विवेचयितुमुद्यतम् ॥१३६॥

अनेक नगरों से अनेक पुरुष आने लगे और श्रीमानों के समक्ष उपस्थित होने लगे । आये हुए पुरुषों को जिस कृपादृष्टि से स्वामीजी ने देखा, उसका वर्णन करने के लिए न मेरी वाणी समर्थ है, न लेखनी लिखने को समर्थ है, न मन विचारने को समर्थ है अर्थात् उस समय की कृपादृष्टि अनिर्वचनीय थी । उसे केवल वही अनुभव कर सकते हैं जो उपस्थित हुए हों, अन्य नहीं ॥ १३८ । १३९ ॥

सर्वानपि जनान्वीक्ष्य धैर्यमाश्रियतां परम् ।
नौदासीन्यमिति प्रीत्या सान्त्वयामास मूर्च्छितान् ॥

समस्त जनों को शोक से मूर्च्छित देख कर स्वामीजी कहने लगे कि तुम लोग उदास क्यों हो गये हो? धैर्य को धारण करो, चित्त को शांत रखो ॥ १४० ॥

युगं शतकयोस्तद्वत्काशमीराम्बरयोरपि ।
आत्मानन्दाय शान्ताय भीमसेनाय चाप्यदात् ॥

इतना कह कर स्वामीजी ने दो दुशाले और दो सौ रुपये माँगे । जब लाये गये तब आधा आधा आत्मानन्द और भीमसेन को देने के लिए कहा । निदान उनको दिये गये ॥ १४१ ॥

मार्गोपरि जना ये ये गतवन्तः स्वयेच्छया ।

सर्वेभ्यो रौप्ययुगलं महर्षिः समदापयत् ॥१४२॥

रास्ते में अकस्मात् जो पुरुष आते थे उनके लिए दो दो रुपये प्रत्येक को दिलवाते थे । यह वृत्तांत मेरे पिता पण्डित टीकारामजी ने स्वयं देखा था ॥ १४२ ॥

अस्मिन्नवसरेप्यस्य सैव शोभा व्यतिष्ठत ।

या पुरासीन्मुखश्रीश्च द्वैगुण्यमभजत्तदा ॥१४३॥

इस समय तक आपके चेहरे पर किसी प्रकार का शोक या घबराहट न थी । मुख की कांति पहले से और भी उज्वलता को प्राप्त हो गई थी ॥१४३॥

कृतवार्तो जनैः सार्धमेष योगी यथायथम् ।

पञ्चवादनतः पश्चात्प्राणायाममकल्पयत् ॥१४४॥

मनुष्यों के साथ साथ बातचीत करते करते आज आपको शाम के पाँच बज गये । नियमानुसार आपने आज भी प्राणायाम किया और प्रसन्न रहे ॥ १४४ ॥

कीदृशी स्वस्थतेदानीमिति पृष्ठे जनैर्यतिः ।

शिवा प्रकाशतामिस्त्रिसाम्यभूरित्यभाषत ॥१४५॥

उपस्थित जनों ने जब आपकी तबीयत का हाल पूँछा तो उत्तर में श्रीमानों ने कहा कि अच्छा है “ तेज और अंधकार का भाव है” इसके कई अर्थ हो सकते हैं । दिन का अंत रात्रि का आरम्भ—एक अर्थ बन सकता है । कृष्ण पक्ष का अंत शुक्ल पक्ष का आरम्भ—दूसरा अर्थ बन सकता है प्राकृतिक शरीर का अंत प्रकाशमय मुक्तावस्था का आना—तीसरा अर्थ बन सकता है और भी इसी प्रकार के अर्थ हैं ॥ १४५ ॥

सार्धपञ्चनिनादान्ते शोकेन महतावृतान् ।

प्रसन्नवदनो योगी मनुजानिदमब्रवीत् ॥१४६॥

इतने ही में साढ़े पाँच बजने का समय हुआ । साढ़े पाँच बजते ही पास में बैठे हुए शोक से व्याकुल पुरुषों को श्रीमानों ने इस प्रकार की आज्ञा दी ॥ १४६ ॥

ये मया सह ये चान्ये दूरतः समुपागताः ।

जनाः सर्वे समाहूय क्रियन्तां सङ्गताः क ते ॥१४७॥

जितने आर्य्य पुरुष मेरे साथ के अथवा जो दूर देशों से आये हुए हैं उन सबको बुला कर एकत्र करो । वह कहाँ पर हैं ? सबको सूचना दो ॥ १४७ ॥

भवन्तु पुरतः सर्वे संस्थिता मनुजोत्तमाः ।

शिरोभागमिताः कोपि मा समक्षे निषीदतु ॥१४८॥

और जब सब आर्य्य पुरुष एकत्र हों जावें तब उनको हमारे पीछे की तरफ खड़ा करो । कोई भी जन हमारे सामने खड़ा न हो ॥ १४८ ॥

एवमाज्ञाप्य मनुजान्मुनिर्ध्यानपरोभवत् ।

जनाः सेवकतामाप्तास्तदुक्तं समकल्पयन् ॥१४९॥

इस प्रकार आज्ञा देकर आप ध्यान में तत्पर हुए और सेवकों ने सबको बुलाकर एकत्र किया और पीछे की ओर उनको खड़ा किया ॥ १४९ ॥

निरीक्ष्य मनुजान्सर्वानेकदेशे कृताञ्जलीन् ।

पुनराज्ञापयामास मुनिर्वेदविदांवरः ॥१५०॥

जब आपने सबको अपने पीछे खड़ा देखा उस समय फिर आपने अपने सेवकों से इस प्रकार कहा—॥ १५० ॥

(युग्मम्)

यावन्ति गोपुराण्यस्मिन्भवने सन्ति सर्वतः ।

क्रियन्तां तानि सर्वाणि निष्कपाटानि सत्वरम् १५१

यदेतदूर्ध्वभागस्थहृदि गोपुरयोर्युगम् ।

निष्कपाटं तदप्याशु विधेयं तरसाधुना ॥१५२॥

इस मकान के चारों ओर के जो दरवाजे हैं उनको खोल दो और ऊपर की छत में जो दो छोटे छोटे दरवाजे हैं उनको भी खोल दो ॥१५१॥ १५२॥

निर्दिश्य मनुजानेवं भूपाज्ञावशतो द्रुतम् ।

समागतौ बुधौ योगी पर्यपृच्छत्क्रमागतम् ॥१५३॥

आज्ञा पाते ही उसका पालन किया गया । इतने ही में उदयपुराधीश के भेजे हुए मोहनलाल और पंड्या विष्णुलाल आगये । आते ही भीमानों ने उनसे यह पूँछा ॥ १५३ ॥

पक्षः कोस्ति तिथिः कास्ति वारः कश्चाद्य विद्यते ।

समयः कश्च सम्प्राप्तः सर्वमेतदुदीर्यताम् ॥१५४॥

बतलाओ कि आज कल कौनसा पक्ष है ? क्या दिन है कौन वार है ? कौनसा मास है और अब कौनसा समय वर्तमान रूप में विद्यमान है ॥१५४॥

(युग्मम्)

एवमाज्ञसयोर्मध्ये तयोरेकः समव्रवीत् ।

पक्षयोर्मध्यमस्त्यद्य महर्षे शुक्लकृष्णयोः ॥१५५॥

अमावस्या तिथिर्भव्या विद्यते मङ्गलाभिधः ।

स वासरोपि कालोयं सन्धिवेलामुपागतः ॥१५६॥

आज्ञा पाते ही उन दोनों में से एक ने कहा कि आज कृष्णपक्ष का अंत, शुक्लपक्ष की आदि अमावास्या, मंगलवार, कार्तिकमास, एवं सायंकाल का समय है ॥ १५५ । १५६ ॥

निशम्य दिनवृत्तान्तं गृहाकाशमितस्ततः ।

समीक्ष्य मुदितस्वान्तो गायत्रीमपठत्स्वरैः ॥१५७॥

इतना सुनकर आप अति प्रसन्न हुए और छत के दो दरवाजे और दीवारों की ओर दृष्टि की और साथ ही ऊँचे स्वर से गायत्री मन्त्र का पाठ किया ॥ १५७ ॥

वेदमन्त्रैस्ततः पुण्यैः परतो देवभाषया ।

नृभाषयापि देवस्य गुणानन्ववदत्तदा ॥१५८॥

उसके बाद वेदमन्त्रों से ईश्वर की स्तुति की। तदनन्तर संस्कृत के श्लोकों द्वारा उपासना की। अंत में भाषा काव्य के द्वारा ईश्वर के गुणों का वर्णन किया ॥ १५८ ॥

हर्षोत्फुल्लेन मनसा ध्यायञ्छ्रीपरमेश्वरम् ।
तदुद्देश्यादिवायं तामिमां गिरमथावदत् ॥१५९॥

उसके अनन्तर बड़े हर्ष के साथ, प्रफुल्लित चित्त हो, कुछ देर तक समाधि में मग्न रहे। अंत में अपने दोनों नयन-पंक्तियों को खोल कर यों कहने लगे—॥ १५९ ॥

(युग्मम्)

हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमन्परमेश्वर ? ।
तवाज्ञावशतो लोके मयेदं धर्मशासनम् ॥१६०॥
मनसा कर्मणा वाचा शुद्धभावेन सर्वदा ।
गतप्रायमिवानीय पुनरत्र निवेशितम् ॥१६१॥

“ हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमान् ! ” हे परमेश्वर ! मैंने तेरी आज्ञा के वश होकर वह वैदिक धर्म प्रचार जो कि नष्ट हो चुका था दुबारा तन, मन, धन से स्थापित किया ॥ १६० । १६१ ॥

इयमेव तवेच्छास्ति या मया जगतीतले ।
निवेशितास्ति सा नूनं तवेच्छा पूर्णतामियात् १६२

तेरी यही इच्छा है जो कि मैंने संसार में प्रचलित की है वह “तेरी इच्छा पूर्ण हो”, सर्वत्र विस्तृत हो, पुष्पित एवं फलित हो ॥ १६२ ॥

लीला त्वया समीचीना कृतेयं यदहं लघु ।
प्रेरितोस्मि निजाभीष्टनानादेशविलोकने ॥१६३॥

“अहा” यह “तैने अच्छी लीला की” जो कि यहाँ से मुझको शीघ्र ही मनोवांछित अनेक लोकों के देखने के लिए प्रेरित किया। धन्य है ! ॥१६३॥

※ चतुर्दलकमलबन्धः ※

समस्तभुवनावास ! समन्तादेकवद्रस ! ।

सर्वार्तिनाशने हंस ! सर्वदा हृदये वस ॥१६४॥

हे समस्त भुवनों में रहने वाले ! हे सर्वदा एकरस ! हे समस्त कष्टों के निवारण में समर्थ ! परमात्मन् ! आप सर्वदा मेरे हृदय में स्थित रहें ॥ १६४ ॥

वदन्नेवं स मुनिराडुत्तानशयनस्थितः ।

स्वयमर्थेन भागेन विधाय शिवमासनम् ॥१६५॥

इतना कह कर जो श्रीमान्जी एक प्रकार से सीधे लेटे हुए थे करवट के रूप में हो गये [यह एक योग मार्ग का आसन है] ॥ १६५ ॥

(युग्मम्)

ख-वेद-ग्रह-राकेश-मिते विक्रमवत्सरे ।

दीपोत्सवसमारम्भादिनायितनिशोदये ॥१६६॥

प्राणायामक्रियायोगाध्यायन्निर्विषयं महः ।

एकदैव निजं जीवं लोकान्तरमलम्भयत् ॥१६७॥

फिर विक्रम संवत् [१९४०] कार्तिककृष्ण अमावस्या मंगलवार सायं-काल के ठीक छः बजे प्राणायाम के द्वारा ध्यानावस्थित हो ईश्वर का स्मरण करते हुए जीवन देने वाले प्राणवायु को कुछ देर रोक कर एक साथ ही लोकांतर को पहुँचा दिया ॥ १६६ । १६७ ॥

गते लोकान्तरं देवे दयानन्दे यतीश्वरे ।

आनिशं समभूदत्र हाहाकारो भुवस्तले ॥१६८॥

श्री १०८ महर्षिदयानन्दसरस्वतीजी महाराज के यशोवशिष्ट होने पर इस अभागे भारतवर्ष में रात भर हाहाकार मचने लगा ॥ १६८ ॥

भारतस्थमिदं वृत्तं निवेदयितुमग्रतः ।

सत्त्वरं रविरापेदे लोकान्तरमनन्तरम् ॥१६९॥

भारतवर्ष के इस शोक वृत्तांत को लोक-लोकांतरों में पहुँचाने के लिए शीघ्र ही सूर्य भी अस्ताचल की चोटी को पहुँच गया ॥ १६९ ॥

मालिन्यमाययुः सर्वा दिशो रात्रिविडम्बिताः ।
विदिशश्च महाशोकसंकुलाः सहस्राभवन् ॥१७०॥

जितनी दिशाये थीं उन सब पर रात्रि के व्याज से उदासी छा गई ।
विदिशाओं के भीतर एक प्रकार का अचानक कोलाहल मच गया ॥ १७० ॥

समन्ताद्भारते वर्षे रात्रावेव तडित्पथैः ।
शोकवृत्तमिदं व्याप्तं रोदयासास सज्जनान् ॥१७१॥

रात भर में समस्त भारतवर्ष में तारों द्वारा पहुँचाये हुए इस समाचार ने सज्जन मात्र को हलाना आरम्भ कर दिया ॥ १७१ ॥

प्रातरल विमानस्य रचनाऽनल्पसुन्दरी ।
नरेन्द्रैः कल्पिता सर्वैर्मुनिप्रेतकृते शिवा ॥१७२॥

प्रातःकाल होते ही आपके मृत शरीर के लिए अनेक महाराजाओं ने विमान बनाना आरम्भ कर दिया जो वास्तव में अनुपम बना था ॥ १७२ ॥

(विशेषकम्)

शोभाविहसितानन्तपुष्पके पुष्पकाधिके ।
सम्पादिते नरवरैर्विमाने मालवत्तरैः ॥१७३॥
मृतं शरीरमेतस्य जीवितादधिकप्रभम् ।
स्नपितं विमलैस्तोयैश्चर्चितं चन्दनैर्वृतम् ॥१७४॥
पुष्पमालासहस्रेण लौमाब्बरविभूषितम् ।
विमाने क्षीरफेनाभे सज्जनैर्निहितं मुनेः ॥१७५॥

अपनी शोभा के समक्ष पुष्पक विमान की शोभा को हँसने वाले, इसीलिए उससे भी सुन्दर, विमान के बनने पर जीवित अवस्था से भी अत्यन्त दमकते हुए श्रीमान् के प्रेत को पवित्र जल से स्नान एवं चन्दन से चर्चित

कराके पुष्पमालाओं करके पुष्पित तथा रेशमी वस्त्रों से विभूषित बनाकर दूध के भाग जैसे मुलायम विमान के भीतर सज्जनों ने उनको रख दिया ॥१७३। १७४। १७५॥

मुखमस्य तदावस्थं शतसूर्यसमप्रभम् ।

निरीक्षितुमलं सर्वे राजानोभ्यपतन्द्रुतम् ॥१७६॥

जिस समय आपके शव को विमान के भीतर रक्खा उस समय शत सूर्यों की प्रभा को धारण किये हुए आपके मुख के देखने के लिए इधर उधर से अनेक राजे महाराजे तरसते रहे ॥ १७६ ॥

धन्यास्ते भुवने मान्याः कीर्तिमन्तश्च ते जनाः ।

थैर्महर्षेरिहावस्थमलोकि विमलं मुखम् ॥१७७॥

संसार में वही पुरुष धन्य हैं, वही मान्य हैं, वही कीर्तिमान् हैं जिन्होंने इस समय में भी आपके मुखारविन्द का भाग्य से अवलोकन किया हो ॥१७७॥

रुदन्तः सर्वमप्येतद्विधाय समयोचितम् ।

वेदध्वनिमलं चक्रुर्जनाः शोकसमाकुलाः ॥१७८॥

इस प्रकार समयोचित जब सब काम तैयार हो गया तब सब पुरुषों ने मिलकर शव उठाने से पहले उच्च स्वर से वेद-मन्त्रों का पाठ किया ॥ १७८ ॥

(युग्मम्)

दशवादनतः पश्चाद्राजभिर्बलवत्तरैः ।

विमानमस्य वेगेन निजांसेषु निवेशितम् ॥१७९॥

निवेश्य परया भक्त्या निजांसेषु महीभुजः ।

विमानमस्य देवर्षैरगच्छन्भरमन्थराः ॥१८०॥

उसके बाद दस बजे के अनन्तर बड़े बड़े बलवान् राजाओं ने अत्यन्त भक्ति के साथ आपके विमान को अपने अपने कंधों पर रक्खा और रख के भार के अधिक होने से धीरे धीरे रुदन करते हुए चलना आरम्भ किया ॥ १७९। १८० ॥

नानावादित्रघोषेण बधिरीकृतदिङ्मुखे ।

पथि विश्रम्य विश्रम्य जना यथुरनावृताः ॥१८१॥

अनेक प्रकार के बाजों के शब्दों से जिस मार्ग में किसी प्रकार का भी शब्द कर्ण-गोचर न हो ऐसे मार्ग से बीच में ठहर ठहर कर सब मनुष्य चलने लगे ॥ १८१ ॥

येन मार्गेण गतवानग्रतोऽस्य मुनेः शवः ।

जनौघः पुष्पवर्षेण छादयामास तं पथम् ॥१८२॥

जिस मार्ग से श्रीमानों का शव जा रहा था उस मार्ग को भक्ति-भरित पुरुषों ने पुष्पों से इस प्रकार छा दिया कि सिवा पुष्पों के अन्य कुछ न दीख पड़ता था ॥ १८२ ॥

रामानन्दादयः सर्वे रुदन्तः सास्रमग्रतः ।

पठन्तो वेदमन्त्रौघानव्रजनरोदनस्वरैः ॥१८३॥

सबसे प्रथम श्रीमानों के शिष्य ब्रह्मचारी रामानन्द और गोपालगिरि विमान के आगे आगे वेदमन्त्र पढ़ते जाते थे । उसके बाद चारों ओर आर्य पुरुष, उसके बाद अन्य भागराम आदि प्रतिष्ठित जन प्रबंध करते हुए चलते जाते थे ॥ १८३ ॥

वेदध्वनिसमारम्भैर्वृष्ट्या च कुसुमोत्थया ।

सत्वरं दृष्टिमापेते “मल्लूसर” सरोवरः ॥१८४॥

इस प्रकार वेद-ध्वनि करते हुए, फूल बर्साते हुए, बाजे बजाते हुए, बीच बीच में ठहर ठहर कर चलते चलते “मल्लूसर” नामक सरोवर दृष्टि-गोचर हुआ ॥ १८४ ॥

आज्ञानुसारतः सर्वे देवदेवस्य दक्षिणे ।

दिशः कोणे विमानन्तन्नितरामवतारयन् ॥१८५॥

स्वामीजी की आज्ञा थी कि हमारा शरीर नगर के दक्षिण भाग में भस्म किया जावे तदनुकूल सरोवर के दक्षिण भाग में आपका विमान उतारा गया ॥ १८५ ॥

समवस्थापिते भूमौ विमानेऽस्य महामुनेः ।

संस्कारविधिनिर्दिष्टविधिना वेदिराभवत् ॥१८६॥

विमान उतारने के बाद संस्कार-विधि में जिस विधान से जितनी लम्बी चौड़ी वेदी बतलाई गई है उसी प्रकार उसका बनाना आरम्भ किया गया ॥ १८६ ॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

अत्रान्तरे महाभागो भागरामः शुचाकुलान् ।

मनुजान्भाषणद्वारा धृतधैर्यानिवाकरोत् ॥१८७॥

सा विद्या तस्य विप्रर्षेः सा च देशहितैषिता ।

परोपकारिता सेति वर्णयामास तद्गुणान् ॥१८८॥

यानाकर्ण्य समस्तापि जनता चित्रवत्तदा ।

विदीर्णहृदया वेगादभवद्रोदनाकुला ॥१८९॥

इतने बीच में पण्डित भागरामजी ने मनुष्यों को धैर्य दिलाने के लिए स्वामीजी की विद्या, देशहितैषिता, परोपकारिता आदि अनेक गुणों का वर्णन करना आरम्भ किया, जिसको सुनकर शोक में मग्न और विदीर्ण-हृदय भी जनता चित्र-लिखित सी हो गई ॥ १८७ । १८८ । १८९ ॥

(युग्मम्)

निवृत्ते भाषणात्तस्मिन्भागरामे महोदये ।

सुधीः सुन्दरलालोपि वक्तुमुद्योगमातनोत् ॥१९०॥

परं बाष्पावृता दृष्टिस्तस्य गद्गदकण्ठता ।

हृदयाकुलता चापि नाकरोद्वक्तुमादरम् ॥१९१॥

भागरामजी के बाद पण्डित सुन्दरलालजी ने भी कुछ बोलने का साहस किया, पर आँखों में आँसू, गले में बाष्प, और हृदय में शोक उनको बोलने की आज्ञा नहीं देते थे ॥ १९० । १९१ ॥

समये तत्र कान्यासन्हृदयानि विदीर्णताम् ।

न यानि दाडिमीपकफलवन्नागमन् ज्ञात् १९२

उस समय कौनसे ऐसे हृदय थे जो पके अनार के समान विदीर्ण नहीं हुए और फूट के समान स्वयं फूटकर नहीं बिखर गये थे ? ॥१९२॥

एतावतैव कालेन निष्पन्नावेदिरुत्तमा ।

यस्यां स्वीकारपलानुकूला सर्वाभवत्कृतिः ॥१९३॥

इतने ही में श्रीमान् के शव लिए वेदी तैयार होगई जिसमें, "स्वीकार पत्र" के अनुसार सब सामग्री चुनी गई, जो निम्नलिखित विद्यमान है ॥१९३

(पञ्चभिःकुलकम्)

खारीद्वयमितं नव्यं चन्दनं तदनन्तरम् ।

खारीणां दशकं शुद्धमाघ्रकाष्ठमभूत्तदा । ॥१९४॥

चतुष्टयं तु खारीणामाज्यमासीत्सुगन्धितम् ।

पञ्चसेटकमानं तत्कदलीगर्भसम्भवम् ॥१९५॥

सार्द्धद्विसेटकं तत्तत्सर्वमासीत्सुगन्धितम् ।

केशरं समगात्तत्रार्द्धसेटकमितं नवम् ॥१९६॥

युग्मरूप्यमिता नव्या कस्तूरी सङ्गताभवत् ।

तगरागरकाष्ठानि खारीद्वयमितान्यतः ॥१९७॥

अन्यानि यानि वस्तूनि सौरभ्यजनकान्यपि ।

सर्वाणि सङ्गतान्यत्रातुलान्येव धनव्ययैः ॥१९८॥

२ मन नवीन चन्दन, १० मन आम्र काष्ठ, ४ मन शुद्ध घृत, ५ सेर कर्पूर, २॥ सेर जावित्री, आध सेर केशर, २ तोले कस्तूरी, २ मन अगर और तगर । इतना तो वसीयत के अनुसार था, बाक़ी जो जो समय समय पर सुगन्धित द्रव्य था उपस्थित होगया ॥ १९४। १९५। १९६। १९७। १९८ ॥

अनन्तरं मुनेरस्य वेदीमध्ये निवेशितम् ।

शरीरं मनुजैरुग्रशोकव्याकुलमानसैः ॥१९९॥

इसके अनन्तर श्री १०८ स्वामीजी का मृतक शरीर विमान से निकाल कर, विधिपूर्वक बनाई हुई वेदी के मध्य भाग में सब महाशयों ने रख दिया ॥ १९९ ॥

मध्ये चितं मुनेर्देहे स्थापिते विध्यनुग्रहात् ।

सत्वरं योजयामास रामानन्दो धनञ्जयम् ॥२००॥

वेदी के मध्य भाग में, मृत शरीर के स्थापनानन्तर ब्रह्मचारी रामानन्द ने, वेद-मंत्रपूर्वक, कर्पूर के द्वारा, चिता में अग्नि का प्रवेश कर दिया ॥२००॥

धनञ्जये मुनेर्देहमात्मन्याधातुमुत्सुके ।

भागशः सर्वभूतानां प्रादुरासीत्तदाऽऽहुतिः ॥२०१॥

अग्नि ने प्रवेश होते ही, महर्षि के समस्त शरीर को, आपही लेना चाहा था, कि सब हिस्सेदार, इतने में अपना अपना हिस्सा लेने को तैयार हो गये ॥ २०१ ॥

सूर्यं चक्षुरगाद्वातमात्मा द्यौरन्वगाद्विष्णुम् ।

पृथिवीं पार्थिवो भागो जलीयो जलमन्वगात् २०२

सबसे प्रथम सूर्य ने अपना भाग “चक्षु” लिया, वायु तो अपना भाग “प्राण” पहले ही ले चुका था, आकाश ने अपना भाग अपने में मिला लिया, रही पृथ्वी वह भी धीरे धीरे अपना भाग ले रही थी। जल का भाग अग्नि ने मेघमण्डल को पहुँचा दिया। बस यही भाव (सूर्यं चक्षुर्गच्छतु) इस मंत्र में बतलाया गया है ॥ २०२ ॥

अग्नयेऽनुमते स्वाहेत्यादि मन्त्रैर्मुहुर्मुहुः ।

प्रावर्तत महान्यज्ञो नरमेधाभिधो मुनेः ॥२०३॥

अन्त में “अग्नये स्वाहा” “अनुमते स्वाहा” आदि मन्त्रों से नरमेध की आहुतियाँ होती रहीं और कई बार ये मन्त्र दुबारा पढ़े गये ॥२०३॥

यद्गताग्निशिखासङ्गी पवनः सौरभान्वितः ।

पूरयामास भूलोकं भुवर्लोकमपि द्रुतम् ॥२०४॥

जिस समय यह नरमेध हो रहा था उस समय वायु के द्वारा सर्वत्र पहुँचाया हुआ सुगन्ध, सब मनुष्यों के मस्तिष्कों को सुवासित कर रहा था ॥ २०४ ॥

(विशेषकम्)

क्रमेण नरमेधस्य समाप्तौ सर्वमानवाः ।

सरोवरे कृतस्नानाः ससभूवन्ननन्तरम् ॥२०५॥

चिताग्निक्वण्डरक्षायै नियस्य निजपूरुषान् ।

शोकेन महताऽऽविष्टाः स्मरन्तोऽस्य मुनेर्गुणान् २०६

हा दयानन्द हा देव हा मुने क्वेतिवादिनः ।

सायङ्काले निजस्थानान्यगमन्क्रथमप्यतः ॥२०७॥

विधिपूर्वक नरमेध यज्ञ के समाप्त होने पर, उपस्थित महाशयों ने मल्लू-सर नामक सरोवर में स्नान किया । फिर वेदी की रक्षा करने के लिए कुछ मनुष्यों को नियत कर के, अत्यन्त शोक में मग्न, महर्षि के गुणों को याद करते हुए, हा महर्षे ! हा मुने !! हा देव !!! हा स्वामिन् !!! हा दयानिध्रे !!! हा भारतरत्न !!! आप कहाँ गये । इस प्रकार कहते हुए सायंकाल के समय जैसे तैसे वहाँ से उठकर, सब मनुष्य अपने अपने मकानों को चले गये ॥ २०५ । २०६ । २०७ ॥

❁ व्योमवन्धः ❁

शुभवासनया भुवने निगमोदितमार्गमथाशु-

शिवतुल्यगुणः स विधाय जवेन रसादविनाशि ।

पदमापदहो जनिमत्र गतैर्नितरां दुरवाप-


मदएव जगत्यधुना तु वदन्ति मुने तव नाम ॥२०८॥

पवित्र गुणवाले स्वामीजी कल्याण की कामना से जगत् में वैदिक मार्ग का बड़े वेग से प्रचार कर इस लोक में जन्म लेने वाले प्राणियों के लिए अलभ्य मोक्ष पद को आनन्दपूर्वक प्राप्त हो गये । यही चर्चा आपके जानने पर [हे मुने !] आज भारतवर्ष में सर्वत्र हो रही है ॥ २०८ ॥

इत्थं यथोचितविधानतयास्य देहं
 भस्मान्तमल विनिवेद्य यथाकथञ्चित् ।
 सर्गान्तरस्थितमनाः कविरस्तमाप्ते
 भानौ समापयदिमं नियमेन सर्गम् ॥२०६॥

इस प्रकार महर्षि के शरीर का इस सर्ग में विधिपूर्वक भस्मांत वर्णन कर जैसे जैसे हृदय को थामते हुए अपना मन अगले सर्ग की तैयारी में देकर नियमपूर्वक सूर्य के अस्त होने पर इस सर्ग को यहीं पर कविरत्न ने भी समाप्ति पर पहुँचा दिया ॥ २०९ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये
 महर्षिस्वर्गारोहणवर्णनं नामैकोनविंशतितमः सर्गः ।



विंशतितमः सर्गः

अथ शोकसमाकुला मही
समभूदार्य्यवरे दिवङ्गते ।
अवगम्य तदीयसद्गुणा-
नतिमोहप्रदभावपूरितान् ॥१॥

स्वामीजी के देहांत के बाद, समुद्र-परिवेष्टित समस्त भारतवर्ष, शोका-
क्रांत हो गया, और अत्यन्त मोह दिलाने वाले भावों से पूर्ण होकर उनके
गुणों का स्मरण करके तारस्वर से रोने लगा ॥ १ ॥

निखिलं परमेश्वरस्य त-
च्चरितं वर्तत इत्यरं शुचा ।
कथमप्यवधार्य्य साहसा-
त्समुपालम्भमिति व्यचीकरत् ॥२॥

जो कुछ यह कार्यवाही हुई है वह सब परमेश्वर की ओर से हुई है
ऐसा अपने मन में निश्चय कर शोक से व्याकुल आर्य्यजनता साहस
करके परमात्मा के लिए भी उलाहना देने लगी ॥ २ ॥

अहहेश्वर केयमौचिती
तव लोके प्रतिभाति यत्त्वया ।
जनरत्नमयं यतीश्वरः
परलोकानुगतौ नियन्त्रितः ॥३॥

हे परमात्मन् ! क्या यह आपके लिए उचित था जो कि भारतवर्ष के एक मात्र पुरुषरत्न को आपने अचानक असमय में उठाकर इस अभागिनी भारत-जननी को अत्यन्त शोक का पात्र बना दिया ? ॥ ३ ॥

यदि ते न कृपा जगत्यलं
 किसयं विश्वतले मुनीश्वरः ।
 जननाय समेधितः कुतः
 पुनरित्थं द्रुतमेव नाशितः ॥४॥

यदि इस भारतवर्ष पर आपकी पूर्ण कृपा नहीं थी तो आपने ऐसे पुरुषरत्न को यहाँ पर पैदा ही क्यों किया ? यदि थी तो फिर इतनी जल्दी असमय में उनको यहाँ से उठा ही क्यों लिया ? यह बात समझ में नहीं आती ॥ ४ ॥

त्वदनुव्रजधर्म्मवर्धना-
 कलितस्त्रान्तरभावभावितम् ।
 हरता यमिनं त्वयाधुना
 न समीचीनमिदं प्रकल्पितम् ॥५॥

आपके दिये हुए वैदिक धर्म की वृद्धि में सर्वदा अपना तन, मन, धन लगाने वाले, आर्य समाज के प्रवर्तक, कलियुग की कुचालों को कुचलने के लिए अद्वितीय कुलाचल समान स्वामीजी को जो आपने अचानक अपने पास बुला लिया यह आपने अच्छा नहीं किया ॥ ५ ॥

यदि निर्दयता तवाप्यहो
 हृदये कुत्र दयालुता पुनः ।
 यदि सा किमियं विमर्षणा
 भवताकारि वदस्व सूत्तरम् ॥६॥

यदि आपके हृदय में निर्दयता है तो इस दयालुता के लिए और दूसरा कौन सा स्थान मिलेगा जो केवल आपके आधार पर ही खड़ी हुई है ? यदि वह दयालुता आपमें विद्यमान है तो यह अति क्रूर कर्म आपने किस तरह से किया ? इसका आप अच्छे प्रकार उत्तर दीजिए ॥ ६ ॥

इति तं परमेश्वरं शुचा

समुपालभ्य समस्तमण्डली ।

पुनरुद्धुरमोहवर्धनात्

सकलङ्कं किल कालमाक्षिपत् ॥७॥

इस प्रकार शोक में व्याकुल आर्यमंडली साहस के बश होकर परमात्मा के लिए भी उलाहना देकर उस काल को, जो कि अनेक ऋषि-मुनियों के नष्ट करने के कलंक को अपने माथे पर लगा चुका, इस प्रकार कहने लगी ॥ ७ ॥

अयि दुष्ट कराल काल ते

क गता सा करुणा यतस्त्वया ।

सहसैव मुनीश्वरो महा-

न्यशसैवात्र कृतः प्रतिष्ठितः ॥८॥

अरे ! दुष्ट ! कराल ! काल ! तूने यह क्या अनर्थ कर डाला ? तेरी दया आज कहाँ चली गई ? तू आज निर्दय क्यों हो गया ? तूने आज बिना ही किसी को खबर दिये हुए स्वामीजी को भारत में केवल नाम मात्र ही रख दिया ! ॥ ८ ॥

किमिदं कुरुषे महाधमं

शुभरत्नानि भुवो जवाद्धरन् ।

निजगेहमलं समृद्धिमत्

कुरुषे यद्वहु तस्करायितम् ॥९॥

तू यह क्या अत्यन्त अन्याय करने लगा जो कि संसार भर के अच्छे अच्छे रत्न ज़बरदस्ती भूमंडल से उठा उठा कर अपने घर को ले जा रहा है, और उनसे अपने घर की शोभा बढ़ा रहा है, अपने को धनवान् बना रहा है ? यह अचानक चोरी करना छोड़ दे । चोरी करना अच्छा नहीं है ॥ ९ ॥

अयि निर्दय काल यद्भवान्
 प्रभवेन्मूर्तिमयस्तदा वयम् ।
 तव पेषणमेव सर्वथा
 किल कुर्मः परमद्य किं भवेत् ॥१०॥

रे निर्दय काल ! यदि तू इस समय किसी प्रकार मूर्तिमान् हो जाता तो इस प्रकार तेरा चूर चूर करके धर देते जो तू भी किसी समय याद करता । क्योंकि तू यहाँ से अच्छे अच्छे रत्नों को चुराकर ले जाता है । परन्तु क्या करे आज तू मूर्तिमान् नहीं है । इसीसे हमारा कुछ बस नहीं चलता । यदि तुम्हको इस बात का घमंड है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता तो तू थोड़ी देर के लिए मूर्तिमान् बन जा, फिर देख तेरी क्या गति होती है ॥ १० ॥

बहुधानुमतं जनैरिदं
 ननु देवा अपि तस्कराइति ।
 यदि नो कथमत्र भूजला-
 सिभिरेषः क्वलीकृतो यतिः ॥११॥

हमको आज तक यह विदित नहीं हुआ था कि देवता लोग भी चोरी किया करते हैं । आज यह पता लगा कि देवता भी चोरी करते हैं । यदि चोरी न करते होते तो कल तक विद्यमान स्वामी दयानन्दसरस्वती आज ही कहाँ चले जाते । मालूम होता है कि स्वामीजी के शरीर में से पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाँचों देवतों ने अपना अपना भाग ले लिया अर्थात् पंचतत्त्वों से बना हुआ स्वामीजी का शरीर पंचतत्त्वों में ही मिल गया ! यह अभिप्राय है ॥ ११ ॥

इति कालमलं समाक्षिपन्
 बहुदेवानपि शोकविह्वला ।
 यतिवर्यगुणानुवादिनी
 जनता तत्परमेवमावदत् ॥१२

इस प्रकार शोक से विह्वल आर्यजनता, कराल काल के लिए, तथा अनेक देवताओं के लिए भी उलाहना देकर अन्त में स्वामीजी के गुणों का ही स्मरण करके विलाप करने लगी और कहने लगी—॥ १२ ॥

क गतोऽसि महामते मुने

परिमुच्यात्र जनान्भवार्णवे ।

वद वाचमनन्तसौख्यदां

किमियं ते बहु धार्ष्ट्यकल्पना ॥१३॥

हे स्वामिन् ! आप हम सबको इस प्रकार भवसागर में निरालंब छोड़ कर कहीं चले गये । ज़रा हृदय के लिए शांति देने वाली वाणी से संभाषण तो कीजिए । आप अपने चरण-सेवकों के साथ इतनी निःस्नेहता क्यों करते हैं ॥ १३ ॥

न वयं परिवञ्चितास्त्वया

यमिनाभीश वियोगविह्वला ।

सकला जगती ससागरा

परिमुष्टा किल सौख्यगौरवात् ॥१४॥

आपने अपने वियोग से केवल हमही को घञ्चित नहीं किया किन्तु आज समुद्र-परिवेष्टित समस्त भारतवर्ष को सुख से रहित कर दिया । यही नहीं, समुद्र के पार वसे हुए अनेक द्वीप द्वीपान्तरों को भी शोक-सागर में डुबा दिया ॥ १४ ॥

यदि तद्गमनं त्वया कृतं

जनसौहार्दपरीक्षणाकृते ।

तदलं पुनरत्र दर्शनं

परिदेहि स्वजनेषु सौहृदात् ॥१५॥

यदि आप हमारे प्रेम का अन्दाज़ा लगाने के लिए कहीं चले गये हैं तो आप, शीघ्र दर्शन दीजिए । इतनी दूर में तो आपको अन्दाज़ा लग गया होगा । अब अधिक दुःख न कीजिए । प्रीति की रीति इतनीही दूर निभ सकती है ॥ १५ ॥

भवता तु पुरा समीरितं
 मनुजानप्यहमात्मना सह ।
 गमयन्त्रजितास्म्यहोद्य किं
 स्वयमेवात्र विहाय नो गतः ॥ १६ ॥

आपने तो हमसे पहले यह कहा था कि जहाँ हम जायेंगे वहाँ सबको ले चलेगें । यह आपने क्या किया ? हम सबको यहाँ छोड़कर आप अकेले ही स्वर्ग लोक की सैर करने चले गये । हम को अब वहाँ पर कौन ले चलेगा ॥ १६ ॥

क गता तव सा सुभाषिता
 विलयं कुत गता दयालुता ।
 जनता किल यत्प्रलोभिता
 तव सङ्गं न विहातुमुद्यता ॥ १७ ॥

जिसके लोभ से लुभाया हुआ मनुष्यों का समूह थोड़ी देर के लिए भी आप का सङ्ग नहीं छोड़ता था, वह आप का मुग्ध मधुर, मन्दस्मित आज कहाँ चला गया ? वह मधुर भाषण कहाँ गया ? आपकी वह दयालुता कहाँ छिप गई ? ॥ १७ ॥

अहहार्यसमाजपोषकः
 परिभुशोद्य महाबलो भुजः ।
 विलयं प्रगतः सरस्वती-
 हृदयालम्बनभूतमानवः ॥ १८ ॥

हा तन, मन, धन से सर्वदा आर्यसमाज की रक्षा करने वाला अत्यन्त बलवान् आज वैदिक धर्म का दहना हाथ कट गया । सरस्वती देवी का एक मात्र हृदयालम्बन आज उसको असहाय छोड़कर नष्ट हो गया ॥ १८ ॥

विगतोद्य विनोदपद्मिनी-
 सहधर्मा रविरस्तपर्वतम् ।

सहसैव कुहूममामितो-

दयितो भूतलवासिनां विधुः ॥१६॥

आनन्दरूप पद्मिनी का खिलाने वाला, भगवान् भुवन भास्कर, आज पद्मिनी को अधखिली छोड़ कर अस्ताचल की उच्च शिखा पर पहुँच गया। भारतवासियों का प्राणप्यारा, मातृभूमि का जीवनाधार, वह अनुपम निष्कलंक, अमृतकिरण, अचानक ही (कुहू) अमावस्या के भीतर छिप गया ॥ १९ ॥

कथमत्र समागतः कथं

प्रगतः सोद्य न बुद्धिमेत्यदः ।

परमेतदुपैति तद्भवे

गमने कारणमागमेप्यजः ॥२०॥

आप मोक्ष का सुख छोड़ कर इस अभागे भूतल में क्यों आये थे और क्यों फिर इतनी जल्दी आप यहाँ से परलोक सिधारे ? यह दोनों बातें समझ में नहीं आती, परन्तु इतना अवश्य मन में आता है कि आपके यहाँ पर जन्म देने में और भेजने में तथा वापस लौट कर जाने में परमेश्वर कारण है ॥ २० ॥

अयि भारतभारतीपते !

प्रतिवाचं वद कुत्र ते गतम् ।

रविमण्डलभास्वरं वपु-

र्वदनं तच्च शशिप्रभोपमम् ॥२१॥

हे ! भारतभारती के नायक ! हमारी बातों का कुछ उत्तर तो दीजिए । सूर्यमंडल के समान प्रकाश देने वाला, आपका शरीर, आज कहाँ चला गया ? चमकती दमकती चन्द्रमा की चमक को चपेट की लपेट में लिटाने वाला आपका मुख किस घर में जाकर छिप गया ? ॥ २१ ॥

क्व गता तव कम्बलस्थिति-

र्वहु योगाभ्यसनक्रियापि सा ।

मधुरा किल भाषणक्रिया
विधुराद्यानुविभाति शोकदा ॥२२॥

कंबल के आसन पर स्वस्तिकासन से बैठ कर योगाभ्यास के द्वारा समाधि का बढ़ाना, आज किधर रह गया ! सच तो यह है कि आपका हम लोगों से प्रीतिपूर्वक मधुर भाषण करना ही आज हमको दुःखदायी हो गया ॥ २२ ॥

दिवसद्वयमध्यएव मे
भवितानन्दइति प्रभाषता ।
किमयं परिदर्शितो महान्
रुदनानन्द इति प्रबोधय ॥२३॥

आराम के विषय में हम लोगों के पूछने पर जो आपने यह कहा था कि दो ही दिन के भीतर भीतर हमको पूरा आराम होगा, क्या उसके बदले में आपने हमको यह रोने का आनन्द दिखाया ! यह तो कहिए ॥२३॥

न हि केवलमद्य मानवै-
र्विभिरप्याशु वियोगचूंकृतैः ।
प्रतिरुद्यतएव ते गुणा-
स्तव शोकाग्निसमेधने रताः ॥२४॥

आपके वियोग में आज केवल मनुष्य ही नहीं किन्तु विरह में भरे हुए, जंगलों में वृक्षों पर बैठे हुए, पक्षी भी, चोंचों के द्वारा चूँ चूँ करते हुए आपके गुणों को याद करते हैं। सच तो यह है कि आपके गुण ही आपकी शोकाग्नि को बढ़ाने के लिए उद्यत हो रहे हैं ॥ २४ ॥

गतएव स वेदवल्लरी-
परिषेक्तेति समस्तभारते ।
तव नामगुणानुवर्णना
नवबालैरपि कथ्यतेधुना ॥२५॥

वेदरूपिणी लता का, जो कि बहुत दिनों से मुरझाई धरती पर पड़ी हुई थी, सँचनेवाला माली, आज भारतजननी की गोद से निकल गया ! इस प्रकार आपका गुणानुवाद गाते गाते छोटे बालक तक भी आज रो रहे हैं ॥ २५ ॥

क गताः किल ते गुणोदया-

विधिना ये लघु तुभ्यमर्पिताः ।

जगदीश्वरशासनानुगा-

वद कुत्राद्य गताः समाधयः ॥२६॥

परमात्मा ने जिन गुणों को केवल आपही के हाथ सौंपा था उन गुणों को आज आप कहाँ छोड़ कर चलदिये ? ईश्वर का साक्षात्कार करानेवाकी यह तेरह घण्टे की समाधियाँ आज किधर रह गईं ॥ २६ ॥

न गतः किल यावदुद्गतः

स महाञ्छङ्करशोकवारिधिः ।

तद्वध्यनुगच्छता त्वया

न कृतं किं ब्रणएव ताडनम् ॥२७॥

स्वामी शंकराचार्य के मरने का जो शोक था अभी तो उसको भी हम नहीं भूले थे इतने ही में आपके इस महा शोक ने मानों घाव में एक घन से घनी घाट लगादी या नमक छिड़क दिया ॥ २७ ॥

यदि सख्यसमीक्षया भवान्

प्रगतः शङ्करपार्श्वमादरात् ।

कथमत्र गिरापि हे मुने !

न समुक्तं किमियं भवत्कृपा ॥२८॥

यदि आप मित्र होने के कारण स्वामी शंकराचार्य से मिलने को चले गये तो यहाँ पर इतना तो कह जाते कि मैं इतने दिनों में आऊँगा । आपने तो इतना भी नहीं कहा । यह आपकी क्या कृपा हुई ! ॥ २८ ॥

यदि कोपि जनो ब्रजत्यहो
 नवदेशं यमिनारूपते तदा ।
 सकलं निजमित्तमण्डलं
 परिपश्यन्प्रतियाति दृश्यते ॥२६॥

यदि कोई पुरुष दूर देश के जाने के लिए तैयार होता है तो वह पहले अपने इष्ट मित्रों से अच्छे प्रकार मिल लेता है । यह दृष्टांत संसार भर में विद्यमान है । आपसे तो छिपा ही क्या रहा है ॥ २९ ॥

भवता तु न कश्चिदागतो-
 नयनाभ्यामवलोकितः कृतम् ।
 किमिदं यदि गुप्तकर्मणां
 करणाय प्रगतोसि तद्वद ॥३०॥

परन्तु आपने तो सामने आया हुआ भी कोई इष्ट मित्र अपनी दोनों आँखों खोल कर नहीं देखा । यह क्या किया । यदि आप किसी अकथनीय कार्य के लिए गये हुए हो तो कहिए ॥ ३० ॥

स्वगतं यदि ते किमप्यहो
 गदनीयं जगदीशसंनिधौ ।
 मिषतः किमिति प्रगच्छसि
 प्रथितोयं तव मार्गविस्तरः ॥३१॥

यदि आपको अपनी कोई खास बात परमात्मा के समक्ष कहनी थी तो आप बहाना करके यहाँ से क्यों पधारे । आपके लिए तो सूर्यमण्डल में होकर जाने का सीधा रास्ता पड़ा हुआ है ॥ ३१ ॥

यदि देशहितैषितावशात्
 परमात्मानमगास्त्वमुत्तमम् ।
 तदिदं तव सख्यकार्मणं
 परमेतत्त्वयि वर्तते स्वयम् ॥३२॥

यदि आप इस अपने भारतवर्ष देश के लिए कुछ खास कर परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए गये हुए हैं तो आपकी इस देश के साथ अत्यन्त प्रीति पहले ही से विद्यमान थी। यह कोई नई और छिपी हुई बात नहीं है ॥ ३२ ॥

करुणापरता क साधुना

यमिनामीश ! जनेषु ते वद ।

बहुयामगदः श्रुतिस्थितिं

वत साप्यद्य गतास्ति मूर्च्छनम् ॥३३॥

जिस करुणा के आप भण्डार थे और जिस करुणा का आप में अद्वितीय अनुराग था, वह करुणा आज हम लोगों से उठ कर किनसे मिलने के लिए गई हुई है, जिन श्रुतियों को अनेक बार आप पढ़ा करते थे वह भी आज आपके वियोग शोक से मुरझाई हुई इधर उधर पड़ी हुई है ॥ ३३ ॥

यदि दीपकवत्त्वया कृता

नितरां भारतदीप ! दीपना ।

भुवने कथमन्धकारता-

मधुना त्वं प्रकरोषि तद्वद ॥३४॥

हे भारत के दीप ! यदि आपने समस्त भुवनों में दीपक जैसा प्रकाश फैला कर अविद्यारूप अंधकार को निकाल दिया था तो आज समस्त देशों में शोक और मोह रूप अंधकार फैलाने के कारण आप क्यों बने ? ॥ ३४ ॥

वद सत्वरमेतदुत्तरं

यमिनामीश ! दिवङ्गते त्वयि ।

कथमत्र विनिर्णयः पथां

प्रभविष्यत्यतिसङ्कुलात्मनाम् ॥३५॥

इस बात का तो आप उत्तर दीजिए कि आप तो यहाँ से आनन्दरूप में जाकर मग्न हो गये। यहाँ पर अत्यन्त मिले हुए मार्गों में, जो अनेक संप्रदायों के लिए जा रहे हैं, हमको सीधा रास्ता बतलाने को कौन समर्थ होगा ॥३५॥

न परं मतमस्ति वैष्णवं
 न शिवं शैवमतं न यावनम् ।
 निगमोदितमेव सेव्यतां
 मतमित्थं वद को वदिष्यति ॥३६॥

संसार के कल्याण के लिए वैष्णवमत पर्याप्त नहीं है। शैव मत भी जगत् का शिव करने वाला नहीं है। मुहंमदी मत का तो कहना ही क्या है। इसलिए सबको वैदिक मार्ग पर ही चलना चाहिए यह अब कौन कहेगा ? ॥ ३६ ॥

वद कोद्य भुवस्तले मुने !
 बहुपाखण्डवतां समुन्नतम् ।
 मदमादरतो निपातय-
 न्निगमानां प्रथनं करिष्यति ॥३७॥

पाखंड फंड के रोट खाने वाले लठों का जो बड़ा चढ़ा अभिमान मौजूद है उसको शास्त्रार्थ रूपी तोप से उड़ाकर दूर फेंकने वाला आज संसार में कौन है जो वैदिक मार्ग का अच्छे प्रकार जगत् में विस्तार करे ॥ ३७ ॥

वद कुल गुणाः परस्परं
 कृतसख्याइव भूतले मुने !
 विनिवासमतिं निजेच्छया
 प्रकरिष्यन्ति दिवं गते त्वयि ॥३८॥

जिन गुणों के लिए संसार में और कोई स्थान नहीं मिला था, और जो गुण आप में मित्र भाव से सर्वदा रहने को उद्यत थे, आज वह सबके सब गुण किस स्थान में रहेंगे ? यह तो बताइए ? ॥ ३८ ॥

प्रकरिष्यति को यथोचितां
 वत गोरक्षणहेतवे सभाम् ।

कुलमप्यधुना विदामहोरलं

वद को भूवलये करिष्यति ॥३६॥

आपके बिना इस संसार में अब इन दीन गौवों की दशा पर दया करके गोरक्षिणी नामक सभा कौन स्थापित करेगा ? और कौन विद्वानों से द्वेष हटा कर आपस में इन सब की एक विद्यासभा स्थापित करेगा ? कोई नहीं ॥ ३९ ॥

वद वैदिकधर्मकल्पना

कमलं प्राप्य भुवस्तलेऽधुना ।

सकलं मतजालमुत्थितं

विलयं नेष्यति योगिनांपते ! ॥४०॥

आपके बिना, किस अद्वितीय अवलम्ब को पाकर, खड़ी हुई, वैदिक धर्म प्रथा, भारतवर्ष में उठे हुए अनेक मतवाद रूप जालों को नीचे गिराने के लिए प्रयत्न करेगी ? अर्थात् आज उसका अवलम्ब कोई नहीं रहा ॥ ४० ॥

मतवादविनाशनक्षमं

परमात्मप्रतिबोधितार्थदम् ।

वद को निगमद्वयोपरि-

क्रमशो भाष्यमलं करिष्यति ॥४१॥

अनेक मतमतांतरों के विनाश करने में समर्थ, परमेश्वर के बतलाये हुए अर्थ का बताने वाला, अद्वितीय, अनुपम, भाष्य अब सामवेद और अथर्ववेद पर बना कर कौन तयार करेगा ? ॥ ४१ ॥

नलतो भुवि रामचन्द्रतो-

बुधतः कृष्णमहीश्वरादपि ।

अधिकस्तवशोकविप्लवो-

जनमद्याकुलयिष्यति स्फुटम् ॥४२॥

आपसे पहले महाराजा नल, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र, योगिराज महात्मा श्रीकृष्ण आदि जितने पुरुष भारत-जननी की गोद से उठकर चलदिये उन सबसे अधिक आपका शोक आज जन-समूह को हलायेगा ॥ ४२ ॥

इतिहासवदेव ते कथा

भुवमेतां समलंकरिष्यति ।

न भविष्यति दृष्टिगोचरं

तव तन्मञ्जुलदर्शनं वपुः ॥४३॥

जिस प्रकार भारतवर्ष में महाराजा रामचन्द्रजी की कथा मात्र हो गई, जिस प्रकार श्रीकृष्ण की कथा केवल नाम मात्र रह गई, इसी प्रकार आपकी भी कथा ही शेष रहेगी। आपका दर्शन तो अब होगा ही नहीं ॥ ४३ ॥

न भवन्ति निरन्तरस्त्रवा

नयनानां रुदनेन हा मुने ! ।

विनिरोधपरा दिवं गते

त्वयि चित्तं तु विचेतनामितम् ॥४४॥

आपके गुणों का स्मरण करके, आज इन अभागिनी आखों से, निरन्तर गिरता हुआ पानी, बंद ही नहीं होता। क्या करें ! आपके चरणारविन्दों का जिस समय मन में ध्यान आता है उस समय वह अचेत हो जाता है ॥ ४४ ॥

मधुरस्मितमञ्जुलाननं

नयनैर्यैः प्रतिवीक्षितं तव ।

विनिरीक्ष्यत अद्य तैरहो

तव हा हा रुदनोत्सवो महान् ॥४५॥

जिन नेत्रों द्वारा हम सब लोगों ने मुग्ध, मधुर मन्दस्मित आपका वह मुख देखा था, हा ! आज उन्हीं अभागे नेत्रों से यह आपका रुदनोत्सव देखा जा रहा है, हा ! क्या ही शोक की बात है ! कुछ कहा नहीं जाता ॥ ४५ ॥

अथि भारतवर्षसागरो-

द्रतनानाजनपद्मबोधक ! ।

कियता क्षमयेन ते पुनः

किरणानां प्रसरो भविष्यति ॥४६॥

हे ! भारतवर्ष रूपी समुद्र में उत्पन्न हुए अनेक मनुष्य रूपी सुगंधित कमलों के खिलाने वाले सूर्य रूपी स्वामी दयानन्द ! कृपा करके यह तो बतलाइए कि कितने समय के बाद फिर आपकी किरणें खिलेंगी ॥ ४६ ॥

यदि याति स भानुरस्ततां

प्रहराणां गणनात् तिष्ठति ।

तव तु प्रतिबन्धको यमः

समयं नो परिदर्शयिष्यति ॥४७॥

यदि भारतवर्ष से इस सूर्य का लोकांतर में गमन होता है तो भारतवासी उसके उदय तक तीन अथवा चार प्रहर का समय मानते हैं, परन्तु आपके अस्त में तो अभागा यमराज कारण है। यह हमको फिर दुबारा आपके उदय का समय क्यों कर दिखलाएगा ! हा ! शोक ! ॥ ४७ ॥

गमनात्तव देव ! या निशा

समभूदत्र समस्तभारते ।

वद तामधुना विदाम्पते !

कतमो वारयिता सहस्रयुः ॥४८॥

आपके चले जाने के कारण भारतवर्ष में जो रात्रि उपस्थित हुई है उसको आज कौन सा सहस्र किरण उदय को प्राप्त होकर हटाने के लिए समर्थ होगा ? यह तो कृपा करके जरा बतला दीजिए ॥ ४८ ॥

मृगराजवदत्रगर्जना-

मनिशङ्कुर्वति ये जनाधमाः ।

भवनादपि नागता वहिः

सुखमेष्यन्ति यथार्थमद्य ते ॥४६॥

सृगराज के समान सर्वदा गर्जना करते हुए आपको देख कर जो पौराणिक पण्डित भय के मारे मकानों से भी नहीं निकला करने थे आज वे आपको इस भारत में न देख कर आनन्दपूर्वक मैदानों में विचरेंगे ! ॥ ४६ ॥

अतिदीनजनानुवर्तिनी

तव या सा समभून्मतिर्यते ! ।

विलयं क्व गता वदस्व हा

हतमेतत्सकलं त्वया जगत् ॥५०॥

दीन और अनाथों को देख कर आपके हृदय में जो दया उत्पन्न होती थी आज वह कहाँ जाकर नष्ट हो गई ! आज तो हम सब दीन और अनाथ हो रहे हैं और आपके शोक में विह्वल हैं ॥ ५० ॥

पदशः प्रतिपादयिष्यता

निगमानां विनियोगगौरवम् ।

भवताद्य कथं वियोगिता

प्रतिलब्धा वद हा यतीश्वर ! ॥५१॥

एक एक पद का, अलग अलग वेद के मन्त्रों में "विनियोग" का गौरव बतलाते हुए आपने आज क्यों 'वियोग' का स्वरूप धारण कर लिया यह तो बतलाइए ? मन्त्रों के लिए "विनियोग" बतलाया, विधवाओं के लिए "नियोग" बतलाया, हमारे लिए "वियोग" क्यों बतलाया ? हमारे लिए अभागा "संयोग" का "प्रयोग" कहाँ जाकर "उपयोग" पा गया ? अब हम क्या "उद्योग" करें ? हमारा तो सारा "सुयोग" दैव "दुर्योग" से "अभियोग" में आगया ! ॥ ५१ ॥

सकलोपि वधूजनस्त्वया

सधवः कल्पितएव हा मुने ! ।

विधवा पुनरद्य भारती

कथमेषा न विलोक्यतेधुना ॥५२॥

हा ! इस भारतवर्ष में समस्त विधवाओं को "वैदिक" मन्त्रों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध हुए नियोग से आपने सधवा बना दिया, अर्थात् सब विधवाओं को नियोग प्राप्त पति के संयोग से सौभाग्यवती बना दिया परन्तु यह अभागिनी भारत-भारती आज आपने अपने वियोग से सर्वदा के लिए विधवा बना दी। इसको आप कहरारूप दृष्टि से अब क्यों नहीं देखते ? ॥ ५२ ॥

तव नामपदाग्रएव या

बहुरागाकुलिता व्यतिष्ठत ।

गतवत्यधुना त्वयि प्रभो !

लभतां कुत्र पदं सरस्वती ॥५३॥

आप में अत्यन्त अनुराग से जो सरस्वती, सर्वदा आपका तो कहना ही क्या है, आपके नाम के भी सामने ही रहा करती थी, और साथ में नाम लेने से अपने को सर्वोश में कृतकृत्य मानती थी। हा ! वह सरस्वती आज आप के परलोक जाने पर किसके यहाँ जाकर रहे ? किससे अपना मन बहलावे ? किसको अपना पति मानकर सौभाग्यवती बने ? हा ! शोक ! ॥ ५३ ॥

अबलेयमिति त्वया कृपा

क्रियतामत्र सरस्वतीपते ! ।

लभतादियमप्यलं यतः

क्वचिदानन्दपदावलम्बनम् ॥५४॥

हे सरस्वती के स्वामिन् ! आप इसको अबला जानकर, इसके ऊपर करुणा कीजिए, अनाथा समझ कर इसको सनाथा बनाइए, दीना मानकर इस पर आप दया कीजिए। आप तो दया और आनन्द के भंडार हैं। आप में तो दया और आनन्द की लहरें (परम्परा से) उठा करती हैं। इसके लिए भी किसी लहलहाती लहर का हलका सहारा बतलाइए जहाँ जाकर यह भी अपने मन को शांत करे और आप के गुण गाया करे ॥ ५४ ॥

तव वैदिकयन्त्रणालयो-

बहु दुःखाय विचेष्टतेधुना ।

विदधाति महाशुचं पुन-

नितरामार्यसमाजकल्पनम् ॥५५॥

आपने अपनी पुस्तकों को छपाने के लिए यह जो वैदिक यंत्रालय भारत-वर्ष में छोड़ा है वह आपके स्वर्ग जाने पर आपके गुणों का स्मरण दिलाता हुआ हमको शोकसागर में डुबो रहा है और आपके द्वारा स्थापित किये हुए समस्त आर्यसमाज आज हमको रुला रहे हैं ॥ ५५ ॥

शरदुद्गतपूर्णवैधव-

द्युतिगौरं तव हाऽऽस्यदर्शनम् ।

ऋकचायितमातनोत्यहो

हृदयोत्थे निखिलेपि कर्मणि ॥५६॥

शरद ऋतु में उदय को प्राप्त हुए, पूर्ण चन्द्र मंडल के प्रभा मंडल समान वह आपका मुख मंडल, आज हमारे मन में उठे हुए समस्त संकल्पों को विदारण करने के लिए "ऋकच" आरे के समान हो रहा है ॥ ५६ ॥

नितरां परिरक्षिता प्रभो !

पिशुनेभ्यो बहु या धृतिस्त्वया ।

वद सम्प्रति कस्य सन्निधौ

दिवभासे त्वयि सा गमिष्यति ॥५७॥

इस कराल कलिकाल में जिस 'धृति' को आपने अपने शरीर में स्थान देकर, उसके नाश में तत्पर चंचलचित्त दुर्जनों से बचा लिया, आज आपके स्वर्ग जाने पर वह धृति किस प्रकार धृति धारण करे अर्थात् आज आपके वियोग में धैर्य का भी धैर्य टूट गया। धर्म का पहला लक्षण धैर्य आज निरालंब होगया, यह अभिप्राय है ॥ ५७ ॥

बहुशास्त्रनिरीक्षणात्त्वया

हृदि याऽधारि यथायथं क्षमा ।

कमुपेत्य वियोगविक्रवा

हृदयं भावयताद्ब्रदाधुना ॥५८॥

अनेक शास्त्रों के दर्शन करने से जिस क्षमा को आपने अपने हृदय में धारण किया था वह क्षमा आज आपके स्वर्ग जाने से उस कराल काल पर रूष्ट होती हुई अपने नाम को क्योंकर कृतार्थ करे। अपने निवास स्थान के छोड़ने जाने पर क्रोध में भरी हुई क्षमा के लिए भी आज क्षमा नहीं आती अर्थात् धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा भी आज निराधार हो गया ॥ ५८ ॥

परिपालितएव यस्त्वया

बहुधा दुःखमुपेयुषापि हा ।

स नितान्तविलज्जितोधुना

लभतां कुत्र पदं मुने दमः ॥५९॥

अनेक प्रकार के कष्टों को अपने ऊपर झेलकर भी जिस प्राण प्यारे दम को आपने अपने से दम भर भी अलग नहीं किया अर्थात् सर्वदा ही अपने साथ रक्खा वह दम आज आपके यहाँ से चले जाने पर किसके दम से रहे। आपके जाने से यह विचारा वेदम दम किसके सहारे अपना दम ले। कदम कदम पर इस दम के लिए अब दम घोटना पड़ता है। एक दम आपने इस विचारे दमको दम देकर वेदम कर दिया। धर्म का तीसरा लक्षण दम (इंद्रियों का दमन) भी आज वेदम और निराश्रय होगया ॥ ५९ ॥

परवञ्चकतानुवर्तिनां

मनुजानां हृदयेषु यस्त्वया ।

विहितं तदभावकल्पनं

तदलं पश्य करोति रोदनम् ॥६०॥

दूसरों के अनेक प्रकार के पदार्थ लेने में ही जिनका सारा समय बीतता था उन पुहणों के हृदय में अपने प्रभाव से अस्तेयता का भाव उत्पन्न करके आज आप परलोक सिधारे। अब कहिए वह अस्तेय किसको अपना फल दिखलावे ? यह भी विचारा चौथा लक्षण अधरही रह गया ॥ ६० ॥

अपवित्रतया न सदृगति-

र्भवितेति प्रतिपादनापरे ।

त्वयि निर्वृतिमादरादिता

कमुपेयादधुना शुचिक्रिया ॥६१॥

बिना पवित्रता के कदापि सद्गति नहीं हो सकती ऐसा प्रतिपादन करते करते आपके स्वर्ग जाने पर यह विचारी पवित्रता भी आज गताश्रय हो गई अर्थात् धर्म का पाँचवाँ लक्षण भी आज निरर्थक होगया ॥ ६१ ॥

विधुरा भवतानुपालिता

नितरां या चिरवर्णिताधुना ।

विरते भवति प्रवर्ततां

वत कुत्राद्य निराश्रयाऽवला ॥६२॥

वेदों के विचार करने पर जो आपने अड़तालीस वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण किया तथा जिस ब्रह्मचर्य का सबके लिए आपने उपदेश दिया वह ब्रह्मचर्य आज आपके न होने पर कहाँ चरितार्थ हो ? उसके लिए कहाँ पर भी स्थान नहीं । यदि हो तो बतलाइए । इसलिए आज धर्म का यह छठाँ लक्षण भी संसार से छूट गया ॥ ६२ ॥

बहुपापसमाकुले जग-

त्यवलंब्यात्र तवैव मानसम् ।

सहसा त्वयि याति साधुना

वद धीः कुत्र करिष्यति स्थितिम् ॥६३॥

अनेक प्रकार के पापों से संकीर्ण धरातल में आपही का अवलंब लेकर निश्चिंत बैठी हुई 'धी' अचानक आपके चले जाने से कहाँ पर जाकर स्थिर हो ? इसके लिए अब कोई आधार नहीं रहा । न कोई इससे काम लेने के योग्य रहा । इसके शत्रु ही संसार में रह गये । इससे धर्म का यह सातवाँ लक्षण भी आज निष्फल होगया ॥ ६३ ॥

वद देव ! मुने ! सुविद्यता

कमुपेयादिह सत्यभाषिता ।

दिवमाप्तवति त्वयि द्रुतं

स च रोषातिगमोपि निर्बलः ॥६४॥

हे महात्मन् ! यह तो बतलाइए कि आपके अचानक स्वर्ग जाने पर यह विद्या अब कहाँ जावे ? सत्यभाषिता कहाँ जाकर विराजे ? अक्रोध कहाँ पर जाकर घर बनाये ? आपने इन सबको एक साथ अनाथ बना दिया । सच तो यह है कि आपके चले जाने से धर्म के सभी लक्षण निराधार हो गये । आपही इनका सर्वांश में पालन करते थे । आपही इनका प्रचार करते थे । आपही इनका आदर करते थे । न अब इनका पालक रहा, न कोई प्रचारक रहा, न कोई आदर करने वाला रहा । हा ! परमात्मन् ! यह तूने क्या किया ? क्या सोचा ? क्या विचारा ? ॥ ६४ ॥

विधिना परिवञ्चिता वयं
जगदीशेन विमोहमापिताः ।
समयेन वियोगवद्भिना
परिदग्धास्तव देव ! हा हताः ॥६५॥

हा ! दैव ने आज हम सबको ठगलिया । परमात्मा ने मोहित कर दिया । इस कराल काल ने आपके वियोग रूप अग्नि से जला दिया । हा स्वामिन् ! यह आपने क्या किया ? हम सबको मार कर आप मुक्त हो गये । हा विधातः ! आज हम सब तो मारे गये, ठगे गये । क्या करें, कहाँ जायें । कुछ समझ में नहीं आता ॥ ६५ ॥

इति यावदलं न सा सभा
गुणविस्तारकथामपूरयत् ।
परतः प्रवभूव तावता
समयेनोदयएव भास्वतः ॥६६॥

इस प्रकार स्वर्गवासी ऋषि दयानन्द के वियोग में मग्न आर्यसभा जब तक उनके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन न कर चुकी तब तक भगवान् भुवन-भास्कर सूर्य उदयाचल की ऊँची चोटी पर आकर उपस्थित हुए अर्थात् प्रातःकाल होगया ॥ ६६ ॥

दिननायक एतदाकुलं
जगदालोक्य वियोगवद्भिना ।

करुणाश्रितेन सान्त्वना-

मनसा तानिदमाह मञ्जुलम् ॥६७॥

ऋषि दयानन्दजी के वियोगजन्य शोक से घबड़ाये हुए इस जगत् को देख कर कमलिनी-नायक (सूर्य) अपने करों द्वारा, जो कि एक सहस्र से अधिक थे, उसको उठाकर करुणा करके भरे हुए अपने अपने भावों से, उन सबको समझाता हुआ सा, इस प्रकार सूचित करता था जो निम्न लिखित है ॥ ६७ ॥

किमिदं क्रियते महोदयाः !

परिवीक्षध्वमयं क्रमो भुवि ।

प्रथितोस्ति ततो विधेर्वशा-

दलमत्रैव निधीयतां मतिः ॥६८॥

हे महोदयो ! यह आप क्या करते हैं जो इस प्रकार हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं । उठिए । उठकर देखिए । जो मैं अपने भावों से सूचित करता हूँ । यही क्रम संसार में विद्यमान है । इसलिए इसको समझ कर इसी में मन लगाइए । अपना अधिक समय शोक में न बिताइए ॥ ६८ ॥

गतएव भुवस्तत्वादहो

परलोकं यमिनामधीश्वरः ।

न भविष्यति दृष्टिगोचरो-

रुदनेनात्मविशोषणेन वा ॥६९॥

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी तो सर्वदा के लिए इस असार संसार को छोड़ कर चले ही गये । इसमें तो कुछ संदेह ही नहीं है और न अब किसी प्रकार से दृष्टिगोचर हो सकते हैं । चाहें आप रोवें या अपने आत्मा को सुखाएं । जो कुछ ईश्वर की इच्छा से होना था वह तो हो ही गया । अब इसमें कुछ वाक्की नहीं रहा है ॥ ६९ ॥

विफला मनसः प्रतारणा

मुनिवर्यस्य समागमाशया ।

रहिता च फलेन तत्त्वतो-

निजकार्योपरतिः प्रतीयते ॥७०॥

जो दुबारा इस जगत् में स्वामीजी से मिलने की आशा रखनी है वह केवल मन को ठगना है। इस निष्फल आशा में अब कुछ न मिलेगा और जो अपने अपने कार्यों में अहंति करनी है वह भी सर्वथा निष्फल ही है ॥ ७० ॥

इति चेतसि शान्तिमागते

परिचिन्त्यात्मगतं यदुच्यते ।

पुरतो भवतां मयाधुना

हृदये तद्दृश्यतां यथोचितम् ॥७१॥

इस बात को अपने मन में भलीभाँति विचार कर जो कुछ आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ उसमें मन लगाइए और उसके अनन्तर अपने अपने देश और काल के अनुसार वर्तान्व कीजिए । यही बुद्धिमानों का परम कर्तव्य है ॥ ७१ ॥

अहमेमि यदास्तपर्वतं

विधियोगादथवा नियन्त्रणात् ।

स्वकृतिं दहने तदाद्भुतां

प्रतिमुञ्चामि निशागमेऽचलात् ॥७२॥

जिस समय मैं इस भारतवर्ष में बारह घंटा रहकर यहाँ से अस्ताचल की चौटी पर पहुँचता हूँ उस समय अपना कार्य अग्नि को सौंप जाता हूँ। वह अग्नि मेरे अभाव में वही काम देता है जो अपनी विद्यमानता में मैं दिया करता हूँ। अग्नि भी बुत जाने पर अपना काम वाणी को सौंप जाता है। यह कथानक उपनिषदों में अच्छे प्रकार वर्णन किया गया है ॥ ७२ ॥

स च मामुदयाचलस्थितं

परिवीक्ष्याशु मयार्पितां प्रभाम् ।

विनिवेश्य मयि प्रभातके

गतभारत्वमुपैति दृश्यते ॥७३॥

जब मैं यूरुप अमेरिका आदि पातालतालुतलवासी लोकों में भ्रमण करता हुआ प्रातःकाल फिर उदयाचल की चाटी पर पहुँच जाता हूँ तब वह अग्नि मेरा निक्षेप (अमानत) रूप प्रकाश फिर मेरे लिए अर्पण करदेता है और आप गतभार हो जाता है ॥ ७३ ॥

अपरं च विलोक्यते मया

भुवने गच्छति वृद्धभावताम् ।

जनकेति समस्त धूर्वह-

स्तनयोस्मिन्भवति प्रभाववान् ॥७४॥

और भी मैं देखता हूँ । जब संसार में पिता वृद्धावस्था में निरर्थक (बेकार) हो जाता है उस समय उसका योग्य पुत्र उसके समस्त कारबार का भार अपने ऊपर लेकर भावी के लिए धूर्वह माना जाता है ॥ ७४ ॥

जनकोपि विलोक्य धूर्वहं

स्वसुतं सादरमात्मकर्मसु ।

क्रमशो गतभारतामितो-

भवतीत्यत्र कुतो न दृश्यते ॥७५॥

अति वृद्ध पिता भी जब उसको समस्त कार्यों में लगा हुआ देखता है तब अपनी चिन्ताओं से छुटकारा पाजाता है और विगत भार होकर अपने मरने के दिन गिना करता है । यह बात संसार में प्रसिद्ध है ॥ ७५ ॥

सुतवत्परिपालयन्निमं

स समाजं यदि मृत्युमाप्तवान् ।

न तदास्य वियोगमूर्च्छना

हृदये कापि निधीयतां मुनेः ॥७६॥

यदि ऋषि दयानन्द इस आर्यसमाज को पुत्रवत् मानकर इसका तन, मन, धन से पालन कर चुके हैं और अपने पश्चात् कार्य करने के लिए छोड़ गये हैं तो उनके वियोग में अधिक शोक करना अच्छा नहीं है ॥ ७६ ॥

यदि सैकसुते विचारणा

मुनिवर्यस्तु समस्तभारतम् ।

सुत इत्यवगम्य भव्यया

निजदृष्ट्या परिवीक्ष्य निर्गतः ॥७७॥

जब एक पुत्र के ऊपर सारा संसार का काम चलता रहता है तो ऋषि दयानन्द ने तो समस्त भारतवर्ष को अपना पुत्र माना है और उसके बचाने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया है। जिस ऋषि दयानन्द के लाखों धर्मात्मा सच्चे धर्मपुत्र मौजूद हों उसके लिए तो कहना ही क्या है ॥ ७७ ॥

सुतवन्मुनिधर्मपालनं

क्रियतामत्र भवद्भिरादरात् ।

सकलेपि यथा भुवस्तले

स मुनेरेव मनोरथो भवेत् ॥७८॥

इसलिए उठो ! पुत्र के समान उनके कथन का पालन करो। जीवन भर के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझो, जिससे समस्त भारतवर्ष में उनका मनोरथ फलीभूत हो जावे। उनके अभीष्ट वैदिक धर्म की दिन दिन वृद्धि होती रहे, उनका जीवित सर्वस्व आर्यसमाज उन्नति के उच्चतर शिखर पर पहुँच जावे, उनका हृदय रूप वेदों का प्रचार सर्वत्र सर्व प्रकार से होता रहे। यही सत्पुत्रों का काम है ॥ ७८ ॥

यशसा महतां वपुः सदा-

ऽमरतां प्राप्य वितिष्ठते महत् ।

न शरीरमिहावतिष्ठते

जनिमाप्तस्य जनस्य बुध्यताम् ॥७९॥

सज्जनों का शरीर इस संसार में यशरूप होकर ही सर्वदा के लिए रहा करता है। स्थूल शरीर का तो कभी न कभी नाश होना ही है। इसलिए सज्जन उसका भरोसा नहीं रखते। केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करते रहते हैं ॥ ७९ ॥

जनिमत्र गतस्य भूतले

मृतिरेकान्ततया भविष्यति ।

मृतिमाप्तवतो जनिःपुन-

र्गतिचक्रं परिवर्तते स्वयम् ॥८०॥

जिस पुरुष की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है उसका एक बार नाश अवश्य होना है। जो पुरुष मर चुका है उसका जन्म भी अवश्य ही होना है। यह आवागमन का चक्र तो लगा ही हुआ है। परन्तु भेद इतना है कि जिस रूप में एक बार जन्म लेकर पुरुष मरता है उसी रूप में दुबारा आकर जन्म नहीं लेता है। रूपांतर में परिणत होकर जन्म लिया करता है। इसी भाव को लेकर श्रीकृष्णजी ने गीता में अर्जुन को भी समझाया है “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः” ॥ ८० ॥

दिवसापगमादनन्तरं

निशयाऽऽपूर्यतएव तद्वियत् ।

क्षणदापगमे दिनोदयः

स्फुटमेतद्गतिचक्रदर्शनम् ॥८१॥

दिन के अनन्तर रात का आना जिस प्रकार प्रत्यक्ष में विद्यमान है और रात्रि के अनन्तर दिन का आना प्रत्यक्ष दीख रहा है इसी दिन और रात्रि के गति चक्र के समान मनुष्यों का आवागमन चक्र भी अनिरुद्ध है। महा मोह-रूप कटाह में भूतों को गिरा कर सूर्य रूप अग्नि में दिन रात्रि रूप काष्ठ लगाता हुआ काल मास रूप चमचे से चला चला कर भूना करता है ॥ ८१ ॥

सुखतः परमस्ति दुःखता

पुनरन्ते सुखमेव केवलम् ।

न सदा सुखमेव नोऽसुखं

रथचक्रभ्रमिवद्विलोक्यताम् ॥८२॥

सुख के अनन्तर दुःख का आना, दुःख के अनन्तर सुख का आना, रथ के चक्र के समान, ऊपर नीचे होता है। न किसी के लिए सर्वदा सुख ही प्राप्त होता है न सर्वदा दुःख ही प्राप्त होता है। दोनों बातें आगे पीछे बनी रहती हैं। मनुष्य सुख को सहज (अचानक में ही) भोग लेता है। दुःख को बड़ी देर तक मानता रहता है। यही बात रामायण में लक्ष्मण के प्रति मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी कह गये हैं “सुखस्यानन्तरं दुःखम्” ॥ ८२ ॥

तदलं बहुशोककल्पना-

न्मुनिवर्यस्य दिवङ्गतात्मनः ।

महतामियमस्ति वञ्चना

स्वतएवात्र भुवस्तले स्थिरा ॥८३॥

इसलिए सद्गति को प्राप्त हुए स्वामीजी के लिए अधिक शोक न कीजिए। महात्मा पुरुषों की एक प्रकार की शैली होती है कि आप अंतर्हित होकर मनुष्य की परीक्षा लिया करते हैं ॥ ८३ ॥

इयमार्यसमाजवल्लरी

मयि लोकान्तरमागते नवा ।

प्रचलिष्यति वा विशुष्कता-

मुपयास्यत्यधिकारिभेदतः ॥८४॥

मेरे इस पाँच भौतिक शरीर के अनन्तर यह कोमल आर्यसमाज रूपिणी लता मनुष्यों के द्वारा उपयोग पाकर वृद्धि को प्राप्त होगी अथवा मनुष्यों का अनुराग हटने पर सर्वथा विशीर्णपत्रा हो जावेगी। ये दोनों बातें अधिकारी और अनधिकारी पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं ॥ ८४ ॥

इति लोकपरीक्षणेच्छया

प्रगतः सोपि महामुनिर्दिवम् ।

अतिसूक्ष्मशरीरधारणा-

दधुना नात्र विलोक्यते जनैः ॥८५॥

इस प्रकार दोनों बातों में आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए वह ऋषि इन्हीं भूर्भुवःस्वः तीन लोकों में अंतर्धान होगये और अत्यन्त सूक्ष्म शरीर धारण करने से आप लोगों की दृष्टि में नहीं आते ॥ ८५ ॥

गतवान्पुरएव मे दिवं

स महात्मा वसुदेवनन्दनः ।

विलयं प्रययौ ततः पुरा

मम वंशस्य विभूषणं रघुः ॥८६॥

महाभारत के प्रधान नेता गीता के संपादक श्रीकृष्ण महाराज मेरे ही समक्ष परलोक को सिधारे । रामायण के अद्वितीय नेता मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी उनसे भी पहले चले गये । इसी प्रकार आर्यसमाज के प्रधान नेता जगदेकनन्दन, आनन्दकन्द जगदानन्द श्री १०८ ऋषि दयानन्द अब चले गये ॥ ८६ ॥

जगदप्यतिजीर्णतां गतं

परमात्मा प्रलयान्तरे पुनः ।

बहुकर्मफलानुबन्धना-

दुदयं प्रापयति प्रसङ्गतः ॥८७॥

कहाँ तक कहें । इस जगत् को भी जब परमात्मा जीर्ण हालत में देखता है तब प्रलय के बहाने से नष्ट कर देता है फिर दुबारा मनुष्यों के कर्मानुकूल बना करके खड़ा कर देता है । प्रलय में कार्य जगत् का नाश हो जाता है यह बात दर्शनों में प्रसिद्ध है । कारण मात्र उस समय रह जाता है ॥ ८७ ॥

इति भारतवर्षमण्डलं

निजगत्या प्रतिबोध्य भास्करः ।

भुवनान्तरमाप दर्शयन्

समयस्यास्य गतिभ्रमं जवात् ॥८८॥

इस प्रकार भुवनभास्कर सूर्य अपनी गति के द्वारा संसार की स्थिति को चञ्चल बता कर समय की अति चञ्चलता दिखाने के लिए अस्ताचल की धोटी पर चढ़ गये अर्थात् सायङ्काल होगया ॥ ८८ ॥

चतुरोपि निबोधको यथा

निजचाञ्चल्यवशाञ्जनव्रजम् ।

न करोति गतार्थमुष्णगुः

स तथा तानकरोन्न शिक्षितान् ॥८९॥

उपदेश देनेवाला कैसा ही चतुर हो परन्तु वह अपनी चञ्चलता के कारण जिस प्रकार श्रोताओं को तृप्त नहीं कर सकता इसी प्रकार चञ्चल गति और गरम बोलने वाला सूर्य ऋषि के वियोग से विह्वल आर्यमंडल को अच्छे प्रकार शांति न देसका अर्थात् जगत् में शोक बाँकी रह गया ॥ ८९ ॥

हृदये प्रविविच्य तत्कथां

पुनरुक्तामिव कर्तुमुद्यतः ।

हिमदीधितिराप तत्पदं

सुहृदामीदृशाएव संक्रमः ॥९०॥

इस बात को अपने मन में विचार कर अपने मित्र की बातें फिर दुबारा समझाने को उसके स्नान पर शीतकिरण आ गये और वही अपने मित्र की बातें समझाने लगे । मित्रता के यही माने होते हैं अर्थात् चन्द्रोदय हो गया ॥ ९० ॥

शिशिरांशुरयं यदा जनान्

शिशिरैरात्मकरैरबोधयत् ।

प्रबभूव तदा सभापि सा

निजकार्येषु निषक्तमानसा ॥९१॥

जब कुमुदिनी-नायक ने अपने शीतल शीतल किरणों (वचनों) द्वारा शोकमूर्च्छित भुवन को जगाया तब वह आर्यमित्र-मण्डली भी सचेत हो गई और अपने अपने कार्यों में लग गई । मधुर बोलना सर्वत्र ही काम कर देता है, यह भाव है ॥ ९१ ॥

सकलं यतिवर्यकल्पितं

वसनाद्यं वसु पत्रदर्शनात् ।

परिवीक्ष्य तथा विलिख्य त-

द्गतशोकापि शुचा व्यतिष्ठत ॥६२॥

स्वीकार-पत्र (वसीयतनामे) के अनुसार जो कुछ स्वामीजी का वस्त्र, पुस्तक आदि सामान था सब देख भाल कर जनता सूची में लिखने लगी और उचित कार्य में तत्पर हुई परन्तु सर्वथा अभी गतशोक नहीं हुई ॥९२॥

शनकैरयमेति मन्दता-

मतिशोको हृदयान्तरं गतः ।

महतामपि कात्र वर्णना

लघुभावत्वमुपेयुषां पुनः ॥६३॥

महात्माओं के वियोग का शोक बुद्धिमान् भी शीघ्र नहीं मिटा सकते और छोटे मोटे पुरुषों की तो बात ही क्या है । इसलिए अभी स्वामीजी का ताजा शोक न मिटा और न मिट सकता था, न कभी मिटेगा ॥ ९३ ॥

क्षणदापगमेऽथ सत्कथा-

पगमाद्यावदयं निशापतिः ।

न ययौ तदवध्ययं कवि-

निजसर्गान्तमकल्पयद्रसात् ॥६४॥

यह सोच कर थोड़ी रात्रि रहने पर जब तक मनुष्यों को किरणों द्वारा समझाता हुआ चन्द्रमा मन मन में जाने की इच्छा कर ही रहा था कि कविरत्न ने उसके जाने से पहले ही अपने सर्ग को समाप्त कर दिया अर्थात् चन्द्रमा के अस्त और सूर्य के उदय के मध्य में यह सर्ग पूर्ण किया ॥ ९४ ॥

एवं महार्यपरिषत्पतिशोकभावा-


वद्धं समस्तमनुजेश्वरमण्डलं तत् ।

शीतांशुभिः कुमुदिनीदयितो निवार्य

वेगाज्जगाम चरमाचलकूटकोटिम् ॥६५॥

कुछ ही देर के बाद चन्द्रमा भी अपनी अमृतमय शीतल किरणों से स्वामीजी के वियोग से सन्तप्त अनेक आर्यराजाओं को कुछ कुछ शान्त कर अस्ताचल की ऊँची चोटी की नोक पर से सबको “नमस्ते” करके छिप गया ॥ ९५ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये
शोकसंमूर्च्छनं नाम विंशतितमः सर्गः ।



एकविंशः सर्गः

याते मुनौ विधिवशाद्भरालयं सा
गोष्ठी शुचातिविकलापि पदे तदीये ।
नव्योदयं प्रतिनिधिं विनिवेश्य तस्थौ
केनापि वञ्चितसमस्तधनेव तत्र ॥१॥

जगदीश्वर की प्रेरणा से आनन्दकन्द जगदानन्द ऋषि दयानन्द के लोकांतर जाने पर किसीने माने जिसका समस्त धन उग लिया हो ऐसी शोक से अत्यन्त व्याकुल आर्यमहाशयों की सभा ऋषि दयानन्दजी के पद पर आर्यसमाज की प्रतिनिधि को स्थापित कर यथाकथंचित् शांति को प्राप्त हुई ॥ १ ॥

नापत्पदं यदपि चेतसि शोकतान्ते
सा कापि हर्षकलिका विवशेव तेषाम् ।
कार्योदयात्तदपि ते मुदितायमाना
लोके बभुः सकलसभ्यजनैर्नमस्याः ॥२॥

यद्यपि शोकाकुल महाशयों के हृदय में आनन्द की कला ने पूर्णरूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाया तथापि सज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय वह आर्य-महाशय अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने से आनन्दित से प्रतीत होने लगे । वास्तव में आनन्दित होना तो अब कठिन है ॥ २ ॥

चेतस्यलं विशतु नाम कथं स हर्षो-
लोके विदां परमसख्यमुपागतैर्यैः ।
सत्राशितं यतिवरेण गतं तथोक्तं
गीतं निपीतमुपनीतमपि प्रसङ्गात् ॥३॥

उन परम विद्वान् आर्यमहोदयों के हृदयों में क्योंकर एक साथ आनन्द आकर निवास करे जिन्होंने उत्कट भाग्यों के उदय से श्रीस्वामीजी महाराज के साथ साथ कहीं पर भोजन, कहीं पर गमन, कहीं पर भाषण, कहीं पर वेदगान, कहीं पर जलपान आदि कार्य भी किये हों ? ॥ ३ ॥

गीता मतेः पथमनेकविधा न नीताः
किंवा न पीतमखिलोपनिषत्पयोपि ।
नायाति सा तदपि तस्य मुनेर्वियोगे
शान्तिर्विधेर्विलसितं किमिदं विचित्रम् ॥४॥

महर्षि के वियोग में अनेक बार गीता को मति मार्ग पर पहुँचाया, उपनिषद् रूप ब्रह्मद्रव्य को, जो कि पीने के साथ ही शांति देता है, अनेक बार पिया परन्तु आपके वियोग द्वारा प्राप्त हुए शोकानल की शांति प्राप्त नहीं हुई। यह विधाता ने अद्भुत बात करदी ॥ ४ ॥

ये सज्जना जगति जन्मतएव जन्तो-
जन्मान्तरोपगमनक्षयकारणानि ।
कर्माणि वेदविधिना विलयं नयन्ति
तेषां वियोगसमये न कथं शुगीयात् ॥५॥

ठीक भी है। जो सज्जन जगत् में जन्म लेने के समय से ही और मनुष्यों के लिए लोकांतर ले जाने वाले कर्मों के छेदन में वैदिक शस्त्र लेकर प्रवृत्त होते हैं अर्थात् आप जन्म लेकर औरों के लिए मुक्ति सुख देते हैं उनके वियोग समय में क्योंकर शोक प्राप्त न हो ॥ ५ ॥

धर्मोदयाय जनिमाप्तवतां समस्त-
लोकोपकारकरणाय वपुर्भृतां या ।

लोके स्थितिर्दुरितनाशकरी समुक्ता

सा कोविदैरवगताखिलवेदतत्त्वैः ॥६॥

केवल वैदिक धर्म की वृद्धि के लिए जिन सज्जनों का जन्म होता है, संसार मात्र के उपकार के लिए जिनका शरीर होता है, दीन अनार्थों के रक्षार्थ जिनका धन होता है, ऐसे सज्जनों का जगत् में रहना ही समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। यह सिद्धांत वेद के तत्त्ववेत्ता लोग कहते और मानते हैं ॥ ६ ॥

माभूद्विधेः करुणया भुवि सज्जनानां

योगो यदस्तु न परस्परमिलता तैः ।

सा चेल्लयं व्रजतु तद्विरहागमोत्र

भूयात्स चेन्मरणमप्यरमेव भूयात् ॥७॥

यदि हम पर ईश्वर की पूर्ण कृपा हो तो सबसे पहले तो सज्जनों के साथ हमारा मेल ही न हो, यदि किसी कारणवश मेल भी हो तो उनके साथ में पूर्णरूप से मित्रता न होने पावे। यदि किसी कारण मित्रता भी होजावे तो उनके वियोग का समय हमारी आँखों के सामने न आवे और यदि आ जावे तो हमारी भी मृत्यु में कुछ विलम्ब न हो ॥ ७ ॥

लोकोपकारकमनन्तगुणाधिवासं

वेदोक्तधर्मपरिपालनवद्धभावम् ।

योगीश्वरं यदयमाशु जहार वेधा-

स्तनैव मन्दपदवीमुपयातवान्किम् ॥८॥

समस्त लोकों के उपकार में दत्तचित्त, अनन्त गुणों के एक मात्र भंडार, वेदोक्त धर्म के पालन करने में दत्तभाव, श्रीस्वामीजी महाराज को जो कि शीघ्र ही यहाँ से विधाता ने बुला लिया मालूम होता है कि इसीलिए वह मन्द पदवी को प्राप्त होगया नहीं तो “ निर्विवेकी विधाता धातुः पुरा कोपि न बुद्धिदोभूत् ” यह क्यों कहा जाता ॥ ८ ॥

नैतादृशं जगति केनचिदत्र कार्यं

सम्पादितं जनिमितेन जनेन लोके ।

यादृङ्महामुनिरयं निरयं विहातुं
चक्रे भुवस्तलगताखिलकर्मभाजाम् ॥६॥

संसार में जन्म लेने वाले मनुष्यों के लिए अधम गति का विनाश करने वाला जैसा उपाय श्री १०८ स्वामीजी महाराज ने बतलाया ऐसा उपाय आज तक किसी ने भी नहीं बतलाया। इसीलिए आपका वियोग दाहण दुःख का देनेवाला माना गया है ॥ ९ ॥

लोके वभूव स भुवो यदि भारहारी
रामस्तथा जनिमगान्मनुजापहारी ।
नन्दस्य सूनुरपि वेदभरापहारी
नाभूदिमं यतिवरं नु विहाय हारी ॥१०॥

महाराजा रामचन्द्र ने यदि भारतवर्ष में जन्म लिया तो केवल [भूभार हरणार्थ] पृथिवी के भार उतारने के लिए लिया ? श्रीकृष्णचन्द्र ने भी यदि भारत में जन्म लिया तो केवल महाभारत के द्वारा ज़मीन को ही हलका किया परन्तु वैदिक धर्म के उद्धारार्थ, वेदों की रक्षा करने के लिए उन पर लगाये हुए कलंकों के मिटाने के लिए सिवा स्वामीजी के और कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ ॥ १० ॥

किं शङ्करेण विधिमार्गविनाशकेन
लोके जनिं गतवता विलयेपि यस्य ।
तेऽवैदिकाइव जगत्परिवञ्चयन्ति
ब्रह्माहमित्यनिशमादरतो वदन्तः ॥११॥

कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्ड के ऊपर पोता फेरने वाले शंकरस्वामी के आविर्भाव से भी संसार को क्या लाभ हुआ जिनके मरने पर [अहं ब्रह्मास्मि] कहने वाले एक प्रकार से अवैदिक संन्यासी पैदा होने लगे ॥ ११ ॥

यदृश्यते जगति सर्वमिदं तदेत-
द्ब्रह्माद्वितीयमिति वादवतां मतेन ।

नास्तीश्वरो न निगमो न सुखं न दुःखं
नो जन्म नापि मरणं न यमो न योगः ॥१२॥

जो कुछ संसार में दीखता है वह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं । यह जिनका सिद्धांत है उनके मत में न कोई ईश्वर है, न उसका ज्ञानरूप कोई वेद है, न सुख है, न दुःख है, न जन्म है, न मरण है, न पाप है, न पुण्य है, न योग है, न यमनियमों का पालन है, कुछ नहीं । केवल नास्तिकता का अड्डा जमा हुआ है ॥ १२ ॥

सर्वं तदेतदिह जन्म समेत्य योगी
विद्याबलेन मनुजान्परिवोधयित्वा ।
नानामतात्मकमतङ्गजकेसरीन्द्रो-
लोकान्तराध्वपथिकत्वमियाय दैवात् ॥१३॥

इन सब बातों को ऋषि दयानन्द ने भारतवर्ष में जन्म लेकर अपनी विद्या के बल से सबको समझा दिया । अंत में वह केसरी, जो कि अनेक मतरूपी मतवाले मतंगजों को पछाड़ चुका था, विधाता के इच्छावश होकर लोकांतर जाते हुए मार्ग का पथिक बन गया ॥ १३ ॥

तस्याधुना सतिमतामधिपस्य यद्यत्
कार्यं तदेव निखिले जगतीतलेऽत्र ।
सम्पादयिष्यति सभस्तमनोगतानि
वेदोन्नतौ सकलमर्पयतां धनं वः ॥१४॥

अब उस विद्वानों के आचार्य ऋषि दयानन्द का जो जो कार्य है वही समस्त इस भूमंडल में वेद की उन्नति के लिए अपना तन, मन, धन लगाने वाले आप लोगों का समस्त मनोवांछित फलों को पूर्ण करेगा अर्थात् वही हमारे लिए ऋषि के फलों को दे देगा ॥ १४ ॥

एवं विचारयति तत्र गते मनुष्य-
त्राते परोपकरणाय निवेशितायाम् ।

हर्षोदयात्परिषदि प्रथमं नियुक्ताः

सर्वे समाययुरनन्तधना नरेन्द्राः ॥१५॥

इस प्रकार उस समय उपस्थित हुए मनुष्यों में विचार करते करते परोपकारिणी सभा में पहले ही से नियुक्त समस्त राजे महाराजे एकत्र हुए। जिनका वर्णन मैं पीछे गये हुए सोलहवें सर्ग में कर चुका हूँ। इसका पूरा पूरा वृत्तांत वहाँ पर देखें ॥ १५ ॥

ते सर्वमस्य सहनीयविचित्रकीर्ते-

रालोक्य वस्तुनिचयं विरता न यावत् ।

तावन्मनस्युचितमुन्नतभावगर्भं

नव्यं जगाद रभसादुदितं स कश्चित् ॥१६॥

वह एकत्र हुए हुए समस्त राजे महाराजे तथा प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष, सभासद आदि आपकी छोड़ी हुई समस्त वस्तुएं देखकर जब तक निश्चिन्त नहीं हुए तभी तक उनमें से प्रधान महाशय उठकर इस प्रकार कहने लगे ॥ १६ ॥

विश्वोपकारकरणाय महौषधानि

यान्यत्र तेन रचितानि सुपुस्तकानि ।

तेषां प्रचारकरणे निखिलैर्मनुष्यै-

रेकान्तमुत्तमतया क्रियतां प्रयासः ॥१७॥

माननीय आर्यपुरुषो ! संसार के उपकार के लिए महौषध अर्थात् संजीवन रूप जिन पुस्तकों को श्रीमान् परमपदारूढ़ श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने बनाया तथा जिनका वर्णन भी गये हुए अष्टम सर्ग में पूर्णरूप से हो चुका उन सत्यार्थप्रकाश आदि पुस्तकों के प्रचार करने में समस्त पुरुष पूर्णरूप से प्रयत्न करें ॥ १७ ॥

विस्तार्यतां जगति वैदिकभाष्यमस्य

सा भूमिका भवतु सर्वजनस्य भूमिः ।

सत्यार्थनामकसुपुस्तकसत्प्रकाशः

सर्वं प्रकाशयतु विश्वतलं प्रभावैः ॥१८॥

समस्त पुरुषों को चाहिए कि आपके किये हुए ऋग्वेद तथा यजुर्वेद भाष्य को जगत् में विस्तृत करें, आपकी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका समस्त मनुष्यों में की भूमिका बने। आपके निर्माण किये हुए सत्यार्थ-प्रकाश का प्रकाश अपने प्रभावों से समस्त संसार को प्रकाशित करें अर्थात् हृदयों में भरे हुए अज्ञानरूप अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करें ॥ १८ ॥

आपत्पदं प्रतिनिधिः किल यस्तदीयं

योगीश्वरस्य स समस्तदिगन्तरेषु ।

दिव्योपदेशकसमूहसुवक्तृताभि-

विस्तारमानयतु वैदिकधर्ममेकम् ॥१९॥

परमपदारूढ ऋषि दयानन्द के स्थान में जो प्रतिनिधियाँ स्थापन की गई हैं उनको चाहिए कि वे देशदेशांतर एवं द्वीपद्वीपांतरों में जाने के लिए अपने यहाँ अच्छे सदाचारी सुयोम्य विद्वान् उपदेशक नियत करके वैदिक धर्म को सर्वत्र विस्तृत करें ॥ १९ ॥

विज्ञापनैरहरहो नगरेषु देया

विज्ञतिरुद्धतजनेषु यथा पुरस्ते ।

वादे भवन्तु निरताः परतो नितान्तं

लज्जावनम्रशिरसो नवतर्कवादैः ॥२०॥

उपदेश देने के लिए नियत किये हुए उन विद्वानों को भी यह उचित होगा कि वे बड़े बड़े नगरों में जाकर पहले तो अनेक मतों के मानने वाले पुरुषों में विज्ञापन वितीर्ण करें फिर शास्त्रार्थ के लिए उनको तैयार करके अंत में उनको वाद में परास्त करें ॥ २० ॥

नानामतानुगतमानवमर्दनेन

यावन्न भूमिवलये भविता विचारः ।

तावन्न वृद्धिमुयास्यति सत्यमेव

सर्वेषु नव्यनगरेषु शिवः समाजः ॥२१॥

जब तक प्रबल युक्ति एवं प्रमाणों द्वारा अनेक मतमतांतरों के मानने वाले पुरुषों का शास्त्रार्थ में पराजय न होगा तब तक समस्त लोकों का कल्याण करनेवाला आर्यसमाज नवीन नवीन नगरों में कदापि स्थापित न होगा । इसलिये यह अवश्य कर्तव्य है ॥ २१ ॥

तस्मान्नियोज्य विबुधानिह कार्यमध्ये

वादानुवादलघुवादकृतौ प्रवीणान् ।

संख्यावतां समुद्रयाय विधेयमेव

तादृग्विधं गुरुकुलं सकलैः प्रयासैः ॥२२॥

इसलिये इस शास्त्रार्थ रूप कार्य में वेद वेदांग जानने वाले वाद, अनुवाद तथा शीघ्रवाद में प्रवीण अनेक विद्वानों को नियुक्त करके भविष्यत् के लिए अच्छे अच्छे विद्वान् उत्पन्न करने को तन, मन, धन से प्रयत्न कर एक गुरुकुल खोलना चाहिए ॥ २२ ॥

यस्मिन्नशेषनिगमागमलब्धदीक्षा-

त्रैवेदिकं व्रतमहर्निशमादधानाः ।

देवाः षडङ्गमपि वर्णिगणानुपेता-

नध्यापयन्तु निगमं मुनितुल्यवेषाः ॥२३॥

जिसमें समस्त वेद वेदांगों के जानने वाले सर्वदा त्रैवेदिक व्रत के धारण करने वाले देवता लोग पास में आये हुए ब्रह्मचारियों को, जिन्होंने कि मुनि जैसा वेप धारण किया हो, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य, वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द इन समस्त अंग उपांगों सहित ऋग, यजु, साम, अथर्व इन चारों वेदों को मय आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, शिल्पवेद इन उपवेदों को दशोपनिषद् समेत पढ़ाया करे ॥ २३ ॥

ते तत्र सम्यग्धिगत्य समस्तदीक्षां

कुर्वन्तु तोयनिधिमध्यमुपागतेषु ।

देशेषु वैदिकपथस्य शिवं प्रचारं

सर्वेषु तत्परमनेकदिगन्तरेषु ॥२४॥

वे ब्रह्मचारी गण उस गुरुकुल में समस्त वेदवेदांगों को पढ़ कर समुद्र के मध्य में आये हुए तथा समुद्र के पार में बसे हुए देशदेशांतर और द्वीप द्वीपांतरों में वैदिक धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार करना आरम्भ करें ॥ २४ ॥

केचिन्निशङ्कुतिलकां दिशमासमुद्र-

मन्ये कुवेरपरिगोपितरत्नकोषाम् ।

पौरन्दरीं तदितरे वरुणानुरक्ता-

मेके व्रजन्तु निगमाध्वविधानदत्ताः ॥२५॥

उनमें से कोई “त्रिशङ्कुतिलका” अर्थात् दक्षिण दिशा में जाकर वैदिक धर्म का प्रचार करें, कोई “कुवेरपालित” अर्थात् उत्तर में कोई “पौरन्दरी” अर्थात् पूर्व दिशा में, कोई “वरुणलाञ्छन” अर्थात् पश्चिम दिशा में सर्वत्र जा जा कर धर्म का प्रचार करें ॥ २५ ॥

वेदप्रचारनिधिना सकलं तदेतत्

कार्यं विधेयमुदयाय निधेरथास्य ।

देयं समस्तपुरुषैर्वसु ऋद्धिमासै-

रन्यैर्यथोचितपरिश्रमदानमेव ॥२६॥

यह समस्त कार्य वेदप्रचारनिधि के द्रव्य से होता रहे और वेदप्रचार-निधि के लिए समस्त आर्य पुरुष मिलकर द्रव्य एकत्र करें । उनमें जो जो धनी हों वे धन से सहायता करें और जो जो निर्धन हैं वे अपने शरीर से उसके लिए प्रयत्न करें ॥ २६ ॥

वेविद्यते यदिदमस्य धनं महर्षे-

र्यन्वापि पुस्तकविमुद्रणयन्त्रमास्ते ।

सर्वं महर्षिनिधिनामतएव लोके

संस्थाप्य तस्य परिवर्धनमत्र कार्यम् ॥२७॥

जो धन महर्षि दयानन्दसरस्वतीजी का विद्यमान है या उनका 'वैदिक यंत्रालय' है वह सब धन और यंत्रालय महर्षि के नाम से ही चलता रहे और उस महर्षि-निधि की वृद्धि के लिए सब महाशय प्रयत्न करें और उसकी रक्षा करते रहें ॥ २७ ॥

अल्पव्ययेन निखिलान्यपि पुस्तकानि

मुद्राप्य तत्र समये समये यथेष्टम् ।

देयानि दीनजनबोधकृते नियुक्तै-

रस्मिञ्जनैः पुरतएव महर्षिणाऽलम् ॥२८॥

इस कार्य में पहले ही से नियुक्त किये हुए पुरुषों को यह उचित होगा कि वह महर्षि के नाम से जमा किये धन से उनके ही यंत्रालय में उनकी बनाई हुई पुस्तकें छपवा छपवा कर स्वल्प मूल्य पर सबके लिए वितीर्ण किया करें ॥ २८ ॥

बाल्ये वियोगमधिगत्य जनिप्रदात्रो-

र्येऽनाथतामुपगताः शिशवो जगत्याम् ।

ते सर्वएवमनुजैः परिपोषणीया-

योगीश्वरस्य कथने कृतपक्षपातैः ॥२९॥

और महर्षि के कथन में अधिक श्रद्धा रखने वाले पुरुषों को यह भी उचित होगा कि वह बाल्यावस्था में माता तथा पिता से सदैव के लिए पृथक् हुए अनाथ बालकों को एकत्र कर उनकी तन मन धन से सर्वदा रक्षा किया करें ॥ २९ ॥

निर्माय मुख्यनगरेषु धनव्ययेन

तेषां कृते भवनमाढ्यतमैर्निजेन ।

तन्नामको निधिरपि प्रतिवर्षमेव

संवर्धनीय इति तस्य मुनेरभीष्टम् ॥३०॥

बड़े बड़े नगरों में अपने अपने धन से उनके लिए स्थान बना कर उनमें उनको रक्खें और उनके नाम से एक निधि खोल कर उसको प्रति वर्ष

बढ़ावेँ और उस निधि के धन से ही उनका पालन किया करेँ । यह महर्षि का अत्यन्त अभीष्ट है ॥ ३० ॥

एवं कृते न यवनाः स्वमतेषु बाला-
 नेष्यन्ति सूत्रपरिभूषितमानवानाम् ।
 नापीशवीयमतवादपराः कदापि
 द्रक्ष्यन्ति वेदविशदाध्वनि गच्छतस्तान् ३१

ऐसा करने पर शिखा-सूत्र-धारियों के जो अनाथ बालक हैं उनको उनसे विरुद्ध धर्म वाले कदापि न लै सकेंगे । न उनके धर्म का नाश होगा । साथ ही वह आर्य धर्म के मानने वाले और वैदिक मार्ग की रक्षा में तत्पर बने रहेंगे ॥ ३१ ॥

ये केचिदत्र यवनैरथवेशवीयै-
 लोभेन वा भयबलेन कृताः स्वधर्मे ।
 शुद्धेर्बलेन किल ते पुनरार्यधर्मे
 व्रात्याइव द्विजगणाः सुनिवेशनीयाः ॥३२॥

और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्राचीन समय में वैदिक धर्म के विरोधियों ने भय दे कर अथवा लोभ से अपने मत में कर लिये हैं उनको व्रात्य समझ कर शुद्धि के द्वारा प्रायश्चित्त कराते हुए फिर आर्य धर्म में प्रवृत्त कराना चाहिए ॥ ३२ ॥

कालान्तरे विधिनिबोधितमार्गमेत्य
 सर्वेपि ते जलतपोध्ययनप्रयोगात् ।
 शुद्धिं गता निजनिजोचितवर्णभेदा-
 नेष्यन्ति दीर्घतपसा न किमप्यसाध्यम् ३३

वैदिक धर्म के अनुसार चलते हुए वह सब कालांतर में सत्यभाषण, विद्याभ्यास, तप के प्रभाव से अपने अपने वर्णों में, जिनमें कि वे पहले थे, मिलाये जायेंगे क्योंकि बड़ी बड़ी कठिन तपश्चर्याओं के समक्ष कोई भी पदार्थ असाध्य नहीं है ॥ ३३ ॥

कन्योपयोगिपठनालयनिर्मितौ यद्-
 द्रव्यं तथान्यदपि सर्वमिदं पुरेषु ।
 सामाजिकव्ययत एव नियोजनीयं
 कोषश्च सर्वपुरुषैः परिपूरणीयः ॥३४॥

कन्याओं के पठनार्थ जो नगरों में विद्यालय या पाठशाला खोली जावे उनके लिए जो धन का व्यय किया जावे वह सब समाजों से ही किया जावे और सामाजिक कोष की पूर्ति के लिए तन, मन, धन से सबको परिश्रम करना चाहिए ॥ ३४ ॥

यावन्न सर्वनगरेषु सुताजनानां
 पाठालयस्य परतः पठनस्य चापि ।
 कश्चिद्भविष्यति नवो नियमो न ताव-
 द्योगीश्वरस्य ऋणतो गतभारता स्यात् ३५

जब तक समस्त नगरों में कन्याओं के लिए पठन का प्रबंध तथा विद्यालयों का प्रबन्ध न किया जायगा तब तक उस आनन्दकन्द जगदानन्द ऋषि दयानन्द के ऋण से आर्यजन विगतभार न होंगे । यह ध्यान रखना चाहिए ॥ ३५ ॥

याः शैशवे परिणयादगमन्कुमार्यो-
 वैधव्यमत्र सकलेपि पुनर्नियोगात् ।
 इच्छानुरूपपतिसङ्गमनेन तासां
 पूर्तिं समेतु मनसानुमतोभिलाषः ॥३६॥

बाल विवाह के प्रभाव से जो विधवायें आज करोड़ों की संख्या तक पहुँच गई हैं उनका अक्षतयोनित्व सिद्ध होने पर पुनर्विवाह तथा क्षतयोनित्व सिद्ध होने पर नियोग कराकर अनेक प्रकारों के पापों से उनको बचाना और आनन्दित कराना चाहिए ॥ ३६ ॥

आषोडशं न हि कदापि कुमारिकाणा-
 मग्रे विधेयमिह वर्षमनार्यजुष्टम् ।

दानं न चापि वरदर्शनमन्तरैव

लोभेन नाप्यधिकमायुमुपेयुषेपि ॥३७॥

एक ओर ऐसा करते हुए दूसरी ओर उनका सोलह वर्ष से पहले कदापि विवाह न करना चाहिए। साथ ही वर के बिना ही देखे या लोभ के वश अधिक अवस्था वाले के साथ भी विवाह न करना चाहिए। यह मार्ग सर्वोत्तम माना गया है ॥ ३७ ॥

एवं कृते नहि भविष्यति कापि बाला

प्राणेश्वरेण रहिता न च कापि लोके ।

दुष्टा न चापि कुलटा न वियोगतान्ता

नो पुत्रपौत्रधनधान्यसमृद्धिशून्या ॥३८॥

ऐसा कहने पर इस भारतवर्ष में कोई भी बाला अपने प्राणेश्वर से यौवनावस्था में वियोग को प्राप्त न होगी, न कोई व्यभिचार-दोष से ग्रस्त होगी, न पुत्र-पौत्रों के सुख से वञ्चित रहेगी, न धन, धान्य, मान्य के बिना रहेगी ॥ ३८ ॥

नाशं गमिष्यति मदोद्धतदुष्टयूनां

सर्वोपि भूमिवलये स मनोभिलाषः ।

पूर्तिं समेष्यति परोपकृतौ रतस्य

पक्षे शशीव चरमे स मुनेः प्रयासः ॥३९॥

जिन काशीनाथ आदि मूढ़ पुरुषों ने वैदिकमार्ग का नाश करना चाहा उनका सारा मनचीता फीका पड़जायगा और संसार के उपकार में दत्तचित्त महर्षि दयानन्द का मनोरथ शुक्लपक्ष में चन्द्रमा की तरह दिन दिन पूर्णता को प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥

एवं निवेदयति वेदविदांवरिष्ठे

गोष्ठीपतौ नृपतिभिः परिपूरिता सा ।

रम्या सभा तदुदितं सकलं यथाव-

द्योगीश्वरस्य कथनादुररीचकार ॥४०॥

इस प्रकार बुद्धिमानों में अग्रगण्य श्रीयुत सभापति की वक्तता समाप्त होने पर अनेक राजा महाराजों से भरीहुई वह सभा आनन्द को प्राप्त हुई और महर्षि के उद्देश्यानुकूल प्रधानजी की वक्तृता का अनुमोदन करने लगी ॥ ४० ॥

स्वीकृत्य सर्वमपि योगिवराभिलाष-

संपूरकं मुदमिता परिषत्तथा सा ।

चक्रे यथाल्पसमयेन दिगन्तरेषु

प्रादुर्बभूव निगमप्रथमः समाजः ॥४१॥

अनुमोदन करने पर महर्षि दयानन्द के उद्देश्यों की सर्वांश में पूर्ति करने के लिए उस सभा ने ऐसा उद्योग किया कि थोड़े ही दिनों में चारों दिशाओं में वैदिक धर्म का स्थापन करनेवाला आर्यसमाज स्थापित हो गया ॥ ४१ ॥

कुत्रापि तद्गुरुकुलं भुवनप्रसिद्धं

कुत्राप्यनाथभवनं सदनं कृपायाः ।

कुत्रापि भारतसुतापठनोपयोगि-

विद्यालयस्य भवनं समकारि तैस्तैः ॥४२॥

कहीं पर संसार में विख्यात गुरुकुल का स्थापन होने लगा, कहीं पर दया का सदन अनाथभवन स्थापित होने लगा, कहीं पर कन्याओं के पठन योग्य विद्यालय स्थापित हुए । कहीं तक कहें, सभी कार्य एक साथ वृद्धि को प्राप्त हुए ॥ ४२ ॥

सर्वं तदेतदिह यस्य दयामयस्य

कारुण्यतो जगति वृद्धिमुपैति नित्यम् ।

देवः स सर्वभुवनाधिपतिः करोतु

सिद्धानि तस्य सुमुनेः कथितानि नूनम् ॥४३॥

जिस करुणावरुणालय जगदीश्वर, जगदाधार, जगदन्तर्यामी की असीम कृपा से यह सब कुछ प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होता है वही समस्त भुवनों

का अधिपति परमेश्वर उन आनन्दकन्द जगदानन्द ऋषि दयानन्द के मनोरथों को पूर्ण करें । इस श्लोक में आया हुआ “ सिद्ध ” शब्द अन्तिम सर्ग में मांगलिक है, साथ ही ग्रन्थ देखने, सुनने, पढ़ने वालों को सिद्ध संकल्प बनाने वाला है ॥ ४३ ॥

येनातिपुण्यपरिपाकवशादुपेतं

मुक्तिस्वरूपमखिलोपकृतौ विहाय ।

दत्तं समस्तमपि शर्म विषं निपीतं

सर्वाननन्तसुखमापयता यतेन ॥४४॥

जिन्होंने अपने पूर्वोपाजित पुण्य-पुंजों के वश प्राप्त हुए मुक्ति-सुख को भारतवर्ष के उद्धार के लिए छोड़ कर स्वयं कई बार विष खाया और समस्त जनों को वैदिक धर्मरूपी ईश्वराज्ञा पर चला कर अनन्त सुख का भागी बनाया ॥ ४४ ॥

यो बन्धनैरविरतं भुवनं यथाव-

द्वद्धं विलोक्य सदयो जनतापशान्त्यै ।

लोके जनिं समधिगत्य चकार सर्वा-

न्निर्बन्धनान्निगममार्गनिबोधनेन ॥४५॥

दया के अद्वितीय भंडार जो महर्षि इस संसार को अनेक मतमतांतरों के बंधनों में चारों ओर से फँसा देखकर उनके बंधनों को काटने के लिए स्वयं असमय में गर्भरूप बंधन में पड़कर वैदिक सिद्धांतों को बता, सबको मुक्तबंधन कर गये ॥ ४५ ॥

नानामतप्रथनकारणमत्र योगी

यो योगसाधनवशेन विलोक्य नूनम् ।

भाग्योदयेन भुवनोदरभूमिभाजां

तन्नाशनेऽर्पितसमस्तमतिर्वभूव ॥४६॥

जो महर्षि अनेक परिश्रमों द्वारा प्राप्त किये योग बल से समस्त मतों के फैलाने का जो मूल कारण अविद्या है उसको पूर्णरूप से जानकर भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों के भाग्योदय से उस अविद्या के नाश में दत्त चित्त हुए ॥ ४६ ॥

वेदत्रयीपठनतो विमुखान्नितान्त-

मज्ञानकालकवलीकृतसर्वदेहान् ।

यो भूतलद्विजगणानवलोक्य तेषां

पूर्णोदयाय निजजीवनमप्यदात्तत् ॥४७॥

जो महर्षि वेदों के पढ़ने से सर्वथा विमुख इसीलिए अज्ञान रूप मृत्यु से सर्वथा घिरे हुए भारतवर्ष के द्विजगणों को देखकर पूर्णरूप से उनके दुबारा उद्धार के लिए अपना जीवन तक सादर अर्पण कर गये ॥ ४७ ॥

दीनां वनेषु मतवादभयेन लीना-

माकृष्टमञ्जुवसनामदयं यथावत् ।

पौराणिकैरहरहो वचसामधीशां

तां द्रौपदीमिव पुनः प्रथितामकार्षीत् ॥४८॥

जो महर्षि मतवादों के भय से दीन इसीलिए वनों में छिपी हुई निर्दयता पूर्वक पौराणिकों के द्वारा उतारे हुए सुन्दर वस्त्र वाली द्रौपदी जैसी सरस्वती को फिर दुबारा उच्चपद पर पहुँचा कर उसको आनन्दित बना गये ॥ ४८ ॥

सर्वांशएव दशलक्षणकं विनष्टं

यो धर्ममीक्ष्य करुणावरुणालयस्तम् ।

प्रत्युज्जिजीवयिषुरात्मसमर्पणेन

सर्वानयोजयदमुष्य समेधनाय ॥४९॥

जो करुणावरुणालय महर्षि दयानन्द दश लक्षण वाले धर्म को सर्वांश में विनष्ट होता देखकर उसके फिर दुबारा जिलाने के लिए न केवल अपने आत्म-समर्पण से किन्तु समस्त भद्रजनों के आत्मसमर्पण द्वारा पूरा पूरा प्रयत्न कर गये ॥ ४९ ॥

लोपङ्गतामहह भारतवर्षमध्या-

देकान्तमेकविधभोजनवासशैलीम् ।

मैत्रीमथोव्यवहृतिं मतवादवेगै-

र्यः पूर्ववत्पुनरिह प्रथयास्वभूव ॥५०॥

अनेक मतवादीं के भेद से नष्ट हुई जिस प्राचीन शैली को सर्वांश में भारतवर्ष से जाती देखकर जिस ऋषि ने फिर दुबारा उसको यहाँ रखने के लिए एक भाषा, एक इष्टदेव, एक भोजन, एक व्यवहार, सर्वांश में प्रवृत्त कर दिये ॥ ५० ॥

द्वीपान्तरेष्वपि महर्षिवशात्प्रसिद्धं

सर्वोत्तमं जगति भारतवर्षमेतम् ।

नानामतानुगमनैर्विलयं प्रयातं

योलं विलोक्य करुणोद्गमनादरोदीत् ॥५१॥

जो महर्षि इस भारतवर्ष को अपने यहाँ उत्पन्न हुए अनेक पतंजलि आदि ऋषियों के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध होने पर भी आज मतों की अनेकता से नष्ट होता देखकर हृदय में उत्पन्न हुई करुणा के वश होकर पश्चात्ताप करते रहे ॥ ५१ ॥

हे निर्जराभय ! निरामय ! दीनबन्धो !

देवाधिदेव ! दनुजान्तक ! देववंद्य ! ।

दिव्यस्वभाव ! लघु भारतवर्षमेनं

रक्षेति योऽनवरतं वदनादवादीत् ॥५२॥

जो महर्षि इस भारत को डूबता देख, हे परमात्मन् ! हे देवों के देव ! हे दनुजांतक ! हे दीनबन्धो ! हे करुणासिन्धो ! हे अजर ! हे अमर ! हे अभय ! हे अजन्मन् ! इसकी रक्षा कीजिए यही अपने मुख से सर्वदा कहते रहे ॥ ५२ ॥

तस्योदयात्प्रभृति भारतवर्षमध्ये

यद्यच्चरित्रमभवत्सकलं तदत्र ।

योगीश्वरस्य मरणावधि सभ्यवर्य-

संवीक्षणाय समधात्स कवीन्द्रवर्यः ॥५३॥

उन योगिराज महर्षि दयानन्दसरस्वतीजी महाराज ने जन्म से लेकर स्वर्गारोहण पर्यंत इस भारतवर्ष में जो जो कार्य, जहाँ जहाँ पर, जितने जितने दिन, जिस जिस प्रकार, जब जब किये वह सबके सब इस महाकाव्य में समस्त सभ्य पुरुषों के अवलोकनार्थ उस महाकवि ने वर्णन किये ॥ ५३ ॥

विश्वोदयस्थितिविनाशकरः स देवो-

नानामनोरथपथानुगतां स्वशक्तिम् ।

सत्त्वप्रधानपरमाणुगतां विधाय

यद्द्रंशमस्य जगतः पुरतो व्यधत् ॥५४॥

जिसके वंश को संसार का उत्पादन एवं पालन तथा विनाश करने वाले परमेश्वर ने मनोरथ रूप मार्गों में दौड़ने वाली अनेक अपनी शक्तियों को सत्त्वगुण प्रधान परमाणुओं में प्रवृत्त कर इस जगत् के निर्माण से पहले ही बना दिया ॥ ५४ ॥

नित्यं यमेषु नियमेषु निवद्धभावं

वेदोदरस्थितपदार्थविचारदक्षम् ।

लोकातिशायिनि तपस्यधिकं निविष्टं

दृष्ट्वा सनाढ्य इति यं मुदितो वभाषे ५५

यम तथा नियमों के पालन में दक्षचित्त एवं वेदों में भरे हुए पदार्थों के विचारने में प्रवीण और लोकोत्तर तपश्चर्या में सर्वदा लगे हुए जिस वंश को परमात्मा ने स्वयं सनाढ्य शब्द के द्वारा संबोधित किया था [सनस्तपसि वेदे च सत्त्वे विद्यानुभावयोरिति कोपः] ॥ ५५ ॥

नानाध्वरानुगतहोतृगणाधिपत्ये

पूर्वं निवेशितपदो निखिलादितेयैः ।

सर्वाधिकस्वहृविभागविभोगपीनो

यद्वंशभूषणमलं समभूत्स वेधाः ॥५६॥

अनेक यज्ञों में होताओं ने प्रधान पदवी को पहुँचाया हुआ, समस्त देवों ने सबसे प्रथम यज्ञ भागों का भोक्ता माना हुआ, इसी लिए सबसे अधिक यज्ञ भाग के द्वारा अत्यन्त पुष्ट ब्रह्मा, जिस वंश का सबसे प्रथम भूषण बन गया था ॥ ५६ ॥

सत्वानुगेन परमाणुगणेन जुष्टं

सत्वोन्नतं हृदि विचार्य यदीयवंशम् ।

सत्वे निविष्टमतयो यमयोगयुक्ताः

सर्वे समन्वयुरहो सनकादयोपि ॥५७॥

सत्वगुण प्रधान परमाणुओं के द्वारा बनाये हुए इसीलिए सत्वगुण प्रधान जिस सनाढ्यवंश को देखकर सत्वगुण में सर्वदा तत्पर तथा यम, नियम, योग आदि में लवलीन, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार आदि बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महर्षि अपना प्रभव मानते थे ॥ ५७ ॥

नान्यत्र कुत्रचिदपि स्वमनोनुकूलं

रम्यं निवाससदनं भवितेति सत्वा ।

लोके समस्तविबुधैरनिशं नमस्या

यद्वंशमेव समगान्तु सरस्वती सा ॥५८॥

इस सनाढ्यवंश के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अपनी इच्छा के अनुकूल सुन्दर तथा पवित्र निवास भवन नहीं प्राप्त होगा । ऐसा मन में विचार कर जिस सनाढ्यवंश को संसार में प्रति दिन विद्वानों के द्वारा वंदनीय श्रीमती सरस्वती भी अपना निवासस्थान मानने लगी ॥ ५८ ॥

तस्मिन्नभूदमरवन्द्यसनाढ्यवंशे

सूरिर्जवाहरइति प्रथितःस्वनामा ।

विद्याबलेन विनयेन नयेन येन

विस्तारिता जगति कापि नवीनकीर्तिः ॥५९॥

देवताओं द्वारा बंदना करने योग्य उस सनाढ्यवंश में एक अन्वर्थ नामक श्रीमान् पण्डितराज जवाहर हुए जिन्होंने अपनी विद्या एवं विनय आदि गुणों के द्वारा अपनी कीर्ति को सर्वत्र विस्तृत कर दिया था [जनेन आसमंतात्कीर्तिं हरति प्रापयतीति जवाहर इत्यन्वर्थमभिधानम्] ॥ ५९ ॥

यद्वंशवासकरणाय निजं विधाता
गङ्गोदरस्थितमनेकगुणैरुपेतम् ।
यज्ञोपयोगि सुपलाशकुशावकीर्णं
तच्चारु चन्द्रनगरं समदाच्चिरत्नम् ॥६०॥

जिनके निवास करने के लिए अनेक गुण पूर्ण गंगानदी के मध्य भाग में बनाया हुआ, यज्ञों के उपयोगी, अनेक पलाशकुश आदि पदार्थों से अलंकृत, चन्द्रनगर नामक अपने निवास स्थान को ही विधाता ने अर्पण कर दिया था । इसीलिए यह अति प्राचीन भी है ॥ ६० ॥

तस्मिन्ननेन वसता विबुधेन काले
भार्या विवाहविधिना समवाप्य तस्याम् ।
सोलम्भि विश्वविदितस्तनयोऽचिरेण
यन्नामसुन्दरमकारि भगीरथेति ॥६१॥

उस चन्द्रनगर में निवास करते हुए पण्डित जवाहरजी ने विद्याध्ययन के उपरांत वैदिक रीति से द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट होकर वह जगद्विख्यात समस्त गुणों का पात्र पुत्र प्राप्त किया जिसका शुभनाम पण्डित भागीरथ शर्मा था और जो अत्यन्त विद्वान् थे ॥ ६१ ॥

सम्प्राप्तसर्वविभवोथ भगीरथोपि
विद्याबलेन समये कृतदारकृत्यः ।
पुत्रं जगन्नयविभूषणमाप टीका-
रामाभिधं मुनिमहर्षिसमानकृत्यम् ॥६२॥

काल क्रम से समस्त विद्या आदि गुणों को प्राप्त कर पण्डित भागीरथजी ने भी गृहस्थाश्रम में पदार्पण करके तीनों लोकों के लिए भूषण समान मुनि

एवं महर्षियों के तुल्य आचरण रखने वाले श्रीमान् पण्डित टीकारामजी को प्राप्त किया, जो कि मेरे पिताजी थे ॥ ६२ ॥

सोपि स्वबुद्धिविभवेन सुबुद्धिनाम्नीं
 भार्यामवाप्य समये ससुबोधमेकम् ।
 मामात्मजं शिवकरीं तनयां च लेभे
 यन्नाम शान्तिरिति सर्वजगत्प्रसिद्धम् ॥६३॥

उन पण्डित टीकारामजी ने भी ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन कर छत्तीस वर्ष के उपरांत गृहस्थाश्रम को प्राप्त कर श्रीमती सुबुद्धिदेवी को, जो कि मेरी माता हैं और इस समय विद्यमान हैं, प्राप्त किया और सुबोधचन्द्र शर्मा के सहित मुझ अखिलानन्दशर्मा को तथा शांति नामक मेरी बहिन को भी प्राप्त किया ॥ ६३ ॥

सोऽहं मुनेश्चरितमस्य जगत्प्रसिद्धं
 मत्वा विनोदयितुमात्मगिरं प्रसन्नाम् ।
 नानागुणैरुपचितं नवभावगर्भं
 नव्यं च भव्यमपि काव्यमकार्षमेतत् ॥६४॥

वह मैं अखिलानन्दशर्मा समस्त लोकों में विख्यात महर्षि दयानन्द सरस्वती महाराज के जीवन चरित्र के वर्णन द्वारा अपनी प्रसन्न वाणी को आनन्दित एवं सफल करने के लिए अनेक गुणयुक्त तथा नवीन नवीन भावों से अभिराम इस 'दयानन्ददिग्विजय महाकाव्य, को बना कर सहृदय पाठकों के लिए अर्पण करता हूँ ॥ ६४ ॥

ये केपि मद्रचितकाव्यमुदारचित्ताः
 सर्वेश्वरे निरुपमे विनिवेश्य भक्तिम् ।
 द्रक्ष्यन्ति नैव मतजालसमाकुलास्ते-
 यास्यन्ति दुःखमनिशं सुखमेव तेषाम् ॥६५॥

जो कोई पुरुष उदारचित्त निराकार परमात्मा में विश्वास एवं भक्ति रख कर मेरे बनाये हुए इस दयानन्ददिग्विजय महाकाव्य, को देखेगे वे

कदापि अनेक मतमतांतर रूप जालों में फंस कर कष्ट नहीं पायेगे । ईश्वर उनके लिए सर्वदा आनन्द ही आनन्द करेंगे । ग्रन्थ के अंत में यह उत्तम आशीर्वाद है ॥ ६५ ॥

इति परमदयालोर्घस्य साहाय्यमेत्य

व्यरचि महदपीदं काव्यरत्नं मयारम् ।

निखिलजगदधीशः सोद्य मे वन्दितान्घ्रि-

दिशतु सकलभावैरुत्तमानन्दमित्यो३म् ॥६६॥

इस प्रकार जिस परम दयालु परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर [२३४८] पद्यों से भरा हुआ इसीलिए समस्त काव्यों से अधिक पद्यवाला यह दयानन्ददिग्विजय महाकाव्य शीघ्र ही मैंने समाप्त कर दिया । वह समस्त लोकों का स्वामी परमेश्वर समस्त भावों से आज मुझको उत्तम आनन्द प्रदान करें । यही एक प्रार्थना है । सर्ग के अंत में [इत्योम्] शब्द सबके लिए कल्याणकारक है ॥ ६६ ॥

इति श्रीमदखिलानन्दशर्मकृतौ सतिलके दयानन्ददिग्विजये महाकाव्ये
हृषीकेशनामैकविंशतितमः सर्गः



मार्ग क्र० १० र० सं० १९६३



दयानन्ददिग्विजयान्तर्गत चित्र-काव्योद्धारः

सर्वतोगमनबन्धः


सर्गः १४ श्लोकः १९०

न	ते	न	ते	ते	न	ते	न
ते	न	ते	न	न	ते	न	ते
न	ते	न	ये	ये	न	ते	न
ते	न	ये	न	न	ये	न	ते
ते	न	ये	न	न	ये	न	ते
न	ते	न	ये	ये	न	ते	न
ते	न	ते	न	न	ते	न	ते
न	ते	न	ते	ते	न	ते	न

चित्र-संख्या १

षोडशदलकमलबन्धः


सर्गः १४ श्लोकः १९४



चित्र-संख्या २

गोसूत्रिकाबन्धः


सर्गः १४ श्लोकः १९५



चित्र-संख्या ३

छत्रबन्धः


सर्गः १४ श्लोकः १९६



चित्र-संख्या ४

हारबन्धः


सर्गः १४ श्लोकः ३०१



चित्र-संख्या ५

चक्रबन्धः


सर्गः १८ श्लोकः १४



चित्र-संख्या ६

चतुर्दलकमलबन्धः


सर्गः १९ श्लोकः १६४



चित्र-संख्या ७

व्योमबन्धः

सर्गः १९ श्लोकः २०८



चित्र-संख्या ८

त्रुटिपूर्तिः

१—प्रथमसर्गस्थे तृतीयपद्ये 'धाम्नःस्मरणमित्यत्र' शर्परे खरि वा विसर्ग-
लोप" इति वार्तिकेन विसर्गलोपाभावः ।

२—प्रथमसर्गस्थे त्रयोदशे पद्ये 'निरर्थकामित्यत्र' "प्रत्ययस्थात्के" तिसूत्रे-
'असुप इति' पाठाद् बहुपरिव्राजका नगरीतिवन्नेत्त्वम् ।

३—प्रथमसर्गस्थेऽष्टादशे पद्ये 'निनीपव' इति क्रियायाः "स्वस्माद्दरमिति"
शेषाध्याहारेण साङ्गत्यम् ।

४—प्रथमसर्गस्थे पञ्चविंशतितमे पद्ये 'विन्यसन्' इति क्रियापदं "असग-
तावि" त्यस्य भौवादिकस्य बोध्यम् । धातूनामनेकार्थत्वात् स्थापयन्निति तदर्थः ।

५—प्रथमसर्गस्थे द्वात्रिंशत्तमे पद्ये 'पूर्णवर्णना' इत्यस्य स्थाने पूर्णवर्णना
इति पठनीयम् ।

६—प्रथमसर्गस्थे चतुस्त्रिंशत्तमे पद्ये 'आलभन्निति' क्रियायाः "अनुदा-
त्तेत्त्वलक्षणमत्मानेपदमनित्यं मत्वा प्रयोगो मन्तव्यः ।

७—प्रथमसर्गस्थे षट्त्रिंशत्तमे पद्ये 'दयितैक्षणाङ्कै' इत्येकमेव पदमविच्छे-
देन पठनीयम् ।

८—द्वितीयसर्गस्थेऽष्टाविंशतितमे पद्ये सागरगतं कमलवर्णनं "सरिदुद-
धिगतं पङ्कजेन्दीवरादीति" दर्पणोक्तकविसमयप्रसिध्यनुसारेण विहितम् ।

९—षष्ठसर्गस्थे एकोनिविंशतितमे पद्ये 'बोधयज्जनानि' त्यस्य स्थाने
"बोधयज्जनानिति" पठनीयम् ।

१०—षष्ठसर्गस्थेऽष्टाशीतितमे पद्ये 'ययाचे' इतिद्विकर्मकधातोः प्रयोगेपि
मण्डलतइति पञ्चम्यन्तपदप्रयोगः "कारकञ्चेद्विजानीयाद्यां यां मन्येत सा
भवेदिति" महाभाष्यनियमाद्विवक्षितत्वाच्च कारकस्य'याचते' पौरवात्कम्बल-
मिति वत् ।

११—सप्तमसर्गस्थपञ्चत्रिंशत्तमपद्यटीकायां 'भागलपुरस्य' स्थाने "वर्धमा-
ननगरम्" पठनीयम् ।

१२—एकादशसर्गान्तर्गते षोडशे पद्ये 'समागते' इत्यस्य स्थाने "समागतेः"
इति पठनीयम् ।

१३—एकादशसर्गगते एकोनचत्वारिंशत्तमे पद्ये 'स्थानगतौ' इत्यस्य स्थाने "स्थानगतौ" इति पठनीयम् ।

१४—चतुर्दशसर्गान्तर्गतचित्रप्रकरणे 'गामूत्रिकाबन्ध' इत्यस्य स्थाने "गामूत्रिकाबन्ध" इति पठनीयम् ।

१५—विंशतितमे सर्गे षट्पञ्चाशत्तमे पद्ये 'पूर्णवैधव इत्यस्य स्थाने "चन्द्रमण्डल" इति पठनीयम् ।

१६—एकविंशतितमे सर्गे त्रिषष्टितमे पद्ये 'नाम्नीमिति' पदं "अनउपधा-
लोपिनोन्यतरस्यामिति" सूत्रनियमेन विकल्पविहिते लोपि बोध्यम् ।

(क) शोभार्थको 'विभ्रमशब्दः' शब्दसमूहवाची, 'विस्तर' शब्दः सरो-
वरवाची, 'सरस्वच्छब्दो' मध्यवाची, तथाकारान्त 'अन्तर'शब्दो मार्गवाच्यका-
रान्तः 'पथशब्दो' यज्ञवाची, पुँ ल्लिङ्गोऽञ्चरशब्दश्चात्र महाकाव्ये 'शब्दस्तोममहा-
निधि' कोषप्रामाण्यवशात्तत्र तत्र विन्यस्त इतिबोध्यम् ।

(ख) एतदतिरिक्तस्थले यदि कुत्रचिन्मात्रादिभङ्गवत्पदमुपलभ्येत तदपि
विद्वद्भिर्विधाय तच्छुद्धिं पठनीयं यतस्तन्मुद्रणसमये तदुपरिदत्तमात्राविच-
लनमभूदिति निवेदयते । (ग्रन्थकारः)

यन्त्रालय-प्रशस्ति.

भवनैरुन्नतयूपैर्विद्युद्दीपैरनेकविधभूपैः ।

स्वायत्तीकृतसुषमा भुवनेस्मिञ्जयति किल सा पूः ॥ १ ॥

उन्नतस्तम्भ युक्त, अनेक विशाल भवनों से सुन्दर विद्युत् के चमचमाते प्रदीपों से चमकती हुई, अनेक राजा-महाराजाओं से प्रतिष्ठित, इसोलिप् परम शोभा को अपने वश में करनेवाली इस लोक में एक प्रयाग नगरी है ॥ १ ॥

यस्यामनेकगुणगौरवपूर्णभावा ब्रह्मर्षयो गुणवशादवसन्पुरा ते ।

यानीश्वरी भगवती वचसामधीशा लावण्यवद्दयमण्डनतामनैषीत् ॥२॥

जिस प्रयाग नगरी में अनेक गुणों के गौरव से पूर्ण थे भाव जिन के ऐसे भरद्वाज आदि ब्रह्मर्षि पहले रहा करते थे । जिन ब्रह्मर्षियों को सरस्वती देवी अपने हृदय का भूषण मानती थी ॥ २ ॥

तस्यामनेकसुविशालगृहः समन्ताद्यन्त्रालयो हसितदेवपुरप्रतिष्ठः ।

किं नास्ति यत्र बहवो विबुधाः सुखेन संशोधयन्ति रचयन्ति च पुस्तकानि ॥

उस प्रयाग नगरी में एक बड़ा भारी इंडियन प्रेस, है जो भारतवर्ष में अद्वितीय है । वह अति सुन्दर होने पर भी अनेक चित्रों से विचित्र है तथा जिसमें बालरामायण आदि अनेक ग्रन्थों के रचयिता एवं संशोधक—
(हापुर जिला मेरठ निवासी श्री पण्डित श्रीरामजीशर्माजी के सुपुत्र)—

पण्डित रामजीलालशर्मा

तथा—(धनमऊ जिला मैनपुरी निवासी श्रीपण्डित सेवकरामशर्माजी द्विवेदी के सुपुत्र)—

पण्डित सुन्दरलालशर्मा, द्विवेदी

आदि अनेक विद्वान् नियत हैं ॥ ३ ॥

दृक्पातमात्रपरिवर्जितवेङ्कटेशे नीचैर्गुणेन कृतनिर्णयसागरेपि ।

यस्मिन्नशेषसुषमाविशदे महीपा मुद्रापयन्त्यविरतं निजपुस्तकौघान् ॥४॥

अपनी सुन्दरता के समझ जिसने भारतवर्ष के समस्त यन्त्रालयों को मन्द कर दिया ऐसे इंडियन प्रेस, में राजा, महाराजाओं के अनेक पुस्तक निरन्तर प्रकाशित होते रहते हैं। वास्तव में यह प्रेस भारत का एक भूषण इसीलिए अद्वितीय है ॥ ४ ॥

भ्रमण्डलाभरणभूतगुणोत्रयन्त्रे वरुणैर्विचित्रयति कोपि नवीनचित्रम् ।
कश्चिद्विलोकयति कार्यचयं तदन्यो नव्यान्निबोधयति योजयति प्रवीणान् ॥५॥

इस इंडियन प्रेस, में जर्मन से आया हुआ कोई अनेक रङ्गों से चित्र (फोटो) बना रहा है, कोई उसको देख रहा है, कोई किसी को कुछ काम सिखा रहा है, कोई चतुर पुरुषों को काम में लगा रहा है। इस प्रकार इसमें काम होता रहता है ॥ ५ ॥

यन्त्रालयः स किल पुस्तकरत्नमेतन्मत्वा जनोन्नतिकरं गुणपारवश्यात् ।
सर्वोत्तमेन नववर्णचयेन तूर्णं प्राकाशयमानयदनेकविचित्रचित्रम् ॥ ६ ॥

उस यन्त्रालय ने इस “दयानन्ददिग्विजयमहाकाव्य” को ग्रन्थों में रत्न एवं मनुष्यों के लिए लाभदायक समझ कर गुण की परवशता से सर्वोत्तम टाइप में मुद्रित एवं अनेक चित्रों से अलङ्कृत करके प्रकाशित किया है ॥ ६ ॥

सर्वे महोदयवरास्तदिदं प्रसादादादाय पुस्तकमधःकृतपद्मपत्रे ।
नेत्रे पवित्रयितुमादरणीयशोभं पश्यन्तु सत्वरमदः कथनं सदीयम् ॥७॥

इसलिए सब महोदयगण प्रसन्नता-पूर्वक इस पुस्तक को ले कर कमलों की शोभा को मात करनेवाले अपने नयन-कमलों को कृतार्थ एवं पवित्र करने के लिए शीघ्र ही पढ़ें। यही मेरा अन्तिम निवेदन है ॥ ७ ॥

ग्रन्थकार

सहायक-सूची

- रायबहादुर पण्डित परमानन्दजी चतुर्वेदी, बी० ए०, दीवान स्टेट,
भालावाड़ ।
- महाराणा हीरासिंहजी, के० सी० एस० आई०, महाराजा धामी, शिमला ।
- श्रीमान् सेठ जयनारायणजी, हेरिसनरोड, बड़ा बाजार, कलकत्ता ।
- आर्य-मित्र-मण्डल के समस्त सभासद्, कटरानील, देहली ।
- श्रीयुत महाराजा अमरसिंहजी, स्टेट नामली, रतलाम ।
- श्रीयुत प्रेमप्रकाशजी, प्राईवेट सेक्रेटरी, महाराजा नामली ।
- आर्यसमाज आगरे के सभासद्, होंग की मण्डी, आगरा ।
- श्रीमान् सेठ शिवसहायजी, नोमच ।
- श्रीयुत मदनलालजी डाकूर, कुचामनरोड, जोधपुर ।
- श्रीयुत गोविन्दसिंहजी मनसबदार पातूर, डिस्ट्रिक्ट आकोला, विदर्भ ।
- श्रीमान् अवधविहारीलालजी आर्य, दीवान स्टेट थमरवाँ, हरदोई ।
- श्रीयुत मन्मथनलालजी, डाइरेक्टर, स्टेट धार ।
- श्रीपण्डित प्यारेलालजी स्टेशन माष्टर, पटुण्डा, एन० एम० आर० ।
- श्रीपण्डित कुँवरलालजी स्टेशनमाष्टर, मालाखेड़ा, आर० एम० आर० ।
- श्रीयुत वनचारीलालजी सवरजिष्टार, जजी, सहारनपुर ।
- आर्यसमाज के कतिपय सभासद्, लुधियाना, पंजाब ।
- राय गिरिधारीलालजी, प्रधान, चावड़ीसमाज, देहली ।
- महाराजा हनुमंतरामजी, स्टेट लवान, जयपुर ।
- श्रीहीरालालजी प्रधान, आर्यसमाज, भरुच ।
- सेठ माङ्गीलालजीगुप्त, कविकिङ्कर, नोमच ।
- इन उपर्युक्त महानुभावों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हुआ सब महा-
शयों का कृतज्ञ हूँ ।

ग्रन्थकार

